



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 4
PART I—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]

नई दिल्ली, बुधस्पातिवार, जनवरी 26, 2006/माघ 6, 1927

No. 1]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 26, 2006/MAGHA 6, 1927

रक्षा मंत्रालय

(सेना विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2006

सं. 1(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2006.—राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अवैतनिक लैं/जे सी ओज को सेना विनियामावली 1987 के पैरा 177 के अधीन उनको अवैतनिक कप्तान व अवैतनिक लैं का पद 26 जनवरी 2006 से सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अवैतनिक कप्तान के रूप में

4 अश्व

- | | |
|--|---|
| 1 जेसी237726के.
केन्द्रीय भारत अश्व | रिसालदार एवं अवैतनिक लैं परम सिंह |
| 2 जेसी236605डब्ल्यू
85 आर्मड रेजीमेंट | रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं करनैल सिंह |
| 3 जेसी236135डब्ल्यू
85 आर्मड रेजीमेंट | रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं प्रहलाद सिंह शेखावत |
| 4 जेसी235865पी
88 आर्मड रेजीमेंट | रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं मोहन सिंह |
| 5 जेसी237948वाइ
6 आर्मड रेजीमेंट | रिसालदार एवं अवैतनिक लैं बेटाल सिंह |
| 6 जेसी196729ए
आर्मड कोर | रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं नवनाथ अहिरकर |
| 7 जेसी236498ए
235GE/06 | रिसालदार एवं अवैतनिक लैं संतोख सिंह |

आर्टिलरी रेजीमेंट

8	जेसी217549एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	बंशी धर सिंह
9	जेसी193116पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	ज्ञान सिंह
10	जेसी190560ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	हरसेवक सिंह मुल्तानी
11	जेसी209328एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जागीर सिंह
12	जेसी213420एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जलाधर मोहंती
13	जेसी193429वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	कासी नाथ
14	जेसी179637एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	मदन लाल
15	जेसी199110के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सुरजन सिंह
16	जेसी262217डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	अमरीक सिंह
17	जेसी259053ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बिनवा राम चौधरी
18	जेसी264292वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	ध्यान सिंह
19	जेसी260121पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	दिम्बेश्वर नाथ
20	जेसी261266एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	हरदेव सिंह
21	जेसी226602पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कर्म सिंह चौहान
22	जेसी263174वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कुलदीप चन्द
23	जेसी256482डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राजसेकरन जी.
24	जेसी150006एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रमा कांत
25	जेसी260369वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सामा राजू जी.
26	जेसी262935एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सत्य प्रकाश
27	जेसी259747ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	एस नागा राजन, एसएम
28	जेसी256441एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	थंकाराजन पिल्लई

आर टी

वायु सुरक्षा आर्टिलरी कोर

29	जेसी161801एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	ई नारायण मनोहर
30	जेसी206176एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	मोहिन्दर सिंह राना
31	जेसी186832एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	राम अवध
32	जेसी221178एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	गोर्धन सिंह
33	जेसी256767एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	महिन्द सिंह
34	जेसी296332एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	एस सेथु रामानुज परीमल सामी

मद्रास इंजीनियर समूह

35	जेसी196986एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	के. परीमल
36	जेसी197070पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	के. प्रकासम
37	जेसी196985पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	एम नरसिम्हा रेडी
38	जेसी191235एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	राजेन्द्रियन
39	जेसी305939वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बी भक्तनाथन
40	जेसी305148एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	एस नित्यानंथन
41	जेसी305001एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	वी वरादाराजुलु

बंगाल इंजीनियर समूह

42	जेसी199830एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	अर्जुन सिंह
43	जेसी199838एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	दंबर सिंह
44	जेसी197110एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	गुरमेज सिंह
45	जेसी202912एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जगदीश चंद्रा
46	जेसी199724एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सुखमिंदर सिंह

47	जेसी326852एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	अरबिंद सिंह
48	जेसी326910के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	जरनैल सिंह
49	जेसी326897एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मेवा सिंह
50	जेसी327249पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राम निवास तिवारी

बोम्बे इंजीनियर समूह

51	जेसी203027एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	प्रीतम लाल
52	जेसी348031डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सलीम ए
53	जेसी200102ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सुभाष शिंदे
54	जेसी348139एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	भोसले लक्ष्मन बापू
55	जेसी348876पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	दरबारा सिंह
56	जेसी348108एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	हसन मोहम्मद
57	जेसी347737वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	पवार रवीन्द्र सखाराम
58	जेसी348407एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	शियो शंकर प्रसाद
59	जेसी348479डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	विश्वरूप सिंह

सिग्नल्स कोर

60	जेसी188206एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	आश्वत्थामा
61	जेसी188233डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	दर्शना नन्द यती
62	जेसी83720एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	देवेन्द्र कुमार रावत
63	जेसी368379एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	गुरदास सिंह
64	जेसी206915एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	हरेन्द्र नाथ सेकिआ
65	जेसी368419एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	हेम राज
66	जेसी368073के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	लाल बाबू कुमार
67	जेसी180941एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	महाबीर सिंह परमार
68	जेसी368290ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	प्रोनब कुमार रौय
69	जेसी196115एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	रबीन्द्र नाथ द्विवेदी
70	जेसी214016ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	राम कुमार पटेल
71	जेसी368491वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सुरेसन के.
72	जेसी368698वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	विश्वनाथ पांडे
73	जेसी369531एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	एम एस नंजन
74	जेसी373228एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मंसा राम
75	जेसी373216एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	शंकर कुमार बदजेना

आर टी

गार्ड्स

76	जेसी205439एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	देश राम
77	जेसी194491एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	रमा पाती
78	जेसी403061डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	अमृत चंद्रा पातर
79	जेसी403060एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बिद्या राम नाथ
80	जेसी402841पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	नरेश

पैराशूट रेजीमेन्ट

81	जेसी192852एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	इन्द्रा मनी राय, एसएम
82	जेसी193650एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	करतार चन्द

83 जेसी412368एच सुबेदार एवं अवैतनिक लैं हीरा सिंह राना
मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

84 जेसी211640एन सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं गुरदयाल सिंह
 85 जेसी206650एन सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं रमेश चन्द
 86 जेसी418551एफ सुबेदार एवं अवैतनिक लैं करन सिंह
 87 जेसी418879एच सुबेदार एवं अवैतनिक लैं राजेंद्र सिंह

पंजाब रेजीमेन्ट

88 जेसी201811एफ सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं भाग सिंह
 89 जेसी192858एच सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं मोहिन्दर सिंह
 90 जेसी428085एल सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं निरंजन दास
 91 जेसी428314एल सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं विजय कुमार कटोच
 92 जेसी428042डब्ल्यू सुबेदार एवं अवैतनिक लैं जागीर सिंह
 93 जेसी428512डब्ल्यू सुबेदार एवं अवैतनिक लैं सुभ करन

मद्रास रेजीमेन्ट

94 जेसी192536एच सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं गोपीनाथन त्रिनाथ राव
 95 जेसी438069एफ सुबेदार एवं अवैतनिक लैं पी केशवुलु
 96 जेसी220891वाइ सुबेदार एवं अवैतनिक लैं एस अनबारासन

ग्रैनेडियर्स

97 जेसी218217डब्ल्यू सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं गुरदयाल सिंह जरियल
 98 जेसी199207ए सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं ओम प्रकाश
 99 जेसी182932एल सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं राजपाल
 100 जेसी216749एक्स सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं शम्भू सिंह गहलोत
 101 जेसी448634एफ सुबेदार एवं अवैतनिक लैं चमन लाल
 102 जेसी449038एफ सुबेदार एवं अवैतनिक लैं फकीर सिंह
 103 जेसी449096एल सुबेदार एवं अवैतनिक लैं राम किशन
 104 जेसी448277के. सुबेदार एवं अवैतनिक लैं रामवीर सिंह चौहान
 105 जेसी448290एन सुबेदार एवं अवैतनिक लैं सिम्बू सिंह

मराठा लघु सेना

106 जेसी175006एक्स सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं ए सी अचाप्पा
 107 जेसी212859पी सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं पाटिल हिंदुराव भिवा
 108 जेसी181802डब्ल्यू सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं रादीप रामाहरी पांडुरंग
 109 जेसी203658पी सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं तानाजीराव हरीबा झाम्बरे
 110 जेसी171700एम सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं उत्तेकर बालाराम बाबा
 111 जेसी458529वाइ सुबेदार एवं अवैतनिक लैं हराने दादाराम पांडुरंग

राजपूताना राईफल्स

112 जेसी192924ए सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं गोवर्धन सिंह

113 जेसी468444डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मंदरूप सिंह
114 जेसी468860ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रमेश कुमार
राजपूत रेजीमेन्ट		
115 जेसी224408एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	ध्यान सिंह
116 जेसी478372एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	गंगाधर शर्मा
117 जेसी478658ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	कमल सिंह
118 जेसी216811वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	महीपाल सिंह
119 जेसी167201ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	रामभुल सिंह राघवे
120 जेसी478758एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	भद्रा पाल
121 जेसी478478एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	इकबाल बहादुर सिंह
122 जेसी478931के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राजेंद्र सिंह सोमवंशी
जाट रेजीमेन्ट		
123 जेसी488778एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जय सिंह
124 जेसी212941के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	करतार सिंह
125 जेसी488527एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	राम कर्ण
126 जेसी488728एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	अजय कुमार
127 जेसी488334एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	हवा सिंह
128 जेसी488440एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	झुमरा राम रयाल
129 जेसी488036एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राम चंद्र फोगट
सिख रेजीमेन्ट		
130 जेसी192967पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	अजीत सिंह
131 जेसी171949वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	बलबीर सिंह
132 जेसी193777पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	परमजीत सिंह
133 जेसी181857ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सतपाल सिंह, एसएम
134 जेसी498715एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कुलवंत सिंह
135 जेसी498263ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सरबजीत सिंह, एसएम
136 जेसी498374एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सुरिन्दर सिंह
137 जेसी204299वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	अवतार सिंह
सिख लघु पैदल सेना		
138 जेसी508483ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सुरजीत सिंह
139 जेसी508156पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	तेजा सिंह
ढोगरा रेजीमेन्ट		
140 जेसी518389के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	धर्म चांद लखनपाल
141 जेसी518344के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	पृथ्वी राज
142 जेसी518458पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	राम लाल
143 जेसी519339एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	गुरदयाल सिंह

गढ़वाल राईफल्स

144	जेसी208400एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	बालम सिंह
145	जेसी196526डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	रउनपाल चांद रमोला
146	जेसी528955पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कांता प्रसाद, एसएम
147	जेसी529146वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सुरेंद्र प्रसाद सुन्दरयाल

कुर्मीउ रेजीमेन्ट

148	जेसी205226वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	हरीश सिंह	
149	जेसी199316एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जीवा नन्द	
150	जेसी87354डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	परमानंद नैटियाल	आर टी
151	जेसी538563एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	आजाद सिंह	
152	जेसी539045वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	हरी कष्णन पांडे, एसएम	
153	जेसी538991एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	हर्ष सिंह	
154	जेसी538747एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	जगदीश प्रसाद	
155	जेसी539090एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	जोहर सिंह	
156	जेसी538390ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कृपाल सिंह	
157	जेसी538689एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मनोहर सिंह	
158	जेसी538790एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	ओम प्रकाश	
159	जेसी538740पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राजेन्द्र प्रसाद	

आसाम रेजीमेन्ट

160	जेसी83650के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	भागवाते प्रसाद नौटियाल	आर टी
161	जेसी88410डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	लालजिरलियेन बियेते	आर टी
162	जेसी204335वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	श्यामा चरण बोरो	
163	जेसी211275एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जासांगमावीया	
164	जेसी219758के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	नबागन बेहुरा	

बिहार रेजीमेन्ट

165	जेसी212968एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	लाल मोहन मांझी
166	जेसी216920एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	रोबर्ट किरौ

महार रेजीमेन्ट

167	जेसी218537एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सुच्चा सिंह
168	जेसी829125एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बहादुर सिंह
169	जेसी568876ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बिजेन्द्र कुमार
170	जेसी568916डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	दिनेश कुमार सिंह
171	जेसी568745पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कश्मीर सिंह
172	जेसी568596एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	खेम सिंह, एसएम
173	जेसी569078वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मेम्पाल सिंह

जम्मू एवं कश्मीर राईफलस

174 जेसी578064ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जगदीश सिंह
175 जेसी578300डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जोगिंदर सिंह
176 जेसी528192एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	कुलदीप सिंह राना
177 जेसी578140एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	विजय सिंह
178 जेसी579013वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बलदेव सिंह
179 जेसी579130के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	हरदयाल सिंह
180 जेसी578990एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सरदार अली
181 जेसी578940ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	शमशेर सिंह
182 जेसी578904पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	वरयाम सिंह, एसएम

लद्दाख स्काउट

183 जेसी218593के. नागा रेजीमेन्ट	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	लोबजंग छेरिंग
-------------------------------------	------------------------------	---------------

184 जेसी590115पी जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	भगत सिंह
---	-------------------------	----------

185 जेसी202140पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	ए बी रशीद प्रेय
186 जेसी188699वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जगदीश कुमार
187 जेसी178132पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	महावलि खान
188 जेसी592329के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बुपिंदर सिंह
189 जेसी592463पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मोहन लाल

1 गोरखा राईफलस

190 जेसी208447डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	हरीनारायण शर्मा
191 जेसी219812एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	कर्णवीर गुरंग

3 गोरखा राईफलस

192 जेसी218117एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सुक बहादुर राना
193 जेसी607052डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	याम बहादुर गुरंग

4 गोरखा राईफलस

194 जेसी82841एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	गंगा धर शर्मा
195 जेसी612394एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बिश्व प्रकाश थापा

5 गोरखा राईफलस

196 जेसी222853एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जय राम सिंह
------------------	------------------------------	-------------

8 गोरखा राईफलस

197 जेसी212803एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	हरी सिंह
------------------	------------------------------	----------

आर टी

9 गोरखा राईफल्स

198 जेसी629005वाइ

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

सुरेश बहादुर माल

11 गोरखा राईफल्स

199 जेसी193028वाइ

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

मदन कुमार राय

सेना सेवा कौर दक्षिण

200 जेसी660648एक्स

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

हीरा राय

201 जेसी660438एक्स

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

कुलदीप सिंह

202 जेसी660536एक्स

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

लच्छमन दास

203 जेसी202566डब्ल्यू

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

राजपाल सिंह

204 जेसी660630एफ

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

रमा कांत तिवारी

205 जेसी660575डब्ल्यू

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

राम अवतार

206 जेसी660653एच

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

रोहिताश्व

207 जेसी660389ए

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

साजन सिंह

208 जेसी840428एम

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

शंकर कृष्णाजी पीताम्बरे

209 जेसी660642डब्ल्यू

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

ठाकुर बहादुर छत्री

210 जेसी131785एल

सुबेदार एवं अवैतनिक लैं

जगदीश प्रसाद तिवारी

आर टी

211 जेसी131786एन

सुबेदार एवं अवैतनिक लैं

रमा शंकर तिवारी

आर टी

212 जेसी118688पी

सुबेदार एवं अवैतनिक लैं

शिव बचन सिंह

आर टी

सेना सेवा कौर जन्तु परिवहन

213 जेसी680061ए

रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

शेर सिंह

214 जेसी680295एफ

रिसालदार एवं अवैतनिक लैं

हरे राम राय

215 जेसी680452एल

रिसालदार एवं अवैतनिक लैं

के. रामकृष्ण

216 जेसी680275डब्ल्यू

रिसालदार एवं अवैतनिक लैं

प्रेम सिंह, एसएम

सेना चिकित्सा कौर

217 जेसी196077एम

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

दिनेश चंद्रा

218 जेसी891023के

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

विजय कुमार भारमोरिया

219 जेसी893411ए

सुबेदार एवं अवैतनिक लैं

बंसोदे उत्तम पुनियावंत

220 जेसी893172डब्ल्यू

सुबेदार एवं अवैतनिक लैं

भागवान स्वेन

221 जेसी892727ए

सुबेदार एवं अवैतनिक लैं

बृज मोहन

222 जेसी893586एच

सुबेदार एवं अवैतनिक लैं

प्रफुल्ल कुमार सरकार

223 जेसी892957एन

सुबेदार एवं अवैतनिक लैं

शशि एम

224 जेसी892729एल

सुबेदार एवं अवैतनिक लैं

ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी

सेना आयुध कौर

225 जेसी223198ए

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

अमर सिंह

226 जेसी722146ए

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

गोपाल आर

227 जेसी217372एल

सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं

केवल सिंह

228	जेसी221655के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	महेशानन के.
229	जेसी223148पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	माखन लाल गिरि
230	जेसी722451एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	वेलायुधन कुरूप सी
231	जेसी723098एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	विजयन के.

इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

232	जेसी747384एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	बाली राम
233	जेसी187830वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	बिजय नारायण
234	जेसी189117ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	छोटू राम
235	जेसी189027एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	दया राम गुप्ता
236	जेसी202193एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जगत राम डबराल
237	जेसी209149एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जगरूप सिंह रोहिला
238	जेसी188816वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	कंवल सिंह
239	जेसी750862एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	मोहानन एम पी
240	जेसी207237के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	नाबा कुमार राय
241	जेसी189128एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	नरेश चंद्रा कर्माकर
242	जेसी202191एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	रंजीत सिंह
243	जेसी209134के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	एस जॉन्स इयाप्पन
244	जेसी202195वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सुजीत कुमार चौधरी
245	जेसी189026डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सुखदेव सिंह
248	जेसी748556एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सुरेंद्र सिंह
247	जेसी189010एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सुरेश कुमार
248	जेसी218802डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	वीर बालासाहेब ततयाम्बा
249	जेसी756024एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	देवी सिंह
250	जेसी748402एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मदन सिंह
251	जेसी749919वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राय सिंह
252	जेसी753263एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रामेश्वर प्रसाद सिंह
253	जेसी753081वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	विजय कुमार

सेना शिक्षा कोर

254	जेसी206797के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	आनंद प्रकाश
255	जेसी206076ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	राजिन्दर सिंह सोनी
256	जेसी203990एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सुरजीत सिंह

रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

257	आरवी7769ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	चत्तर सिंह
-----	-----------	--------------------------	------------

आसुधना कोर

258	जेसी221340ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	चंचल सिंह
259	जेसी199008एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	जनक सिंह राना

सेना पुलिस कोर

260 जेसी215423पी सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं कासी रेडी रामकृषना रेडी

सना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

261 जेसी826029एफ सुबेदार एवं अवैतनिक लैं ए पनीर सेलवम

सेना डाक सेवा

262 जेसी136046एच सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं रंजीत सिंह विश्वाकर्मा

रक्षा सुरक्षा कोर

263 जेसी840143के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बराहो राम
264 जेसी840430एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	गोपाला कृष्ण के
265 जेसी168983एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	जगन नाथ सिंह
266 जेसी840583एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	करम चंद

प्रादेशिक सेना

267 टिजे3184	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	धरमपाल सिंह
268 टिजे3165	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	पोनम खेलेन्द्रा सिंह
269 टिजे4554	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बाबू शंकर पाटिल
270 टिजे3778के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	गणपत सिंह
271 टिजे3920	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	लक्ष्मी कांत पांडे
272 टिजे3624एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मुन्ना लाल बाथम
273 टिजे4287के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	प्रसन्ना कुमार
274 टिजे3515	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सुरेन्दर सिंह

अवैतनिक लेफिटनेन्ट के रूप मेंराष्ट्रपति अंगरक्षक

1 7 केवेलरी	जेसी200832एल	रिसालदार मेजर	हरदेव सिंह
2 8 केवेलरी	जेसी237014एफ	रिसालदार मेजर	गुलाब राम
3 2 लानर्सस	जेसी236123एफ	रिसालदार मेजर	अमरजीत सिंह
4 17 होर्स	जेसी236813एल	रिसालदार मेजर	अजय प्रताप सिंह
5 6 9 होर्स	जेसी211498पी जेसी235791एल	रिसालदार मेजर रिसालदार मेजर	धनी राम सुच्चा सिंह
7 3 केवेलरी	जेसी237754डब्ल्यू	रिसालदार	महेन्द्र कुमार
8 62 केवेलरी	जेसी237170एल	रिसालदार मेजर	भगवाना राम
9 65 आर्मड रेजीमेंट	जेसी236153वाइ	रिसालदार मेजर	राम पत
10 11 12 13 14 15 67 आर्मड रेजीमेंट	जेसी219039एल जेसी237598एक्स जेसी238044एल जेसी238607ए जेसी239211एच जेसी237596एम	रिसालदार मेजर रिसालदार रिसालदार रिसालदार रिसालदार रिसालदार	रामवीर सिंह बलबीर सिंह दर्शन लाल नरिंदर चांद प्रहलाद राम दास
16 69 आर्मड रेजीमेंट	जेसी236254एम	रिसालदार मेजर	भुपिन्द्र सिंह
17	जेसी236816वाइ	रिसालदार मेजर	बलबीर सिंह

70 आर्मड रेजीमेंट

18	जेसी236956एल	रिसालदार मेजर	रमेश लाल
19	जेसी237673डब्ल्यू	रिसालदार	त्रिरुपति राव दारा

82 आर्मड रेजीमेंट

20	जेसी238610ए	रिसालदार	जय प्रकाश पण्डित
----	-------------	----------	------------------

85 आर्मड रेजीमेंट

21	जेसी238642एच	रिसालदार	सोदान सिंह
----	--------------	----------	------------

86 आर्मड रेजीमेंट

22	जेसी239073एम	रिसालदार	बेगा राम
----	--------------	----------	----------

89 आर्मड रेजीमेंट

23	जेसी237703एच	रिसालदार	राम सुख
----	--------------	----------	---------

41 आर्मड रेजीमेंट

24	जेसी236350एफ	रिसालदार मेजर	राजिन्दर सिंह
----	--------------	---------------	---------------

46 आर्मड रेजीमेंट

25	जेसी236337एक्स	रिसालदार मेजर	भाग सिंह कौदल
----	----------------	---------------	---------------

आर्मड कौर

26	जेसी83858एम	रिसालदार मेजर	सी आर शर्मा भारद्वाज	आर टी
27	जेसी235996ए	रिसालदार मेजर	सतवीर सिंह कदैन	
28	जेसी236495एम	रिसालदार	जुगल किशोर मेहता	
29	जेसी236790पी	रिसालदार	सुभ करन दीवाना	

आर्टिलरी रेजीमेंट

30	जेसी219996डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बाबू राम	
31	जेसी86000एफ	सुबेदार मेजर	भोज राज शर्मा	आर टी
32	जेसी221246डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बिधुरी सिंह खत्री	
33	जेसी221233वाइ	सुबेदार मेजर	बोध राज	
34	जेसी200279एन	सुबेदार मेजर	बृज बिहारी शर्मा	
35	जेसी86762पी	सुबेदार मेजर	बृज किशोर मोहन	आर टी
36	जेसी193492एच	सुबेदार मेजर	दलबीर सिंह	
37	जेसी226306के.	सुबेदार मेजर	दर्शन सिंह	
38	जेसी216313एम	सुबेदार मेजर	गरीब दास	
39	जेसी213422एन	सुबेदार मेजर	हरमोहिंदर सिंह	
40	जेसी203911एल	सुबेदार मेजर	जाधवानी केदारैप्पा ज्योतेप्पा	
41	जेसी226046के.	सुबेदार मेजर	जाधव आनंदा गंगाराम	

42	जेसी195154के.	सुबेदार मेजर	करनैल सिंह	
43	जेसी210063ए	सुबेदार मेजर	महेंद्र सिंह	
44	जेसी200146एक्स	सुबेदार मेजर	महेंद्र सिंह तोमर	
45	जेसी174191के.	सुबेदार मेजर	पुरुषोत्तम पी वी	
46	जेसी214401के.	सुबेदार मेजर	राजन	
47	जेसी200338पी	सुबेदार मेजर	राम करन गौतम	
48	जेसी200311एक्स	सुबेदार मेजर	राम किशन यादव	
49	जेसी203873ए	सुबेदार मेजर	राम प्रताप	
50	जेसी200385एम	सुबेदार मेजर	रंजीत सिंह	
51	जेसी86761एम	सुबेदार मेजर	सत्य प्रसाद मिश्रा	आर टी
52	जेसी193400एल	सुबेदार मेजर	शेक अब्दुल खादर	
53	जेसी201655एच	सुबेदार मेजर	शिव बदन राम	
54	जेसी228598एक्स	सुबेदार मेजर	उदय प्रताप सिंह	
55	जेसी262130पी	सुबेदार	अमरीक सिंह	
56	जेसी257016एन	सुबेदार	ए कुमार त्रिपाठी	
57	जेसी203877डब्ल्यू	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	
58	जेसी259544डब्ल्यू	सुबेदार	बनवारी लाल	
59	जेसी259190वाइ	सुबेदार	बसावनि लक्ष्मन धनागर	
60	जेसी257262वाइ	सुबेदार	भाग सिंह	
61	जेसी264265पी	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह	
62	जेसी259636एच	सुबेदार	बीरपाल सिंह तोमर	
63	जेसी260640एक्स	सुबेदार	छैल सिंह	
64	जेसी264663डब्ल्यू	सुबेदार	देबेन्द्र प्रसाद सिंह	
65	जेसी255129एक्स	सुबेदार	धर्म सिंह	
66	जेसी261722एम	सुबेदार	दुखा बंधु साहू	
67	जेसी264777एफ	सुबेदार	फकीर चांद	
68	जेसी264024पी	सुबेदार	गजराज सिंह राठौर	
69	जेसी256858एम	सुबेदार	गुरदेव सिंह	
70	जेसी258745एच	सुबेदार	हरबीर सिंह	
71	जेसी260748पी	सुबेदार	हरफूल सिंह	
72	जेसी258958डब्ल्यू	सुबेदार	एच सिंह	
73	जेसी259525एल	सुबेदार	होशियार सिंह	
74	जेसी225279वाइ	सुबेदार	इंद्र सिंह	
75	जेसी259266एन	सुबेदार	इकबाल सिंह	
76	जेसी261129एन	सुबेदार	जगदीश लाल	
77	जेसी262354पी	सुबेदार	काले गोविंद गंगा राम	
78	जेसी257656एक्स	सुबेदार	कपिल देव	
79	जेसी263033के.	सुबेदार	किशनबिहारी सिंह	
80	जेसी258078ए	सुबेदार	लाला राम यादव	
81	जेसी261858डब्ल्यू	सुबेदार	मल्कीत सिंह	
82	जेसी260029डब्ल्यू	सुबेदार	मान सिंह	
83	जेसी264074ए	सुबेदार	मोहन सिंह	

84	जेसी263075डब्ल्यू	सुबेदार	मोती चांद यादव
85	जेसी259581के.	सुबेदार	नरेश कुमार डागर
86	जेसी260203एक्स	सुबेदार	ओम पाल
87	जेसी226759पी	सुबेदार	प्रकाश चांद चौहान
88	जेसी262700ए	सुबेदार	पीताम्बरन के.
89	जेसी261859वाइ	सुबेदार	प्यार चांद
90	जेसी258414एफ	सुबेदार	राजा राम यादव
91	जेसी262205एफ	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद
92	जेसी262187के.	सुबेदार	रमेश चांद रनौत
93	जेसी261039एम	सुबेदार	राम किशन
94	जेसी257967एल	सुबेदार	राम प्यारे यादव
95	जेसी264328एम	सुबेदार	सागर सिंह
96	जेसी258707एम	सुबेदार	सालविन्दर सिंह निज्जर
97	जेसी264898एच	सुबेदार	श्री गजराज सिंह यादव
98	जेसी256663एफ	सुबेदार	श्याम बिहार सिंह
99	जेसी259348डब्ल्यू	सुबेदार	सीता राम
100	जेसी259517एम	सुबेदार	एस कनगल्सा सबपथि
101	जेसी259831ए	सुबेदार	सुबेदार सिंह
102	जेसी262782एन	सुबेदार	सुखदेव राज
103	जेसी259837एफ	सुबेदार	सुल्तान सिंह
104	जेसी260848ए	सुबेदार	सुल्तान सिंह राठोर, एसएम
105	जेसी265929के.	सुबेदार	स्वर्ण सिंह
106	जेसी258810एक्स	सुबेदार	वसंत जाधव
107	जेसी263003एम	सुबेदार	विजयन पी
108	जेसी259635ए	सुबेदार	विजया राघवन के.
109	जेसी262857ए	सुबेदार	याद राम यादव

वायु सुरक्षा आर्टिलरी कोर

110	जेसी209305एल	सुबेदार मेजर	चरण सिंह
111	जेसी177004एल	सुबेदार मेजर	झाल बहादुर गुरंग
112	जेसी200481एफ	सुबेदार मेजर	जोखानी सिंह
113	जेसी197886वाइ	सुबेदार मेजर	मनजीत सिंह
114	जेसी175586एक्स	सुबेदार मेजर	नन्द किशोर यादवा
115	जेसी169775एल	सुबेदार मेजर	रघुनाथ पांडे
116	जेसी216296एक्स	सुबेदार मेजर	राहिताश्व सिंह
117	जेसी297710एच	सुबेदार	अमीन चांद
118	जेसी296176के.	सुबेदार	अनिरुद्धा नायक
119	जेसी255411एच	सुबेदार	बाल किशन
120	जेसी297418एन	सुबेदार	चक्रधर नायक
121	जेसी140232डब्ल्यू	सुबेदार	चंद्रा मोहन
122	जेसी297249एक्स	सुबेदार	देव राज
123	जेसी297193डब्ल्यू	सुबेदार	दिलबाग सिंह

आर टी

124	जेसी296983वाइ	सुबेदार	ई मीणत्की सुंदरम
125	जेसी296335डब्ल्यू	सुबेदार	ज्ञान स्वरूप
126	जेसी296753एल	सुबेदार	ज्ञान प्रकाश
127	जेसी224614एल	सुबेदार	कुशाल चांद मन्हास
128	जेसी255739के.	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह परमार
129	जेसी296746पी	सुबेदार	नटवर लाल पांडे
130	जेसी297177वाइ	सुबेदार	परिमल विश्वास
131	जेसी296045वाइ	सुबेदार	शिवराम सिंह
132	जेसी256751एक्स	सुबेदार	सुरजीत सिंह
133	जेसी297895पी	सुबेदार	यादब चंद्रा राय

मद्रास इंजीनियर समूह

134	जेसी305197के.	सुबेदार मेजर	जयकुमार ए	
135	जेसी184850एफ	सुबेदार मेजर	मूर्ती	
136	जेसी79988एक्स	सुबेदार मेजर	नारायण प्रसाद शर्मा	आर टी
137	जेसी82815एल	सुबेदार मेजर	नित्यानंदम पी	आर टी
138	जेसी197015वाइ	सुबेदार मेजर	रामचन्द्रन वी एस	
139	जेसी196970एम	सुबेदार मेजर	आर जयराम	
140	जेसी182648पी	सुबेदार मेजर	आर कृष्णन	
141	जेसी199679एल	सुबेदार मेजर	सदाशिव	
142	जेसी305210एच	सुबेदार मेजर	एस एलमपारुथी	
143	जेसी86479एफ	सुबेदार मेजर	सुब्रमनिअन पी	आर टी
144	जेसी197060एल	सुबेदार मेजर	टी दिलीप कुमार	
145	जेसी196953एम	सुबेदार मेजर	वीरास्वामी प्रथापा रेडी	
146	जेसी197007ए	सुबेदार मेजर	वेनुगोपाल एम	
147	जेसी305135के.	सुबेदार मेजर	यादवेल्ली वेन्कटेश्वरलु	
148	जेसी191252एम	सुबेदार मेजर	वाइ माइकल	
149	जेसी306467ए	सुबेदार	ए सेलवम	
150	जेसी306400एफ	सुबेदार	बालासुब्रामन्यन डी.	
151	जेसी306131ए	सुबेदार	सी जयचन्द्रन	
152	जेसी306016ए	सुबेदार	सी मूर्ती	
153	जेसी306087एफ	सुबेदार	सी राजामणिकम	
154	जेसी305978एक्स	सुबेदार	गोविंदन एन	
155	जेसी305570वाइ	सुबेदार	गुजाला नाग राजू	
156	जेसी306096एच	सुबेदार	आइ पलानीसामी	
157	जेसी306371एक्स	सुबेदार	जयराजन	
158	जेसी305800एफ	सुबेदार	जोसेफ जार्ज के. जी.	
159	जेसी305717के.	सुबेदार	जोसेफ टी एस	
160	जेसी305783एम	सुबेदार	के. रमा राव	
161	जेसी305779के.	सुबेदार	के. कंडाराजन	
162	जेसी306526एफ	सुबेदार	कृष्णन के.	
163	जेसी306233डब्ल्यू	सुबेदार	के. सुंदरराजन मूर्ती	

164	जेसी306564एक्स	सुबेदार	एम वीरा वी
165	जेसी305714डब्ल्यू	सुबेदार	मोहम्मद इलाशी
166	जेसी305121के.	सुबेदार	मुनिसामी
167	जेसी306691एम	सुबेदार	एन गोविंदन
168	जेसी306222के.	सुबेदार	पी जयपालन
169	जेसी305106पी	सुबेदार	पी मनी
170	जेसी306180एच	सुबेदार	पी रामामूर्ति
171	जेसी306527के.	सुबेदार	आर राजेन्द्रन
172	जेसी305153एम	सुबेदार	रेवी के.
173	जेसी305942वाइ	सुबेदार	आर कोसल राम
174	जेसी306571एन	सुबेदार	आर परीमल
175	जेसी306024वाइ	सुबेदार	एस सिल्वाराज

बंगाल इन्जीनियर समूह

176	जेसी210772पी	सुबेदार मेजर	अमृत लाल शर्मा
177	जेसी199723के.	सुबेदार मेजर	बदारी विशाल सिंह
178	जेसी207860ए	सुबेदार मेजर	बलजीत सिंह
179	जेसी210753के.	सुबेदार मेजर	बुआ दित्ता राम चौधरी
180	जेसी202911वाइ	सुबेदार मेजर	गनेश सिंह रावत
181	जेसी202990वाइ	सुबेदार मेजर	गुरनाम सिंह
182	जेसी210574के.	सुबेदार मेजर	जवाहर लाल शुक्ला
183	जेसी210590एफ	सुबेदार मेजर	कर्जगी सिंह
184	जेसी325139एफ	सुबेदार मेजर	कुलदीप सिंह
185	जेसी210457वाइ	सुबेदार मेजर	कुलविन्द्र सिंह
186	जेसी199785के.	सुबेदार मेजर	मुख राम राम
187	जेसी326060एल	सुबेदार मेजर	पवन कुमार सिंह
188	जेसी207857ए	सुबेदार मेजर	प्रीतम सिंह
189	जेसी207579एक्स	सुबेदार मेजर	राकेश चंद्रा
190	जेसी224896पी	सुबेदार मेजर	आर आर नटराजन
191	जेसी210571डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	स्वप्न कुमार मंडल
192	जेसी184756एक्स	सुबेदार	अम्बर बहादुर थापा
193	जेसी328186के.	सुबेदार	अमीर सिंह
194	जेसी328074के.	सुबेदार	बच्चू सिंह
195	जेसी327982ए	सुबेदार	गुरचरण सिंह
196	जेसी326984वाइ	सुबेदार	कोशलेन्द्र पाल सिंह
197	जेसी326847ए	सुबेदार	मदन सिंह
198	जेसी327252पी	सुबेदार	नाथी सिंह
199	जेसी215889एक्स	सुबेदार	निशी कांता सिंघा
200	जेसी327274एन	सुबेदार	प्यारे लाल
201	जेसी328297एफ	सुबेदार	रवि कुमार
202	जेसी327083वाइ	सुबेदार	सत्य प्रकाश
203	जेसी326940एफ	सुबेदार	शिव प्रसाद सिंह

204	जेसी327958के.	सुबेदार	श्यामा प्रसाद
205	जेसी326947एल	सुबेदार	सुंदर सिंह
206	जेसी327957एफ	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह
207	जेसी326983डब्ल्यू	सुबेदार	तिका राम जोशी

बोम्बे इन्जीनियर समूह

208	जेसी200044एफ	सुबेदार मेजर	हरजीत सिंह
209	जेसी209644एल	सुबेदार मेजर	कमल किशोर
210	जेसी200076के.	सुबेदार मेजर	मतीउल्लाह
211	जेसी219616एम	सुबेदार मेजर	नछेतर सिंह
212	जेसी203047ए	सुबेदार मेजर	सर्न सिंह सल्हन
213	जेसी200038एन	सुबेदार मेजर	शिंदे सहदेवन सक्काराम
214	जेसी200043वाइ	सुबेदार मेजर	विश्वासराव शिंदे
215	जेसी347408एक्स	सुबेदार	अवतार सिंह
216	जेसी348285एन	सुबेदार	अवधेश नारायण
217	जेसी348208वाइ	सुबेदार	बलदेव सिंह
218	जेसी348255डब्ल्यू	सुबेदार	बालकिशना गोपाल यादव
219	जेसी348083एम	सुबेदार	गोपीचंद्र भागोजी मालुश्रे
220	जेसी348745के.	सुबेदार	गुरचरण सिंह
221	जेसी347770डब्ल्यू	सुबेदार	हरमेल सिंह
222	जेसी347372पी	सुबेदार	जसविन्दर सिंह
223	जेसी347844ए	सुबेदार	कोदाग विठल बापू
224	जेसी348263पी	सुबेदार	कृष्णा नन्द
225	जेसी203056एफ	सुबेदार	कुलबीर सिंह
226	जेसी348107एल	सुबेदार	कुभारे शामरव भैरू
227	जेसी348270एल	सुबेदार	मोहम्मद यूनिस्
228	जेसी348911एम	सुबेदार	मोती लाल
229	जेसी348583के.	सुबेदार	नरेंद्रा सिंह चौहान
230	जेसी348106एच	सुबेदार	प्रताप एस भोसले
231	जेसी348387के.	सुबेदार	पूरन सिंह
232	जेसी348036पी	सुबेदार	शिंदे किसान निवृत्ति
233	जेसी160406एम	सुबेदार	सुच्चा सिंह
234	जेसी348575एल	सुबेदार	सुखदेव सिंह
235	जेसी348804एल	सुबेदार	सुखदेव सिंह
236	जेसी348246पी	सुबेदार	सूर्या नारायण मिश्रा

सिग्नल्स कोर

237	जेसी188213एच	सुबेदार मेजर	अमर सिंह
238	जेसी369226पी	सुबेदार मेजर	बचन सिंह
239	जेसी196126के.	सुबेदार मेजर	बच्चे सिंह
240	जेसी368284एम	सुबेदार मेजर	बिजया कुमार प्रधान
241	जेसी206925डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बीर सिंह

आर टी

242	जेसी207336एम	सुबेदार मेजर	दलाल चांद शर्मा	
243	जेसी369208एम	सुबेदार मेजर	दर्शन सिंह	
244	जेसी368697डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	धर्म सिंह	
245	जेसी369217एन	सुबेदार मेजर	दीना नाथ पांडे	
246	जेसी369797एन	सुबेदार मेजर	गनेश इंदु	
247	जेसी368391एन	सुबेदार मेजर	हेम चंद्र	
248	जेसी369158एम	सुबेदार मेजर	इंद्रजीत सिंह	
249	जेसी368823एक्स	सुबेदार मेजर	कंवलजीत सिंह ब्रा	
250	जेसी92716डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कुल भूषण मिश्रा	आर टी
251	जेसी206855एच	सुबेदार मेजर	एल राम	
252	जेसी206926वाइ	सुबेदार मेजर	महिंद्र सिंह	
253	जेसी223429एल	सुबेदार मेजर	मनोहर लाल	
254	जेसी206862वाइ	सुबेदार मेजर	एम एम	
255	जेसी200680पी	सुबेदार मेजर	नारायण सिंह	
256	जेसी368354ए	सुबेदार मेजर	निकम मारुति रामु	
257	जेसी370287वाइ	सुबेदार मेजर	राज किशोर प्रसाद सिंह	बीएम
258	जेसी369309ए	सुबेदार मेजर	सत पाल	
259	जेसी220455एफ	सुबेदार मेजर	एस कृष्णामाचारी राजा	
260	जेसी369196एच	सुबेदार मेजर	सुजान सिंह	
261	जेसी200679ए	सुबेदार मेजर	सुरेश चंद्र	
262	जेसी368387एल	सुबेदार मेजर	ताजेन्द्र सिंह मिन्हास	
263	जेसी368908एन	सुबेदार मेजर	उमा शंकर प्रसाद	
264	जेसी368696एन	सुबेदार मेजर	वेद प्रकाश	
265	जेसी369211एम	सुबेदार	एंथोनी सी आर	
266	जेसी369075एफ	सुबेदार	अरविन्द प्रसाद वी के.	
267	जेसी371577एच	सुबेदार	अतुल चंद्रा नाथ	
268	जेसी372065एच	सुबेदार	भुवनेन्द्रन नाथन नायर के.	
269	जेसी372357एल	सुबेदार	चंद्रा शेखरन पी	
270	जेसी370680एफ	सुबेदार	सी थंकचलम राजन	
271	जेसी371245वाइ	सुबेदार	दुर्योधन नायक	
272	जेसी369458एन	सुबेदार	द्वारिका नाथ दुबे	
273	जेसी371276वाइ	सुबेदार	इश्वर सिंह	
274	जेसी371588पी	सुबेदार	जाधव दत्तू विथल	
275	जेसी369958एल	सुबेदार	कान सिंह देवरा	
276	जेसी371233के.	सुबेदार	किशोर चांद	
277	जेसी371564एल	सुबेदार	मुकुंदन मिथला एदावाना	
278	जेसी369469ए	सुबेदार	नगेन्द्रा एच ई	
279	जेसी371169एक्स	सुबेदार	नारायणन ए	
280	जेसी371282एम	सुबेदार	ओम प्रकाश	
281	जेसी368925एन	सुबेदार	प्रभाकरण ए	
282	जेसी371587एम	सुबेदार	प्रसन्ना कुमार मोहाप	
283	जेसी371236एक्स	सुबेदार	राघव पांडे	

284	जेसी370798एच	सुबेदार	राजन ए पी
285	जेसी220473के.	सुबेदार	राजदेव सिंह कुशवाहा
286	जेसी367747के.	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद
287	जेसी371709एल	सुबेदार	रमाकांत ओझा
288	जेसी371226एन	सुबेदार	राम अश्रया सिंह
289	जेसी372300डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश कुमार पाठक
290	जेसी367755एच	सुबेदार	राम किशन
291	जेसी368794एन	सुबेदार	सरजीत कुमार मित्रा
292	जेसी369850एन	सुबेदार	सतपाल सिंह
293	जेसी371229एफ	सुबेदार	शिव शंकर
294	जेसी369521एक्स	सुबेदार	सोमराजन एस
295	जेसी370385वाइ	सुबेदार	सुनन्द्रा सिंह तिओटिआ
296	जेसी370941के.	सुबेदार	सुरेंद्र बहादुर भारती
297	जेसी371555के.	सुबेदार	सुरेश कुमार शर्मा
298	जेसी371451एच	सुबेदार	वरघेसे के. जी.

गार्ड्स

299	जेसी184214एन	सुबेदार मेजर	गोविंद सिंह रावत
300	जेसी182917डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राजन पानीसेरी
301	जेसी184904एक्स	सुबेदार मेजर	सालुंखे जलिनंदर दाजीराव
302	जेसी208253एन	सुबेदार मेजर	सत्य चरण मोन्डल
303	जेसी93806के.	सुबेदार मेजर	तारकेशवर नाथ मिश्रा
304	जेसी402794एच	सुबेदार	भामर सिंह सैंगर
305	जेसी402411एल	सुबेदार	देव चांद
306	जेसी402845एल	सुबेदार	मेजर सिंह, एससी
307	जेसी402800एल	सुबेदार	पर्शोतम सिंह
308	जेसी402641वाइ	सुबेदार	रमाकांत साहू
309	जेसी402389एल	सुबेदार	सुमैत्र सिंह
310	जेसी402739एम	सुबेदार	तिल बहादुर थापा
311	जेसी402736वाइ	सुबेदार	उमेश्वर सिंह

आर टी

पैराशूट रेजीमेन्ट

312	जेसी205047वाइ	सुबेदार मेजर	अमर सिंह बिष्ट
313	जेसी210884पी	सुबेदार मेजर	बस्ती राम यादवा
314	जेसी210888एल	सुबेदार मेजर	भंवर सिंह
315	जेसी220104एम	सुबेदार मेजर	इन्द्रा राज सिंह
316	जेसी412449एच	सुबेदार	बाबू सिंह
317	जेसी412519डब्ल्यू	सुबेदार	बलदेव राज
318	जेसी412471एन	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह राजवर
319	जेसी412506वाइ	सुबेदार	चानन सिंह
320	जेसी412437एन	सुबेदार	गजराज सिंह
321	जेसी412451ए	सुबेदार	गुरमेल सिंह

322	जेसी412585वाइ	सुबेदार	किशन लाल
323	जेसी412229वाइ	सुबेदार	कृष्णापाल सिंह
324	जेसी412125एक्स	सुबेदार	लाम सिंह
325	जेसी412320पी	सुबेदार	मनजीत सिंह
326	जेसी412093ए	सुबेदार	प्रताप सिंह
327	जेसी412395एम	सुबेदार	सतीसन सी
328	जेसी412426एफ	सुबेदार	शेर सिंह यादव
329	जेसी412094एच	सुबेदार	सीता राम यादव
330	जेसी412197एफ	सुबेदार	सूरज प्रकाश

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

331	जेसी216397एल	सुबेदार मेजर	इंद्र सिंह
332	जेसी189710वाइ	सुबेदार मेजर	ओंकार सिंह
333	जेसी418279ए	सुबेदार	बलजीत सिंह
334	जेसी419198एम	सुबेदार	बलविन्दर सिंह
335	जेसी418897एल	सुबेदार	भाग चंद्र सिंह
336	जेसी419647डब्ल्यू	सुबेदार	दामोदर राना
337	जेसी419031एच	सुबेदार	देस राज जामवाल
338	जेसी418725डब्ल्यू	सुबेदार	डी. सिंह एसएम
339	जेसी418527एल	सुबेदार	गोविंद सिंह
340	जेसी418736एच	सुबेदार	ओम प्रकाश
341	जेसी418456पी	सुबेदार	राजेंद्र कुमार
342	जेसी216408एम	सुबेदार	रमेश कुमार दत्ता
343	जेसी418999एफ	सुबेदार	राम मेहर सिंह
344	जेसी419017डब्ल्यू	सुबेदार	वीरेंद्र सिंह चौहान
345	जेसी219228पी	सुबेदार	विश्वनाथ सिंह

पंजाब रेजीमेन्ट

346	जेसी196835वाइ	सुबेदार मेजर	बलविन्दर सिंह ढल्लों
347	जेसी203622डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दर्शन सिंह
348	जेसी218395वाइ	सुबेदार मेजर	गुरपाल सिंह
349	जेसी428321एफ	सुबेदार मेजर	इश्वर प्रसाद राय
350	जेसी205007एक्स	सुबेदार मेजर	जसबीर सिंह
351	जेसी210927वाइ	सुबेदार मेजर	केवल सिंह
352	जेसी203624एफ	सुबेदार मेजर	नरोत्तम सिंह
353	जेसी222634ए	सुबेदार मेजर	प्रकाश चांद राना
354	जेसी218168वाइ	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार
355	जेसी428098एच	सुबेदार मेजर	टी सिंह
356	जेसी428224के.	सुबेदार मेजर	विजय कुमार
357	जेसी428265एन	सुबेदार	अमीर सिंह
358	जेसी428741एफ	सुबेदार	बलदेव सिंह
359	जेसी428481एफ	सुबेदार	बंत सिंह

360	जेसी428593एफ	सुबेदार	भूरी सिंह
361	जेसी428778एक्स	सुबेदार	बिशन सिंह
362	जेसी428808एक्स	सुबेदार	चमन लाल
363	जेसी428240एफ	सुबेदार	चरण सिंह
364	जेसी428645एम	सुबेदार	दर्शन सिंह
365	जेसी428736डब्ल्यू	सुबेदार	गुरमीत सिंह
366	जेसी428411एच	सुबेदार	हंस राज
367	जेसी428725के.	सुबेदार	हंस राज शर्मा
368	जेसी428986एक्स	सुबेदार	हरनैल सिंह
369	जेसी171798एल	सुबेदार	जगदीश चंद्र
370	जेसी428949के.	सुबेदार	कमल सिंह डोगरा
371	जेसी428877एल	सुबेदार	कुंदन सिंह
372	जेसी428896डब्ल्यू	सुबेदार	पोल सिंह
373	जेसी196378डब्ल्यू	सुबेदार	प्रभु सिंह
374	जेसी428969एक्स	सुबेदार	राज कुमार
375	जेसी428858ए	सुबेदार	रोमेश लाल
376	जेसी428353के.	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह मनकोटिया
377	जेसी428445डब्ल्यू	सुबेदार	सुरजीत सिंह
378	जेसी428363एन	सुबेदार	वकील सिंह

मद्रास रेजीमेन्ट

379	जेसी188621एन	सुबेदार मेजर	जी. जयरामन एसएम
380	जेसी172725एल	सुबेदार मेजर	गोपाल सामी आर
381	जेसी193663के.	सुबेदार मेजर	जी. वेनुगोपाल
382	जेसी168528एल	सुबेदार मेजर	एच ए वी
383	जेसी220890डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एन हरीनाथ
384	जेसी194550एन	सुबेदार मेजर	राजगोपालन पी
385	जेसी181767वाइ	सुबेदार मेजर	एस जोसेफ राज
386	जेसी438542एफ	सुबेदार	दिनेशन पीके
387	जेसी438444एफ	सुबेदार	जी. अरोकियासामी
388	जेसी438818एम	सुबेदार	के. वासुदेवन
389	जेसी438302के.	सुबेदार	एम दुरई राज
390	जेसी438123के.	सुबेदार	एम पवादाय सामी
391	जेसी438088एम	सुबेदार	एम येशुदोश
392	जेसी438527एम	सुबेदार	संकरन वी
393	जेसी438180एल	सुबेदार	वासुदेवन नायर जी.

ग्रैनेडियर्स

394	जेसी164492ए	सुबेदार मेजर	भंवर सिंह
395	जेसी196178ए	सुबेदार मेजर	नियामत अली
396	जेसी225814एन	सुबेदार मेजर	राज कुमार
397	जेसी208049पी	सुबेदार मेजर	राम किशोर

398	जेसी188623वाइ	सुबेदार मेजर	राम सिंह मीना
399	जेसी179280एम	सुबेदार मेजर	शमशाद हुसैन
400	जेसी216750एम	सुबेदार मेजर	सुनील कुमार
401	जेसी208047के.	सुबेदार मेजर	यासीन खान
402	जेसी185490एच	सुबेदार	अनुराग चंद्रा सिंह, एसएम
403	जेसी449211ए	सुबेदार	अयान खान
404	जेसी449281वाइ	सुबेदार	भूमि देव
405	जेसी449193एच	सुबेदार	भुपेन्द्र सिंह
406	जेसी449030पी	सुबेदार	बिहारी लाल
407	जेसी449209एच	सुबेदार	छोटू
408	जेसी449206पी	सुबेदार	चौधरी राम
409	जेसी448198पी	सुबेदार	डी. खान
410	जेसी449172एच	सुबेदार	देस राज
411	जेसी449087के.	सुबेदार	लक्ष्मन प्रसाद मीना
412	जेसी449107एम	सुबेदार	मनोहर लाल
413	जेसी449106के.	सुबेदार	मानवर खान
414	जेसी449223पी	सुबेदार	राजिन्दर सिंह
415	जेसी448737ए	सुबेदार	रामवतर
416	जेसी448615डब्ल्यू	सुबेदार	राम चंद्र गूजर
417	जेसी449175ए	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह
418	जेसी449190पी	सुबेदार	रोशन लाल
419	जेसी449191एक्स	सुबेदार	सुभाष चांद
420	जेसी448906डब्ल्यू	सुबेदार	उदय सिंह

मराठा लघु सेना

421	जेसी203659एक्स	सुबेदार मेजर	चेदे रामकृशना भानुदास
422	जेसी188385एक्स	सुबेदार मेजर	हरलाल सिंह
423	जेसी179303एच	सुबेदार मेजर	मसाके नामदेव किसान
424	जेसी173162एच	सुबेदार मेजर	पाटिल शंकर बलबन्त
425	जेसी179317एच	सुबेदार मेजर	सालुंखे चान्द्राकान्त शामराव
426	जेसी196425एच	सुबेदार मेजर	सावंत सुभाष कुदाजी
427	जेसी173155एम	सुबेदार मेजर	विलास सालुंके
428	जेसी458690एन	सुबेदार	अम्बीराव गोपाल सावंत
429	जेसी458925पी	सुबेदार	बेलागोंवकर अशोक शिवराई
430	जेसी458456एक्स	सुबेदार	गावडे पांडुरंग तुकाराम
431	जेसी458188वाइ	सुबेदार	गोरे मोहन केशव
432	जेसी528463एन	सुबेदार	जगताप शिरीष यशवंत
433	जेसी458812एम	सुबेदार	करावन्दे प्रहलाद गनपत
434	जेसी458320एन	सुबेदार	खाकी अशोक गणपति
435	जेसी458063एफ	सुबेदार	किसान शिवराम फापाले
436	जेसी458423एम	सुबेदार	लगादय विश्वनाथ बापूराव
437	जेसी458149ए	सुबेदार	तात्यासाहिब कृष्णा चौहान

राजपूताना राईफल्स

438	जेसी211012वाइ	सुबेदार मेजर	अजीत सिंह
439	जेसी193706एन	सुबेदार मेजर	दलीप सिंह
440	जेसी193708वाइ	सुबेदार मेजर	गिरवर सिंह राजपूत
441	जेसी468277एल	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश
442	जेसी220722एक्स	सुबेदार मेजर	शीश राम
443	जेसी468007डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	विजेन्द्र सिंह
444	जेसी468671डब्ल्यू	सुबेदार	फतेह सिंह चौहान
445	जेसी468280एल	सुबेदार	लाल सिंह
446	जेसी468464के.	सुबेदार	लीक्षमण सिंह
447	जेसी468373ए	सुबेदार	मित्तंर सिंह
448	जेसी468626के.	सुबेदार	नरेंद्रा सिंह राठौर
449	जेसी468229एल	सुबेदार	निहाल सिंह
450	जेसी469118ए	सुबेदार	ओम प्रकाश
451	जेसी468835एफ	सुबेदार	ओम प्रकाश
452	जेसी468518ए	सुबेदार	ओम प्रकाश
453	जेसी468945डब्ल्यू	सुबेदार	प्रताप सिंह
454	जेसी468829एन	सुबेदार	राम करन सिंह
455	जेसी468852एफ	सुबेदार	रूप सिंह शेखावत
456	जेसी468902एफ	सुबेदार	सत्यवीर सिंह

राजपूत रेजीमेन्ट

457	जेसी220942एफ	सुबेदार मेजर	ब्रज भान सिंह
458	जेसी193736एल	सुबेदार मेजर	घेन राज सिंह हाडा
459	जेसी478052डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दया कांत पांडे
460	जेसी199231एल	सुबेदार मेजर	नेत राम दयामा
461	जेसी180860एन	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह
462	जेसी88397एक्स	सुबेदार मेजर	रामआधार पांडे
463	जेसी188643एम	सुबेदार मेजर	यस पाल सिंह
464	जेसी478631एच	सुबेदार	अनंगपाल सिंह
465	जेसी478671के.	सुबेदार	अर्जुन सिंह
466	जेसी478155पी	सुबेदार	बट्टू सिंह
467	जेसी478590के.	सुबेदार	भंवर सिंह राठौर
468	जेसी478926वाइ	सुबेदार	भरत सिंह
469	जेसी478885ए	सुबेदार	दल चांद
470	जेसी478598डब्ल्यू	सुबेदार	हरी राम
471	जेसी478066डब्ल्यू	सुबेदार	हरकेश
472	जेसी478734एफ	सुबेदार	इश्वर सिंह
473	जेसी478566एन	सुबेदार	जगदीश चंद्र
474	जेसी478726एच	सुबेदार	झाबर मल
475	जेसी478495एक्स	सुबेदार	खेम राज सिंह

आर टी

476	जेसी478319ए	सुबेदार	महावीर सिंह
477	जेसी216810डब्ल्यू	सुबेदार	मूसाराम गुर्जर
478	जेसी478609एक्स	सुबेदार	नाथू सिंह तोमर
479	जेसी478891एन	सुबेदार	ओम पाल सिंह
480	जेसी478852पी	सुबेदार	रघुबीर सिंह
481	जेसी478925डब्ल्यू	सुबेदार	राज कुमार
482	जेसी478830डब्ल्यू	सुबेदार	राम बहादुर सिंह
483	जेसी478932एम	सुबेदार	राम लाल
484	जेसी478443एफ	सुबेदार	रोमेश कुमार
485	जेसी478952ए	सुबेदार	रोमेश लाल
486	जेसी478520एल	सुबेदार	समय सिंह गुर्जर
487	जेसी478511के.	सुबेदार	श्री पाल सिंह
488	जेसी478561पी	सुबेदार	सूबे सिंह
489	जेसी479029पी	सुबेदार	सुगराखातून सिंह
490	जेसी224533एल	सुबेदार	सुनील चंद्रा सरकार
491	जेसी478240एक्स	सुबेदार	सुनील कुमार
492	जेसी479128एक्स	सुबेदार	उदय प्रताप सिंह
493	जेसी478783के.	सुबेदार	विष्णु सिंह

जाट रेजीमेन्ट

494	जेसी179350ए	सुबेदार मेजर	जगदीश चंद्र
495	जेसी192936पी	सुबेदार मेजर	जगजीत सिंह
496	जेसी188666एन	सुबेदार मेजर	प्रेम सिंह सिंगरोआ
497	जेसी205927पी	सुबेदार मेजर	शिव सिंह रावत
498	जेसी488988एफ	सुबेदार	अनंद कुमार
499	जेसी488854एन	सुबेदार	बाबू लाल
500	जेसी489115एन	सुबेदार	बनवारी लाल
501	जेसी488771एच	सुबेदार	बीर सिंह
502	जेसी489098वाइ	सुबेदार	जगबीर सिंह
503	जेसी488772एल	सुबेदार	जगदीश प्रसाद
504	जेसी488852एच	सुबेदार	जगदीश प्रसाद
505	जेसी489074पी	सुबेदार	जगदीश सिंह
506	जेसी488786एल	सुबेदार	जयवीर सिंह
507	जेसी488881एक्स	सुबेदार	मूल चांद मथ
508	जेसी489088पी	सुबेदार	मुख्त्यार सिंह
509	जेसी488842वाइ	सुबेदार	नेमी चांद
510	जेसी488798पी	सुबेदार	प्रताप सिंह
511	जेसी488873वाइ	सुबेदार	प्रहलाद सिंह फेनिन
512	जेसी488744वाइ	सुबेदार	राजेंद्र सिंह सुंडा
513	जेसी488848ए	सुबेदार	रामफल सिंह डी.
514	जेसी488958एक्स	सुबेदार	रतन लाल चौधरी
515	जेसी488690एच	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह

516	जेसी488856एच	सुबेदार	श्रीविओम डागर
517	जेसी488735एक्स	सुबेदार	ऋषिपाल सिंह
518	जेसी488888एफ	सुबेदार	सिन्धु राम
519	जेसी488888एच	सुबेदार	तेज भान सिंह

सिख रेजीमेन्ट

520	जेसी194602वाइ	सुबेदार मेजर	बलवंत सिंह
521	जेसी219712एफ	सुबेदार मेजर	कश्मीर सिंह
522	जेसी184378के.	सुबेदार मेजर	सतनाम सिंह जी
523	जेसी192420एम	सुबेदार मेजर	सुच्चा सिंह
524	जेसी498431एन	सुबेदार	अजीत सिंह
525	जेसी498540ए	सुबेदार	चरनजीत सिंह
526	जेसी498707वाइ	सुबेदार	दिलचम्पर सिंह
527	जेसी498389ए	सुबेदार	गुरचरण सिंह
528	जेसी498113के.	सुबेदार	जामीर सिंह
529	जेसी498291एम	सुबेदार	कुलबीर सिंह
530	जेसी498315एल	सुबेदार	मनजीत सिंह
531	जेसी498004ए	सुबेदार	निरंजन सिंह
532	जेसी498809पी	सुबेदार	राम सिंह
533	जेसी498247एच	सुबेदार	सरजीत सिंह
534	जेसी498330ए	सुबेदार	सतनाम सिंह
535	जेसी498591एन	सुबेदार	सिकंदर लाल
536	जेसी498420एफ	सुबेदार	सुखदेव सिंह

सिख लघु पैदल सेना

537	जेसी216577एन	सुबेदार मेजर	सुखबिंदर सिंह
538	जेसी508137के.	सुबेदार	अजीत सिंह
539	जेसी508168के.	सुबेदार	बलविन्दर सिंह
540	जेसी508455एन	सुबेदार	जगदेव सिंह
541	जेसी508497ए	सुबेदार	जसपाल सिंह
542	जेसी508478के.	सुबेदार	जसविन्दर सिंह
543	जेसी508043एम	सुबेदार	जीवन सिंह
544	जेसी508223पी	सुबेदार	कर्मजीत सिंह
545	जेसी222694पी	सुबेदार	मजेर सिंह
546	जेसी508640एफ	सुबेदार	परमजीत सिंह

अमेरिका रेजीमेन्ट

547	जेसी518568के.	सुबेदार मेजर	बलवंत राय
548	जेसी518384एक्स	सुबेदार मेजर	बुधी सिंह
549	जेसी518145डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	चमन लाल
550	जेसी518102एफ	सुबेदार मेजर	जोगिंदर सिंह
551	जेसी518351ए	सुबेदार मेजर	ओंकार सिंह कंब

552	जेसी518403एल	सुबेदार मेजर	प्रेम चांद शर्मा
553	जेसी518229के.	सुबेदार मेजर	राजिन्दर सिंह
554	जेसी518483एन	सुबेदार मेजर	सूरम सिंह
555	जेसी518385एन	सुबेदार मेजर	स्वर्ण सिंह
556	जेसी518189एन	सुबेदार मेजर	विजय कुमार
557	जेसी519335पी	सुबेदार	अशोक कुमार
558	जेसी519242ए	सुबेदार	बाबू राम
559	जेसी519453एच	सुबेदार	बी सिंह
560	जेसी519291एच	सुबेदार	देवी राम
561	जेसी519046ए	सुबेदार	ध्यान सिंह
562	जेसी519399ए	सुबेदार	कमलेश चांद चौहान
563	जेसी518353एल	सुबेदार	करनैल सिंह जरयाल
564	जेसी519047एच	सुबेदार	मेजर सिंह
565	जेसी519397पी	सुबेदार	मनोहर लाल
566	जेसी519297के.	सुबेदार	सुतोष चांद
567	जेसी519472एन	सुबेदार	सुरेश कुमार ठाकुर
568	जेसी519040वाइ	सुबेदार	सुरजीत सिंह

गढ़वाल राईफल्स

569	जेसी196468एक्स	सुबेदार मेजर	बिरेन्द्रा सिंह रावत
570	जेसी221022डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जीवा एनडी. दोभाल
571	जेसी528198एच	सुबेदार मेजर	मगन सिंह
572	जेसी218013के.	सुबेदार मेजर	प्रदीप कुमार
573	जेसी194641एक्स	सुबेदार मेजर	पूरन सिंह
574	जेसी218309एच	सुबेदार मेजर	रघुबीर सिंह बिष्ट
575	जेसी528040ए	सुबेदार मेजर	सुमेर चांद रमोला
576	जेसी528106एल	सुबेदार	बचन सिंह
577	जेसी529020वाइ	सुबेदार	भगत सिंह
578	जेसी529008एक्स	सुबेदार	बिजेंद्र सिंह
579	जेसी529110ए	सुबेदार	बृजमोहन सिंह
580	जेसी528557एल	सुबेदार	ज्योती सिंह
581	जेसी528627वाइ	सुबेदार	कैलाश सिंह
582	जेसी528753एल	सुबेदार	महेंद्र सिंह
583	जेसी528719एल	सुबेदार	मान सिंह
584	जेसी528617पी	सुबेदार	नंदन सिंह रावत
585	जेसी528847एच	सुबेदार	पुशकर सिंह
586	जेसी528823वाइ	सुबेदार	साबल सिंह
587	जेसी528755डब्ल्यू	सुबेदार	सतीश चंद्रा
588	जेसी220227वाइ	सुबेदार	सुंदर सिंह
589	जेसी528326पी	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह नेगी

कुमोउ रेजीमेन्ट

590	जेसी196555एल	सुबेदार मेजर
591	जेसी190790एन	सुबेदार मेजर
592	जेसी538143एम	सुबेदार मेजर
593	जेसी196553ए	सुबेदार मेजर
594	जेसी538833डब्ल्यू	सुबेदार
595	जेसी538775एक्स	सुबेदार
596	जेसी539154एल	सुबेदार
597	जेसी212668ए	सुबेदार
598	जेसी538782एन	सुबेदार
599	जेसी538325ए	सुबेदार
600	जेसी539298एन	सुबेदार
601	जेसी538909एल	सुबेदार
602	जेसी538923एक्स	सुबेदार
603	जेसी538544एफ	सुबेदार
604	जेसी538684एन	सुबेदार
605	जेसी538962डब्ल्यू	सुबेदार
606	जेसी538946वाइ	सुबेदार
607	जेसी538780एच	सुबेदार
608	जेसी538261ए	सुबेदार
609	जेसी538402के.	सुबेदार
610	जेसी538855पी	सुबेदार
611	जेसी538945डब्ल्यू	सुबेदार
612	जेसी538674के.	सुबेदार
613	जेसी539056एल	सुबेदार
614	जेसी538976डब्ल्यू	सुबेदार
615	जेसी538810पी	सुबेदार
616	जेसी538200एच	सुबेदार
617	जेसी538608एफ	सुबेदार
618	जेसी185817डब्ल्यू	सुबेदार
619	जेसी538462वाइ	सुबेदार
620	जेसी538720एन	सुबेदार
621	जेसी538498एक्स	सुबेदार
622	जेसी539169एन	सुबेदार
623	जेसी538688के.	सुबेदार
624	जेसी538289ए	सुबेदार
625	जेसी539010एच	सुबेदार
626	जेसी539099ए	सुबेदार

आसाम रेजीमेन्ट

627 जेसी211261एक्स सुबेदार मेजर

चनरी चांद
जगत सिंह सिरौला
लाल सिंह नेगी
टेक बहादुर चांद
बहादुर सिंह
बहादुर सिंह नेगी
भागवत सिंह, एसएम
दलीप सिंह
दान सिंह
दया कण्णन
धर्मबीर
धर्म वीर
गोकुल चांद
हंस राज कटोच
इन्द्रा देव सिंह यादव
जगमोहन सिंह
लाल सिंह
मथुरा दत्त तिवारी
मोहन सिंह बिष्ट
ओम प्रकाश
ओम प्रकाश
परमानंद
प्रताप सिंह
प्रयाग सिंह
पूरन सिंह कलाकोती
पुशकर सिंह
राजेंद्र सिंह
राम औतार
राम छबिला सिंह
रामेश्वर दयाल यादव
राम प्रकाश
राम सूरत सिंह यादव
राम स्वरूप
शेर सिंह
शेर सिंह
त्रिभुवन सिंह
उम्मेद सिंह

अंगोम इबोबी सिंह

628	जेसी205663वाइ	सुबेदार मेजर	अरुण गुरंग
629	जेसी202048डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	भावेन डायमारे
630	जेसी193845एक्स	सुबेदार मेजर	दलिन चंद्रा रौय
631	जेसी204334डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जनार्दन रौय
632	जेसी202038एम	सुबेदार मेजर	लिनजाछिन पेटेंडी
633	जेसी218519एच	सुबेदार मेजर	निरंजन नाथ
634	जेसी202039पी	सुबेदार मेजर	आर चावानवेला थंगछुअन
635	जेसी211269के.	सुबेदार मेजर	डब्ल्यू डब्ल्यू
636	जेसी548198के.	सुबेदार	भावेन राजबोगशी
637	जेसी548411वाइ	सुबेदार	बिजय कुमार नरजारी, एसएम
638	जेसी548294एक्स	सुबेदार	चंद्रा सखाराम सिंघा
639	जेसी548609एक्स	सुबेदार	दुर्गेश्वर तालुकदार
640	जेसी225848एफ	सुबेदार	गनेश च. पतगिरी
641	जेसी548304एक्स	सुबेदार	गिरेन्द्र सरकार
642	जेसी216905डब्ल्यू	सुबेदार	गोपीनाथ मिश्रा
643	जेसी548421एच	सुबेदार	गोड मोहन सिंघा
644	जेसी548393एफ	सुबेदार	जीएस नगायोपम
645	जेसी548268एक्स	सुबेदार	हरकेश्वर रौय
646	जेसी548321एक्स	सुबेदार	हेमन्त कुमार दास
647	जेसी548282के.	सुबेदार	लखीधर नाथ
648	जेसी183061एच	सुबेदार	महेश्वर नाथ
649	जेसी548328एफ	सुबेदार	प्रवीन चंद्रा नरजारी
650	जेसी548067वाइ	सुबेदार	प्रदीप चंद्रा राय
651	जेसी829153एन	सुबेदार	प्राण गोपाल शर्मा
652	जेसी548242एच	सुबेदार	पूर्णा चंद्रा परीद
653	जेसी548141पी	सुबेदार	सियाजमा
654	जेसी548026पी	सुबेदार	समरजीत सिन्हा
655	जेसी548644ए	सुबेदार	सीबेन्द्रा नाथ पतगिरी
656	जेसी548100एल	सुबेदार	सुधीर कुमार रौय
657	जेसी548635वाइ	सुबेदार	बी एससी

बिहार रेजीमेन्ट

658	जेसी196597एक्स	सुबेदार मेजर	हीरा चांद भगत
659	जेसी218347वाइ	सुबेदार मेजर	जय कुमार सिंह
660	जेसी220240एच	सुबेदार मेजर	मधु प्रधान बारी
661	जेसी216638ए	सुबेदार मेजर	प्रेम चांद कुमार सिंह
662	जेसी218035एच	सुबेदार मेजर	सत्य नारायण झा
663	जेसी199307ए	सुबेदार मेजर	सम्भू नाथ पाण्डेय
664	जेसी203793एच	सुबेदार मेजर	सुकारमन प्रसाद सिंह
665	जेसी558292एफ	सुबेदार	अजीत कुमार सिंह
666	जेसी224578एल	सुबेदार	सी सोय
667	जेसी558555पी	सुबेदार	दरबान हंसद

668	जेसी558543ए	सुबेदार	देवा संगारा
669	जेसी558627ए	सुबेदार	देवेन्द्र प्रसाद सिंह
670	जेसी558691एल	सुबेदार	जगदीश सिंह
671	जेसी558667पी	सुबेदार	कन्हैया सिंह
672	जेसी558612एल	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह
673	जेसी558588एच	सुबेदार	रमा चंद्रा जेना
बहार रेजीमेन्ट			
674	जेसी568241एफ	सुबेदार मेजर	ए महादेव टी
675	जेसी178660आइ	सुबेदार मेजर	बाल चांद
676	जेसी205288ए	सुबेदार मेजर	भरत लाल तिवारी
677	जेसी202094एल	सुबेदार मेजर	दिलावर सिंह
678	जेसी181022एच	सुबेदार मेजर	माधक्याड विश्वनाथ बिथल
679	जेसी218079ए	सुबेदार मेजर	कुलदीप सिंह
680	जेसी185052आइ	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह नेगी
681	जेसी173938ए	सुबेदार मेजर	प्रवीन भीमा
682	जेसी185559एफ	सुबेदार मेजर	रमेश्वर दयाल
683	जेसी201145एफ	सुबेदार मेजर	साजन कुंवर
684	जेसी224281के.	सुबेदार मेजर	सरोज मनी
685	जेसी568231एक्स	सुबेदार मेजर	केद प्रकाश,
686	जेसी568906एम	सुबेदार	बेटाला सिंह
687	जेसी568508एल	सुबेदार	मंवर सिंह मखर
688	जेसी568994एन	सुबेदार	बीरबल सिंह
689	जेसी568974ए	सुबेदार	दलीप सिंह
690	जेसी568623एल	सुबेदार	दलीप सिंह खसबखाल
691	जेसी568911एक्स	सुबेदार	देशराज यादव
692	जेसी568529एफ	सुबेदार	फकीर राम
693	जेसी568749एम	सुबेदार	गुस्मेल सिंह
694	जेसी568734एच	सुबेदार	जयवीर सिंह रावत
695	जेसी568989एम	सुबेदार	जनक सिंह
696	जेसी568907पी	सुबेदार	जसवीर सिंह
697	जेसी568744एम	सुबेदार	कमल सिंह
698	जेसी568748के.	सुबेदार	राजेंद्र सिंह
699	जेसी568508एक्स	सुबेदार	रमेश रावत
700	जेसी568534एम	सुबेदार	राम कुमार
701	जेसी568792एम	सुबेदार	रोहतास सिंह
702	जेसी568904एफ	सुबेदार	सूरज भान
703	जेसी568777एक्स	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह
704	जेसी568928के.	सुबेदार	सुरजीत सिंह
705	जेसी568102के.	सुबेदार	तास चांद
706	जेसी568578आय	सुबेदार	तरसेन सिंह
707	जेसी568813एक्स	सुबेदार	वरधन सिंह

जम्मू एवं कश्मीर राईफलस

708	जेसी578230एच	सुबेदार मेजर	बिशम्बर दास	
709	जेसी87199ए	सुबेदार मेजर	दधीचि राम गोतम	आर टी
710	जेसी220809वाइ	सुबेदार मेजर	देवी चांद	
711	जेसी220798एक्स	सुबेदार मेजर	जोगिंदर सिंह	
712	जेसी578129एच	सुबेदार मेजर	मदन लाल	
713	जेसी578164एल	सुबेदार मेजर	मोहिन्दर सिंह	
714	जेसी578176ए	सुबेदार मेजर	पारस राम	
715	जेसी578038वाइ	सुबेदार मेजर	राम लाल	
716	जेसी578076पी	सुबेदार मेजर	राम पोल	
717	जेसी578098एन	सुबेदार मेजर	रत्ना बहादुर राय	
718	जेसी578712एक्स	सुबेदार	बाबू राम पउदेल	
719	जेसी578823पी	सुबेदार	बलवान सिंह	
720	जेसी579445एन	सुबेदार	बलवंत सिंह	
721	जेसी579125वाइ	सुबेदार	भूरी सिंह	
722	जेसी579069एल	सुबेदार	चमन लाल	
723	जेसी578631एक्स	सुबेदार	दलजीत सिंह	
724	जेसी579350एन	सुबेदार	दर्शन लाल	
725	जेसी579290के.	सुबेदार	देव राज	
726	जेसी579339पी	सुबेदार	दिलबाग सिंह मनकोटिया	
727	जेसी578539वाइ	सुबेदार	ज्ञान चांद	
728	जेसी579342पी	सुबेदार	गीता राम	
729	जेसी579561डब्ल्यू	सुबेदार	गुलाब सिंह	
730	जेसी528287एफ	सुबेदार	हारुन राम	
731	जेसी579157एफ	सुबेदार	जगन सिंह	
732	जेसी579166एच	सुबेदार	जिया लाल	
733	जेसी578690के.	सुबेदार	कपालदेव सिंह	
734	जेसी579363एल	सुबेदार	मनी राम	
735	जेसी578365के.	सुबेदार	मान सिंह	
736	जेसी578442एन	सुबेदार	निर्मल सिंह मुल्तानी	
737	जेसी578650एच	सुबेदार	ओम प्रकाश	
738	जेसी579233एच	सुबेदार	रघबीर सिंह	
739	जेसी578406एच	सुबेदार	रमेश चांद	
740	जेसी578768के.	सुबेदार	रवि सिंह राजवल	
741	जेसी579369एम	सुबेदार	संजीवन सिंह	
742	जेसी579276एक्स	सुबेदार	विजय पोल	

लद्दाख स्काउट

743	जेसी183575ए	सुबेदार मेजर	सोनम आंगछुक
744	जेसी218394डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सोनम फुनचोक
745	जेसी588023के.	सुबेदार	प्रीतम सिंह रकवाल

746 जेसी588016एन नागा रेजीमेन्ट	सुबेदार	ताशी एन एसएम	
747 जेसी538513एफ	सुबेदार	धर्म पाल शिवकंद	
748 जेसी224458एम	सुबेदार	एल अन्नाम तंगखुल	
749 जेसी590101पी	सुबेदार	श्यामा चरण पंत	
<u>जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल</u>			
750 जेसी172090एक्स	सुबेदार मेजर	सरदार अली	
751 जेसी172094एन	सुबेदार मेजर	सारीफ दीन	
752 जेसी592126ए	सुबेदार मेजर	स्वामी राज	बीएम
753 जेसी592273एच	सुबेदार	अब्दुल अहद वाणी	
754 जेसी592451ए	सुबेदार	अब्दुल रशीद	
755 जेसी592434ए	सुबेदार	अमर नाथ	
756 जेसी592566एफ	सुबेदार	अनिल कुमार	
757 जेसी592557एम	सुबेदार	चरण दास शर्मा	
758 जेसी592177एन	सुबेदार	चरनजीत सिंह ए	
759 जेसी592336ए	सुबेदार	दर्शन लाल शर्मा	
760 जेसी592613ए	सुबेदार	देव राज	
761 जेसी592406एन	सुबेदार	दीवान चांद	
762 जेसी592334पी	सुबेदार	गनपत राज शर्मा	
763 जेसी592612एक्स	सुबेदार	जी एच मोहम्मद शेख	
764 जेसी592313वाइ	सुबेदार	मदन लाल	
765 जेसी592472डब्ल्यू	सुबेदार	मुंशी राम	
766 जेसी592401पी	सुबेदार	रत्तन लाल	
767 जेसी592449एच	सुबेदार	रोमल सिंह	
768 जेसी592480पी	सुबेदार	रोमेश सिंह	
769 जेसी592535एन	सुबेदार	समसउद दीन मलिक	
770 जेसी592138पी	सुबेदार	वी देव शर्मा	
<u>1 गोरखा राईफल्स</u>			
771 जेसी602041ए	सुबेदार मेजर	एल प्रसाद प्रधान	
772 जेसी205331पी	सुबेदार मेजर	शंकर जंग थापा	
773 जेसी602205एल	सुबेदार	जीबच नाथ थापा	
774 जेसी602256वाइ	सुबेदार	कीर्ती मान थापा	
775 जेसी602187एन	सुबेदार	लाल बहादुर छत्री	
776 जेसी602281एक्स	सुबेदार	सोबन राज थापा	
777 जेसी602259एम	सुबेदार	तेज बहादुर गुरंग	
778 जेसी602269डब्ल्यू	सुबेदार	तुकाराम बहादुर मगर	
779 जेसी602327पी	सुबेदार	उजर सिंग थापा	

3 गोरखा राईफल

780	जेसी220835ए	सुबेदार मेजर	लाल बहादुर थापा
781	जेसी202154पी	सुबेदार मेजर	रण बहादुर पुन
782	जेसी607082एन	सुबेदार मेजर	श्याम बहादुर थापा
783	जेसी607409एफ	सुबेदार	झालाक बहादुर पुन
784	जेसी607374डब्ल्यू	सुबेदार	जून बहादुर मगर
785	जेसी607403ए	सुबेदार	लील बहादुर थापा
786	जेसी607204एम	सुबेदार	नंदा बहादुर थापा
787	जेसी607372एल	सुबेदार	सूर्य बहादुर राना
788	जेसी607375बाइ	सुबेदार	टांक बहादुर घले
789	जेसी607355एल	सुबेदार	तेज बहादुर थापा

4 गोरखा राईफल

790	जेसी205354डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	धानदु राज गुरंग
791	जेसी612096एक्स	सुबेदार मेजर	राम कुमार
792	जेसी205784ए	सुबेदार मेजर	रंजीत सिंह थापा
793	जेसी612194एक्स	सुबेदार	बीना बहादुर थापा
794	जेसी612291पी	सुबेदार	तारा कुमार तमंग

5 गोरखा राईफल

795	जेसी88403ए	सुबेदार मेजर	निरंजन प्रसाद उपाध्या	आर टी
796	जेसी617101एफ	सुबेदार मेजर	बंगदी यलमो	
797	जेसी617237एल	सुबेदार	दिगल बहादुर गुरंग	
798	जेसी617442एम	सुबेदार	हेम कुमार गुरंग	
799	जेसी617403एन	सुबेदार	कमल बहादुर गुरंग	
800	जेसी617331पी	सुबेदार	कृष्णा बहादुर थापा	

6 गोरखा राईफल

801	जेसी205816एक्स	सुबेदार मेजर	अल्बर्ट शिरिंग लेपचा	
802	जेसी205823एन	सुबेदार मेजर	बसिंद्र बी	
803	जेसी205815पी	सुबेदार मेजर	दल बहादुर गुरंग	
804	जेसी107440एन	सुबेदार मेजर	शिव कुमार सप्तकोशी	आर टी
805	जेसी823368एम	सुबेदार	भोपाल बहादुर गुरंग	
806	जेसी823149डब्ल्यू	सुबेदार	योगेन्द्र सिंह थापा	

7 गोरखा राईफल

807	जेसी224334एक्स	सुबेदार मेजर	नेत्रा बहादुर साही	
808	जेसी211405पी	सुबेदार	बिबनू बहादुर छत्री	
809	जेसी829476एम	सुबेदार	राजेंद्र बहादुर माल	
810	जेसी829605डब्ल्यू	सुबेदार	राम बहादुर छत्री	

11. संविधान अनुसूची 4

811	जेसी196932डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गोपाल राय
812	जेसी20574एल	सुबेदार मेजर	केमल लामा
813	जेसी884012वाइ	सुबेदार मेजर	रामेश्वर दास रवीश
814	जेसी194708एल	सुबेदार मेजर	संता कुमार लिम्बू
815	जेसी634150ए	सुबेदार	लोक बहादुर राय
816	जेसी834295एल	सुबेदार	मान प्रसाद राय
<u>सेना सेवा कर्मी दक्षिण</u>			
817	जेसी880593वाइ	सुबेदार मेजर	अजय कुमार
818	जेसी880607एन	सुबेदार मेजर	अमरितनाथ के. बी
819	जेसी880785एच	सुबेदार मेजर	भीम सिंह
820	जेसी880850पी	सुबेदार मेजर	ब्रम गिरि
821	जेसी880888एन	सुबेदार मेजर	जी. प्रेम कुमार
822	जेसी88664एन	सुबेदार मेजर	जगदीश प्रसाद शर्मा
823	जेसी880703एच	सुबेदार मेजर	जय राम सिंह खोन्ग
824	जेसी219847एम	सुबेदार मेजर	कुमार स्वामी के. वाइ
825	जेसी213018के.	सुबेदार मेजर	महादेवन के.
826	जेसी217291एल	सुबेदार मेजर	महेश कुमार सुब्बा
827	जेसी880717एच	सुबेदार मेजर	मोहम्मद हफीजुर रहमान
828	जेसी213897एफ	सुबेदार मेजर	मोहर सिंह
829	जेसी213653के.	सुबेदार मेजर	निर्मय सिंह
830	जेसी880801एम	सुबेदार मेजर	पाल सिंह
831	जेसी840558पी	सुबेदार मेजर	पी अमेरुल्ला खान
832	जेसी213630एच	सुबेदार मेजर	प्रभाकरण सी
833	जेसी209891वाइ	सुबेदार मेजर	राजेंद्र सिंह
834	जेसी880856डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राजेंद्र ठाकुर
835	जेसी840240एक्स	सुबेदार मेजर	राजेन सेकिआ
836	जेसी840423एन	सुबेदार मेजर	रमेश चांद पटियाल
837	जेसी860427एल	सुबेदार मेजर	शोकत राम सिंह गुर्जर
838	जेसी213596एन	सुबेदार मेजर	सुकुमारन के. वी
839	जेसी213567वाइ	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार शर्मा
840	जेसी209964एन	सुबेदार मेजर	टी पद्मा राज
841	जेसी840479ए	सुबेदार मेजर	वीरान्ना हवलदार
842	जेसी840455डब्ल्यू	सुबेदार	बालारमन पी
843	जेसी840273एच	सुबेदार	भगत राम गंगार्ड
844	जेसी841823डब्ल्यू	सुबेदार	बिरेन्द्रा चौबे
845	जेसी213584वाइ	सुबेदार	छिन्दर पाल सिंह
846	जेसी881195के.	सुबेदार	राम प्रसाद पुन
847	जेसी840837ए	सुबेदार	हनुमान सिंह
848	जेसी840418एच	सुबेदार	इन्द्रा देव पांडे

अनर टी

849	जेसी661105के.	सुबेदार	जीवन लाल
850	जेसी641193एक्स	सुबेदार	कण्णन दास चंदेल
851	जेसी641192पी	सुबेदार	कुल भूषण कोतवाल
852	जेसी661933एच	सुबेदार	महांगु सिंह यादव
853	जेसी640566एन	सुबेदार	मेहक सिंह
854	जेसी640941एन	सुबेदार	मोहिन्दर पाल सिंह
855	जेसी640942डब्ल्यू	सुबेदार	नरिंदर सिंह ठाकुर
856	जेसी641196एल	सुबेदार	ओ मथाना गोपाल
857	जेसी662003एन	सुबेदार	पूनम चांद शर्मा
858	जेसी661925के.	सुबेदार	प्रहलाद लाल
859	जेसी208991एक्स	सुबेदार	प्रकाश चंद्र जोशी
860	जेसी661802एक्स	सुबेदार	राम अवतार
861	जेसी641065ए	सुबेदार	राम किशन सिंह
862	जेसी640005वाइ	सुबेदार	रनवीर सहाय सक्सेना
863	जेसी641109एम	सुबेदार	सदानन्दा सी यू
864	जेसी641639एफ	सुबेदार	साधु सिंह
865	जेसी642240डब्ल्यू	सुबेदार	सत पाल
866	जेसी641173के.	सुबेदार	श्री राम सिंह ढका
867	जेसी641829एन	सुबेदार	श्रीनिवास के.
868	जेसी661150के.	सुबेदार	सोहन लाल
869	जेसी641226एक्स	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार कटोच
सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन			

870	जेसी680104के.	रिसालदार मेजर	अशोक कुमार
871	जेसी680103एफ	रिसालदार मेजर	छोटे लाल यादव
872	जेसी680069एम	रिसालदार मेजर	किस्टोफर लकरा
873	जेसी680105एम	रिसालदार मेजर	शिबा पाडा पान
874	जेसी680274एन	रिसालदार	अजीत कुमार पोल
875	जेसी680292डब्ल्यू	रिसालदार	अप्लातुन
876	जेसी680279एन	रिसालदार	चंद्रा बहादुर थापा
877	जेसी680451एच	रिसालदार	दुबे सिंह
878	जेसी680336एफ	रिसालदार	गोपाल दत्त
879	जेसी680337के.	रिसालदार	लक्ष्मन यादव
880	जेसी680291एन	रिसालदार	महेंद्र सिन्हा
881	जेसी680313एफ	रिसालदार	ओमकार नाथ
882	जेसी680316पी	रिसालदार	राम बहादुर यादव
883	जेसी680267एक्स	रिसालदार	राम प्यारे सिंह
884	जेसी680260एन	रिसालदार	शिव प्रसाद
885	जेसी680303एक्स	रिसालदार	श्री राम
सेना चिकित्सा कोर			

886	जेसी690893पी	सुबेदार मेजर	बलवान सिंह
-----	--------------	--------------	------------

887	जेसी691298एक्स	सुबेदार मेजर	बृज मोहन दूदी	
888	जेसी212193एफ	सुबेदार मेजर	देस राज	
889	जेसी83477एल	सुबेदार मेजर	देवी प्रसाद मनोरी	आर टी
890	जेसी691475एम	सुबेदार मेजर	धनंजय कुमार सिंह	
891	जेसी692271एम	सुबेदार मेजर	दुखिया लाल	
892	जेसी212199एच	सुबेदार मेजर	ऋतेश केश पोल	
893	जेसी690212एफ	सुबेदार मेजर	जोसेफ इक्का	
894	जेसी213952एच	सुबेदार मेजर	कृष्णन सिंह राना	
895	जेसी690956एम	सुबेदार मेजर	एम जेवियर	
896	जेसी690761एफ	सुबेदार मेजर	राधे श्याम	
897	जेसी691568एफ	सुबेदार मेजर	रघुनाथ	
898	जेसी692269पी	सुबेदार मेजर	रघुनाथ तिवारी	
899	जेसी691715वाइ	सुबेदार मेजर	राजबीर सिंह सिनसिनवर	
900	जेसी691573एम	सुबेदार मेजर	सुरेंद्र प्रसाद सिंह	
901	जेसी692012के.	सुबेदार मेजर	स्वामी प्रसाद	
902	जेसी692498ए	सुबेदार	ए मणिवान्नन	
903	जेसी692747एन	सुबेदार	हरी. राम जाट	
904	जेसी691142ए	सुबेदार	हयात सिंह दिअप्पा	
905	जेसी692281डब्ल्यू	सुबेदार	जय सिंह नाथ	
906	जेसी693174एफ	सुबेदार	कृष्णन नायर आर	
907	जेसी693416वाइ	सुबेदार	लक्ष्मण नाइक	
908	जेसी692746एल	सुबेदार	मोरे अम्बादास दगादुजी	
909	जेसी691848पी	सुबेदार	पद्माकरन एम जी.	
910	जेसी693236डब्ल्यू	सुबेदार	पीर मोहम्मद खान	
911	जेसी692716एन	सुबेदार	राजबीर सिंह	
912	जेसी691842एन	सुबेदार	रति पाल सिंह	
913	जेसी690545एन	सुबेदार	श्यामल चातेजी	
914	जेसी692899पी	सुबेदार	सुखपाल सिंह	
915	जेसी213971एन	सुबेदार	सुरेंद्र प्रसाद सिंह	
916	जेसी692720डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश कुमार शुक्ला	
917	जेसी693119एल	सुबेदार	विष्णु शंकर पांडे	

सेना आयुध कोर

918	जेसी223203ए	सुबेदार मेजर	बाबू राम
919	जेसी223129के.	सुबेदार मेजर	भगवान सिंह
920	जेसी217525के.	सुबेदार मेजर	बिजय कुमार डे
921	जेसी722342ए	सुबेदार मेजर	बिशन सिंह जीना
922	जेसी217370ए	सुबेदार मेजर	चंद्रा नारायण यादव
923	जेसी221724पी	सुबेदार मेजर	खेम चांद
924	जेसी722503एक्स	सुबेदार मेजर	मुख्त्यार सिंह
925	जेसी217724एक्स	सुबेदार मेजर	फिलिप पी जी.
926	जेसी722428वाइ	सुबेदार मेजर	पूरन चांद

927	जेसी722085एन	सुबेदार मेजर	पूर्णचंद्र राव तालासिला
928	जेसी722734एन	सुबेदार मेजर	राज नारायण दुबे
929	जेसी722123वाइ	सुबेदार मेजर	राम भगत
930	जेसी722097एच	सुबेदार मेजर	रमेश कुमार
931	जेसी217484एल	सुबेदार मेजर	रणधीर सिंह दहिया
932	जेसी722093एम	सुबेदार मेजर	रण सिंह
933	जेसी217375वाइ	सुबेदार मेजर	रण सिंह
934	जेसी225192वाइ	सुबेदार मेजर	रोशन लाल छेकर
935	जेसी221620एन	सुबेदार मेजर	सुरेशन ई एम
936	जेसी723156डब्ल्यू	सुबेदार	अल्लावक्स एम
937	जेसी722954एक्स	सुबेदार	अमर सिंह
938	जेसी723114के.	सुबेदार	अशोक कुमार आचार्य
939	जेसी723295ए	सुबेदार	बलबीर सिंह
940	जेसी722949एम	सुबेदार	बंश नारायण सिंह यादव
941	जेसी722883एफ	सुबेदार	धर्मपाल सिंह
942	जेसी722928डब्ल्यू	सुबेदार	दिलीप कुमार मुखोपाध्याय
943	जेसी723131के.	सुबेदार	हरी लाल कुशवाहा
944	जेसी723054ए	सुबेदार	कन्हैया प्रसाद
945	जेसी723151एक्स	सुबेदार	मुरुतुंजय प्रधान
946	जेसी723128के.	सुबेदार	रंजीत सिंह लतवाल
इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स			

947	जेसी188988एन	सुबेदार मेजर	ए चंद्रा सेकारन
948	जेसी210167एफ	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार
949	जेसी221947एम	सुबेदार मेजर	बंसी बदन दास
950	जेसी210206पी	सुबेदार मेजर	बिरेन्द्रा कुमार सिंह
951	जेसी222262ए	सुबेदार मेजर	बुधी सिंह ठाकुर
952	जेसी188984एक्स	सुबेदार मेजर	छज्जू राम मलिक
953	जेसी188990एल	सुबेदार मेजर	मोदाबारीश बेहेरा
954	जेसी748555एल	सुबेदार मेजर	गोपी ई एन
955	जेसी209133एफ	सुबेदार मेजर	इंद्र सिंह दलाल
956	जेसी749308के.	सुबेदार मेजर	जय केशवर महतो
957	जेसी210192ए	सुबेदार मेजर	जय पाल एन
958	जेसी218789एक्स	सुबेदार मेजर	जरनैल सिंह
959	जेसी222207के.	सुबेदार मेजर	जॉयस केजी
960	जेसी189111वाइ	सुबेदार मेजर	जुगल किशोर षांडे
961	जेसी188817एफ	सुबेदार मेजर	कमल जीत पोल
962	जेसी218838पी	सुबेदार मेजर	कंबर सिंह जोशी
963	जेसी748459डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	लाल जेआइ राम
964	जेसी188978के.	सुबेदार मेजर	लाल सिंह
965	जेसी218811एक्स	सुबेदार मेजर	लुदुकि प्रसाद यादव
966	जेसी209205ए	सुबेदार मेजर	एम गुनाशेखरन

967	जेसी225488एफ	सुबेदार मेजर	महावीर चांद
968	जेसी218774पी	सुबेदार मेजर	महेंद्र पाल सिंह
969	जेसी221833एफ	सुबेदार मेजर	नफे सिंह
970	जेसी207227ए	सुबेदार मेजर	नारायण सिंह
971	जेसी211881एफ	सुबेदार मेजर	नवनीधा कृष्णन के.
972	जेसी225110के.	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश वर्मा
973	जेसी188801एन	सुबेदार मेजर	पद्म सिंह मैरा
974	जेसी210189ए	सुबेदार मेजर	पूरन चांद
975	जेसी217271एफ	सुबेदार मेजर	पुष्कर सिंह अधिकारी
976	जेसी225153वाइ	सुबेदार मेजर	रबी शेखर पांडे
977	जेसी217268ए	सुबेदार मेजर	रमा प्रसाद डे
978	जेसी225157पी	सुबेदार मेजर	रमेश आनंदा देवरे
979	जेसी188820एफ	सुबेदार मेजर	राम जीवन पाल
980	जेसी747031ए	सुबेदार मेजर	राम करन सिंह चौहान
981	जेसी181623एफ	सुबेदार मेजर	राम किशोर तिवारी
982	जेसी225000एफ	सुबेदार मेजर	राम कुमार सिंह
983	जेसी211873वाइ	सुबेदार मेजर	राम यज्ञा
984	जेसी207224एफ	सुबेदार मेजर	रतन साहा
985	जेसी210186वाइ	सुबेदार मेजर	रवि के एन
986	जेसी189580एल	सुबेदार मेजर	रेडी वेंकटेश्वरलु
987	जेसी224052वाइ	सुबेदार मेजर	रोमेश चांद
988	जेसी207200एच	सुबेदार मेजर	रूप सिंह
989	जेसी211685एन	सुबेदार मेजर	शम्भू दयाल
990	जेसी749018एफ	सुबेदार मेजर	श्याम बहादुर सिंह
991	जेसी748971पी	सुबेदार मेजर	सोमारी लाल
992	जेसी217757एच	सुबेदार मेजर	सुभाष चंद्र वशिष्ठ
993	जेसी210148वाइ	सुबेदार मेजर	सुदाप्पन ईश्वरन
994	जेसी747383पी	सुबेदार मेजर	उमा दत्ता
995	जेसी208183एम	सुबेदार मेजर	विजयन ए
996	जेसी207230ए	सुबेदार मेजर	वी पी सुकुमारन
997	जेसी748064एफ	सुबेदार	अरुण गंगोपाध्याय
998	जेसी752586एच	सुबेदार	आशा प्रसाद
999	जेसी755261ए	सुबेदार	बीर कुंवर सिंह
1000	जेसी749814पी	सुबेदार	चंद्रन पिल्लई केजी
1001	जेसी755318के.	सुबेदार	हंसा के.
1002	जेसी748110वाइ	सुबेदार	होशियार सिंह
1003	जेसी750069एम	सुबेदार	इन्द्रा पाल सिंह धामा
1004	जेसी750048वाइ	सुबेदार	कमलजीत कंवर
1005	जेसी752994एन	सुबेदार	खिलष सिंह
1006	जेसी756195पी	सुबेदार	के. यादगीरी
1007	जेसी752471पी	सुबेदार	माधव चंद्रा बेनरजी
1008	जेसी750730एन	सुबेदार	महावीर सिंह

आर टी

1009 जेसी756032एफ	सुबेदार	मेवालाल
1010 जेसी752877एच	सुबेदार	मोहम्मद मुक्तार
1011 जेसी754218एम	सुबेदार	नन्द किशोर सिंह
1012 जेसी756338के.	सुबेदार	एन राजेन्द्रन
1013 जेसी747640एफ	सुबेदार	पटेल एस जे
1014 जेसी749542ए	सुबेदार	पी पनाथन करुपिआह
1015 जेसी749059डब्ल्यू	सुबेदार	पी सिंह मन्हास
1016 जेसी752238एफ	सुबेदार	राजा राम
1017 जेसी751553एल	सुबेदार	आर श्रीनिवासुलु
1018 जेसी749714के.	सुबेदार	शत्रुघ्न मोहाप
1019 जेसी753410के.	सुबेदार	शेक अब्दुल खादर वाली
1020 जेसी750325डब्ल्यू	सुबेदार	शियो जी सिंह
1021 जेसी750717के.	सुबेदार	शिक्रे रविन्द्रनाथ दिनाकर
1022 जेसी754703एफ	सुबेदार	सोम दत्त
1023 जेसी752588एन	सुबेदार	सोमपाल शर्मा
1024 जेसी747481पी	सुबेदार	उमा शंकर राम
1025 जेसी748198एन	सुबेदार	विरेन्द्र सिंह
1026 जेसी753077डब्ल्यू	सुबेदार	विस्वनाथन ए

सेना शिक्षा कोर

1027 जेसी211919एम	सुबेदार मेजर	बनारसी लाल
1028 जेसी203368एक्स	सुबेदार मेजर	दीपक कुमार कनोजिया
1029 जेसी206078एल	सुबेदार मेजर	दुली चांद
1030 जेसी206350एम	सुबेदार मेजर	धीसा राम
1031 जेसी206844डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	हरीश चंद्रा चौबे
1032 जेसी203985ए	सुबेदार मेजर	कौशलेश दुबे
1033 जेसी211933वाइ	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह
1034 जेसी203371एक्स	सुबेदार मेजर	राम कुमार धीर
1035 जेसी203369ए	सुबेदार मेजर	सत बीर सिंह
1036 जेसी225477के.	सुबेदार	दालमोर सिंह
1037 जेसी207069डब्ल्यू	सुबेदार	धर्म पाल सिंह बिष्ट
1038 जेसी223043एल	सुबेदार	केवल सिंह कुतलेरीया
1039 जेसी203374एल	सुबेदार	कृष्णापाल सिंह
1040 जेसी217168एम	सुबेदार	प्रताप चंद्रा चौधरी

रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

1041 जेसी797089एल	रिसालदार मेजर	भोपाल सिंह
1042 जेसी797115एफ	रिसालदार	राम प्रकाश
1043 जेसी797175डब्ल्यू	रिसालदार	एस सिगमानी

आसुचना कोर

1044 जेसी201507एक्स	सुबेदार मेजर	अशोक राज समकरिया
---------------------	--------------	------------------

1045 जेसी195511एफ	सुबेदार मेजर	दलपती सिंह
1046 जेसी198391वाइ	सुबेदार मेजर	जगमोहन सिंह तोमर
1047 जेसी197802ए	सुबेदार मेजर	कुलदीप सिंह
1048 जेसी223397एन	सुबेदार मेजर	समर बहादुर साही
1049 जेसी200267वाइ	सुबेदार	बिश्वम्भर नाथ सिंह
1050 जेसी810018एल	सुबेदार	चंद्र मनी
1051 जेसी198388वाइ	सुबेदार	जोगिंदर सिंह
1052 जेसी810007वाइ	सुबेदार	राजिन्दर सिंह
1053 जेसी198384एच	सुबेदार	सुखचैन सिंह

सेना पुलिस कोर

1054 जेसी215411ए	सुबेदार मेजर	नार सिंह शेखावत
1055 जेसी215428एन	सुबेदार मेजर	राजेंद्र प्रसाद सिंह
1056 जेसी215399के.	सुबेदार मेजर	विजय सिंह
1057 जेसी818336के.	सुबेदार	चाउबे राम यादव
1058 जेसी818456एच	सुबेदार	हरी शंकर
1059 जेसी818363एन	सुबेदार	जगन नाथ सिंह
1060 जेसी818422पी	सुबेदार	नाग रेडी

सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

1061 जेसी166818एल	सुबेदार मेजर	इन्द्रा सिंह
1062 जेसी826069एच	सुबेदार	शेर सिंह कत्वाल

पायोनियर कोर

1063 जेसी829178ए	सुबेदार	समभाजी बीरादर
------------------	---------	---------------

रक्षा सुरक्षा कोर

1064 टीजे2783एच	सुबेदार मेजर	चरनजी लाल
1065 जेसी172453डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	के बालाकृष्णन्
1066 जेसी164691एन	सुबेदार मेजर	पूरन सिंह
1067 जेसी171674डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	तुलसी दास
1068 जेसी841035एम	सुबेदार	दीना नाथ गुप्ता
1069 जेसी840904के	सुबेदार	के कृष्णन्
1070 जेसी840848डब्ल्यू	सुबेदार	फूल चंद प्रसाद
1071 जेसी840372पी	सुबेदार	प्रभात सिंह

प्रादेशिक सेना

1072 टीजे4567	सुबेदार	हराले लक्ष्मन यशवन्तराव
1073 टीजे3315पी	सुबेदार	जानकी सरन पटेल
1074 टीजे3342	सुबेदार	केदार नाथ साखिया
1075 टीजे3611ए	सुबेदार	मेहंगा सिंह
1076 टीजे3960के	सुबेदार	एम राधाकृष्णन्

1077	टीजे3215एफ	सुबेदार	एन किट्टापुन
1078	टीजे3516	सुबेदार	फिलिप रोंगमल
1079	टीजे3933ए	सुबेदार	राज बहादुर
1080	टीजे3050	सुबेदार	राम निवास
1081	टीजे3967एन	सुबेदार	राम मूर्ती
1082	टीजे3363एफ	सुबेदार	सुरेश चंद
1083	टीजे3326एफ	सुबेदार	विलास जंगली

[सं. बी/43432/आर डी-06/एजी/सी डब्ल्यू-2]

अनूप एस जामवाल, लै. जनरल, एडजुटेंट जनरल

MINISTRY OF DEFENCE

(Army Branch)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2006

No. 1(E) dated 26 January, 2006.— The President is pleased to grant honorary commission to the rank of Honorary Captain/Lieutenant on the eve of Republic Day 2006 to the undermentioned Honorary Lieutenants/JCOs on active list under para 177 of Regulations for the Army 1987, with effect from 26 January 2006 :-

TO BE HONORARY CAPTAINS**4 HORSE**

1 JC237726K RIS & HONY LT PARAM SINGH
CENTRAL INDIA HORSE

2 JC236605W RIS MAJ & HONY LT KARNAIL SINGH
65 ARMOURD REGIMENT

3 JC236135W RIS MAJ & HONY LT PRAHLAD SINGH SHEKHAWAT
85 ARMOURD REGIMENT

4 JC235865P RIS MAJ & HONY LT MOHAN SINGH
88 ARMOURD REGIMENT

5 JC237948Y RIS & HONY LT BETAL SINGH
6 ARMOURD REGIMENT

6 JC196729A RIS MAJ & HONY LT NAVNATH AHERKAR
ARMOURD REGIMENT

7 JC236488A RIS & HONY LT SANTOKH SINGH
REGIMENT OF ARTILLERY

8 JC217549N SUB MAJ & HONY LT BANSI DHAR SINGH

9 JC193116P SUB MAJ & HONY LT GYAN SINGH

10 JC196560A SUB MAJ & HONY LT HARSEVAK SINGH MULTANI

11 JC209328M SUB MAJ & HONY LT JAGR SINGH

12	JC213420H	SUB MAJ & HONY LT	JALADHAR MOHANTY
13	JC193420Y	SUB MAJ & HONY LT	KASI NATH
14	JC179637X	SUB MAJ & HONY LT	MADAN LAL
15	JC199110K	SUB MAJ & HONY LT	SURJAN SINGH
16	JC262217W	SUB & HONY LT	AMRIK SINGH
17	JC259053A	SUB & HONY LT	BHINWA RAM CHAUDHARY
18	JC264292Y	SUB & HONY LT	DHIAN SINGH
19	JC260121P	SUB & HONY LT	DIMBESWAR NATH
20	JC261266M	SUB & HONY LT	HARDEV SINGH
21	JC226602P	SUB & HONY LT	KARAM SINGH CHOUHAN
22	JC263174Y	SUB & HONY LT	KULDEEP CHAND
23	JC256482W	SUB & HONY LT	RAJASEKARAN G
24	JC150006M	SUB & HONY LT	RAMA KANT
25	JC260369Y	SUB & HONY LT	SAMA RAJU G
26	JC262935M	SUB & HONY LT	SATYA PARKASH
27	JC259747A	SUB & HONY LT	S NAGA RAJAN, SM
28	JC256441M	SUB & HONY LT	THANKARAJAN PILLAI

(RT)

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

29	JC161801M	SUB MAJ & HONY LT	E NARAYAN MANOHAR
30	JC206176L	SUB MAJ & HONY LT	MOHINDER SINGH RANA
31	JC186832X	SUB MAJ & HONY LT	RAM AWADH
32	JC221178N	SUB & HONY LT	GORDHAN SINGH
33	JC256767H	SUB & HONY LT	MAHINDER SINGH
34	JC296332H	SUB & HONY LT	S SETHU RAMANUJA PERUMAL SAMY

MADRAS ENGINEER GROUP

35	JC196986X	SUB MAJ & HONY LT	K PERUMAL
36	JC197070P	SUB MAJ & HONY LT	K PRAKASAM
37	JC196985P	SUB MAJ & HONY LT	M NARSIHMA REDDY
38	JC191235M	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDIRAN
39	JC305939Y	SUB & HONY LT	B BAKTHANATHAN
40	JC305148F	SUB & HONY LT	S NITHIYANANTHAN
41	JC305001L	SUB & HONY LT	V VARADARAJULU

BENGAL ENGINEER GROUP

42	JC199830L	SUB MAJ & HONY LT	ARJUN SINGH
43	JC199838X	SUB MAJ & HONY LT	DAMBAR SINGH
44	JC197110L	SUB MAJ & HONY LT	GURMEJ SINGH
45	JC202912F	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH CHANDRA
46	JC199724M	SUB MAJ & HONY LT	SUKHMINDER SINGH
47	JC326852L	SUB & HONY LT	ARBIND SINGH
48	JC326910K	SUB & HONY LT	JARNAIL SINGH
49	JC326897L	SUB & HONY LT	MEWA SINGH
50	JC327249P	SUB & HONY LT	RAM NIWAS TIWARI

BOMBAY ENGINEER GROUP

51	JC203027M	SUB MAJ & HONY LT	PRITAM LAL
52	JC348031W	SUB MAJ & HONY LT	SALEEM A
53	JC200102A	SUB MAJ & HONY LT	SUBHASH SHINDE
54	JC348139N	SUB & HONY LT	BHOSLE LAXMAN BAPU
55	JC348876P	SUB & HONY LT	DARBARA SINGH
56	JC348108N	SUB & HONY LT	HASSAN MOHAMMAD
57	JC347737Y	SUB & HONY LT	PAWAR RAVINDRA SAKHARAM
58	JC348407M	SUB & HONY LT	SHEO SHANKAR PRASAD
59	JC348479W	SUB & HONY LT	VISHWARUP SINGH

CORPS OF SIGNALS

60	JC188206M	SUB MAJ & HONY LT	ASHWAT THAMA
61	JC188233W	SUB MAJ & HONY LT	DARSHANA NAND YATI
62	JC83720X	SUB MAJ & HONY LT	DEVENDRA KUMAR RAWAT (RT)
63	JC368379M	SUB MAJ & HONY LT	GURDAS SINGH
64	JC206915M	SUB MAJ & HONY LT	HARENDRA NATH SAIKIA
65	JC368419H	SUB MAJ & HONY LT	HEM RAJ
66	JC368073K	SUB MAJ & HONY LT	LAL BABU KUMAR
67	JC180941N	SUB MAJ & HONY LT	MAHABIR SINGH PARMAR
68	JC368290A	SUB MAJ & HONY LT	PRONAB KUMAR ROY
69	JC196115X	SUB MAJ & HONY LT	RABINDRA NATH DWIVEDI
70	JC214016A	SUB MAJ & HONY LT	RAM KUMAR PATEL
71	JC368491Y	SUB MAJ & HONY LT	SURESAN K
72	JC368698Y	SUB MAJ & HONY LT	VISHWANATH PANDEY
73	JC369531F	SUB & HONY LT	M S NANJAN
74	JC373228X	SUB & HONY LT	MANSA RAM
75	JC373216H	SUB & HONY LT	SHANKAR KUMAR BADIJENA

THE BRIGADE OF GUARDS

76	JC205439M	SUB MAJ & HONY LT	DESH RAM
77	JC194491M	SUB MAJ & HONY LT	RAMA PATI
78	JC403061W	SUB & HONY LT	AMRIT CHANDRA PATAR
79	JC403060N	SUB & HONY LT	BIDYA RAM NATH
80	JC402841P	SUB & HONY LT	NARESH

THE PARACHUTE REGIMENT

81	JC192852F	SUB MAJ & HONY LT	INDRA MANI RAI, SM
82	JC193650M	SUB MAJ & HONY LT	KARTAR CHAND
83	JC412368H	SUB & HONY LT	HIRA SINGH RANA

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

84	JC211640N	SUB MAJ & HONY LT	GURDIAL SINGH
85	JC206650N	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH CHAND

86	JC418551F	SUB & HONY LT	KARAN SINGH
87	JC418879H	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH

THE PUNJAB REGIMENT

88	JC201811F	SUB MAJ & HONY LT	BHAG SINGH
89	JC192858H	SUB MAJ & HONY LT	MOHINDER SINGH
90	JC428085L	SUB MAJ & HONY LT	NIRANJAN DASS
91	JC428314L	SUB MAJ & HONY LT	VIJAY KUMAR KATOCH
92	JC428042W	SUB & HONY LT	JAGIR SINGH
93	JC428512W	SUB & HONY LT	SUBH KARAN

THE MADRAS REGIMENT

94	JC192536H	SUB MAJ & HONY LT	GOPINA TRINATHA RAO
95	JC438069F	SUB & HONY LT	P KESAVULU
96	JC220891Y	SUB & HONY LT	S ANBARASAN

THE GRENADIERS

97	JC218217W	SUB MAJ & HONY LT	GURDIAL SINGH JARIAL
98	JC199207A	SUB MAJ & HONY LT	OM PRAKASH
99	JC182932L	SUB MAJ & HONY LT	RAJPAL
100	JC216749X	SUB MAJ & HONY LT	SHAMBHOO SINGH GAHLOT
101	JC448634F	SUB & HONY LT	CHAMAN LAL
102	JC449038F	SUB & HONY LT	FAQIR SINGH
103	JC449096L	SUB & HONY LT	RAM KISHAN
104	JC448277K	SUB & HONY LT	RAMVIR SINGH CHAUHAN
105	JC448290N	SUB & HONY LT	SHIMBU SINGH

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

106	JC175006X	SUB MAJ & HONY LT	A C ACHAPPA
107	JC212859P	SUB MAJ & HONY LT	PATIL HINDURAO BHIVA
108	JC181802W	SUB MAJ & HONY LT	RADE RAMAHARI PANDURANG
109	JC203658P	SUB MAJ & HONY LT	TANAJIRAO HARIBA ZHAMBRE
110	JC171700M	SUB MAJ & HONY LT	UTTEKAR BALARAM BABA
111	JC458529Y	SUB & HONY LT	HARANE DADARAM PANDURANG

THE RAJPUTANA RIFLES

112	JC192924A	SUB MAJ & HONY LT	GOVERDHAN SINGH
113	JC468444W	SUB & HONY LT	MANDRUP SINGH
114	JC468860A	SUB & HONY LT	RAMESH KUMAR

THE RAJPUT REGIMENT

115	JC224408F	SUB MAJ & HONY LT	DHIAN SINGH
116	JC478372L	SUB MAJ & HONY LT	GANGADHAR SHARMA
117	JC478658A	SUB MAJ & HONY LT	KAMAL SINGH
118	JC216811Y	SUB MAJ & HONY LT	MAHIPAL SINGH

119	JC167201A	SUB MAJ & HONY LT	RAMBHUL SINGH RAGHAVE
120	JC478758L	SUB & HONY LT	BHADRA PAL
121	JC478478X	SUB & HONY LT	IQBAL BAHADUR SINGH
122	JC478931K	SUB & HONY LT	RAJENDRA SINGH SOMVANSHI

THE JAT REGIMENT

123	JC488778M	SUB MAJ & HONY LT	JAI SINGH
124	JC212941K	SUB MAJ & HONY LT	KARTAR SINGH
125	JC488527H	SUB MAJ & HONY LT	RAM KARN
126	JC488728F	SUB & HONY LT	AJAI KUMAR
127	JC488334H	SUB & HONY LT	HAWA SINGH
128	JC488440F	SUB & HONY LT	JHUMARA RAM RAYAL
129	JC488036M	SUB & HONY LT	RAM CHANDER FOGAT

THE SIKH REGIMENT

130	JC192967P	SUB MAJ & HONY LT	AJIT SINGH
131	JC171949Y	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH
132	JC193777P	SUB MAJ & HONY LT	PARMJIT SINGH
133	JC181857A	SUB MAJ & HONY LT	SATPAL SINGH, SM
134	JC498715X	SUB & HONY LT	KULWANT SINGH
135	JC498263A	SUB & HONY LT	SARABJIT SINGH, SM
136	JC498374X	SUB & HONY LT	SURINDER SINGH
137	JC204299Y	SUB MAJ & HONY LT	AVTAR SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

138	JC508483A	SUB & HONY LT	SURJIT SINGH
139	JC508156P	SUB & HONY LT	TEJA SINGH

THE DOGRA REGIMENT

140	JC518389K	SUB MAJ & HONY LT	DHARAM CHAND LAKHANPAL
141	JC518344K	SUB MAJ & HONY LT	PRITHVI RAJ
142	JC518458P	SUB MAJ & HONY LT	RAM LAL
143	JC519339L	SUB & HONY LT	GURDIAL SINGH

THE GARHWAL RIFLES

144	JC208400L	SUB MAJ & HONY LT	BALAM SINGH
145	JC196526W	SUB MAJ & HONY LT	RAUNPAL CHAND RAMOLA
146	JC528955P	SUB & HONY LT	KANTA PRASAD, SM
147	JC529146Y	SUB & HONY LT	SURENDRA PRASAD SUNDERIYAL

THE KUMAON REGIMENT

148	JC205226Y	SUB MAJ & HONY LT	HARISH SINGH
149	JC199316F	SUB MAJ & HONY LT	JIWA NAND
150	JC87354W	SUB MAJ & HONY LT	PARMANAND NAUTIYAL (RT)
151	JC538563M	SUB & HONY LT	AZAD SINGH

152	JC539045Y	SUB & HONY LT	HARI KRISHAN PANDEY, SM
153	JC538991L	SUB & HONY LT	HARS SINGH
154	JC538747L	SUB & HONY LT	JAGDISH PRASHAD
155	JC539090L	SUB & HONY LT	JOHAR SINGH
156	JC538390A	SUB & HONY LT	KRIPAL SINGH
157	JC538689M	SUB & HONY LT	MANOHAR SINGH
158	JC538790M	SUB & HONY LT	OM PRAKASH
159	JC538740P	SUB & HONY LT	RAJENDAR PARSAD

THE ASSAM REGIMENT

160	JC83650K	SUB MAJ & HONY LT	BHGWATE PRASAD NUTYAL	(RT)
161	JC88410W	SUB MAJ & HONY LT	LALZIRLIEN BIETE	(RT)
162	JC204335Y	SUB MAJ & HONY LT	SHYAMA CHARAN BORO	
163	JC211275X	SUB MAJ & HONY LT	ZOSANGMAWIA	
164	JC219758K	SUB & HONY LT	NABAGHAN BEHURA	

THE BIHAR REGIMENT

165	JC212968F	SUB MAJ & HONY LT	LAL MOHAN MANJHI
166	JC216920L	SUB MAJ & HONY LT	ROBERT KIRO

THE MAHAR REGIMENT

167	JC218537L	SUB MAJ & HONY LT	SUCHA SINGH
168	JC829125F	SUB & HONY LT	BAHADUR SINGH
169	JC568876A	SUB & HONY LT	BIJENDRA KUMAR
170	JC568916W	SUB & HONY LT	DINESH KUMAR SINGH
171	JC568745P	SUB & HONY LT	KASHMIR SINGH
172	JC568596M	SUB & HONY LT	KHEM SINGH, SM
173	JC569078Y	SUB & HONY LT	MEMPAL SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

174	JC578064A	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH SINGH
175	JC578300W	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER SINGH
176	JC528192F	SUB MAJ & HONY LT	KULDIP SINGH RANA
177	JC578140F	SUB MAJ & HONY LT	VIJAY SINGH
178	JC579013Y	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH
179	JC579130K	SUB & HONY LT	HARDIAL SINGH
180	JC578990L	SUB & HONY LT	SARDAR ALI
181	JC578940A	SUB & HONY LT	SHAMSHER SINGH
182	JC578904P	SUB & HONY LT	WARYAM SINGH, SM

THE LADAKH SCOUTS

183	JC218593K	SUB MAJ & HONY LT	LOBZANG CHHERING
-----	-----------	-------------------	------------------

THE NAGA REGIMENT

184	JC590115P	SUB & HONY LT	BHAGAT SINGH
-----	-----------	---------------	--------------

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

185	JC202140P	SUB MAJ & HONY LT	AB RASHID PRY
186	JC188699Y	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH KUMAR
187	JC178132P	SUB MAJ & HONY LT	MAHAWALI KHAN
188	JC592329K	SUB & HONY LT	BUPINDER SINGH
189	JC592463P	SUB & HONY LT	MOHAN LAL

1 GORKHA RIFLES

190	JC208447W	SUB MAJ & HONY LT	HARINARAYAN SHARMA
191	JC219812M	SUB MAJ & HONY LT	KARANVIR GURUNG

3 GORKHA RIFLES

192	JC218117L	SUB MAJ & HONY LT	SUK BAHADUR RANA
193	JC607052W	SUB MAJ & HONY LT	YAM BAHADUR GURUNG

4 GORKHA RIFLES

194	JC82841M	SUB MAJ & HONY LT	GANGA DHAR SHARMA	(RT)
195	JC612394N	SUB & HONY LT	BISHWA PRAKASH THAPA	

5 GORKHA RIFLES

196	JC222853F	SUB MAJ & HONY LT	JAI RAM SINGH
-----	-----------	-------------------	---------------

8 GORKHA RIFLES

197	JC212803H	SUB MAJ & HONY LT	HARI SINGH
-----	-----------	-------------------	------------

9 GORKHA RIFLES

198	JC629005Y	SUB MAJ & HONY LT	SURESH BAHADUR MALL
-----	-----------	-------------------	---------------------

11 GORKHA RIFLES

199	JC193028Y	SUB MAJ & HONY LT	MADAN KUMAR RAI
-----	-----------	-------------------	-----------------

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

200	JC660648X	SUB MAJ & HONY LT	HIRA RAY	
201	JC660438X	SUB MAJ & HONY LT	KULDEEP SINGH	
202	JC660536X	SUB MAJ & HONY LT	LACHHAMAN DASS	
203	JC202566W	SUB MAJ & HONY LT	RAJPAL SINGH	
204	JC660630F	SUB MAJ & HONY LT	RAMA KANT TIWARI	
205	JC660575W	SUB MAJ & HONY LT	RAM AWTAR	
206	JC660653H	SUB MAJ & HONY LT	ROHITASHW	
207	JC660389A	SUB MAJ & HONY LT	SAJAN SINGH	
208	JC640428M	SUB MAJ & HONY LT	SHANKAR KRISHNAJI PITAMBRE	
209	JC660642W	SUB MAJ & HONY LT	THAKUR BAHADUR CHHETRI	
210	JC131785L	SUB & HONY LT	JAGDISH PRASAD TIWARI	(RT)
211	JC131786N	SUB & HONY LT	RAMA SHANKAR TIWARI	(RT)

212 JC118688P SUB & HONY LT SHIW BACHAN SINGH (RT)
ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

213 JC680061A RIS MAJ & HONY LT SHER SINGH
 214 JC680295F RIS & HONY LT HARE RAM RAI
 215 JC680452L RIS & HONY LT K RAMAKRISHNAN
 216 JC680275W RIS & HONY LT PREM SINGH, SM

ARMY MEDICAL CORPS

217 JC196077M SUB MAJ & HONY LT DINESH CHANDRA
 218 JC691023K SUB MAJ & HONY LT VIJAY KUMAR BHARMORIA
 219 JC693411A SUB & HONY LT BANSODE UTTAM PUNYAVANT
 220 JC693172W SUB & HONY LT BHAGABAN SWAIN
 221 JC692727A SUB & HONY LT BRIJ MOHAN
 222 JC693586H SUB & HONY LT PRAFULLA KUMAR SARKAR
 223 JC692957N SUB & HONY LT SASI M
 224 JC692729L SUB & HONY LT THAKUR PRASAD TRIPATHI

ARMY ORDNANCE CORPS

225 JC223198A SUB MAJ & HONY LT AMAR SINGH
 226 JC722146A SUB MAJ & HONY LT GOPAL R
 227 JC217372L SUB MAJ & HONY LT KEWAL SINGH
 228 JC221655K SUB MAJ & HONY LT MAHESAN K
 229 JC223148P SUB MAJ & HONY LT MAKHAN LAL GIRI
 230 JC722451M SUB MAJ & HONY LT VELAYUDHA KURUP C
 231 JC723098X SUB & HONY LT VIJAYAN K

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

232 JC747384X SUB MAJ & HONY LT BALI RAM
 233 JC187830Y SUB MAJ & HONY LT BIJAY NARAYAN
 234 JC189117A SUB MAJ & HONY LT CHHOTU RAM
 235 JC189027X SUB MAJ & HONY LT DAYA RAM GUPTA
 236 JC202193N SUB MAJ & HONY LT JAGAT RAM DABRAL
 237 JC209149M SUB MAJ & HONY LT JAGRUP SINGH ROHIL
 238 JC188816Y SUB MAJ & HONY LT KANWAL SINGH
 239 JC750862F SUB MAJ & HONY LT MOHANAN MP
 240 JC207237K SUB MAJ & HONY LT NABA KUMAR RAY
 241 JC189128M SUB MAJ & HONY LT NARESH CHANDRA KARMAKAR
 242 JC202191H SUB MAJ & HONY LT RANJIT SINGH
 243 JC209134K SUB MAJ & HONY LT S JOHNS IYAPPAN
 244 JC202195Y SUB MAJ & HONY LT SUJIT KUMAR CHOWDHURY
 245 JC189026W SUB MAJ & HONY LT SUKHDEV SINGH
 246 JC748556N SUB MAJ & HONY LT SURENDRA SINGH
 247 JC189010L SUB MAJ & HONY LT SURESH KUMAR
 248 JC218802W SUB MAJ & HONY LT VEER BALASAHEB TATYABA

249	JC756024H	SUB & HONY LT	DEVI SINGH
250	JC748402F	SUB & HONY LT	MADAN SINGH
251	JC749919Y	SUB & HONY LT	RAI SINGH
252	JC753263M	SUB & HONY LT	RAMESHWAR PRASAD SINGH
253	JC753081Y	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR

ARMY EDUCATION CORPS

254	JC206797K	SUB MAJ & HONY LT	ANAND PARKASH
255	JC206076A	SUB MAJ & HONY LT	RAJINDER SINGH SONI
256	JC203990L	SUB MAJ & HONY LT	SURJIT SINGH

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

257	RV7769A	RIS & HONY LT	CHATTAR SINGH
-----	---------	---------------	---------------

THE INTELLIGENCE CORPS

258	JC221340A	SUB MAJ & HONY LT	CHANCHAL SINGH
259	JC199008N	SUB & HONY LT	JANAK SINGH RANA

CORPS OF MILITARY POLICE

260	JC215423P	SUB MAJ & HONY LT	KASI REDDY RAMAKRISHNA REDDY
-----	-----------	-------------------	------------------------------

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

261	JC826029F	SUB & HONY LT	A PANNEER SELVAM
-----	-----------	---------------	------------------

ARMY POSTAL SERVICE

262	JC136046H	SUB MAJ & HONY LT	RANJIT SINGH VISHWAKARMA
-----	-----------	-------------------	--------------------------

DEFENCE SECURITY CORPS

263	JC840143K	SUB & HONY LT	BARHOO RAM
264	JC840430N	SUB & HONY LT	GOPALAKRISHNAN K
265	JC168983N	SUB & HONY LT	JAGAN NATH SINGH
266	JC840583X	SUB & HONY LT	KARAM CHAND

TERRITORIAL ARMY

267	TJ3184	SUB MAJ & HONY LT	DHARAMPAL SINGH
268	TJ3165	SUB MAJ & HONY LT	PAONAM KHELENDRA SINGH
269	TJ4554	SUB & HONY LT	BABU SHANKAR PATIL
270	TJ3778K	SUB & HONY LT	GANPAT SINGH
271	TJ3920	SUB & HONY LT	LAXMI KANT PANDEY
272	TJ3624X	SUB & HONY LT	MUNNA LAL BATHAM
273	TJ4287K	SUB & HONY LT	PRASANNA KUMAR
274	TJ3515	SUB & HONY LT	SURENDER SINGH

TO BE HONORARY LIEUTENANT**PRESIDENT'S BODY GUARD**

1 JC200832L RIS MAJ HARDEV SINGH
7 CAVALRY

2 JC237014F RIS MAJ GULA RAM
8 CAVALRY

3 JC236123F RIS MAJ AMARJEET SINGH
2 LANCERS

4 JC236813L RIS MAJ AJAI PRATAP SINGH
17 HORSE

5 JC211498P RIS MAJ DHANI RAM
6 JC235791L RIS MAJ SUCHA SINGH
9 HORSE

7 JC237754W RIS MAHENDRA KUMAR
3 CAVALRY

8 JC237170L RIS MAJ BHAGWANA RAM
62 CAVALRY

9 JC236153Y RIS MAJ RAM PAT
65 ARMoured REGIMENT

10 JC219039L RIS MAJ RAMVIR SINGH
11 JC237598X RIS BALBIR SINGH
12 JC238044L RIS DARSHAN LAL
13 JC238607A RIS NARINDER CHAND
14 JC239211H RIS PRAHLAD
15 JC237596M RIS RAM DASS
67 ARMoured REGIMENT

16 JC236254M RIS MAJ BHUPINDER SINGH
69 ARMoured REGIMENT

17 JC236816Y RIS MAJ BALBIR SINGH
70 ARMoured REGIMENT

18 JC236956L RIS MAJ RAMESH LAL
19 JC237673W RIS TIRUPATHI RAO DARA

82 ARMoured REGIMENT

20 JC238610A RIS

JAY PRAKASH PANDIT

85 ARMoured REGIMENT

21 JC238642H RIS

SODAN SINGH

86 ARMoured REGIMENT

22 JC239073M RIS

BEGA RAM

89 ARMoured REGIMENT

23 JC237703H RIS

RAM SUKH

41 ARMoured REGIMENT

24 JC236350F RIS MAJ

RAJINDER SINGH

46 ARMoured REGIMENT

25 JC236337X RIS MAJ

BHAG SINGH KAUNDAL

ARMoured CORPS

26 JC83858M RIS MAJ

C R SHARMA BHARDWAJ (RT)

27 JC235996A RIS MAJ

SATVIR SINGH KADAIN

28 JC236495M RIS

JUGAL KISHORE MEHTA

29 JC236790P RIS

SUBH KARAN DIWANA

REGIMENT OF ARTILLERY

30 JC219996W SUB MAJ

BABU RAM

31 JC86000F SUB MAJ

BHOJ RAJ SHARMA (RT)

32 JC221246W SUB MAJ

BIDHUR SINGH KHATTRI

33 JC221233Y SUB MAJ

BODH RAJ

34 JC200279N SUB MAJ

BRIJ BIHARI SHARMA

35 JC86762P SUB MAJ

BRIJ KISHORE MOHAN (RT)

36 JC193492H SUB MAJ

DALBIR SINGH

37 JC226306K SUB MAJ

DARSHAN SINGH

38 JC216313M SUB MAJ

GARIB DASS

39 JC213422N SUB MAJ

HARMOHINDER SINGH

40 JC203911L SUB MAJ

JADHAVA KEDAREPPA JYOTEPPA

41 JC226046K SUB MAJ

JADHAV ANANDA GANGARAM

42 JC195154K SUB MAJ

KARNAIL SINGH

43 JC210063A SUB MAJ

MAHENDRA SINGH

44 JC200146X SUB MAJ

MAHENDRA SINGH TOMER

45 JC174191K SUB MAJ

PURUSHOTHAMAN P V

46 JC214401K SUB MAJ

RAJAN

47 JC200338P SUB MAJ

RAM KARAN GAUTAM

48 JC200311X SUB MAJ

RAM KISHAN YADAV

49	JC203873A	SUB MAJ	RAM PRATAP	
50	JC200385M	SUB MAJ	RANJIT SINGH	
51	JC86761M	SUB MAJ	SATYA PRASAD MISHRA	(RT)
52	JC193400L	SUB MAJ	SHAIK ABDUL KHADAR	
53	JC201655H	SUB MAJ	SHEO BADAN RAM	
54	JC226598X	SUB MAJ	UDAI PRATAP SINGH	
55	JC262130P	SUB	AMRIK SINGH	
56	JC257016N	SUB	AWNISH KUMAR TRIPATHI	
57	JC203877W	SUB	BALWINDER SINGH	
58	JC259544W	SUB	BANWARI LAL	
59	JC259190Y	SUB	BASA WANNI LAXMANA DHANAGAR	
60	JC257262Y	SUB	BHAG SINGH	
61	JC264265P	SUB	BIRENDER SINGH	
62	JC259636H	SUB	BIRPAL SINGH TOMER	
63	JC260640X	SUB	CHHAIL SINGH	
64	JC264663W	SUB	DEBENDRA PRASAD SINGH	
65	JC255129X	SUB	DHARAM SINGH	
66	JC261722M	SUB	DUKHA BANDHU SAHU	
67	JC264777F	SUB	FAQUIR CHAND	
68	JC264024P	SUB	GAJRAJ SINGH RATHORE	
69	JC256858M	SUB	GURDEV SINGH	
70	JC258745H	SUB	HARBIR SINGH	
71	JC260748P	SUB	HARPHOOL SINGH	
72	JC258958W	SUB	HARSAL SINGH	
73	JC259525L	SUB	HOSHIYAR SINGH	
74	JC225279Y	SUB	INDER SINGH	
75	JC259266N	SUB	IQBAL SINGH	
76	JC261129N	SUB	JAGDISH LAL	
77	JC262354P	SUB	KALE GOVIND GANGA RAM	
78	JC257656X	SUB	KAPIL DEO	
79	JC263033K	SUB	KISHANBIHARI SINGH	
80	JC258078A	SUB	LALA RAM YADAV	
81	JC261858W	SUB	MALKIT SINGH	
82	JC260029W	SUB	MAN SINGH	
83	JC264074A	SUB	MOHAN SINGH	
84	JC263075W	SUB	MOTI CHAND YADAV	
85	JC259581K	SUB	NARESH KUMAR DAGAR	
86	JC260203X	SUB	OM PAL	
87	JC226759P	SUB	PARKASH CHAND CHOUHAN	
88	JC262700A	SUB	PEETHAMBARAN K	
89	JC261859Y	SUB	PIAR CHAND	
90	JC258414F	SUB	RAJA RAM YADAV	
91	JC262205F	SUB	RAJENDER PARSHAD	
92	JC262187K	SUB	RAMESH CHAND RANOUT	
93	JC261039M	SUB	RAM KISHAN	

94	JC257967L	SUB	RAM PYARE YADAV
95	JC264328M	SUB	SAGAR SINGH
96	JC258707M	SUB	SALWINDER SINGH NIJJAR
97	JC264898H	SUB	SHRI GAJRAJ SINGH YADAV
98	JC256663F	SUB	SHYAM BIHAR SINGH
99	JC259348W	SUB	SITA RAM
100	JC259517M	SUB	S KANAGA SABAPATHY
101	JC259831A	SUB	SUBEDAR SINGH
102	JC262782N	SUB	SUKHDEV RAJ
103	JC259837F	SUB	SULTAN SINGH
104	JC260848A	SUB	SULTAN SINGH RATHORE, SM
105	JC265929K	SUB	SWARN SINGH
106	JC258810X	SUB	VASANT JADHAV
107	JC263003M	SUB	VIJAYAN P
108	JC259635A	SUB	VIJAYA RAGHVAN K
109	JC262857A	SUB	YAD RAM YADAV

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

110	JC209305L	SUB MAJ	CHARAN SINGH
111	JC177004L	SUB MAJ	JHAL BAHADUR GURUNG
112	JC200481F	SUB MAJ	JOKHAN SINGH
113	JC197886Y	SUB MAJ	MANJIT SINGH
114	JC175586X	SUB MAJ	NAND KISHORE YADAVA
115	JC169775L	SUB MAJ	RAGHUNATH PANDEY
116	JC216296X	SUB MAJ	ROHITASHV SINGH
117	JC297710H	SUB	AMIN CHAND
118	JC296176K	SUB	ANIRUDDHA NAYAK
119	JC255411H	SUB	BAL KISHAN
120	JC297418N	SUB	CHAKRADHAR NAYAK
121	JC140232W	SUB	CHANDRA MOHAN
122	JC297249X	SUB	DEV RAJ
123	JC297193W	SUB	DILBAG SINGH
124	JC296983Y	SUB	E MEENATCHI SUNDARAM
125	JC296335W	SUB	GAYAN SWROOP
126	JC296753L	SUB	GYAN PRAKASH
127	JC224614L	SUB	KUSHAL CHAND MANHAS
128	JC255739K	SUB	MOHINDER SINGH PARMAR
129	JC296746P	SUB	NATWAR LAL PANDEY
130	JC297177Y	SUB	PARIMAL BISWAS
131	JC296045Y	SUB	SHIVARAM SINGH
132	JC256751X	SUB	SURJEET SINGH
133	JC297895P	SUB	YADAB CHANDRA RAY

(RT)

MADRAS ENGINEER GROUP

134	JC305197K	SUB MAJ	JAYAKKUMAR A
-----	-----------	---------	--------------

135	JC184850F	SUB MAJ	MURTHI	
136	JC79988X	SUB MAJ	NARAYAN PRASAD SHARMA	(RT)
137	JC82815L	SUB MAJ	NITYANANDAM P	(RT)
138	JC197015Y	SUB MAJ	RAMACHANDRAN V S	
139	JC196970M	SUB MAJ	R JAYARAM	
140	JC182648P	SUB MAJ	R KRISHNAN	
141	JC199679L	SUB MAJ	SADASHIVA	
142	JC305210H	SUB MAJ	S ELAMPARUTHI	
143	JC86479F	SUB MAJ	SUBRAMANIAN P	(RT)
144	JC197060L	SUB MAJ	T DILIP KUMAR	
145	JC196953M	SUB MAJ	VEERASAMY PRATHAPA REDDY	
146	JC197007A	SUB MAJ	VENUGOPAL M	
147	JC305135K	SUB MAJ	YADVELLI VENKATESWARLU	
148	JC191252M	SUB MAJ	Y MICHEAL	
149	JC306467A	SUB	A SELVAM	
150	JC306400F	SUB	BALASUBRAMANIAN D	
151	JC306131A	SUB	C JAYACHANDRAN	
152	JC306016A	SUB	C MOORTHY	
153	JC306087F	SUB	C RAJAMANICKAM	
154	JC305978X	SUB	GOVINDAN N	
155	JC305570Y	SUB	GUJJALA NAGA RAJU	
156	JC306096H	SUB	I PALANISAMY	
157	JC306371X	SUB	JAYARAJAN	
158	JC305800F	SUB	JOSEPH GEORGE K G	
159	JC305717K	SUB	JOSEPH T S	
160	JC305783M	SUB	KARIMI RAMA RAO	
161	JC305779K	SUB	K KANDARAJ	
162	JC306526F	SUB	KRISHNAN K	
163	JC306233W	SUB	K SUNDARA MURTHY	
164	JC306564X	SUB	MARRAPU VEERA VENKATARAMANA	
165	JC305714W	SUB	MOHAMMAD ILAS	
166	JC305121K	SUB	MUNISAMY	
167	JC306691M	SUB	N GOVINDAN	
168	JC306222K	SUB	P JAYAPALAN	
169	JC305106P	SUB	P MANI	
170	JC306180H	SUB	P RAMAMOORTHY	
171	JC306527K	SUB	R RAJENDRAN	
172	JC305153M	SUB	REVI K	
173	JC305942Y	SUB	R KOSAL RAM	
174	JC306571N	SUB	R PERUMAL	
175	JC306024Y	SUB	S SELVARAJ	

BENGAL ENGINEER GROUP

176	JC210772P	SUB MAJ	AMRIT LAL SHARMA
177	JC199723K	SUB MAJ	BADRI VISHAL SINGH

178	JC207860A	SUB MAJ	BALJIT SINGH
179	JC210753K	SUB MAJ	BUA DITTA RAM CHOWDHARY
180	JC202911Y	SUB MAJ	GANESH SINGH RAWAT
181	JC202990Y	SUB MAJ	GURNAM SINGH
182	JC210574K	SUB MAJ	JAWAHAR LAL SHUKLA
183	JC210590F	SUB MAJ	KARJ SINGH
184	JC325139F	SUB MAJ	KULDIP SINGH
185	JC210457Y	SUB MAJ	KULWINDER SINGH
186	JC199785K	SUB MAJ	MUKH RAM RAM
187	JC326060L	SUB MAJ	PAWAN KUMAR SINGH
188	JC207857A	SUB MAJ	PRITAM SINGH
189	JC207579X	SUB MAJ	RAKESH CHANDRA
190	JC224896P	SUB MAJ	R R NATARAJAN
191	JC210571W	SUB MAJ	SWAPAN KUMAR MANDAL
192	JC184756X	SUB	AMBAR BAHADUR THAPA
193	JC328186K	SUB	AMIR SINGH
194	JC328074K	SUB	BACHHA SINGH
195	JC327982A	SUB	GURCHARAN SINGH
196	JC326984Y	SUB	KOSHLENDER PAL SINGH
197	JC326847A	SUB	MADAN SINGH
198	JC327252P	SUB	NATHI SINGH
199	JC215889X	SUB	NISHI KANTA SINGHA
200	JC327274N	SUB	PYARE LAL
201	JC328297F	SUB	RAVI KUMAR
202	JC327083Y	SUB	SATYA PRAKASH
203	JC326940F	SUB	SHIV PRASAD SINGH
204	JC327958K	SUB	SHYAMA PRASAD
205	JC326947L	SUB	SUNDER SINGH
206	JC327957F	SUB	SURENDER SINGH
207	JC326983W	SUB	TIKA RAM JOSHI

BOMBAY ENGINEER GROUP

208	JC200044F	SUB MAJ	HARJIT SINGH
209	JC209644L	SUB MAJ	KAMAL KISHORE
210	JC200076K	SUB MAJ	MATIULLAH
211	JC219616M	SUB MAJ	NACHHATTAR SINGH
212	JC203047A	SUB MAJ	SARN SINGH SALHAN
213	JC200038N	SUB MAJ	SHINDE SAHADEV SAKKARAM
214	JC200043Y	SUB MAJ	VISHWASRAO SHINDE
215	JC347406X	SUB	AVTAR SINGH
216	JC348285N	SUB	AWADHESH NARAYAN
217	JC348208Y	SUB	BALDEV SINGH
218	JC348255W	SUB	BALKRISHNA GOPAL YADAV
219	JC348083M	SUB	GOPICHAND BHAGOJI MALUSARE
220	JC348745K	SUB	GURCHARAN SINGH

221	JC347770W	SUB	HARMEL SINGH	
222	JC347372P	SUB	JASWINDER SINGH	
223	JC347844A	SUB	KODAG VITTHAL BAPU	
224	JC348263P	SUB	KRISHNA NAND	
225	JC203056F	SUB	KULBIR SINGH	
226	JC348107L	SUB	KUMBHAR SHAMRAV BHAIRU	
227	JC348270L	SUB	MOHAMMAD YUNIS	
228	JC348911M	SUB	MOTI LAL	
229	JC348583K	SUB	NARENDRA SINGH CHAUHAN	
230	JC348106H	SUB	PRATAP SHRIPATRAO BHOSLE	
231	JC348387K	SUB	PURAN SINGH	
232	JC348036P	SUB	SHINDE KISAN NIVRITTI	
233	JC160406M	SUB	SUCHA SINGH	(RT)
234	JC348575L	SUB	SUKHDEV SINGH	
235	JC348804L	SUB	SUKHDEV SINGH	
236	JC348246P	SUB	SURYA NARAYAN MISHRA	

CORPS OF SIGNALS

237	JC188213H	SUB MAJ	AMAR SINGH	
238	JC369226P	SUB MAJ	BACHAN SINGH	
239	JC196126K	SUB MAJ	BACHI SINGH	
240	JC368284M	SUB MAJ	BIJAYA KUMAR PRADHAN	
241	JC206925W	SUB MAJ	BIR SINGH	
242	JC207336M	SUB MAJ	DALAL CHAND SHARMA	
243	JC369208M	SUB MAJ	DARSHAN SINGH	
244	JC368697W	SUB MAJ	DHARM SINGH	
245	JC369217N	SUB MAJ	DINA NATH PANDEY	
246	JC369797N	SUB MAJ	GANESH INDU	
247	JC368391N	SUB MAJ	HEM CHANDER	
248	JC369158M	SUB MAJ	INDERJEET SINGH	
249	JC368823X	SUB MAJ	KANWALJIT SINGH BRAR	
250	JC92716W	SUB MAJ	KUL BHUSHAN MISHRA	(RT)
251	JC206855H	SUB MAJ	LILU RAM	
252	JC206926Y	SUB MAJ	MAHINDER SINGH	
253	JC223429L	SUB MAJ	MANOHAR LAL	
254	JC206862Y	SUB MAJ	MARIARPUTHAM M	
255	JC200680P	SUB MAJ	NARAIN SINGH	
256	JC368354A	SUB MAJ	NIKAM MARUTI RAMU	
257	JC370287Y	SUB MAJ	RAJ KISHORE PRASAD SINGH	(BM)
258	JC369309A	SUB MAJ	SAT PAL	
259	JC220455F	SUB MAJ	S KRISHNAMA RAJA	
260	JC369196H	SUB MAJ	SUJAN SINGH	
261	JC200679A	SUB MAJ	SURESH CHANDER	
262	JC368387L	SUB MAJ	TAJINDER SINGH MINHAS	
263	JC368908N	SUB MAJ	UMA SHANKER PRASAD	

264	JC368696N	SUB MAJ	VED PRAKASH
265	JC369211M	SUB	ANTHONY C R
266	JC369075F	SUB	ARAVINDA PRASAD V K
267	JC371577H	SUB	ATUL CHANDRA NATH
268	JC372065H	SUB	BHUVANENDRA NATHAN NAIR K
269	JC372357L	SUB	CHANDRA SEKHARAN P
270	JC370680F	SUB	C THANKA RAJAN
271	JC371245Y	SUB	DURYODHANA NAYAK
272	JC369458N	SUB	DWARIKA NATH DUBEY
273	JC371276Y	SUB	ISHWAR SINGH
274	JC371588P	SUB	JADHAV DATTU VITHAL
275	JC369958L	SUB	KAN SINGH DEORA
276	JC371233K	SUB	KISHORE CHAND
277	JC371564L	SUB	MUKUNDAN MEETHALA EDAVANA
278	JC369469A	SUB	NAGENDRA H E
279	JC371169X	SUB	NARAYANAN A
280	JC371282M	SUB	OM PARKASH
281	JC368925N	SUB	PRABHAKARAN A
282	JC371587M	SUB	PRASANNA KUMAR MOHAPATRA
283	JC371236X	SUB	RAGHAW PANDEY
284	JC370798H	SUB	RAJAN A P
285	JC220473K	SUB	RAJDEO SINGH KUSHWAHA
286	JC367747K	SUB	RAJENDRA PRASAD
287	JC371709L	SUB	RAMAKANTA OJHA
288	JC371226N	SUB	RAM ASHRAYA SINGH
289	JC372300W	SUB	RAMESH KUMAR PATHAK
290	JC367755H	SUB	RAM KISHAN
291	JC368794N	SUB	SARAJIT KUMAR MITRA
292	JC369850N	SUB	SATPAL SINGH
293	JC371229F	SUB	SHIV SHANKAR
294	JC369521X	SUB	SOMARAJAN S
295	JC370385Y	SUB	SUNANDRA SINGH TEOTIA
296	JC370941K	SUB	SURENDER BAHADUR BHARTI
297	JC371555K	SUB	SURESH KUMAR SHARMA
298	JC371451H	SUB	VARGHESE K G

THE BRIGADE OF GUARDS

299	JC184214N	SUB MAJ	GOVIND SINGH RAWAT
300	JC182917W	SUB MAJ	RAJAN PANISSERI
301	JC184904X	SUB MAJ	SALUNKHE JALINDAR DAJIRAO
302	JC208253N	SUB MAJ	SATYA CHARAN MONDAL
303	JC93806K	SUB MAJ	TARKESHWAR NATH MISHRA (RT)
304	JC402794H	SUB	BHAMAR SINGH SENGAR
305	JC402411L	SUB	DEV CHAND
306	JC402845L	SUB	MAJOR SINGH, SC

307	JC402800L	SUB	PARSHOTAM SINGH
308	JC402641Y	SUB	RAMAKANTA SAHOO
309	JC402389L	SUB	SUMANDER SINGH
310	JC402739M	SUB	TIL BAHADUR THAPA
311	JC402736Y	SUB	UMESHWAR SINGH

THE PARACHUTE REGIMENT

312	JC205047Y	SUB MAJ	AMAR SINGH BISHT
313	JC210884P	SUB MAJ	BASTI RAM YADAVA
314	JC210888L	SUB MAJ	BHANWAR SINGH
315	JC220104M	SUB MAJ	INDRA RAJ SINGH
316	JC412449H	SUB	BABU SINGH
317	JC412519W	SUB	BALDEV RAJ
318	JC412471N	SUB	BIRENDRA SINGH RAJWAR
319	JC412506Y	SUB	CHANAN SINGH
320	JC412437N	SUB	GAJRAJ SINGH
321	JC412451A	SUB	GURMAIL SINGH
322	JC412585Y	SUB	KISHAN LAL
323	JC412229Y	SUB	KRIPAL SINGH
324	JC412125X	SUB	LABH SINGH
325	JC412320P	SUB	MANJIT SINGH
326	JC412093A	SUB	PARTAP SINGH
327	JC412395M	SUB	SATHEESAN C
328	JC412426F	SUB	SHER SINGH YADAV
329	JC412094H	SUB	SITA RAM YADAV
330	JC412197F	SUB	SURAJ PARKASH

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

331	JC216397L	SUB MAJ	INDER SINGH
332	JC189710Y	SUB MAJ	ONKAR SINGH
333	JC418279A	SUB	BALJIT SINGH
334	JC419198M	SUB	BALWINDER SINGH
335	JC418897L	SUB	BHAG CHANDER SINGH
336	JC419647W	SUB	DAMODAR RANA
337	JC419031H	SUB	DES RAJ JAMWAL
338	JC418725W	SUB	DHUNDA SINGH SM
339	JC418527L	SUB	GOBIND SINGH
340	JC418736H	SUB	OM PARKASH
341	JC418456P	SUB	RAJENDER KUMAR
342	JC216408M	SUB	RAMESH KUMAR DUTTA
343	JC418999F	SUB	RAM MEHAR SINGH
344	JC419017W	SUB	VIRENDRA SINGH CHAUHAN
345	JC219228P	SUB	VISHWANATH SINGH

THE PUNJAB REGIMENT

346	JC196835Y	SUB MAJ	BALVINDER SINGH DHILLON
347	JC203622W	SUB MAJ	DARSHAN SINGH
348	JC218395Y	SUB MAJ	GURPAL SINGH
349	JC428321F	SUB MAJ	ISHWAR PRASAD RAI
350	JC205007X	SUB MAJ	JASBIR SINGH
351	JC210927Y	SUB MAJ	KEWAL SINGH
352	JC203624F	SUB MAJ	NAROTAM SINGH
353	JC222634A	SUB MAJ	PRAKASH CHAND RANA
354	JC218168Y	SUB MAJ	SURESH KUMAR
355	JC428098H	SUB MAJ	TERLOK SINGH
356	JC428224K	SUB MAJ	VIJAY KUMAR
357	JC428265N	SUB	AMIR SINGH
358	JC428741F	SUB	BALDEV SINGH
359	JC428481F	SUB	BANT SINGH
360	JC428593F	SUB	BHURI SINGH
361	JC428776X	SUB	BISHAN SINGH
362	JC428809X	SUB	CHAMAN LAL
363	JC428240F	SUB	CHARAN SINGH
364	JC428645M	SUB	DARSHAN SINGH
365	JC428736W	SUB	GURMIT SINGH
366	JC428411H	SUB	HANS RAJ
367	JC428725K	SUB	HANS RAJ SHARMA
368	JC428986X	SUB	HARNAIL SINGH
369	JC171798L	SUB	JAGDISH CHANDER
370	JC428949K	SUB	KAMAL SINGH DOGRA
371	JC428877L	SUB	KUNDAN SINGH
372	JC428896W	SUB	PAUL SINGH
373	JC196378W	SUB	PRABHU SINGH
374	JC428969X	SUB	RAJ KUMAR
375	JC428858A	SUB	ROMESH LAL
376	JC428353K	SUB	SURINDER SINGH MANKOTIA
377	JC428445W	SUB	SURJIT SINGH
378	JC428363N	SUB	WAKEIL SINGH

THE MADRAS REGIMENT

379	JC188621N	SUB MAJ	G JAYARAMAN SM
380	JC172725L	SUB MAJ	GOPAL SAMY R
381	JC193663K	SUB MAJ	G VENUGOPAL
382	JC168528L	SUB MAJ	HAREENDRAN A V
383	JC220890W	SUB MAJ	N HARINATH
384	JC194550N	SUB MAJ	RAJAGOPALAN P
385	JC181767Y	SUB MAJ	S JOSEPH RAJ
386	JC438542F	SUB	DINESAN PK

387	JC438444F	SUB	G AROKIASAMY
388	JC438818M	SUB	K VASUDEVAN
389	JC438302K	SUB	M DURAI RAJ
390	JC438123K	SUB	M PAVADAI SAMY
391	JC438088M	SUB	M YESUDOSS
392	JC438527M	SUB	SANKARAN V
393	JC438180L	SUB	VASUDEVAN NAIR G

THE GRENADIERS

394	JC184492A	SUB MAJ	BHANWAR SINGH
395	JC196178A	SUB MAJ	NIYAMAT ALI
396	JC225814N	SUB MAJ	RAJ KUMAR
397	JC208049P	SUB MAJ	RAM KISHORE
398	JC188623Y	SUB MAJ	RAM SINGH MEENA
399	JC199280M	SUB MAJ	SHAMSHAD HUSSAIN
400	JC216750M	SUB MAJ	SUNIL KUMAR
401	JC208047K	SUB MAJ	YASIN KHAN
402	JC185490H	SUB	ANURAG CHANDRA SINGH, SM
403	JC449211A	SUB	AYAN KHAN
404	JC449281Y	SUB	BHUMI DEV
405	JC449193H	SUB	BHUPENDRA SINGH
406	JC449030P	SUB	BIHARI LAL
407	JC449209H	SUB	CHHOTU
408	JC449206P	SUB	CHOUDHARI RAM
409	JC448198P	SUB	DARAB KHAN
410	JC449172H	SUB	DES RAJ
411	JC449087K	SUB	LAXMAN PRASAD MEENA
412	JC449107M	SUB	MANOHAR LAL
413	JC449106K	SUB	MANWAR KHAN
414	JC449223P	SUB	RAJINDER SINGH
415	JC448737A	SUB	RAMAWTAR
416	JC448615W	SUB	RAM CHANDER GUJAR
417	JC449175A	SUB	RAVINDER SINGH
418	JC449190P	SUB	ROSHAN LAL
419	JC449191X	SUB	SUBHASH CHAND
420	JC448906W	SUB	UDAI SINGH

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

421	JC203659X	SUB MAJ	CHEDE RAMKRISHNA BHANUDAS
422	JC188385X	SUB MAJ	HARLAL SINGH
423	JC179303H	SUB MAJ	MHASKE NAMDEO KISAN
424	JC173162H	SUB MAJ	PATIL SHANKAR BALAVANT
425	JC179317H	SUB MAJ	SALUNKHE CHANDRAKANT SHAMRAO
426	JC196425H	SUB MAJ	SAWANT SUBHASH KUDAJI
427	JC173155M	SUB MAJ	VILAS SALUNKE

428	JC458690N	SUB	AMBIRAO GOPAL SAWANT
429	JC458925P	SUB	BELAGAONKAR ASHOK SIVARAI
430	JC458456X	SUB	GAWADE PANDURANG TUKARAM
431	JC458188Y	SUB	GORE MOHAN KESHAV
432	JC528463N	SUB	JAGTAP SHIRISH YESHAWANT
433	JC458812M	SUB	KARAWANDE PRALHAD GANAPAT
434	JC458320N	SUB	KHAKE ASHOK GANAPATI
435	JC458063F	SUB	KISAN SHIVRAM PHAPALE
436	JC458423M	SUB	LAGAD VISHWANATH BAPURAO
437	JC458149A	SUB	TATYASAHIB KRISHNA CHAUHAN

THE RAJPUTANA RIFLES

438	JC211012Y	SUB MAJ	AJIT SINGH
439	JC193706N	SUB MAJ	DALIP SINGH
440	JC193708Y	SUB MAJ	GIRWAR SINGH RAJPUT
441	JC468277L	SUB MAJ	OM PRAKASH
442	JC220722X	SUB MAJ	SHISH RAM
443	JC468007W	SUB MAJ	VIJENDER SINGH
444	JC468671W	SUB	FATEH SINGH CHAUHAN
445	JC468280L	SUB	LAL SINGH
446	JC468464K	SUB	LICHHMAN SINGH
447	JC468373A	SUB	MITTAR SINGH
448	JC468626K	SUB	NARENDRA SINGH RATHORE
449	JC468229L	SUB	NIHAL SINGH
450	JC469118A	SUB	OM PARKASH
451	JC468835F	SUB	OM PRAKASH
452	JC468518A	SUB	OM PRAKASH
453	JC468945W	SUB	PRATAP SINGH
454	JC468829N	SUB	RAM KARAN SINGH
455	JC468852F	SUB	ROOP SINGH SHEKHAWAT
456	JC468902F	SUB	SATYAVIR SINGH

THE RAJPUT REGIMENT

457	JC220942F	SUB MAJ	BRAJ BHAN SINGH
458	JC193736L	SUB MAJ	CHEN RAJ SINGH HADA
459	JC478052W	SUB MAJ	DAYA-KANT PANDEY
460	JC199231L	SUB MAJ	NET RAM DAYAMA
461	JC180860N	SUB MAJ	PARTAP SINGH
462	JC88397X	SUB MAJ	RAMADHAR PANDEY (RT)
463	JC188643M	SUB MAJ	YAS PAL SINGH
464	JC478631H	SUB	ANANGPAL SINGH
465	JC478671K	SUB	ARJUN SINGH
466	JC478155P	SUB	BATTU SINGH
467	JC478590K	SUB	BHANWAR SINGH RATHORE
468	JC478926Y	SUB	BHARAT SINGH

469	JC478885A	SUB	DAL CHAND
470	JC478598W	SUB	HARI RAM
471	JC478066W	SUB	HARKESH
472	JC478734F	SUB	ISHWAR SINGH
473	JC478566N	SUB	JAGDISH CHANDER
474	JC478726H	SUB	JHABAR MAL
475	JC478495X	SUB	KHEM RAJ SINGH
476	JC478319A	SUB	MAHAVIR SINGH
477	JC216810W	SUB	MOOSARAM GURJAR
478	JC478609X	SUB	NATHU SINGH TOMAR
479	JC478891N	SUB	OM PAL SINGH
480	JC478852P	SUB	RAGHUBIR SINGH
481	JC478925W	SUB	RAJ KUMAR
482	JC478830W	SUB	RAM BAHADUR SINGH
483	JC478932M	SUB	RAM LAL
484	JC478443F	SUB	ROMESH KUMAR
485	JC478952A	SUB	ROMESH LAL
486	JC478520L	SUB	SAMAY SINGH GURJAR
487	JC478511K	SUB	SHRI PAL SINGH
488	JC478561P	SUB	SUBE SINGH
489	JC479029P	SUB	SUGAR SINGH
490	JC224533L	SUB	SUNIL CHANDRA SARKAR
491	JC478240X	SUB	SUNIL KUMAR
492	JC479128X	SUB	UDAY PRATAP SINGH
493	JC478783K	SUB	VISHNU SINGH

THE JAT REGIMENT

494	JC179350A	SUB MAJ	JAGDISH CHANDER
495	JC192936P	SUB MAJ	JAGJIT SINGH
496	JC188666N	SUB MAJ	PREM SINGH SINGROA
497	JC205927P	SUB MAJ	SHIV SINGH RAWAT
498	JC488986F	SUB	ANAND KUMAR
499	JC488854N	SUB	BABU LAL
500	JC489115N	SUB	BANWARI LAL
501	JC488771H	SUB	BIR SINGH
502	JC489098Y	SUB	JAGBIR SINGH
503	JC488772L	SUB	JAGDISH PRASAD
504	JC488852H	SUB	JAGDISH PRASAD
505	JC489074P	SUB	JAGDISH SINGH
506	JC488786L	SUB	JAIVIR SINGH
507	JC488881X	SUB	MOOL CHAND MANTH
508	JC489088P	SUB	MUKHTIAR SINGH
509	JC488842Y	SUB	NEMI CHAND
510	JC488796P	SUB	PARTAP SINGH
511	JC488873Y	SUB	PRAHALAD SINGH PHENIN

512	JC488744Y	SUB	RAJENDRA SINGH SUNDA
513	JC488848A	SUB	RAMPHAL SINGH DHALAN
514	JC488958X	SUB	RATAN LAL CHOUDHARY
515	JC488690H	SUB	RAVINDRA SINGH
516	JC488656H	SUB	RISHIOM DAGGAR
517	JC488735X	SUB	RISHIPAL SINGH
518	JC488888F	SUB	SIS RAM
519	JC488988M	SUB	TEJ BHAN SINGH

THE SIKH REGIMENT

520	JC194602Y	SUB MAJ	BALWANT SINGH
521	JC219712F	SUB MAJ	KASHMIR SINGH
522	JC184378K	SUB MAJ	SATNAM SINGH GHUMAN
523	JC192420M	SUB MAJ	SUCHA SINGH
524	JC498431N	SUB	AJIT SINGH
525	JC498540A	SUB	CHARANJIT SINGH
526	JC498707Y	SUB	DILDHAR SINGH
527	JC498389A	SUB	GURCHARAN SINGH
528	JC498113K	SUB	JAGIR SINGH
529	JC498291M	SUB	KULBIR SINGH
530	JC498315L	SUB	MANJIT SINGH
531	JC498084A	SUB	NARANJAN SINGH
532	JC498809P	SUB	RAM SINGH
533	JC498247H	SUB	SARJIT SINGH
534	JC498330A	SUB	SATNAM SINGH
535	JC498591N	SUB	SIKANDAR LAL
536	JC498420F	SUB	SUKHDEV SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

537	JC216577N	SUB MAJ	SUKHWINDER SINGH
538	JC508137K	SUB	AJIT SINGH
539	JC508168K	SUB	BALWINDER SINGH
540	JC508455N	SUB	JAGDEV SINGH
541	JC508497A	SUB	JASPAL SINGH
542	JC508476K	SUB	JASWINDER SINGH
543	JC508043M	SUB	JEEVAN SINGH
544	JC508223P	SUB	KARAMJIT SINGH
545	JC222694P	SUB	MAJER SINGH
546	JC508640F	SUB	PRAMJIT SINGH

THE DOGRA REGIMENT

547	JC518568K	SUB MAJ	BALWANT RAI
548	JC518364X	SUB MAJ	BUDHI SINGH
549	JC518145W	SUB MAJ	CHAMAN LAL
550	JC518102F	SUB MAJ	JOGINDER SINGH

551	JC518351A	SUB MAJ	ONKAR SINGH KANWAR
552	JC518403L	SUB MAJ	PREM CHAND SHARMA
553	JC518229K	SUB MAJ	RAJINDER SINGH
554	JC518483N	SUB MAJ	SURAM SINGH
555	JC518385N	SUB MAJ	SWARAN SINGH
556	JC518189N	SUB MAJ	VIJAY KUMAR
557	JC519335P	SUB	ASHOK KUMAR
558	JC519242A	SUB	BABU RAM
559	JC519453H	SUB	BHADER SINGH
560	JC519291H	SUB	DEVI RAM
561	JC519046A	SUB	DHIAN SINGH
562	JC519399A	SUB	KAMLESH CHAND CHAUHAN
563	JC518353L	SUB	KARNAIL SINGH JARYAL
564	JC519047H	SUB	MAJOR SINGH
565	JC519397P	SUB	MANOHAR LAL
566	JC519297K	SUB	SUNTOSH CHAND
567	JC519472N	SUB	SURESH KUMAR THAKUR
568	JC519040Y	SUB	SURJIT SINGH

THE GARHWAL RIFLES

569	JC196468X	SUB MAJ	BIRENDRA SINGH RAWAT
570	JC221022W	SUB MAJ	JEEVA ND DOBHAL
571	JC528198H	SUB MAJ	MAGAN SINGH
572	JC218013K	SUB MAJ	PRADEEP KUMAR
573	JC194641X	SUB MAJ	PURAN SINGH
574	JC218309H	SUB MAJ	RAGHUBIR SINGH BISHT
575	JC528040A	SUB MAJ	SUMER CHAND RAMOLA
576	JC528106L	SUB	BACHAN SINGH
577	JC529020Y	SUB	BHAGAT SINGH
578	JC529008X	SUB	BIJENDRA SINGH
579	JC529110A	SUB	BRIJMOHAN SINGH
580	JC528557L	SUB	JYOTI SINGH
581	JC528627Y	SUB	KAILASH SINGH
582	JC528753L	SUB	MAHENDRA SINGH
583	JC528719L	SUB	MAN SINGH
584	JC528617P	SUB	NANDAN SINGH RAWAT
585	JC528847H	SUB	PUSHKAR SINGH
586	JC528823Y	SUB	SABAL SINGH
587	JC528755W	SUB	SATISH CHANDRA
588	JC220227Y	SUB	SUNDER SINGH
589	JC528326P	SUB	SURENDRA SINGH NEGI

THE KUMAON REGIMENT

590	JC196555L	SUB MAJ	CHANRI CHAND
591	JC190790N	SUB MAJ	JAGAT SINGH SIROLA

592	JC538143M	SUB MAJ	LAL SINGH NEGI
593	JC196553A	SUB MAJ	TEK BAHADUR CHAND
594	JC538833W	SUB	BAHADUR SINGH
595	JC538775X	SUB	BAHADUR SINGH NEGI
596	JC539154L	SUB	BHAGWAT SINGH, SM
597	JC212668A	SUB	DALIP SINGH
598	JC538782N	SUB	DAN SINGH
599	JC538325A	SUB	DAYA KRISHAN
600	JC539298N	SUB	DHARAMBIR
601	JC538909L	SUB	DHARAM VIR
602	JC538923X	SUB	GOKAL CHAND
603	JC538544F	SUB	HANS RAJ KATOCH
604	JC538684N	SUB	INDRA DEO SINGH YADAV
605	JC538962W	SUB	JAGMOHAN SINGH
606	JC538946Y	SUB	LAL SINGH
607	JC538780H	SUB	MATHURA DATT TIWARI
608	JC538261A	SUB	MOHAN SINGH BISHT
609	JC538402K	SUB	OM PARKASH
610	JC538855P	SUB	OM PRAKASH
611	JC538945W	SUB	PARMANAND
612	JC538674K	SUB	PRATAP SINGH
613	JC539056L	SUB	PRAYAG SINGH
614	JC538976W	SUB	PURAN SINGH KALAKOTI
615	JC538810P	SUB	PUSHKAR SINGH
616	JC538200H	SUB	RAJENDRA SINGH
617	JC538608F	SUB	RAM AUTAR
618	JC185817W	SUB	RAM CHHABILA SINGH
619	JC538462Y	SUB	RAMESHWAR DAYAL YADAV
620	JC538720N	SUB	RAM PARKASH
621	JC538498X	SUB	RAM SURAT SINGH YADAV
622	JC539169N	SUB	RAM SWARUP
623	JC538688K	SUB	SHER SINGH
624	JC538289A	SUB	SHER SINGH
625	JC539010H	SUB	TRIBHUWAN SINGH
626	JC539099A	SUB	UMMED SINGH

THE ASSAM REGIMENT

627	JC211261X	SUB MAJ	ANGOM IBOBI SINGH
628	JC205663Y	SUB MAJ	ARUN GURUNG
629	JC202048W	SUB MAJ	BHABEN DAIMARY
630	JC193845X	SUB MAJ	DALIN CHANDRA ROY
631	JC204334W	SUB MAJ	JANARDAN ROY
632	JC202038M	SUB MAJ	LIANZACHIN PAITE
633	JC218519H	SUB MAJ	NIRANJAN NATH
634	JC202039P	SUB MAJ	R CHHAWNVELA THANGCHHUAN

635	JC211269K	SUB MAJ	WANGMAN WANGCHU
636	JC548198K	SUB	BHABEN RAJBONGSHI
637	JC548411Y	SUB	BIJOY KUMAR NARZARY, SM
638	JC548294X	SUB	CHANDRA SAKHAR SINGHA
639	JC548609X	SUB	DURGESWAR TALUKDAR
640	JC225848F	SUB	GANESH CH PATGIRI
641	JC548304X	SUB	GIRENDRA SARKAR
642	JC216905W	SUB	GOPINATH MISRA
643	JC548421H	SUB	GOUR MOHAN SINGHA
644	JC548393F	SUB	GS NGAYOPAM
645	JC548268X	SUB	HARKESWAR ROY
646	JC548321X	SUB	HEMANTA KUMAR DAS
647	JC548282K	SUB	LAKHIDHAR NATH
648	JC183061H	SUB	MAHESWAR NATH
649	JC548328F	SUB	PRABIN CHANDRA NARZARI
650	JC548067Y	SUB	PRADIP CHANDRA RAY
651	JC829153N	SUB	PRAN GOPAL SARMA
652	JC548242H	SUB	PURNA CHANDRA PARIDA
653	JC548141P	SUB	SAIZAMA
654	JC548026P	SUB	SAMARJIT SINHA
655	JC548644A	SUB	SIBENDRA NATH PATGIRI
656	JC548100L	SUB	SUDHIR KUMAR ROY
657	JC548635Y	SUB	VANLALCHHUANGA, SC

THE BIHAR REGIMENT

658	JC196597X	SUB MAJ	HIRA CHAND BHAGAT
659	JC218347Y	SUB MAJ	JAI KUMAR SINGH
660	JC220240H	SUB MAJ	MADHU PRADHAN BARI
661	JC216638A	SUB MAJ	PREM CHAND KUMAR SINGH
662	JC218035H	SUB MAJ	SATYA NARAYAN JHA
663	JC199307A	SUB MAJ	SHAMBHU NATH PANDAY
664	JC203793H	SUB MAJ	SUKAR PRASAD SINGH
665	JC558292F	SUB	AJEET KUMAR SINGH
666	JC224578L	SUB	CHAMPAY SOY
667	JC558555P	SUB	DARBA HANSDAH
668	JC558543A	SUB	DEVA SANGA
669	JC558662W	SUB	DEVENDRA, PRASAD SINGH
670	JC558691L	SUB	JAGDISH SINGH
671	JC558667P	SUB	KANHAIYA SINGH
672	JC558612L	SUB	LAXMAN SINGH
673	JC558558H	SUB	RAMA CHANDRA JENA

THE MAHAR REGIMENT

674	JC568241F	SUB MAJ	AJABRAO MAHADEO TELGOTE
675	JC178660Y	SUB MAJ	BAL CHAND

676	JC205266A	SUB MAJ	BHARAT LAL TIWARI
677	JC202094L	SUB MAJ	DILAWAR SINGH
678	JC181892H	SUB MAJ	GAIKWAD VISHWANATH VITHAL
679	JC218079A	SUB MAJ	KULDIP SINGH
680	JC185852Y	SUB MAJ	MOHAN SINGH NEGI
681	JC173936A	SUB MAJ	PARVE BHIMA
682	JC185559F	SUB MAJ	RAMESHWAR DIYAL
683	JC201145F	SUB MAJ	SAJJAN KUNWAR
684	JC224281K	SUB MAJ	SAROJ MANI
685	JC568231X	SUB MAJ	VED PRAKASH, VSM
686	JC568906M	SUB	BETAL SINGH
687	JC568508L	SUB	BHANWAR SINGH NARWAR
688	JC568994N	SUB	BIRBAL SINGH
689	JC568974A	SUB	DALIP SINGH
690	JC568623L	SUB	DALIP SINGH KHARAKWAL
691	JC568911X	SUB	DESHRAJ YADAV
692	JC568529F	SUB	FAKIR RAM
693	JC568749M	SUB	GURMEL SINGH
694	JC568734H	SUB	JAIVEER SINGH RAWAT
695	JC568999M	SUB	JANAK SINGH
696	JC568907P	SUB	JASBIR SINGH
697	JC568744M	SUB	KAMAL SINGH
698	JC568748K	SUB	RAJENDRA SINGH
699	JC568598X	SUB	RAMESH RAWAT
700	JC568534M	SUB	RAM KUMAR
701	JC568792M	SUB	ROHTAS SINGH
702	JC568904F	SUB	SURAJ BHAN
703	JC568777X	SUB	SURENDER SINGH
704	JC568926K	SUB	SURJIT SINGH
705	JC569102K	SUB	TARA CHAND
706	JC568575W	SUB	TARSEM SINGH
707	JC568813X	SUB	WARYAM SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

708	JC578230H	SUB MAJ	BISHAMBER DASS	
709	JC87199A	SUB MAJ	DADHI RAM GAUTAM	(RT)
710	JC220809Y	SUB MAJ	DEVI CHAND	
711	JC220798X	SUB MAJ	JOGINDER SINGH	
712	JC578129H	SUB MAJ	MADAN LAL	
713	JC578164L	SUB MAJ	MOHINDER SINGH	
714	JC578176A	SUB MAJ	PARAS RAM	
715	JC578038Y	SUB MAJ	RAM LAL	
716	JC578076P	SUB MAJ	RAM PAUL	
717	JC578098N	SUB MAJ	RATNA BAHADUR RAIE	
718	JC578712X	SUB	BABU RAM PAUDEL	

719	JC578823P	SUB	BALWAN SINGH
720	JC579445N	SUB	BALWANT SINGH
721	JC579125Y	SUB	BHURI SINGH
722	JC579069L	SUB	CHAMAN LAL
723	JC578631X	SUB	DALJIT SINGH
724	JC579350N	SUB	DARSHAN LAL
725	JC579290K	SUB	DEV RAJ
726	JC579339P	SUB	DILBAG SINGH MANKOTIA
727	JC578539Y	SUB	GIAN CHAND
728	JC579342P	SUB	GITA RAM
729	JC579561W	SUB	GULAB SINGH
730	JC528287F	SUB	HARU RAM
731	JC579157F	SUB	JAGAN SINGH
732	JC579166H	SUB	JIA LAL
733	JC578690K	SUB	KAPALDEV SINGH
734	JC579363L	SUB	MANI RAM
735	JC578365K	SUB	MAN SINGH
736	JC578442N	SUB	NIRMAL SINGH MULTANI
737	JC578650H	SUB	OM PARKASH
738	JC579233H	SUB	RAGHBIR SINGH
739	JC578406H	SUB	RAMESH CHAND
740	JC578768K	SUB	RAVI SINGH RAJWAL
741	JC579369M	SUB	SANJEEVAN SINGH
742	JC579276X	SUB	VIJAI PAUL

THE LADAKH SCOUTS

743	JC183575A	SUB MAJ	SONAM ANGCHUK
744	JC218394W	SUB MAJ	SONAM PHUNCHOK
745	JC588023K	SUB	PRITAM SINGH RAKWAL
746	JC588016N	SUB	TASHI NAMGIAL, SM

THE NAGA REGIMENT

747	JC538513F	SUB	DHARM PAL SHEOKAND
748	JC224458M	SUB	L ANGAM TANGKHUL
749	JC590101R	SUB	SHYAMA CHARAN PANT

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

750	JC172090X	SUB MAJ	SARDAR ALI
751	JC172094N	SUB MAJ	SHAREIF DIN
752	JC592126A	SUB MAJ	SWAMI RAJ
753	JC592273H	SUB	ABDUL AHAD WANI
754	JC592451A	SUB	ABDUL RASHID
755	JC592434A	SUB	AMAR NATH
756	JC592566F	SUB	ANIL KUMAR
757	JC592557M	SUB	CHARAN DASS SHARMA

(BM)

758	JC592177N	SUB	CHARANJIT SINGH ASSLA
759	JC592336A	SUB	DARSHAN LAL SHARMA
760	JC592613A	SUB	DEV RAJ
761	JC592406N	SUB	DEWAN CHAND
762	JC592334P	SUB	GANPAT RAJ SHARMA
763	JC592612X	SUB	GH MOHD SHIEKH
764	JC592313Y	SUB	MADAN LAL
765	JC592472W	SUB	MUNSHI RAM
766	JC592401P	SUB	RATTAN LAL
767	JC592449H	SUB	ROMAL SINGH
768	JC592480P	SUB	ROMESH SINGH
769	JC592535N	SUB	SHAMOSUD DIN MALIK
770	JC592138P	SUB	VIAS DEV SHARMA

1 GORKHA RIFLES

771	JC602041A	SUB MAJ	LOOT PRASAD PRADHAN
772	JC205331P	SUB MAJ	SHANKAR JUNG THAPA
773	JC602205L	SUB	JIB NATH THAPA
774	JC602256Y	SUB	KIRTI MAN THAPA
775	JC602187N	SUB	LAL BAHADUR CHHETRI
776	JC602281X	SUB	SOB RAJ THAPA
777	JC602259M	SUB	TEJ BAHADUR GURUNG
778	JC602269W	SUB	TUK BAHADUR MAGAR
779	JC602327P	SUB	UJAR SING THAPA

3 GORKHA RIFLES

780	JC220835A	SUB MAJ	LAL BAHADUR THAPA
781	JC202154P	SUB MAJ	RAN BAHADUR PUN
782	JC607082N	SUB MAJ	SHYAM BAHADUR THAPA
783	JC607409F	SUB	JHALAK BAHADUR PUN
784	JC607374W	SUB	JUN BAHADUR MAGAR
785	JC607403A	SUB	LIL BAHADUR THAPA
786	JC607204M	SUB	NANDA BAHADUR THAPA
787	JC607372L	SUB	SURYA BAHADUR RANA
788	JC607375Y	SUB	TANK BAHADUR GHIALE
789	JC607355L	SUB	TEJ BAHADUR THAPA

4 GORKHA RIFLES

790	JC205354W	SUB MAJ	DHANDU RAJ GURUNG
791	JC612096X	SUB MAJ	RAM KUMAR
792	JC205784A	SUB MAJ	RANJIT SINGH THAPA
793	JC612194X	SUB	BIN BAHADUR THAPA
794	JC612291P	SUB	TARA KUMAR TAMANG

5 GORKHA RIFLES

795	JC88403A	SUB MAJ	NIRANJAN PARSAD UPADHYA	(RT)
796	JC617101F	SUB MAJ	WANGDI YALMOO	
797	JC617237L	SUB	DIG BAHADUR GURUNG	
798	JC617442M	SUB	HEM KUMAR GURUNG	
799	JC617403N	SUB	KAMAL BAHADUR GURUNG	
800	JC617331P	SUB	KRISHNA BAHADUR THAPA	

8 GORKHA RIFLES

801	JC205816X	SUB MAJ	ALBERT TSHERING LEPCHA	
802	JC205823N	SUB MAJ	BALINDRA BLONE	
803	JC205815P	SUB MAJ	DEL BAHADUR GURUNG	
804	JC107410N	SUB MAJ	SHIV KUMAR SAPKOTA	(RT)
805	JC623368M	SUB	BHOPAL BAHADUR GURUNG	
806	JC623140W	SUB	YOGENDRA SINGH THAPA	

9 GORKHA RIFLES

807	JC224334X	SUB MAJ	NETRA BAHADUR SAHI	
808	JC211405P	SUB	BISHNU BAHADUR CHHETRI	
809	JC629476M	SUB	RAJENDRA BAHADUR MALL	
810	JC629505W	SUB	RAM BAHADUR CHHETRI	

11 GORKHA RIFLES

811	JC196932W	SUB MAJ	GOPAL RAI	
812	JC205741L	SUB MAJ	PEMA LAMA	
813	JC634012Y	SUB MAJ	RAMESHWER DASS RAVISH	
814	JC194708L	SUB MAJ	SANTA KUMAR LIMBU	
815	JC634150A	SUB	LOK BAHADUR RAI	
816	JC634295L	SUB	MAN PRASAD RAI	

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

817	JC660593Y	SUB MAJ	AJAY KUMAR	
818	JC660607N	SUB MAJ	AMRITHANATHAN K B	
819	JC660765H	SUB MAJ	BHIM SINGH	
820	JC660650P	SUB MAJ	BRAHAM GIRI	
821	JC660686N	SUB MAJ	G PREM KUMAR	
822	JC88664N	SUB MAJ	JAGDISH PRASAD SHARMA	(RT)
823	JC660703H	SUB MAJ	JAI RAM SINGH KHANGAR	
824	JC219647M	SUB MAJ	KUMARA SWAMY K Y	
825	JC209019K	SUB MAJ	MAHADEVAN K	
826	JC217291L	SUB MAJ	MAHESH KUMAR SUBBA	
827	JC660717H	SUB MAJ	MD HAFIZUR RAHAMAN	
828	JC213697F	SUB MAJ	MOHAR SINGH	
829	JC213653K	SUB MAJ	NIRBHAY SINGH	

830	JC660601M	SUB MAJ	PAL SINGH
831	JC640558P	SUB MAJ	P AMEERULLA KHAN
832	JC213630H	SUB MAJ	PRABHAKARAN C
833	JC209891Y	SUB MAJ	RAJENDER SINGH
834	JC660656W	SUB MAJ	RAJENDRA THAKUR
835	JC640240X	SUB MAJ	RAJEN SAIKIA
836	JC640423N	SUB MAJ	RAMESH CHAND PATIAL
837	JC660427L	SUB MAJ	SHOU RAM SINGH GURJAR
838	JC213596N	SUB MAJ	SUKUMARAN K V
839	JC213567Y	SUB MAJ	SURESH KUMAR SHARMA
840	JC208964N	SUB MAJ	T PADMA RAJ
841	JC640479A	SUB MAJ	VEERANNA HAVALDAR
842	JC640455W	SUB	BALARAMAN P
843	JC640273H	SUB	BHAGAT RAM GANGAR
844	JC641623W	SUB	BIRENDRA CHAUBEY
845	JC213584Y	SUB	CHHINDER PAL SINGH
846	JC661195K	SUB	GAM PARSHAD PUN
847	JC640837A	SUB	HANUMAN SINGH
848	JC640418H	SUB	INDRA DEO PANDEY
849	JC661105K	SUB	JIWAN LAL
850	JC641193X	SUB	KRISHAN DASS CHANDEL
851	JC641192P	SUB	KUL BHUSHAN KOTWAL
852	JC661933H	SUB	MAHANGU SINGH YADAV
853	JC640566N	SUB	MEHAK SINGH
854	JC640941N	SUB	MOHINDER PAL SINGH
855	JC640942W	SUB	NARINDER SINGH THAKUR
856	JC641196L	SUB	O MATHANA GOPAL
857	JC662003N	SUB	POONAM CHAND SHARMA
858	JC661925K	SUB	PRAHLAD LAL
859	JC208991X	SUB	PRAKASH CHANDER JOSHI
860	JC661802X	SUB	RAM AWTAR
861	JC641065A	SUB	RAM KISHAN SINGH
862	JC640005Y	SUB	RANVIR SAHAI SAXENA
863	JC641109M	SUB	SADANANDA C U
864	JC641639F	SUB	SADHU SINGH
865	JC642240W	SUB	SAT PAL
866	JC641173K	SUB	SHREE RAM SINGH DHAKA
867	JC641829N	SUB	SHRINIVAS K
868	JC661150K	SUB	SOHAN LAL
869	JC641226X	SUB	SURENDER KUMAR KATOCH

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

870	JC680104K	RIS MAJ	ASHOK KUMAR
871	JC680103F	RIS MAJ	CHHOTE LAL YADAV
872	JC680069M	RIS MAJ	CHRISTOPHER LAKRA

873	JC680105M	RIS MAJ	SHIBA PADA PAN
874	JC680274N	RIS	AJIT KUMAR PAUL
875	JC680292W	RIS	APPLATUN
876	JC680279N	RIS	CHANDRA BAHADUR THAPA
877	JC680451H	RIS	DUBEY SINGH
878	JC680336F	RIS	GOPAL DATT
879	JC680337K	RIS	LAKSHMAN YADAV
880	JC680291N	RIS	MAHENDRA SINHA
881	JC680313F	RIS	OMKAR NATH
882	JC680316P	RIS	RAM BAHADUR YADAV
883	JC680267X	RIS	RAM PYARE SINGH
884	JC680260N	RIS	SHIV PRASAD
885	JC680303X	RIS	SHRI RAM

ARMY MEDICAL CORPS

886	JC690893P	SUB MAJ	BALWAN SINGH	
887	JC691298X	SUB MAJ	BRIJ MOHAN DUDI	
888	JC212193F	SUB MAJ	DES RAJ	
889	JC83477L	SUB MAJ	DEVI PRASAD MANORI	(RT)
890	JC691475M	SUB MAJ	DHANANJAY KUMAR SINGH	
891	JC692271M	SUB MAJ	DUKHI LAL	
892	JC212199H	SUB MAJ	HRISHI KESH PAUL	
893	JC690212F	SUB MAJ	JOSEPH EKKA	
894	JC213952H	SUB MAJ	KRISHAN SINGH RANA	
895	JC690956M	SUB MAJ	M XAVIER	
896	JC690761F	SUB MAJ	RADHEY SHYAM	
897	JC691568F	SUB MAJ	RAGHUNATH	
898	JC692269P	SUB MAJ	RAGHUNATH TIWARY	
899	JC691715Y	SUB MAJ	RAJBIR SINGH SINSINWAR	
900	JC691573M	SUB MAJ	SURENDRA PRASAD SINGH	
901	JC692012K	SUB MAJ	SWAMI PRASAD	
902	JC692498A	SUB	A MANIVANNAN	
903	JC692747N	SUB	HARI RAM JAT	
904	JC691142A	SUB	HAYAT SINGH DEOPA	
905	JC692281W	SUB	JAI SINGH NATH	
906	JC693174F	SUB	KRISHNAN NAIR R	
907	JC693416Y	SUB	LAXAMAN NAIK	
908	JC692746L	SUB	MOREY AMBADAS DAGADUJI	
909	JC691848P	SUB	PADMAKARAN M G	
910	JC693236W	SUB	PEER MOHAMMAD KHAN	
911	JC692716N	SUB	RAJBIR SINGH	
912	JC691842N	SUB	RATI PAL SINGH	
913	JC690545N	SUB	SHYAMAL CHATTERJEE	
914	JC692899P	SUB	SUKHPAL SINGH	
915	JC213971N	SUB	SURENDRA PRASAD SINGH	

916	JC692720W	SUB	SURESH KUMAR SHUKLA
917	JC693119L	SUB	VISHNU SHANKAR PANDEY

ARMY ORDNANCE CORPS

918	JC223203A	SUB MAJ	BABU RAM
919	JC223129K	SUB MAJ	BHAGWAN SINGH
920	JC217525K	SUB MAJ	BIJOY KUMAR DEY
921	JC722342A	SUB MAJ	BISHAN SINGH JEENA
922	JC217370A	SUB MAJ	CHANDERA NARAYAN YADAV
923	JC221724P	SUB MAJ	KHEM CHAND
924	JC722503X	SUB MAJ	MUKHTIAR SINGH
925	JC217724X	SUB MAJ	PHILIP P G
926	JC722428Y	SUB MAJ	PURAN CHAND
927	JC722085N	SUB MAJ	PURNACHANDRA RAO TALASILA
928	JC722734N	SUB MAJ	RAJ NARAIN DUBEY
929	JC722123Y	SUB MAJ	RAM BHAGAT
930	JC722097H	SUB MAJ	RAMESH KUMAR
931	JC217484L	SUB MAJ	RANDHIR SINGH DAHIYA
932	JC722093M	SUB MAJ	RAN SINGH
933	JC217375Y	SUB MAJ	RAN SINGH
934	JC225192Y	SUB MAJ	ROSHAN LAL CHHOKAR
935	JC221620N	SUB MAJ	SURESHAN E M
936	JC723156W	SUB	ALLABAKASH M
937	JC722954X	SUB	AMAR SINGH
938	JC723114K	SUB	ASOK KUMAR ACHARYA
939	JC723295A	SUB	BALBIR SINGH
940	JC722949M	SUB	BANSH NARAIN SINGH YADAV
941	JC722883F	SUB	DHARAMPAL SINGH
942	JC722928W	SUB	DILIP KUMAR MUKHOPADHYAY
943	JC723131K	SUB	HARI LAL KUSHWAHA
944	JC723054A	SUB	KANHAIYA PRASAD
945	JC723151X	SUB	MURUTUNJOY PRADHAN
946	JC723128K	SUB	RANJEET SINGH LATWAL

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

947	JC188988N	SUB MAJ	A CHANDRA SEKARAN
948	JC210167F	SUB MAJ	ANIL KUMAR
949	JC221947M	SUB MAJ	BANSI BADAN DAS
950	JC210206P	SUB MAJ	BIRENDRA KUMAR SINGH
951	JC222262A	SUB MAJ	BUDHI SINGH THAKUR
952	JC188984X	SUB MAJ	CHHAJU RAM MALIK
953	JC188990L	SUB MAJ	GODABARISH BEHERA
954	JC748555L	SUB MAJ	GOPI E N
955	JC209133F	SUB MAJ	INDER SINGH DALAL
956	JC749308K	SUB MAJ	JAI KESHWAR MAHTO

957	JC210192A	SUB MAJ	JAI PAL NERWAL
958	JC218789X	SUB MAJ	JARNAIL SINGH
959	JC222207K	SUB MAJ	JOYCE KG
960	JC189111Y	SUB MAJ	JUGAL KISHORE PANDEY
961	JC188817F	SUB MAJ	KAMAL JIT PAUL
962	JC218838P	SUB MAJ	KANWAR SINGH JOGI
963	JC748459W	SUB MAJ	LALJI RAM
964	JC188978K	SUB MAJ	LAL SINGH
965	JC218811X	SUB MAJ	LUDUKKI PRASAD YADAV
966	JC209205A	SUB MAJ	M GUNASEKARAN
967	JC225466X	SUB MAJ	MAHABIR CHAND
968	JC218774P	SUB MAJ	MAHENDRA PAL SINGH
969	JC221833F	SUB MAJ	NAFE SINGH
970	JC207227A	SUB MAJ	NARAYAN SINGH
971	JC211681X	SUB MAJ	NAVANEETHA KRISHNAN K
972	JC225110K	SUB MAJ	OM PRAKASH VERMA
973	JC198601N	SUB MAJ	PADAM SINGH GAIRA
974	JC210189A	SUB MAJ	PURAN CHAND
975	JC2172	SUB MAJ	PUSHKAR SINGH ADHIKARI
976	JC225150Y	SUB MAJ	RABI SHEKHAR PANDEY
977	JC217269A	SUB MAJ	RAMA PRASAD DE
978	JC225157P	SUB MAJ	RAMESH ANANDA DEORE
979	JC188820F	SUB MAJ	RAM JIWAN PAL
980	JC747031A	SUB MAJ	RAM KARAN SINGH CHAUHAN
981	JC181623W	SUB MAJ	RAM KISHOR TIWARI
982	JC89890X	SUB MAJ	RAM KUMAR SINGH
983	JC211673Y	SUB MAJ	RAM YAGYA
984	JC207224M	SUB MAJ	RATAN SAHA
985	JC210166Y	SUB MAJ	RAVI KN
986	JC189380L	SUB MAJ	REDDY VENKATESHWARLU
987	JC224052Y	SUB MAJ	ROMESH CHAND
988	JC207200H	SUB MAJ	ROOP SINGH
989	JC211685N	SUB MAJ	SHAMBHU DAYAL
990	JC749016F	SUB MAJ	SHYAM BAHADUR SINGH
991	JC748971P	SUB MAJ	SOMARI LAL
992	JC217757H	SUB MAJ	SUBHASH CHANDER VASHIST
993	JC210149Y	SUB MAJ	SUDAPPAN ISWARAN
994	JC747383P	SUB MAJ	UMA DUTT
995	JC209183M	SUB MAJ	VIJAYAN A
996	JC207230A	SUB MAJ	V P SUKUMARAN
997	JC749064F	SUB	ARUN GANGOPADHYAY
998	JC752586H	SUB	ASHA PRASAD
999	JC755261A	SUB	BIR KUVAR SINGH
1000	JC749814P	SUB	CHANDRAN PILLAI KG
1001	JC755318K	SUB	HAMSA K

(RT)

1002	JC748110Y	SUB	HOSHIAR SINGH
1003	JC750069M	SUB	INDRA PAL SINGH DHAMA
1004	JC750049Y	SUB	KAMALJIT KANWAR
1005	JC752994N	SUB	KHILAP SINGH
1006	JC756195P	SUB	K YADAGIRI
1007	JC752471P	SUB	MADHAB CHANDRA BANERJEE
1008	JC750730N	SUB	MAHABIR SINGH
1009	JC756032F	SUB	MEWALAL
1010	JC752877H	SUB	MUHAMMAD MUKHATAR
1011	JC754218M	SUB	NAND KISHOR SINGH
1012	JC756338K	SUB	N RAJENDRAN
1013	JC747640F	SUB	PATEL SOMABHAI JEETHABHAI
1014	JC749542A	SUB	P PANANTHAN KARUPPIAH
1015	JC749059W	SUB	PURAB SINGH MANHAS
1016	JC752238F	SUB	RAJA RAM
1017	JC751553L	SUB	R SRINIVASULU
1018	JC749714K	SUB	SATRUGHNA MOHAPATRA
1019	JC753410K	SUB	SHAIK ABDUL KHADAR VALI
1020	JC750325W	SUB	SHIO JEE SINGH
1021	JC750717K	SUB	SHIRKE RAVINDRANATH DINAKAR
1022	JC754703F	SUB	SOM DATT
1023	JC752588N	SUB	SOMPAL SHARMA
1024	JC747481P	SUB	UMA SHANKAR RAM
1025	JC748198N	SUB	VIRENDER SINGH
1026	JC753077W	SUB	VISWANATHAN A

ARMY EDUCATION CORPS

1027	JC211919M	SUB MAJ	BENARSI LAL
1028	JC203368X	SUB MAJ	DEEPAK KUMAR KANOJIYA
1029	JC206078L	SUB MAJ	DULI CHAND
1030	JC206350M	SUB MAJ	GHISA RAM
1031	JC206844W	SUB MAJ	HARISH CHANDRA CHAUBEY
1032	JC203985A	SUB MAJ	KOUSLESH DUBEY
1033	JC211933Y	SUB MAJ	PRATAP SINGH
1034	JC203371X	SUB MAJ	RAM KUMAR DHEER
1035	JC203369A	SUB MAJ	SAT BIR SINGH
1036	JC225477K	SUB	DALMOR SINGH
1037	JC207069W	SUB	DHARAM PAL SINGH BISHT
1038	JC223043L	SUB	KEWAL SINGH KUTLERIA
1039	JC203374L	SUB	KIRPAL SINGH
1040	JC217168M	SUB	PRATAP CHANDRA CHAUDHURI

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

1041	JC797089L	RIS MAJ	BHOPAL SINGH
1042	JC797115F	RIS	RAM PRAKASH

1043 JC797175W RIS S SIGAMANI
THE INTELLIGENCE CORPS

1044	JC201507X	SUB MAJ	ASHOK RAJ SAMKARIA
1045	JC195511F	SUB MAJ	DALPATI SINGH
1046	JC198391Y	SUB MAJ	JAGMOHAN SINGH TOMAR
1047	JC197802A	SUB MAJ	KULDIP SINGH
1048	JC223397N	SUB MAJ	SAMAR BAHADUR SAHI
1049	JC200267Y	SUB	BISHAWAMBHAR NATH SINGH
1050	JC810018L	SUB	CHANDER MANI
1051	JC198388Y	SUB	JOGINDER SINGH
1052	JC810007Y	SUB	RAJINDER SINGH
1053	JC198384H	SUB	SUKHCHAIN SINGH

CORPS OF MILITARY POLICE

1054	JC215411A	SUB MAJ	NAR SINGH SHEKHAWAT
1055	JC215428N	SUB MAJ	RAJENDRA PRASAD SINGH
1056	JC215399K	SUB MAJ	VIJAI SINGH
1057	JC818336K	SUB	CHAUBE RAM YADAV
1058	JC818456H	SUB	HARI SHANKAR
1059	JC818363N	SUB	JAGAN NATH SINGH
1060	JC818422P	SUB	NAGA REDDY

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

1061	JC186818L	SUB MAJ	INDRA SINGH
1062	JC826069H	SUB	SHER SINGH KATWAL

THE PIONEER CORPS

1063	JC829178A	SUB	SAMBHAJI BIRADAR
------	-----------	-----	------------------

DEFENCE SECURITY CORPS

1064	TJ2783H	SUB MAJ	CHARANJI LAL
1065	JC172453W	SUB MAJ	K BALAKRISHNAN
1066	JC164691N	SUB MAJ	PURAN SINGH
1067	JC171674W	SUB MAJ	TULSI DASS
1068	JC841035M	SUB	DINA NATH GUPTA
1069	JC840904K	SUB	K KRISHNAN
1070	JC840848W	SUB	PHUL CHAND PRASAD
1071	JC840372P	SUB	PARBHAT SINGH

TERRITORIAL ARMY

1072	TJ4567	SUB	HARALE LAXMAN YASVANTRAO
1073	TJ3315P	SUB	JANKI SARAN PATEL
1074	TJ3342	SUB	KEDAR NATH SHAKYA
1075	TJ3611A	SUB	MEHANGA SINGH

1076	TJ3960K	SUB	M RADHAKRISHNAN
1077	TJ3215F	SUB	N KITTAPAN
1078	TJ3516	SUB	PHILIP RONGMAL
1079	TJ3933A	SUB	RAJ BAHADUR
1080	TJ3050	SUB	RAM NIWAS
1081	TJ3967N	SUB	RAM MURTI
1082	TJ3363F	SUB	SURESH CHAND
1083	TJ3326F	SUB	VILAS JANGALI

[No. B/43432/RD-06/AG/CW-2]

ANUP S JAMWAL, Lt Gen, Adjutant General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2006

सं. 2(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2006.—राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अवैतनिक लै/जे सी ऑफ को उनको सेवा पूरी होने पर उनके नामों के सामने दी हुई तिथी से सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन उनको अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :—

अवैतनिक कप्तान के रूप में

8	केवेलरी	1	जेसी 239088पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै	हसन सिंह	01.09.2005
4	होर्स	2	जेसी 235867ए	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै	बलविन्दर सिंह	01.11.2005
62	केवेलरी	3	जेसी 239334पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै	तरसेम सिंह	01.10.2005
63	केवेलरी	4	जेसी 237715एक्स	रिसालदार एवं अवैतनिक लै	बलदेव सिंह	01.12.2005
65	आर्मड रेजीमेंट	5	जेसी 238065एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै	तेलु राम	01.10.2005
66	आर्मड रेजीमेंट	6	जेसी 236306एक्स	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै	जवाहर लाल	01.11.2005
67	आर्मड रेजीमेंट	7	जेसी 237891पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै	गिरधारी लाल	01.10.2005
73	आर्मड रेजीमेंट	8	जेसी 236377वाइ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै	दलबीर सिंह	01.10.2005
		9	जेसी 237150एक्स	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै	मानवर खान कायामुद्दीन खानी	01.10.2005
		10	जेसी 238223एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै	अकबर खान	01.10.2005
81	आर्मड रेजीमेंट	11	जेसी 236217वाइ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै	राम सिंह गुर्जर	01.10.2005

88 आर्मड रेजीमेंट					
12	जेसी	239172पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	जगदीश सिंह	01.11.2005
90 आर्मड रेजीमेंट					
13	जेसी	236273एक्स	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	बेग राज सैनी	01.12.2005
44 आर्मड रेजीमेंट					
14	जेसी	236635एन	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	ओम प्रकाश	01.09.2005
48 आर्मड रेजीमेंट					
15	जेसी	237996वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	लक्ष्मन सिंह	01.01.2006
6 आर्मड रेजीमेंट					
16	जेसी	198830वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	असारी बच्चू भाई वालजी	01.10.2005
11 आर्मड रेजीमेंट					
17	जेसी	236137एफ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	राम चांद	01.10.2005
19 आर्मड रेजीमेंट					
18	जेसी	235844वाइ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	फतेह सिंह	01.12.2005
19	जेसी	235843डब्ल्यू	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	मुनि लाल यादव	01.11.2005
50 आर्मड रेजीमेंट					
20	जेसी	236415के.	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	मनजीत सिंह	01.01.2006
52 आर्मड रेजीमेंट					
21	जेसी	235773एच	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जगतार सिंह	01.11.2005
आर्टिलरी रेजीमेंट					
22	जेसी	226958एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	अभेय सिंह	01.09.2005
23	जेसी	201721ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	अमीर सिंह	01.09.2005
24	जेसी	195074एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	ब्रम सिंह	01.12.2005
25	जेसी	193495डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	चंदगी राम	01.09.2005
26	जेसी	163846एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	दीन दयाल गिरि	01.09.2005
27	जेसी	193486पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जयशंकर सिंह	01.10.2005
28	जेसी	255204डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जमुला चिन्ना रमइआ	01.10.2005
29	जेसी	259703एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जयसूर्यन नायर एन	01.09.2005
30	जेसी	213408एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जुगराज सिंह ब्रा	01.01.2006
31	जेसी	186766ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	के. केशवन	01.10.2005

32	जेसी	208753एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	करतार सिंह	01.11.2005
33	जेसी	203549एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	लक्ष्मन राम मीना	01.09.2005
34	जेसी	186537पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	माखन सिंह	01.10.2005
35	जेसी	223601एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	ओम प्रकाश	01.09.2005
36	जेसी	225601ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	पारस राम	01.01.2006
37	जेसी	208778एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	पुरुष्वाधमन बी	01.01.2006
38	जेसी	208776एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	राधा किशन	01.01.2006
39	जेसी	198742एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	राज कुमार	01.11.2005
40	जेसी	203894डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	राजिन्दर सिंह जामवाल	01.12.2005
41	जेसी	199116एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	ससिधरन नायर वी	01.10.2005
42	जेसी	197940एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	सत्य नारायण यादवा	01.01.2006
43	जेसी	088420ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	एस लाल शुक्ला	01.01.2006
44	जेसी	211875ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	सुरेश कुमार	01.12.2005
45	जेसी	201258के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	वीर सिंह यादव	01.09.2005
46	जेसी	260580एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	अमर पाल सिंह	01.12.2005
47	जेसी	256513एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	अमरजीत सिंह	01.10.2005
48	जेसी	225943एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	अर्जुन आनंद राव गोटमारे	01.11.2005
49	जेसी	264557एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बहादुर सिंह	01.10.2005
50	जेसी	262297वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बिरेन्द्र सिंह	01.01.2006
51	जेसी	226608डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	भंवर लाल रेनिवल	01.01.2006
52	जेसी	260946ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	भुपिन्द्र कुमार	01.10.2005
53	जेसी	257713एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बिनोद कुमार पांडे	01.12.2005
54	जेसी	259470एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बृज राज	01.10.2005
55	जेसी	261294वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	चेरिअन के. सी	01.09.2005
56	जेसी	264479एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	दलबीर सिंह	01.01.2006

57	जेसी	258623वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	फगान सिंह जाट	01.09.2005
58	जेसी	261497एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	गुरमेल सिंह भारज	01.10.2005
59	जेसी	260891एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	जगदीश प्रसाद	01.09.2005
60	जेसी	255629पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	जनक राज	01.10.2005
61	जेसी	259954एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	ज्वाला चांद गुलेरिया	01.09.2005
62	जेसी	262754एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कैलाश सिंह	01.12.2005
63	जेसी	257994पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कोमल सिंह	01.12.2005
64	जेसी	256014डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कष्णन लाल	01.01.2006
65	जेसी	262519एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कृष्णा बिलास मोन्डल	01.11.2005
66	जेसी	260093एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	लाल चांद	01.10.2005
67	जेसी	260582वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	लाल सिंह सामंत	01.10.2005
68	जेसी	257381पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	लाला राम	01.11.2005
69	जेसी	263491ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	महेश कुमार	01.11.2005
70	जेसी	257987वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मनजीत सिंह	01.09.2005
71	जेसी	259748एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मोहन सिंह	01.12.2005
72	जेसी	260601वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मोहर सिंह	01.01.2006
73	जेसी	261568वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	पाटिल धानाजी विष्णु	01.01.2006
74	जेसी	258811ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राज मल सेओहिया	01.10.2005
75	जेसी	261543एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राजेंद्र प्रसाद	01.10.2005
76	जेसी	259522एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राजेंद्र प्रसाद सिंह	01.10.2005
77	जेसी	261121एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राजेंद्र प्रसाद यादव	01.10.2005
78	जेसी	262495के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राजिन्दर सिंह	01.10.2005
79	जेसी	263223डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रत्तन लाल	01.10.2005
80	जेसी	225409डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रवीन्द्र चांद कटोच	01.10.2005
81	जेसी	259162एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रवीन्द्र सिंह	01.10.2005

82	जेसी	255804वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सत्य पाल	01.11.2005
83	जेसी	258131ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	शिंदे दिगम्बर मुरलीधर	01.09.2005
84	जेसी	258740के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	शीश पाल सिंह राना	01.11.2005
85	जेसी	256510एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सुरजीत सिंह	01.09.2005
86	जेसी	262022एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	तरसेम सिंह	01.01.2006
87	जेसी	214919एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	टीकू राम जाट	01.11.2005
वायु सुरक्षा आर्टिलरी कोर					
88	जेसी	200171डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	बलजीत सिंह	01.09.2005
89	जेसी	223253एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	दलीप सिंह	01.09.2005
90	जेसी	223277पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	दया नन्द	01.09.2005
91	जेसी	175583के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	लिलाधार केशो वरादे	01.01.2006
92	जेसी	255494वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	एस देव पाती त्रिपाठी	01.09.2005
93	जेसी	190737एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	सुरिन्दर पाल सिंह	01.11.2005
94	जेसी	296952वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	विशराम सिंह	01.01.2006
95	जेसी	214999ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	अमर सिंह	01.10.2005
96	जेसी	296032एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	अर्विन्द	01.01.2006
97	जेसी	296291के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	धर्म पाल	01.10.2005
98	जेसी	829130एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	दुलाल चंद्रा बोराह	01.01.2006
99	जेसी	296726एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जी. मनी	01.10.2005
100	जेसी	256392पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	कैलाश सिंह राजपूत	01.01.2006
101	जेसी	297073एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	कण्ठन देव शर्मा	01.11.2005
102	जेसी	214979एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राम आसरा	01.10.2005
103	जेसी	256188डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सरेब दयाल	01.11.2005
104	जेसी	296346एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सुदर्शन कुमार	01.01.2006
मद्रास इंजीनियर समूह					
105	जेसी	182640एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	डेनिल पी वी	01.09.2005

106	जेसी	305178वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	दन्धानदेव पोवार	01.12.2005
107	जेसी	191242एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	कुप्पन एस	01.11.2005
108	जेसी	191272ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	एम रमेश राव	01.11.2005
109	जेसी	305170एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	मोहम्मद उसफ	01.01.2006
110	जेसी	207506एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सैमुअल जॉन एस	01.10.2005
111	जेसी	305172एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सैयद मीरन एम	01.11.2005
112	जेसी	219459एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	उन्नीक्शन के. टी	01.11.2005
113	जेसी	305167एन.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	वेंगारुगु कृष्णा रेडी	01.11.2005
114	जेसी	306086वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बालाकृष्णन पी	01.01.2006
115	जेसी	305683एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	धर्मन जी.	01.11.2005
116	जेसी	305947एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कुहिरमन नायर ई	01.01.2006
117	जेसी	306773पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	पी तामिलकुमारन	01.01.2006
118	जेसी	305684के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	पशुपथि जे	01.12.2005
119	जेसी	306524डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	प्रेमनाथ एस	01.09.2005
120	जेसी	305422एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रहमतुल्ला एम	01.09.2005
121	जेसी	306027एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राजेन्द्रन पिल्लई के.	01.12.2005
122	जेसी	306593एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रवीन्द्रन नायर बी	01.12.2005
123	जेसी	306094एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	एस दुरई राज	01.12.2005
124	जेसी	306230एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	एस ओबुलेसु	01.01.2006
125	जेसी	305362के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	शेखाजा मोइनुद्दीन	01.09.2005
बंगाल इंजीनियर समूह					
126	जेसी	210403एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	भद्रीनाथन एम	01.11.2005
127	जेसी	199831एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	भिंडर सिंह	01.01.2006
128	जेसी	210546एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	धीरेन्द्र कुमार दास	01.11.2005
129	जेसी	199720डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	दिवाकर प्रसाद कोटनाला	01.11.2005

130	जेसी 199832डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	गामदूर सिंह	01.09.2005
131	जेसी 199705एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	लाल सिंह	01.09.2005
132	जेसी 210393वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	प्रगात सिंह	01.11.2005
133	जेसी 326532डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बादार सिंह	01.10.2005
134	जेसी 326726वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बहादुर सिंह नायल	01.09.2005
135	जेसी 327282एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बनारसी दास	01.09.2005
136	जेसी 197113वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	भरत सिंह थापा	01.09.2005
137	जेसी 326583के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	भुपेन्द्र नारायण सिंह	01.09.2005
138	जेसी 326938के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बिरेन्द्र सिंह नेगी	01.01.2006
139	जेसी 326939एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	चंद्रा भान सिंह	01.09.2005
140	जेसी 326990एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	चित्रा सेन सिंह	01.10.2005
141	जेसी 327210एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	देवेन्द्र बहादुर सिंह	01.10.2005
142	जेसी 327976एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	गोपाल सिंह	01.01.2006
143	जेसी 326562एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	गुरबक्श सिंह	01.09.2005
144	जेसी 327981एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जनार्दन प्रसाद	01.10.2005
145	जेसी 326499के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	कल्याण चांद राजवर	01.09.2005
146	जेसी 326786एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	कल्याण सिंह	01.01.2006
147	जेसी 327208एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	महादेव प्रसाद मल्लाह	01.12.2005
148	जेसी 224816एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मिल्खा राज	01.01.2006
149	जेसी 326839एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मोहन राम	01.12.2005
150	जेसी 327945एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	नारायण सिंह	01.09.2005
151	जेसी 326676वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	ओम प्रकाश	01.01.2006
152	जेसी 328070एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	पबि कुमार मोहंती	01.01.2006
153	जेसी 326592एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राज कंवर	01.10.2005
154	जेसी 326582एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राम प्रकाश सिंह	01.09.2005

155	जेसी	326715एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रवीन्द्र सिंह	01.10.2005
बोम्बे इंजीनियर समूह					
156	जेसी	200047पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	अर्जुन शर्मा	01.11.2005
157	जेसी	209642ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	भगत सिंह बिष्ट	01.10.2005
158	जेसी	207911एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जगदीश प्रसाद द्विवेदी	01.11.2005
159	जेसी	197255डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जोगा सिंह	01.10.2005
160	जेसी	207916एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	कुलदीप सिंह	01.11.2005
161	जेसी	200094एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	मदन लाल	01.09.2005
162	जेसी	197254एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	मोहम्मद युसुफ	01.09.2005
163	जेसी	200101एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	मोहम्मद नसीम खान	01.11.2005
164	जेसी	207908एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	प्यारा लाल	01.09.2005
165	जेसी	207973एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	रंजीत सिंह	01.10.2005
166	जेसी	200108एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	रोजदार खान	01.09.2005
167	जेसी	210803के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सुभाशेखरा राव छिल्कापती	01.10.2005
168	जेसी	348222एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	अब्दुल सईद	01.10.2005
169	जेसी	225040डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	अशोक काशीराम चौगुले	01.12.2005
170	जेसी	347548पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बसंत सिंह	01.12.2005
171	जेसी	348570एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बेनेदिक्ट तिकेई	01.01.2006
172	जेसी	347939ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	जगतार सिंह	01.01.2006
173	जेसी	348229पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	महान सिंह	01.10.2005
174	जेसी	348072ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मलागेकर महादेव	01.01.2006
175	जेसी	347748एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मसूर अहम्मद	01.09.2005
176	जेसी	347140डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	नछेतर सिंह	01.10.2005
177	जेसी	347439एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	पूरन सिंह	01.09.2005
178	जेसी	348137एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सुरजीत सिंह	01.12.2005

सिग्नल्स कोर

179	जेसी 192097एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	अपादोराई जयप्रकाश	01.09.2005
180	जेसी 188353पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	बनबारी लाल	01.01.2006
181	जेसी 207329डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	भोई केशव बाबू	01.01.2006
182	जेसी 368013पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	चिन बहादुर थापा	01.11.2005
183	जेसी 367653एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	देबेन्द्र नाथ पंडा	01.09.2005
184	जेसी 367007पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	धर्मवीर सिंह	01.09.2005
185	जेसी 367828के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	दीनानाथ मिश्रा	01.11.2005
186	जेसी 83654ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	हंस राज प्रसाद त्रिपाठी	01.11.2005
187	जेसी 367826वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	हरकेश सिंह	01.11.2005
188	जेसी 368280डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	हिर्देश कुमार बाजपई	01.12.2005
189	जेसी 367604के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	हुकम चांद	01.10.2005
190	जेसी 188196एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	इंद्र लाल शर्मा	01.01.2006
191	जेसी 367335एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	जोसेफ फ्रांसेस	01.10.2005
192	जेसी 367051वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	कपूर चांद गुप्ता	01.01.2006
193	जेसी 188188पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	लाल सिंह	01.11.2005
194	जेसी 367822एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	महेंद्र सिंह	01.11.2005
195	जेसी 371082डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	मोहम्मद सलहुद्दीन खान	01.12.2005
196	जेसी 368229डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	ओम प्रकाश	01.01.2006
197	जेसी 196125एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	पद्मनाभन पी	01.10.2005
198	जेसी 192118एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	परसेम सिंह	01.12.2005
199	जेसी 188352एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	प्रेम पोल	01.09.2005
200	जेसी 368228एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	पूरन सिंह	01.01.2006
201	जेसी 188187एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	राज करन कोशिक	01.11.2005
202	जेसी 367009ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	राजेंद्र सिंह नेगी	01.10.2005

203	जेसी	207327एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	राम. शरण सिंह कुशवाहा	01.01.2006
204	जेसी	368054वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	रमेश नारायन सिंह	01.12.2005
205	जेसी	368051एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	संत राम	01.01.2006
206	जेसी	367857वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	संतोख सिंह	01.12.2005
207	जेसी	368055एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सतपाल कोशल	01.01.2006
208	जेसी	367800के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	शंकर प्रसाद सिंह	01.10.2005
209	जेसी	200655डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	शिल्क राम खत्री	01.11.2005
210	जेसी	367823एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सोम प्रकाश गुप्ता	01.12.2005
211	जेसी	368060एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	श्रीपाल सिंह यादव	01.01.2006
212	जेसी	188354एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सुभाष चंद्रा शर्मा	01.10.2005
213	जेसी	197667एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सुरेश चंद्रा	01.09.2005
214	जेसी	367801एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	त्रिलोक सिंह	01.10.2005
215	जेसी	83653एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	उने मिश्रा	01.10.2005
216	जेसी	368436एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	यादव समभाजी नारायण राव	01.12.2005
217	जेसी	371048डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	अखिलेश्वरन सिंह	01.09.2005
218	जेसी	371540एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	अशोक कुमार	01.01.2006
219	जेसी	372354एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बहादुर सिंह	01.12.2005
220	जेसी	371244डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बलजीत सिंह	01.11.2005
221	जेसी	369328एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बसंत लाल	01.12.2005
222	जेसी	371493पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	भीम प्रसाद सिंह	01.09.2005
223	जेसी	369455ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	के. श्रीकुमारन नायर	01.01.2006
224	जेसी	370567एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कमलेश चंद्रा अग्नीहोत्री	01.01.2006
225	जेसी	371725एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	महावीर प्रसाद	01.10.2005
226	जेसी	371394एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मोहन सिंह सोढ़ बिष्ट	01.11.2005
227	जेसी	369780ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	नृपेन्द्रा नाथ लश्कर	01.11.2005

228	जेसी 370762के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राजन पोमालारी कोरोथ	01.10.2005
229	जेसी 370882एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रमेश लाल सैनी	01.10.2005
230	जेसी 371064एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	संजय विनायकनागेश देशपांडे	01.11.2005
231	जेसी 370330पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सत्य पाल	01.10.2005
232	जेसी 368921एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	शाजी ए	01.10.2005
गार्ड्स				
233	जेसी 188599एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	बीरबल सिंह	01.09.2005
234	जेसी 184238एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	हरी सिंह	01.09.2005
235	जेसी 402838पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	अतुल चंद्रा बोराह	01.10.2005
236	जेसी 402637डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बशीर खान	01.12.2005
237	जेसी 402819के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	दीवान सिंह कुंवर	01.09.2005
238	जेसी 402447के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	आइ बाबासाना सिंघा	01.09.2005
239	जेसी 402649एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	कुबेर बाबू सिंघा	01.10.2005
240	जेसी 402815एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	प्रभु राम गोदारा	01.10.2005
241	जेसी 402227ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रोशन लाल भारमोरिया	01.10.2005
242	जेसी 402695ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	शिव चरण	01.10.2005
243	जेसी 402397के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सुरेंद्र पाल	01.12.2005
पैराशूट रेजीमेन्ट				
244	जेसी 412004डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	प्यारा चांद	01.12.2005
245	जेसी 210879के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	झतवीर सिंह	01.11.2005
246	जेसी 412290एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बैजनाथ सिंह	01.01.2006
247	जेसी 412297एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	भाग चंद्रा सिंह	01.11.2005
248	जेसी 412407डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	ओंकार चांद राना	01.09.2005
249	जेसी 412289एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रघुबीर सिंह	01.09.2005
250	जेसी 412448ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रक्षवीर सिंह	01.09.2005
251	जेसी 412178डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रामु राम	01.11.2005

252	जेसी 412435एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सत्य प्रसाद	01.09.2005
मैकनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट				
253	जेसी 201543एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	धर्म सिंह	01.09.2005
254	जेसी 206858एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	गुलजार सिंह	01.09.2005
255	जेसी 206819एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	गुरबचन सिंह	01.09.2005
256	जेसी 225081ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	करतार सिंह	01.10.2005
257	जेसी 206638एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	नरेंद्रा सिंह गुरंग	01.12.2005
258	जेसी 418290वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	गुरमीत सिंह	01.01.2006
259	जेसी 829037एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	हिम्मत सिंह	01.10.2005
260	जेसी 419009एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	होशियार सिंह	01.01.2006
261	जेसी 211592वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	इंद्र सिंह,	01.10.2005
262	जेसी 225083एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राजिन्दर कुमार ठाकुर	01.09.2005
263	जेसी 419177डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	विष्णु नारायण आचार्य	01.01.2006
पंजाब रेजीमेन्ट				
264	जेसी 208025एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	अवतार सिंह	01.12.2005
265	जेसी 194518वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सत पाल	01.10.2005
266	जेसी 428063एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	अमर चांद वर्मा	01.11.2005
267	जेसी 428802एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	अवतार सिंह	01.01.2006
268	जेसी 428721एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बालक राम शर्मा	01.09.2005
269	जेसी 218402के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बलवंत सिंह	01.01.2006
270	जेसी 428866वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बंसी राम डोगरा	01.09.2005
271	जेसी 428553ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	ध्यान सिंह	01.10.2005
272	जेसी 428865डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	गुलेरा चांद राना	01.09.2005
273	जेसी 428719डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	इंद्रजीत सिंह	01.11.2005
274	जेसी 428344एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कर्म चांद	01.09.2005
275	जेसी 428375एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कश्मीर सिंह	01.01.2006

276	जेसी 428869एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	कैवल सिंह	01.11.2005
277	जेसी 428619एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	किशन सिंह कटोच	01.10.2005
278	जेसी 428492एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	कुलदीप चांद	01.12.2005
279	जेसी 428373एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रघवीर सिंह	01.09.2005
280	जेसी 428903एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राम लाल	01.09.2005
281	जेसी 428831एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राम मेहर	01.11.2005
282	जेसी 428499एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रंजीत सिंह कोडले	01.09.2005
283	जेसी 428906पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सुभाष चांद शुक्ला	01.01.2006
284	जेसी 428890पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	तिलक राज शर्मा	01.11.2005
मद्रास रेजीमेन्ट				
285	72549वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	आर नागाराजन	01.09.2005
286	जेसी 224182एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	विजयन के.	01.10.2005
287	जेसी 438219एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	चंद्रन कुन्दाथिल	01.01.2006
288	जेसी 438192ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	केन्दाप्पा बापू येमगार	01.11.2005
289	जेसी 438017एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	एल सेरमिलाई	01.11.2005
290	जेसी 438073के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मल्लिकार्जुन महालंक	01.11.2005
291	जेसी 438618डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	नागराजालु ए	01.09.2005
292	जेसी 438314वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	प्रभाकरण टी	01.11.2005
293	जेसी 193662एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राजेन्द्रन नायर टी के.	01.12.2005
294	जेसी 220899एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रोनांकी कुरमानिकुलु	01.01.2006
295	जेसी 438317एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सुगनाकुमारन सी	01.11.2005
ग्रेनेडियर्स				
296	जेसी 168530एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	फतेह सिंह	01.11.2005
297	जेसी 183400एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	महिन्द्रा सिंह शेखावत	01.12.2005
298	जेसी 220143एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	प्रीतम चांद	01.09.2005
299	जेसी 448964ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	आलम अली	01.12.2005

300	जेसी	448898एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बलबीर सिंह	01.09.2005
301	जेसी	449192ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	हरिहर सिंह	01.01.2006
302	जेसी	448566वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	हरजीत सिंह परिहार	01.09.2005
303	जेसी	449109एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	जय देव सिंह	01.09.2005
304	जेसी	448938वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	जय सिंह	01.10.2005
305	जेसी	448679एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	जोगिंदर सिंह	01.09.2005
306	जेसी	448344के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	करीम खान	01.12.2005
307	जेसी	448703एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कवर पाल चौहान	01.09.2005
308	जेसी	448194वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कृष्णापाल सिंह	01.11.2005
309	जेसी	448946एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	लाल खान	01.12.2005
310	जेसी	448812वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	ओम पाल सिंह	01.09.2005
311	जेसी	448779एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	प्रीतपाल सिंह, एससी	01.10.2005
312	जेसी	448655एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	पूरन चांद भारद्वाज,	01.12.2005
313	जेसी	448411के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राज लाल	01.01.2006
314	जेसी	449173पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राजेंद्र प्रसाद मीना	01.10.2005
315	जेसी	448972वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राजेंद्र सिंह	01.12.2005
316	जेसी	449073के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रेवात खान	01.01.2006
317	जेसी	449037वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रोमेल चांद	01.10.2005
318	जेसी	448865एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रूप लाल	01.11.2005
319	जेसी	449026एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सब्बीर अहमद	01.11.2005
320	जेसी	448707एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	उगम सिंह	01.10.2005
मराठा लघु सेना					
321	जेसी	178237वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सी मनजीत गोड़	01.09.2005
322	जेसी	185504एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	चव्हाण महादेव तुलसीराम	01.11.2005
323	जेसी	181789एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	छिगारे आनंदा मारुति	01.11.2005

324	जेसी	173161ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	जीवाबा किवान्दे	01.12.2005
325	जेसी	171844पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	कौतुले सतवान मरोती	01.11.2005
326	जेसी	167178एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	मिनीन शालू डिसूजा	01.12.2005
327	जेसी	162274एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	नामदेव सैजे	01.10.2005
328	जेसी	458282एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	हनुमंत बाबूराव शिंदे	01.10.2005
329	जेसी	458670ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जाधव भानुदास यशवंत	01.12.2005
330	जेसी	458660डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	पदाते बाबू लक्ष्मन	01.12.2005
331	जेसी	184970ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	पाटिल विटोबा रमा	01.11.2005
332	जेसी	458084एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रामचंद्र एस आर	01.09.2005
333	जेसी	458344एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	यादव अकरम बापू	01.10.2005
राजपूताना राईफल्स					
334	जेसी	167430एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	अमर सिंह	01.10.2005
335	जेसी	468587डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	भगवान राहाय जाट	01.12.2005
336	जेसी	468570एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बिहारी लाल धवन	01.11.2005
337	जेसी	468569एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बीर सिंह	01.09.2005
338	जेसी	468226एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	धन सिंह	01.09.2005
339	जेसी	468456एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	हवा सिंह	01.12.2005
340	जेसी	468726पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	इंद्रेश कुमार	01.09.2005
341	जेसी	468993डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	महा सिंह	01.10.2005
342	जेसी	468927एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	प्रेम सिंह	01.11.2005
343	जेसी	468460एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राजेंद्र सिंह गलिक	01.01.2006
344	जेसी	468445वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राम चंदा सिंह	01.01.2006
345	जेसी	468941ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रनबीर सिंह थावर	01.10.2005
346	जेसी	188461वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	श्री निवास	01.11.2005
राजपूत रेजीमेन्ट					
347	जेसी	205112एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	अतर सिंह	01.11.2005

348	जेसी	205905डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	भंवर सिंह गुज्जर	01.01.2006
349	जेसी	208060एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	बीर सिंह	01.10.2005
350	जेसी	183444पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	हरीश चंद्रा सिंह	01.09.2005
351	जेसी	220170पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	इंद्रजीत	01.01.2006
352	जेसी	196224के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	रामपाल सिंह चौहान	01.10.2005
353	जेसी	478884एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	भल्ले राम	01.09.2005
354	जेसी	478600एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बृजपाल सिंह	01.11.2005
355	जेसी	478854ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	धर्म पाल सिंह	01.09.2005
356	जेसी	478632एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	लखन सिंह	01.12.2005
357	जेसी	478574एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राजेंद्र सिंह	01.12.2005
358	जेसी	478469डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राम बहादुर मिश्रा	01.11.2005
359	जेसी	478048एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राम दास	01.09.2005
360	जेसी	478812एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राम निवास	01.11.2005
361	जेसी	478580ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सरजीत सिंह	01.10.2005
362	जेसी	478788एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सुभाष चंद्रा	01.10.2005
363	जेसी	478613ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सुरेंद्र सिंह तोमर	01.11.2005
364	जेसी	478426एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	तेज पाल	01.09.2005
जाट रेजीमेन्ट					
365	जेसी	199244एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	चंदगी राम जाट	01.10.2005
366	जेसी	205576एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	गजराज सिंह यादव	01.12.2005
367	जेसी	488760डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	आत्मा राम जाट	01.11.2005
368	जेसी	488633एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बनवारी लाल	01.10.2005
369	जेसी	488128वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	छोटू राम पुनिया	01.09.2005
370	जेसी	488748पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	छोटू राम तखार	01.10.2005
371	जेसी	488569पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	गंगा राम जाट	01.11.2005

372	जेसी 488857एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जय नारायण	01.11.2005
373	जेसी 488777के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जयपाल सिंह	01.10.2005
374	जेसी 488841डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	लिलाधार बोरैन	01.10.2005
375	जेसी 488412पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सुल्तान सिंह	01.10.2005
सिख रेजीमेन्ट				
376	जेसी 205143एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	आसा सिंह	01.01.2006
377	जेसी 216562एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	भगवन्त सिंह	01.01.2006
378	जेसी 185775पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	फकीर सिंह	01.01.2006
379	जेसी 193770एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	हरदीप सिंह	01.11.2005
380	जेसी 177984एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	सतनाम सिंह	01.11.2005
381	जेसी 185007एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	सुखदेव सिंह	01.01.2006
382	जेसी 498443एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	अमरजीत सिंह	01.09.2005
383	जेसी 498116एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	अमरीक सिंह, एम	01.09.2005
384	जेसी 498617एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	अंग्रेज सिंह	01.11.2005
385	जेसी 498507एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	भजन सिंह, एम	01.10.2005
386	जेसी 498638एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बीकारना सिंह	01.10.2005
387	जेसी 498244पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	दलजीत सिंह	01.10.2005
388	जेसी 498697ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	धर्म सिंह	01.09.2005
389	जेसी 498231एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जसवंत सिंह	01.10.2005
390	जेसी 498310एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जसविन्दर सिंह	01.10.2005
391	जेसी 498296एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जीवन सिंह	01.09.2005
392	जेसी 498696एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जोगिंदर सिंह	01.09.2005
393	जेसी 498521पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	कुलजीत सिंह	01.10.2005
394	जेसी 498363एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	लाल सिंह	01.11.2005
395	जेसी 498202एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सतनाम सिंह	01.10.2005

396	जेसी	498460एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	स्वर्ण सिंह	01.10.2005
397	जेसी	498509एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	तरसेम सिंह	01.12.2005
सिख लघु पैदल सेना					
398	जेसी	216573एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	बख्शीश सिंह भाटी	01.10.2005
399	जेसी	508003एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	हरबंस सिंह	01.12.2005
400	जेसी	508563एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	धर्म सिंह	01.12.2005
401	जेसी	508055एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जोगिंदर सिंह, एम	01.01.2006
402	जेसी	204303डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मंगल सिंह	01.01.2006
403	जेसी	508288एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मोहन सिंह	01.12.2005
404	जेसी	508419एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सविंद्र सिंह	01.10.2005
405	जेसी	508045एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	तारा सिंह	01.09.2005
डोगरा रेजीमेन्ट					
406	जेसी	518150एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	लेख राज मन्हास	01.01.2006
407	जेसी	519007एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बाजान सिंह	01.11.2005
408	जेसी	519232डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बलबीर सिंह	01.09.2005
409	जेसी	519421ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बलदेव सिंह	01.09.2005
410	जेसी	519014एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बिशम्बर दास	01.09.2005
411	जेसी	518964ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	देस राज	01.11.2005
412	जेसी	518628एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	धर्म चांद वर्मा	01.11.2005
413	जेसी	519264वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	धर्म सिंह	01.09.2005
414	जेसी	518933ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	धरुब चांद	01.09.2005
415	जेसी	519572वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	ज्ञान चांद	01.11.2005
416	जेसी	518809वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जगोर सिंह	01.12.2005
417	जेसी	519244एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	कमल कुमार	01.09.2005
418	जेसी	518708एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	ललित कुमार	01.11.2005
419	जेसी	519306ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	ओम प्रकाश	01.12.2005

420	जेसी 519160एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	प्रकाश चांद शर्मा	01.09.2005
421	जेसी 519394एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राजिन्दर सिंह	01.09.2005
422	जेसी 519035एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रमेश कुमार शर्मा	01.09.2005
423	जेसी 519107एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रवि प्रकाश,	01.09.2005
424	जेसी 519252के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	तिलक राज	01.09.2005
425	जेसी 519041एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	वलायति राम नदा	01.12.2005
गढ़वाल राईफल्स				
426	जेसी 216862एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	भीम सिंह	01.10.2005
427	जेसी 193816एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	धनी राम	01.01.2006
428	जेसी 220223एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	जगदीश प्रसाद	01.10.2005
429	जेसी 211225एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	रघुनाथ सिंह	01.09.2005
430	जेसी 205990के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	राम प्रसाद	01.09.2005
431	जेसी 528309पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बचन सिंह	01.10.2005
432	जेसी 528888एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बच्ची राम	01.01.2006
433	जेसी 528558एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बालकिशन	01.01.2006
434	जेसी 529044एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	धनी लाल	01.01.2006
435	जेसी 222740वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	नरिंदरा सिंह	01.09.2005
436	जेसी 528613वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	नाथी सिंह रावत	01.01.2006
437	जेसी 528011एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	श्याम दत्ता जोशी	01.11.2005
438	जेसी 528498के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सोतेज सिंह	01.11.2005
439	जेसी 529047डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सुल्तान सिंह	01.09.2005
440	जेसी 528517के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	उदय सिंह	01.01.2006
कुमाँउ रेजीमेन्ट				
441	जेसी 224455वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	बिक्रम सिंह	01.01.2006
442	जेसी 196558वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	राम कुमार सिंह राजपूत	01.01.2006
443	जेसी 538634एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बच्चे सिंह	01.01.2006

444	जेसी	538448एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बलवंत सिंह यादव	01.01.2006
445	जेसी	538264एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	भगवान सिंह	01.12.2005
446	जेसी	538940के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	दर्पण सिंह	01.10.2005
447	जेसी	538916एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	दिनेश सारकी	01.10.2005
448	जेसी	538870के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	देव बहादुर	01.09.2005
449	जेसी	538736वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	दीवान सिंह बोरा	01.09.2005
450	जेसी	538629एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	दुर्गा सिंह	01.01.2006
451	जेसी	538898के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	हरीश चंद्र कापरी	01.09.2005
452	जेसी	538985एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जगदीश चंद्रा	01.12.2005
453	जेसी	538746एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जगदीश सिंह	01.01.2006
454	जेसी	538971एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जनक बहादुर चांद	01.01.2006
455	जेसी	538452पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	कल्याण सिंह रौतेला	01.09.2005
456	जेसी	538698एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	करन सिंह धामी	01.09.2005
457	जेसी	538995एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	खडक चांद	01.10.2005
458	जेसी	538853के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	कुंडल सिंह रावल	01.12.2005
459	जेसी	538434एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	लाल सिंह	01.11.2005
460	जेसी	538450के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	महेश चंद्रा	01.09.2005
461	जेसी	538309एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मोहन सिंह	01.12.2005
462	जेसी	538669वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	पवुधन सिंह	01.09.2005
463	जेसी	538235वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	प्रताप सिंह	01.10.2005
464	जेसी	538370एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	प्रेम गिरि	01.01.2006
465	जेसी	538637डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	प्रेम सिंह	01.01.2006
466	जेसी	539067एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	पूरन सिंह	01.12.2005
467	जेसी	538727एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	पूरन सिंह धौनी	01.10.2005
468	जेसी	538082ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राम चंद्रा यादव	01.01.2006

469	जेसी 539242एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रंजीत सिंह अधिकारी	01.11.2005
470	जेसी 538362एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राहिताश्व यादव	01.09.2005
471	जेसी 538540एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	श्रीकृष्णा जोशी	01.11.2005
472	जेसी 538439एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सुरेंद्र सिंह	01.09.2005
473	जेसी 212671ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	तेज सिंह बोरा	01.10.2005
474	जेसी 539062वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	त्रिलोक सिंह	01.10.2005
475	जेसी 539009एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	उमेश सिंह मेहरा	01.10.2005

आसाम रेजीमेंट

476	जेसी 548610एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	बी मंगा गंगटे	01.12.2005
477	जेसी 194658एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	धर्मेश्वर राय	01.01.2006
478	जेसी 548216एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	डी.वाइ बेरन अनल नाग	01.01.2006
479	जेसी 178639डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	जितेन्द्रा नारायण रौय	01.01.2006
480	जेसी 548043पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	करीन चंद्रा राय	01.01.2006
481	जेसी 548504एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	नन्देश्वर सेकिआ	01.09.2005
482	जेसी 212718ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	अतुल च. बर्मन	01.09.2005
483	जेसी 205667पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बनेश्वर राभा	01.09.2005
484	जेसी 203783वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	भावेन च. बारो	01.09.2005
485	जेसी 204162एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	गर्ग नारायण बसुमा	01.09.2005
486	जेसी 196286के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	गुनेश्वर रौय	01.01.2006
487	जेसी 548238ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जोगेश्वर राय	01.01.2006
488	जेसी 224266पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	ज्योती मोहन सिंघा	01.11.2005
489	जेसी 548152एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	कामेश्वर बसुमा	01.12.2005
490	जेसी 202040के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सरत च. गोगोई	01.12.2005
491	जेसी 548387एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सतीश चंद्रा मेधी	01.09.2005

बिहार रेजीमेंट

492	जेसी 558085पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	भर्मेश्वर प्रसाद	01.01.2006
-----	---------------	--------------------------------	------------------	------------

493	जेसी 172624एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जितेन्द्र बहादुर सिंह	01.10.2005
494	जेसी 204349वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सोमई ओरान	01.09.2005
495	जेसी 558186एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	अनुग्रह नारायण सिंह	01.10.2005
496	जेसी 558433एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बिरेन्द्रा कुमार सिंह	01.09.2005
497	जेसी 558409पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	जवाहर मेहता	01.01.2006
498	जेसी 558579एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कैलाश चंद्रा स्वामी	01.11.2005
499	जेसी 558382एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कालंदी चरण साहू	01.12.2005
500	जेसी 558198एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मुंशी हेमब्रम	01.01.2006
501	जेसी 558427एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रबोन मरांडी	01.01.2006
502	जेसी 558188एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राजेंद्र प्रसाद सिंह	01.01.2006
503	जेसी 558398एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रामदेओ सिंह	01.01.2006
504	जेसी 558093एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सम्भू शरण सिंह	01.09.2005
505	जेसी 558539एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सुबासा चंद्रा खन्डुला	01.01.2006
महार रेजीमेन्ट				
506	जेसी 173948पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	ब्रम सरूप सिंह	01.10.2005
507	जेसी 568001के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	गोपीनाथन पिल्लई पीके	01.09.2005
508	जेसी 173939एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जायसवाल नारायण रूप चांद	01.09.2005
509	जेसी 183091ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	साल्वे राज	01.11.2005
510	जेसी 568695पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बृज किशोर	01.01.2006
511	जेसी 568482एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	चाबोक सवारा आनंदा जनकु	01.12.2005
512	जेसी 568639डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	गिरधारी सिंह	01.12.2005
513	जेसी 568624एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	गोपीनाथन नायर एन	01.09.2005
514	जेसी 569035के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	गोरी संकर सत्पथी	01.12.2005
515	जेसी 568694एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	हर सरूप सिंह	01.01.2006
516	जेसी 568730एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	हरसहाय गुज्जर	01.12.2005

517	जेसी 568559वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जय दयाल गुरजर	01.01.2006
518	जेसी 568653एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	कैलाश चंद्रा	01.01.2006
519	जेसी 568590एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मरान्दा तिउ	01.10.2005
520	जेसी 568337के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मोहम्मद इमरान सिद्धीकी	01.11.2005
521	जेसी 568652ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	ओम प्रकाश	01.01.2006
522	जेसी 568638एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राम नारायण रमन	01.09.2005
523	जेसी 568502के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रामेश्वर राय	01.12.2005
524	जेसी 568896एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रोशन लाल वर्मा	01.11.2005
525	जेसी 568732एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	शाम लाल	01.01.2006
526	जेसी 568609वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सुखदेव राज	01.11.2005

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

527	जेसी 224475एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	ओंकार चांद	01.09.2005
528	जेसी 579088डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	अब्दुल मजीद	01.10.2005
529	जेसी 579032के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	अर्जन सिंह	01.09.2005
530	जेसी 579083एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बलबीर सिंह	01.01.2006
531	जेसी 578945वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	ब्रीकम चांद सुमन	01.09.2005
532	जेसी 570175एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	दलीप सिंह	01.10.2005
533	जेसी 579228एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	गनेश दास	01.01.2006
534	जेसी 579118एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	गनी मोहम्मद	01.10.2005
535	जेसी 579217एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	ज्ञान सिंह	01.01.2006
536	जेसी 579104एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जमाल दीन	01.12.2005
537	जेसी 578848एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मधु सुदेन	01.09.2005
538	जेसी 579156वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	प्रकाश चांद	01.10.2005
539	जेसी 579093एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	संतोष कुमार	01.10.2005
540	जेसी 579371के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	शशि पाल	01.09.2005

541	जेसी	579203एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	शशि पाल शर्मा	01.11.2005
542	जेसी	578858एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सुदेश कुमार	01.12.2005
543	जेसी	578946एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सुरजीत सिंह	01.10.2005
544	जेसी	578341ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	स्वर्ण दास	01.01.2006
लद्दाख स्काउट					
545	जेसी	216961पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	सोनम पुन्चुक	01.11.2005
546	जेसी	183576एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	तसेवांग रिगजिन	01.10.2005
547	जेसी	588072एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	ऑरगेन तेसतान	01.12.2005
नागा रेजीमेन्ट					
548	जेसी	185544वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	अथियोस लोथा	01.11.2005
549	जेसी	590129पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	गोपाल सिंह	01.10.2005
जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल					
550	जेसी	166127एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	देस राज	01.10.2005
551	जेसी	592051एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	प्रेम नाथ	01.09.2005
552	जेसी	592062ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	राम सरूप	01.10.2005
553	जेसी	592141पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	रूप लाल शर्मा	01.11.2005
554	जेसी	592311एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	अशोक सिंह	01.09.2005
555	जेसी	592660एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	चमन लाल	01.11.2005
556	जेसी	592672एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	जिया लाल	01.01.2006
557	जेसी	592420ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मोहम्मद शेफी बुरह	01.11.2005
558	जेसी	592361वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	नेक राम	01.10.2005
559	जेसी	592655एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सरदार सिंह	01.10.2005
1 गोरखा राईफल्स					
560	जेसी	602003के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	इंद्र सिंह	01.01.2006
561	जेसी	602261के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बोमई बहादुर थापा	01.01.2006
562	जेसी	602289के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	चंद्रा बहादुर राना	01.12.2005
563	जेसी	602410एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	ज्ञान बहादुर थापा, एम	01.11.2005

564	जेसी	602313पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जोधकर बहादुर थापा	01.09.2005
565	जेसी	602355एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मान काजी गुरंग	01.11.2005
566	जेसी	602373के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	प्रेम कुमार गुरंग	01.10.2005
567	जेसी	602362के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	उमेश बहादुर अले	01.09.2005
568	जेसी	602394ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	याम बहादुर घले	01.10.2005
3 गोरखा राईफल्स					
569	जेसी	221069एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	पंदब बहादुर घरती	01.10.2005
570	जेसी	607122के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	चंद्रा बहादुर पछमैया	01.11.2005
571	जेसी	607338एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	देब बहादुर थापा	01.10.2005
572	जेसी	607337एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	दिकबहादुर बहादुर गुरंग	01.10.2005
573	जेसी	607315के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मुक्ता बहादुर गुरंग	01.01.2006
574	जेसी	607059ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	प्रीतम बहादुर पुन	01.09.2005
575	जेसी	607330वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रेखा सिंह गुरंग	01.11.2005
576	जेसी	607343डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रुमाल बहादुर पुन	01.10.2005
577	जेसी	607340एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	शमन सिंह राना	01.12.2005
578	जेसी	607328एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	युव कुमार गुरंग	01.09.2005
4 गोरखा राईफल्स					
579		94712एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	कुलदीप सिंह खत्री	01.10.2005
580	जेसी	612335एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	भगवान सिंह	01.11.2005
581	जेसी	612264एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	वीर भूषण माल	01.12.2005
582	जेसी	612352एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	गाजुर मान गुरंग	01.12.2005
583	जेसी	612381डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	फरसा बहादुर थापा	01.12.2005
5 गोरखा राईफल्स					
584	जेसी	617341वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	टेक बहादुर बलाल	01.09.2005
585	जेसी	617463एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मान बीर गुरंग	01.11.2005
586	जेसी	617464एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	धन बहादुर थापा	01.12.2005

587	जेसी	617357के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कृष्णा बहादुर थापा	01.12.2005
8 गोरखा राईफल्स					
588	जेसी	623016पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	केहर सिंह शिल्पकार	01.11.2005
589	जेसी	205399डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	महेंद्र सिंह थापा	01.12.2005
590	जेसी	623342एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	तिल बहादुर गुरंग	01.10.2005
9 गोरखा राईफल्स					
591	जेसी	629297एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	इमानी सिंह छत्री	01.10.2005
592	जेसी	629043पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	जीबान शाही	01.12.2005
593	जेसी	629402एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	करण बहादुर शाही	01.10.2005
594	जेसी	629437एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	कुल बहादुर घरती छत्री	01.12.2005
595	जेसी	629409एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	ओम प्रकाश छत्री	01.11.2005
596	जेसी	629389वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	प्रेम बहादुर छत्री	01.10.2005
597	जेसी	629334पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रत्तन कुमार छत्री	01.10.2005
598	जेसी	629372एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	शेर बहादुर छत्री	01.09.2005
11 गोरखा राईफल्स					
599	जेसी	192503एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	नार बहादुर गुरंग	01.11.2005
600	जेसी	185139एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	राम बहादुर राय	01.11.2005
601	जेसी	634348वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रण बहादुर राय	01.12.2005
602	जेसी	634301एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सिवा कुमार राय	01.09.2005
सेना सेवा कोर दक्षिण					
603	जेसी	213562ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	भीम सिंह	01.09.2005
604	जेसी	213579एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	ई निलकांतमा राजू	01.09.2005
605	जेसी	213639एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	गुले करभरी बाबू राव	01.09.2005
606	जेसी	209018एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	प्रोभाष चंद्रा दहेर	01.12.2005
607	जेसी	213605के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	राम आधार सिंह	01.11.2005
608	जेसी	660549पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	राम शरण	01.12.2005
609	जेसी	660563एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	साहब सिंह	01.12.2005

610	जेसी	202556एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	शिव शरण	01.11.2005
611	जेसी	660531वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	तेज पाल सिंह	01.11.2005
612	जेसी	661597एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	अजीत कुमार शुक्ला	01.09.2005
613	जेसी	661874एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बदारी प्रसाद	01.01.2006
614	जेसी	213601एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बासुदेव प्रसाद देव	01.11.2005
615	जेसी	661608एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बराति लाल	01.09.2005
616	जेसी	661691एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	चंद्रा पाल शर्मा	01.10.2005
617	जेसी	193275एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	द्रोणाचार्या बुगालईया	01.01.2006
618	जेसी	661952एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	हरबिलास	01.09.2005
619	जेसी	661842वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	हरी नाथ चौधरी	01.09.2005
620	जेसी	661725एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	हरी नाथ सिंह	01.12.2005
621	जेसी	661275एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	होरेन चंद्रा दत्ता	01.01.2006
622	जेसी	640622एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	इश्वर सिंह दहिया	01.11.2005
623	जेसी	640686एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	कमल कृष्णा रौय	01.01.2006
624	जेसी	640766के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	लोहित च. भूयान	01.10.2005
625	जेसी	661389एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	महेश्वर पांडे	01.01.2006
626	जेसी	221567एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मोहम्मद शमीम	01.11.2005
627	जेसी	640878के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	नोगेन च. बोरा	01.12.2005
628	जेसी	661242डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	पुरुषोत्तम लाल	01.11.2005
629	जेसी	661493ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राम कृष्णन	01.09.2005
630	जेसी	641486एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रमेश कुमार	01.01.2006
631	जेसी	640950पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	शंकर कुंडलिक धावादे	01.01.2006
632	जेसी	213694एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	शिव शंकर पांडे	01.09.2005
633	जेसी	193274के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	श्रवण कुमार शर्मा	01.01.2006
634	जेसी	640772एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सुधाकर त्रिपाठी	01.09.2005

सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

635	जेसी	680193एन	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	अवध किशोर तिवारी	01.12.2005
636	जेसी	680204पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	बाबाजी चरण जैना	01.12.2005
637	जेसी	680169एक्स	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	बजरंगी	01.12.2005
638	जेसी	680093एच	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	बलवंत सिंह मडवाल	01.10.2005
639	जेसी	680257एन	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	बमन लाल	01.01.2006
640	जेसी	680152के.	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	दया राम	01.12.2005
641	जेसी	680284एक्स	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	हरी नाम्न	01.12.2005
642	जेसी	680175एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	हरी राम	01.11.2005
643	जेसी	680196एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	कंवर पाल सिंह	01.12.2005
644	जेसी	680133वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	केदार नाथ सिंह	01.12.2005
645	जेसी	680311डब्ल्यू	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	लाल मनी	01.01.2006
646	जेसी	680137पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	मदन अप्पा के.	01.11.2005
647	जेसी	680141एक्स	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	मोती लाल शर्मा	01.12.2005
648	जेसी	680116वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	प्रभु नारायन सिंह	01.10.2005
649	जेसी	680174एच	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	पुनवासी राम	01.12.2005
650	जेसी	680251एम	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	रघबीर सिंह	01.11.2005
651	जेसी	680167एम	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	राम बिश्नू राय	01.12.2005
652	जेसी	680227डब्ल्यू	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	राम नगीना राम	01.01.2006
653	जेसी	680134एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	रामानुज राम	01.11.2005
654	जेसी	680151एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	रामवीर सिंह	01.12.2005
655	जेसी	680203एम	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	शिव लाल	01.11.2005
656	जेसी	680200वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	सिबदासन प्रसाद राउत	01.12.2005
657	जेसी	680155एक्स	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं	सुरेंद्र सिंह	01.12.2005

सेना चिकित्सा कोर

658	जेसी	691478ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	भंवर सिंह भाटी	01.10.2005
-----	------	---------	---------------------------------	----------------	------------

659	जेसी	83479डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	दया शंकर मिश्रा	01.10.2005
660	जेसी	690809के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जायशी राम	01.11.2005
661	जेसी	212192वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	केदार नाथ डोगरा	01.10.2005
662	जेसी	690433एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	मोहिन्दर सिंह	01.11.2005
663	जेसी	690434डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	नरेंद्र सिंह	01.11.2005
664	जेसी	690803एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	रोशन लाल	01.12.2005
665	जेसी	690841वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	संग्राम सिंह	01.11.2005
666	जेसी	690805एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	शिव राम	01.10.2005
667	जेसी	690839एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	शोबा राम	01.12.2005
668	जेसी	692190एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	अर्जुन सिंह कुशवाहा	01.10.2005
669	जेसी	691987वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बेनुधर नायक	01.01.2006
670	जेसी	693410एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	दयानिधि स्वेन	01.01.2006
671	जेसी	691961के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	हरीश चंद्रा सिंह	01.01.2006
672	जेसी	692948एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	महेरमान थापा	01.12.2005
673	जेसी	691417एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मोहन सिंह	01.12.2005
674	जेसी	692740के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	मोहिन्दर सिंह	01.01.2006
675	जेसी	691073पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	ओम प्रकाश वेशनावा	01.10.2005
676	जेसी	691924डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	प्रेम चांद राजवर	01.09.2005
677	जेसी	691173ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रघुनाथ प्रसाद	01.01.2006
678	जेसी	692337एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	राम मूर्ती	01.01.2006
679	जेसी	693389ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	एस के. आजाद उद्दीन	01.12.2005
680	जेसी	692500एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	उन्नीकान्न ई वी	01.10.2005
681	जेसी	692282वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	विश्वा विजय कुमार	01.09.2005

सेना आरुध कोर

682	जेसी	722423ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	अमर चांद	01.09.2005
-----	------	---------	---------------------------------	----------	------------

683	जेसी	217695एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	भाग सिंह	01.11.2005
684	जेसी	213201एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	बिजय कुमार दास	01.09.2005
685	जेसी	722648एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	इन्द्रा सिंह शेखावत	01.12.2005
686	जेसी	722113पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जैकब कोशी	01.11.2005
687	जेसी	221731एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	कनवर सुदर्शन सिंह सुमबरिया	01.11.2005
688	जेसी	217515ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	मोहन दास वी	01.01.2006
689	जेसी	722180ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	नारा सिंह रवेन	01.12.2005
690	जेसी	217411वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	औंकार नाथ बलोत्रा	01.10.2005
691	जेसी	723017एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	प्रताप राम	01.09.2005
692	जेसी	223150एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	रघबीर सिंह	01.10.2005
693	जेसी	722030के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	शिव करन जाट	01.11.2005
694	जेसी	225170वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	श्याम लाल शर्मा	01.10.2005
695	जेसी	209974के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	रघुनाथ चांद पटेल	01.10.2005
696	जेसी	225173एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	तारा चांद खुरास	01.11.2005
697	जेसी	221633एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	बजीर सिंह	01.01.2006
698	जेसी	723586ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	अविन्द कुमार मिश्रा	01.09.2005
699	जेसी	723578एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	बदन चंद्रा निओगी	01.01.2006
700	जेसी	724460एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	दया किशन	01.11.2005
701	जेसी	722697एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	गुलजार सिंह	01.12.2005
702	जेसी	723204एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	पियू कानि नाथ बरगुर्गा	01.01.2006
703	जेसी	723042एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सुधाश मजुमदार	01.01.2006
इलेक्ट्रिकल एवं मेकैनिक्ल इंजीनियर्स					
704	जेसी	210207एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	बहादुर सिंह अंकोरी	01.12.2005
705	जेसी	207228एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	भास्व नारायण सिंह	01.09.2005
706	जेसी	187840एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	जी. वी. मुरली कृष्ण राव	01.10.2005

707	जेसी	217277वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	हरीश चंद्रा	01.11.2005
708	जेसी	747889एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	इन्द्रा देव राय	01.10.2005
709	जेसी	189018एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	इश्वर चंद्र	01.12.2005
710	जेसी	189009डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	कुलवंत सिंह कहलन	01.11.2005
711	जेसी	218757पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	मोबता राम विशनोई	01.09.2005
712	जेसी	189034पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	प्रभाकरन महादेव	01.09.2005
713	जेसी	189107डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	प्रताप सिंह	01.10.2005
714	जेसी	189074डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	राज पाल सिंह	01.10.2005
715	जेसी	222441ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	राम जनम सिंह	01.09.2005
716	जेसी	747929के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	राम नरेश ठाकुर	01.01.2006
717	जेसी	749273वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	रामेश्वर प्रसाद तिवारी	01.09.2005
718	जेसी	225463के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	श्रवण सिंह	01.10.2005
719	जेसी	188827एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	शंकर पाल सिंह	01.09.2005
720	जेसी	187848पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	शिव नाथ सिंह	01.11.2005
721	जेसी	189280ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	श्यामल बैद्य	01.11.2005
722	जेसी	188970एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	वेंकटरामा नायडू गांधी रौबन	01.11.2005
723	जेसी	189017पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	विजेन्द्र सिंह तिओटिआ	01.12.2005
724	जेसी	755721डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	अखिलेश कुमार मिश्रा	01.12.2005
725	जेसी	750045एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	अशोक प्रसाद सिंह	01.01.2006
726	जेसी	755047एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बालाराम बेलगुनदाकर	01.12.2005
727	जेसी	751730ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बलबीर सिंह शर्मा	01.09.2005
728	जेसी	751549एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बलदेव सिंह	01.10.2005
729	जेसी	748212पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बलजीत सिंह	01.09.2005
730	जेसी	750166के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बलराम शर्मा	01.01.2006
731	जेसी	754749के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बंसीधर जोशी	01.09.2005

732	जेसी 748966के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बिश्नू कांत पांडे	01.10.2005
733	जेसी 756031वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बृज किशोर सिंह	01.01.2006
734	जेसी 747897एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	छबि चांद शर्मा	01.10.2005
735	जेसी 751799के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	दया चांद सिंह चाहर	01.09.2005
736	जेसी 752672एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	डिशमाने रामकिशन उमाजी	01.09.2005
737	जेसी 753068पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	देव राज	01.01.2006
738	जेसी 751583एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	दीन दयाल सिंह	01.01.2006
739	जेसी 752130के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	दिनेश चंद्र	01.01.2006
740	जेसी 751800एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	हुकम सिंह गुर्जर	01.09.2005
741	जेसी 755044के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जग नारायण सिंह	01.12.2005
742	जेसी 752957ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	जोसेफ फ्रांसेस	01.12.2005
743	जेसी 749418वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	कृष्णा धन देबनाथ	01.10.2005
744	जेसी 752775एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मदन लाल मीना	01.12.2005
745	जेसी 752048पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	महेंद्र बेहेरा	01.09.2005
746	जेसी 752331एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मनकामना प्रसाद	01.09.2005
747	जेसी 755264एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	मोहन राय	01.01.2006
748	जेसी 225460डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	पदमनैया परीद	01.11.2005
749	जेसी 749503एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	पारेश नाथ घोष	01.01.2006
750	जेसी 750847एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	पाटिल तानाजी महादेव	01.01.2006
751	जेसी 749502वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रघुवीर सिंह	01.12.2005
752	जेसी 752736एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राज नारायण लाल	01.10.2005
753	जेसी 755022एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राम प्रसाद	01.01.2006
754	जेसी 750039पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रमेशन एम पी	01.11.2005
755	जेसी 748712एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रवीन्द्र प्रसाद	01.01.2006
756	जेसी 748752एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	संगत सिंह	01.01.2006

757	जेसी	749607एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	श्रीकांतन पिल्लई जे	01.10.2005
758	जेसी	747425डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	सुशील कुमार शर्मा	01.12.2005
759	जेसी	756030डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	त्यागराजन ए	01.01.2006
760	जेसी	754500एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	उगमा राम	01.01.2006
761	जेसी	751813एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	विजय कुमार	01.12.2005
762	जेसी	750044ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	वीरेंद्र सिंह	01.12.2005
सेना शिक्षा कोर					
763	जेसी	200580के.	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	अजीत सिंह	01.12.2005
764	जेसी	200579पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	बलबीर सिंह गिल	01.12.2005
765	जेसी	201640ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	धर्म पाल रवीश	01.01.2006
766	जेसी	206840ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	हकीम सिंह	01.09.2005
767	जेसी	198887एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	मनोरंजन ध्यानी	01.09.2005
768	जेसी	198882पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	स्वतंत्रा वीर विक्रम बहादुर सिंह	01.09.2005
769	जेसी	218707के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	देवआशी चौधरी	01.11.2005
770	जेसी	216180एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	नरेंद्रा सिंह चौहान	01.01.2006
771		07059एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	निहाल सिंह नेगी	01.01.2006
772	जेसी	223015वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	राजेंद्र सिंह	01.11.2005
रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर					
773	आरवी	7745डब्ल्यू	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै	महाबीर	01.10.2005
774	जेसी	797242डब्ल्यू	रिसालदार एवं अवैतनिक लै	राजेन्द्र यादव	01.10.2005
आसुचना कोर					
775	जेसी	198159एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	बिक्रम सिंह	01.11.2005
776	जेसी	197792एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै	बिरेन्द्रा सिंह रावत	01.10.2005
777	जेसी	197788वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बलबीर सिंह कैरा	01.12.2005
778	जेसी	204677एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	बलदेव सिंह	01.10.2005
779	जेसी	197789एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै	रनबीर सिंह	01.09.2005

780	जेसी 195891एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सुरजीत सिंह बिरदा	01.09.2005
सेना पुलिस कोर				
781	जेसी 818310पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	भाबेष् चंद्रा किरतुनिया	01.11.2005
782	जेसी 818318एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	पृथ्वी सिंह राठोर	01.11.2005
783	जेसी 818415वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	सलिक राम	01.12.2005
784	जेसी 818187एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	युमनाम बिद्या बाबू सिंह	01.12.2005
सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर				
785	जेसी 826078के.	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	रामेश्वर सिंह	01.01.2006
पायोनियर कोर				
786	जेसी 829120एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	दीवान सिंह	01.01.2006
787	जेसी 140322एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	ओम प्रकाश शर्मा	01.11.2005
प्रादेशिक सेना				
788	टीजे 3505	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	विलास यल्लपा कामले	01.07.2005
789	टीजे 4296	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	अलबेल सिंह	01.05.2005
790	टीजे 3358	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	चन्द्रापत सिंह यादव	01.02.2005
791	टीजे 3250एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	के मोहन	01.02.2005
792	टीजे 3253ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	के बालाकृष्णन	01.02.2005
793	टीजे 3023	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	खेला राम	01.04.2005
794	टीजे 3201	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	एम आई कृष्णन	01.03.2005
795	टीजे 3140	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	नागगप्पा भूसी	01.03.2005
796	टीजे 3380पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	उमेद सिंह	01.04.2005
797	टीजे 3507	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	विश्वा एम कामले	01.07.2005
798	टीजे 3387एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	विशानु नथू के	01.08.2005

अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट के रूप में17 होर्स

1	जेसी	204569एच	रिसालदार मेजर	जोगिंदर सिंह	01.11.2005
---	------	----------	---------------	--------------	------------

45 कैवेलरी

2	जेसी	235629एन	रिसालदार मेजर	भीकू राम	01.01.2006
---	------	----------	---------------	----------	------------

64 कैवेलरी

3	जेसी	236329वाइ	रिसालदार मेजर	समुद्र सिंह	01.11.2005
---	------	-----------	---------------	-------------	------------

15 आर्मड रेजीमेंट

4	जेसी	236218एफ	रिसालदार मेजर	चत्तर सिंह	01.10.2005
---	------	----------	---------------	------------	------------

51 आर्मड रेजीमेंट

5	जेसी	235924डब्ल्यू	रिसालदार मेजर	हरजीत सिंह	01.09.2005
---	------	---------------	---------------	------------	------------

आर्टिलरी रेजीमेंट

6	जेसी	202325डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अम्बा सिंह	01.09.2005
---	------	---------------	--------------	------------	------------

7	जेसी	223626एन	सुबेदार मेजर	बब्बन चोबे	01.11.2005
---	------	----------	--------------	------------	------------

8	जेसी	206483एच	सुबेदार मेजर	बालकर सिंह	01.12.2005
---	------	----------	--------------	------------	------------

9	जेसी	190604एम	सुबेदार मेजर	बशीर अहमद खान	01.10.2005
---	------	----------	--------------	---------------	------------

10	जेसी	225253के.	सुबेदार मेजर	भूप सिंह यादव	01.09.2005
----	------	-----------	--------------	---------------	------------

11	जेसी	256864ए	सुबेदार मेजर	जार्ज वी जी.	01.10.2005
----	------	---------	--------------	--------------	------------

12	जेसी	206177एन	सुबेदार मेजर	गुरबचन सिंह	01.10.2005
----	------	----------	--------------	-------------	------------

13	जेसी	197602के.	सुबेदार मेजर	इंदराज सिंह	01.01.2006
----	------	-----------	--------------	-------------	------------

14	जेसी	226484एम	सुबेदार मेजर	कृष्णन कुमार जसवाल	01.09.2005
----	------	----------	--------------	--------------------	------------

15	जेसी	182095के.	सुबेदार मेजर	कुलवंत सिंह	01.01.2006
----	------	-----------	--------------	-------------	------------

16	जेसी	193438पी	सुबेदार मेजर	एम पछाप्पन	01.09.2005
----	------	----------	--------------	------------	------------

17	जेसी	200387एक्स	सुबेदार मेजर	मोहम्मद करिमुल्ला	01.09.2005
----	------	------------	--------------	-------------------	------------

18	जेसी	226307एम	सुबेदार मेजर	नानक सिंह	01.12.2005
----	------	----------	--------------	-----------	------------

19	जेसी	200309ए	सुबेदार मेजर	पी उमा महेश्वर राव	01.11.2005
----	------	---------	--------------	--------------------	------------

20	जेसी	203326एल	सुबेदार मेजर	राम निवास	01.09.2005
----	------	----------	--------------	-----------	------------

21	जेसी	190608एच	सुबेदार मेजर	रावेल सिंह	01.12.2005
----	------	----------	--------------	------------	------------

22	जेसी	255586एल	सुबेदार मेजर	रोमेश चांद	01.11.2005
----	------	----------	--------------	------------	------------

23	जेसी	225550एक्स	सुबेदार मेजर	एस नानाप्रकाशन	01.01.2006
----	------	------------	--------------	----------------	------------

24	जेसी	221264वाइ	सुबेदार मेजर	सरदेव सिंह	01.10.2005
----	------	-----------	--------------	------------	------------

25	जेसी	198736पी	सुबेदार मेजर	शोबा नारायण यादव	01.10.2005
----	------	----------	--------------	------------------	------------

26	जेसी	201273वाइ	सुबेदार मेजर	सोमा शेकरन	01.11.2005
----	------	-----------	--------------	------------	------------

27	जेसी	211916वाइ	सुबेदार मेजर	त्रिवेनी सिंह	01.01.2006
----	------	-----------	--------------	---------------	------------

वायु सुरक्षा आर्टिलरी कोर

28	जेसी	169778वाइ	सुबेदार मेजर	दाता राम यादव	01.09.2005
----	------	-----------	--------------	---------------	------------

29	जेसी	165645एल	सुबेदार मेजर	दया नन्द	01.12.2005
----	------	----------	--------------	----------	------------

30	जेसी	226591एन	सुबेदार मेजर	राम चंद्रा सिंह भदोरिया	01.12.2005
----	------	----------	--------------	-------------------------	------------

मद्रास इंजीनियर समूह

31	जेसी	224782के.	सुबेदार मेजर	जी. नमशिवायम	01.09.2005
----	------	-----------	--------------	--------------	------------

32	जेसी	305171पी	सुबेदार मेजर	काशिनाथ	01.12.2005
----	------	----------	--------------	---------	------------

33	जेसी	305175एल	सुबेदार मेजर	राजन पी	01.12.2005
----	------	----------	--------------	---------	------------

34	जेसी	224780वाइ	सुबेदार मेजर	सोमन नाथर एस	01.12.2005
----	------	-----------	--------------	--------------	------------

बंगाल इंजीनियर समूह

35	जेसी	210598एन	सुबेदार मेजर	विशेश्वर बोरुह	01.01.2006
----	------	----------	--------------	----------------	------------

36	जेसी	325347डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	देओकर धोन्दीभौ भगजी	01.11.2005
----	------	---------------	--------------	---------------------	------------

37	जेसी	326056एच	सुबेदार मेजर	जी. राजेन्द्रन	01.10.2005
----	------	----------	--------------	----------------	------------

38	जेसी	174713पी	सुबेदार मेजर	गुरभजन सिंह	01.01.2006
----	------	----------	--------------	-------------	------------

39	जेसी	210543के.	सुबेदार मेजर	जसपाल सिंह	01.10.2005
----	------	-----------	--------------	------------	------------

40	जेसी	224855एल	सुबेदार मेजर	मदन चंद्रा भट्ट	01.10.2005
41	जेसी	325734एल	सुबेदार मेजर	मोहन एम एम	01.10.2005
42	जेसी	179844के.	सुबेदार मेजर	नारायण दत्त	01.12.2005
43	जेसी	325346एन	सुबेदार मेजर	आर बी	01.10.2005
44	जेसी	210547ए	सुबेदार मेजर	राम मेहर	01.10.2005
45	जेसी	174833एन	सुबेदार मेजर	सतीश चंद्रा द्विवेदी	01.09.2005
46	जेसी	210568डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सत्य प्रकाश	01.11.2005
47	जेसी	210447पी	सुबेदार मेजर	सुलखान सिंह	01.01.2006
48	जेसी	122934एम	सुबेदार मेजर	सुनील कुमार वर्मा	01.12.2005
49	जेसी	207578पी	सुबेदार मेजर	त्रिलोक सिंह सौंद	01.01.2006
बोम्बे इंजीनियर समूह					
50	जेसी	207915वाइ	सुबेदार मेजर	बिजेंद्र सिंह	01.12.2005
51	जेसी	207910ए	सुबेदार मेजर	चौधरी नागराज लोटन	01.10.2005
52	जेसी	209639ए	सुबेदार मेजर	ईश्वर सिंह सिवाच	01.12.2005
53	जेसी	207917के.	सुबेदार मेजर	कुलदीप कुमार शर्मा	01.10.2005
54	जेसी	209636एम	सुबेदार मेजर	मोहम्मद सकील	01.10.2005
55	जेसी	207929वाइ	सुबेदार मेजर	नरेंद्रा कुमार गुप्ता	01.12.2005
56	जेसी	207914डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सूरज भान	01.10.2005
सिग्नल्स कोर					
57	जेसी	200647एक्स	सुबेदार मेजर	बिरांजे बालाराम राउ	01.10.2005
58	जेसी	368240पी	सुबेदार मेजर	इंद्राभान सिंह	01.01.2006
59	जेसी	206749के.	सुबेदार मेजर	जगदीश चंद्र	01.12.2005
60	जेसी	207322एम	सुबेदार मेजर	जय भगवान	01.01.2006
61	जेसी	188194एच	सुबेदार मेजर	जसवंत सिंह	01.01.2006
62	जेसी	163315एन	सुबेदार मेजर	कुलदीप सिंह	01.12.2005
63	जेसी	197666पी	सुबेदार मेजर	ललन सिंह	01.09.2005
64	जेसी	200666एच	सुबेदार मेजर	नार सिंह	01.01.2006
65	जेसी	200651ए	सुबेदार मेजर	प्यारा लाल	01.10.2005
66	जेसी	207321के.	सुबेदार मेजर	राधाकृष्ण बी	01.09.2005
67	जेसी	163987ए	सुबेदार मेजर	रविन्द्र पिलाई के.	01.06.2005
68	जेसी	218839एक्स	सुबेदार मेजर	संतोष कुमार साही	01.10.2005
69	जेसी	188241पी	सुबेदार मेजर	सुबाष चांद	01.09.2005
70	जेसी	200650एक्स	सुबेदार मेजर	सुरजीत सिंह	01.10.2005
71	जेसी	368694एच	सुबेदार मेजर	वीरेंद्र कुमार शर्मा	01.12.2005
गार्ड्स					
72	जेसी	184234एफ	सुबेदार मेजर	अयोध्या सिंह चौहान	01.09.2005
73	जेसी	205425एम	सुबेदार मेजर	राम सिंह	01.10.2005
74	जेसी	200960एच	सुबेदार मेजर	रत्तन लाल शर्मा	01.10.2005
75	जेसी	188597एच	सुबेदार मेजर	रोहतास सिंह	01.09.2005
76	जेसी	194478एच	सुबेदार मेजर	तारा चांद सिंह	01.01.2006
मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट					
77	जेसी	204614के.	सुबेदार मेजर	बी सिंह	01.11.2005
78	जेसी	195470एच	सुबेदार मेजर	जंग शेर सिंह	01.11.2005
79	जेसी	206640के.	सुबेदार मेजर	शिव नन्द	01.11.2005
80	जेसी	204615एम	सुबेदार मेजर	तारा सिंह गुलेरिया	01.11.2005
ग्रेनेडियर्स					
81	जेसी	220904एल	सुबेदार मेजर	बचन लाल	01.09.2005
82	जेसी	184946के.	सुबेदार मेजर	किशोरी लाल	01.09.2005
83	जेसी	220130एन	सुबेदार मेजर	माधो सिंह	01.09.2005
84	जेसी	218444डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	प्रभु सिंह राठौर	01.12.2005

राजपूत रेजीमेन्ट					
85	जेसी	211066ए	सुबेदार मेजर	राज सिंह	01.09.2005
86	जेसी	478100एल	सुबेदार मेजर	राम कुमार	01.11.2005
87	जेसी	205548वाइ	सुबेदार मेजर	शिव कुमार सिंह,	01.09.2005
जाट रेजीमेन्ट					
88	जेसी	168863पी	सुबेदार मेजर	दुली चांद	01.11.2005
89	जेसी	488121पी	सुबेदार मेजर	नाथू लाल जाट	01.09.2005
90	जेसी	184996पी	सुबेदार मेजर	रण सिंह	01.12.2005
सिख लघु पैदल सेना					
91	जेसी	219715पी	सुबेदार मेजर	चरण सिंह	01.01.2006
92	जेसी	196247एल	सुबेदार मेजर	गुरबचन सिंह	01.12.2005
93	जेसी	196508एन	सुबेदार मेजर	मलकियत सिंह वालिआ	01.12.2005
94	जेसी	508071वाइ	सुबेदार मेजर	वजीर सिंह	01.09.2005
डोगरा रेजीमेन्ट					
95	जेसी	518010पी	सुबेदार मेजर	नवंग ताशी	01.12.2005
गठवाल राईफल्स					
96	जेसी	205669ए	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह	01.12.2005
97	जेसी	188534ए	सुबेदार मेजर	होशियार सिंह नेगी	01.10.2005
बिहार रेजीमेन्ट					
98	जेसी	212964एल	सुबेदार मेजर	इलेसिस कुजुर	01.09.2005
99	जेसी	186829एक्स	सुबेदार मेजर	राम बाबू राय	01.09.2005
महारा रेजीमेन्ट					
100	जेसी	192483पी	सुबेदार मेजर	राज किशोर सिंह	01.01.2006
जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स					
101	जेसी	578005एन	सुबेदार मेजर	जोगिंदर सिंह	01.09.2005
11 गोखड़ा राईफल्स					
102	जेसी	186957एम	सुबेदार मेजर	दीपक जंग थापा	01.01.2006
सेना सेना कोर दक्षिण					
103	जेसी	841127पी	सुबेदार मेजर	आनन्दन नायर के.	01.09.2005
104	जेसी	891955डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	आशीस दत्ता	01.01.2006
105	जेसी	640217के.	सुबेदार मेजर	बिजेन्द्र सिंह	01.01.2006
106	जेसी	640147डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बिजय कुमार दास	01.01.2008
107	जेसी	213604एफ	सुबेदार मेजर	गोपाल पनिकेर एम	01.11.2005
108	जेसी	215475एल	सुबेदार मेजर	गोड़ चंद्रा विश्वास	01.11.2005
109	जेसी	213566पी	सुबेदार मेजर	हरफूल सिंह	01.11.2005
110	जेसी	640207ए	सुबेदार मेजर	जानकी लाल	01.09.2005
111	जेसी	640213एन	सुबेदार मेजर	मछावेंकटा सुब्बाया	01.09.2005
112	जेसी	640574एम	सुबेदार मेजर	महेश चंद्र सिंह काकी	01.11.2005
113	जेसी	213592एक्स	सुबेदार मेजर	माणे लाल	01.11.2005
114	जेसी	213683एन	सुबेदार मेजर	मृणाल कान्ति रौय	01.12.2005
115	जेसी	640578एच	सुबेदार मेजर	मिताइ चंद्रा मंडल	01.12.2005
116	जेसी	640577ए	सुबेदार मेजर	राजेंद्र प्रसाद	01.01.2006
117	जेसी	213832एन	सुबेदार मेजर	आर तिवारी	01.11.2005
118	जेसी	640200डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रमेश बोयाट	01.09.2005
सेना थिकित्सा कोर					
119	जेसी	690843के.	सुबेदार मेजर	अलखे चंद्रा परीद	01.11.2005
120	जेसी	890808एफ	सुबेदार मेजर	बैजनाथ मिश्रा	01.11.2005
121	जेसी	690802ए	सुबेदार मेजर	गंगा बहादुर गुरंग	01.09.2005
122	जेसी	690861एम	सुबेदार मेजर	जीगा राम खम्भावंत	01.12.2005
123	जेसी	890756एफ	सुबेदार मेजर	ललिता प्रसाद	01.01.2006

124	जेसी 690248ए	सुबेदार मेजर	रजत कुमार पटनायक	01.09.2005
125	जेसी 690494एल	सुबेदार मेजर	राम भवन सिंह	01.10.2005
126	जेसी 691479एच	सुबेदार मेजर	रमेश प्रसाद सिंह	01.11.2005
127	जेसी 690189वाइ	सुबेदार मेजर	सुरेंद्र चौधरी	01.11.2005
128	जेसी 690707एन	सुबेदार मेजर	विश्व नाथ ठाकुर	01.12.2005
सेना आयुध कोर				
129	जेसी 722060एफ	सुबेदार मेजर	जय पाल सिंह भंडारी	01.11.2005
130	जेसी 217719एम	सुबेदार मेजर	टी जी. अब्राहम	01.11.2005
इलेक्ट्रॉनिकल एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स				
131	जेसी 750135के	सुबेदार मेजर	बिजया कुमार प्रधान	01.01.2006
132	जेसी 749516वाइ	सुबेदार मेजर	चंद्रन सी	01.09.2005
133	जेसी 749517एफ	सुबेदार मेजर	धामबारे किसान मानसिंह	01.10.2005
134	जेसी 189038एल	सुबेदार मेजर	हरका बहादुर गुरंग	01.10.2005
135	जेसी 750132डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जागीर सिंह	01.10.2005
136	जेसी 189037एच	सुबेदार मेजर	कुंवर सिंह मेहता	01.10.2005
137	जेसी 750131एन	सुबेदार मेजर	महादिक झाराम धाकृतु	01.11.2005
138	जेसी 224124एक्स	सुबेदार मेजर	नाथू लाल मेघवाल	01.10.2005
139	जेसी 750308डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राज कुमार सिंह	01.11.2005
140	जेसी 747936ए	सुबेदार मेजर	राम कुमार वर्मा	01.09.2005
141	जेसी 759512एच	सुबेदार मेजर	रामचन्द्रन सी	01.09.2005
142	जेसी 222023एल	सुबेदार मेजर	श्री राम सिंह	01.01.2006
143	जेसी 222023एफ	सुबेदार मेजर	श्रीकांत तिवारी	01.12.2005
144	जेसी 749270एल	सुबेदार मेजर	सुबोध चंद्रा मंडल	01.10.2005
145	जेसी 749270एल	सुबेदार मेजर	सुरेंद्र चांद	01.10.2005
146	जेसी 189186डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	टी. क. सुधाकरन नायर	01.11.2005
147	जेसी 189285वाइ	सुबेदार मेजर	टेक चांद	01.10.2005
148	जेसी 222078पी	सुबेदार मेजर	त्रिलोक चांद	01.10.2005
149	जेसी 222341पी	सुबेदार मेजर	विजय नारायण तिवारी	01.11.2005
150	जेसी 748551पी	सुबेदार मेजर	युवराज सिंह	01.01.2006
सेना शिक्षा कोर				
151	जेसी 206144एच	सुबेदार मेजर	महा नारायण सिंह	01.01.2006
152	जेसी 206082एन	सुबेदार मेजर	मान मोहन कला	01.01.2006
153	जेसी 211999पी	सुबेदार मेजर	आर टी	01.12.2005
154	जेसी 206842एल	सुबेदार मेजर	रामचन्द्रन एम	01.12.2005
155	जेसी 206327वाइ	सुबेदार मेजर	सधन कुमार चकबर्ती	01.10.2005
156	जेसी 203366एम	सुबेदार मेजर	स्वप्न कुमार दास	01.01.2006
157	जेसी 203981के	सुबेदार मेजर	उमेश चंद्रा	01.01.2006
रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर				
158	जेसी 797037पी	रिसालदार मेजर	सरदार सिंह गूजर	01.01.2006
आसुचना कोर				
159	जेसी 217187एक्स	सुबेदार मेजर	मान सिंह रावत	01.12.2005
रक्षा सुरक्षा कोर				
160	जेसी 163756के	सुबेदार मेजर	राजेंद्र सिंह	01.12.2005

अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार मेजर के रूप में

राष्ट्रपति अंगरक्षक					
1	जेसी	237719एन	रिसालदार	कश्मीर सिंह	01.12.2005
2	जेसी	236855एक्स	रिसालदार	जोरावर सिंह	01.12.2005
18 केवेलरी					
3	जेसी	238154ए	रिसालदार	सालविन्दर सिंह	01.12.2005
4	जेसी	238153एक्स	रिसालदार	वजरम पी	01.12.2005
5	जेसी	238103एम	रिसालदार	विजयन वी	01.09.2005
7 केवेलरी					
6	जेसी	238291वाइ	रिसालदार	कुलदीप सिंह	01.12.2005
7	जेसी	238974एम	रिसालदार	मोहन लाल	01.09.2005
8	जेसी	239087एम	रिसालदार	सुरेन्द्र सिंह	01.10.2005
9	जेसी	239356एन	रिसालदार	उमेश सिंह	01.10.2005
8 केवेलरी					
10	जेसी	238875के.	रिसालदार	नजर सिंह	01.12.2005
11	जेसी	238693डब्ल्यू	रिसालदार	रोतास कुमार	01.09.2005
12	जेसी	239596एल	रिसालदार	सतवीन्द्र पाल सिंह	01.12.2005
1 होर्स					
13	जेसी	238496एन	रिसालदार	अमरीक सिंह	01.12.2005
14	जेसी	238864एक्स	रिसालदार	बहादुर सिंह	01.01.2006
14 होर्स					
15	जेसी	237730एम	रिसालदार	बिशम्बर दास	01.10.2005
3 केवेलरी					
16	जेसी	238270एच	रिसालदार	राम रतन	01.10.2005
18 केवेलरी					
17	जेसी	238484वाइ	रिसालदार	भगवान दयाल सिंह	01.10.2005
4 होर्स					
18	जेसी	239174ए	रिसालदार	अजमेर सिंह	01.12.2005
केन्द्रीय भारत अश्व					
19	जेसी	239171एम	रिसालदार	पर्शोत्तम चांद	01.09.2005
20	जेसी	237885एफ	रिसालदार	प्रभात चंद्रा बर्मन	01.12.2005
62 केवेलरी					
21	जेसी	238489एक्स	रिसालदार	जागीर सिंह	01.12.2005
22	जेसी	238178के.	रिसालदार	जगरूप सिंह	01.12.2005
20 लाहौर					
23	जेसी	238404डब्ल्यू	रिसालदार	जोरा राम	01.09.2005
24	जेसी	238356एफ	रिसालदार	श्यामबीर सिंह रावत	01.10.2005
63 केवेलरी					
25	जेसी	238768एच	रिसालदार	रनवीर सिंह	01.11.2005
26	जेसी	238078वाइ	रिसालदार	सुरिन्दर सिंह	01.12.2005
64 केवेलरी					
27	जेसी	238110एच	रिसालदार	आजाद सिंह	01.12.2005
66 आर्मड रेजीमेंट					
28	जेसी	238480एच	रिसालदार	मुक्तेर सिंह यादव	01.10.2005
67 आर्मड रेजीमेंट					
29	जेसी	239242एच	रिसालदार	हरभजन सिंह	01.01.2006
30	जेसी	237995डब्ल्यू	रिसालदार	हुकम सिंह	01.09.2005
31	जेसी	239194एन	रिसालदार	करतार सिंह	01.10.2005

70 आर्मड रेजीमेंट					
32	जेसी	238639एच	रिसालदार	कृष्णापाल सिंह	01.12.2005
33	जेसी	238403एन	रिसालदार	लक्ष्मण सिंह	01.12.2005
71 आर्मड रेजीमेंट					
34	जेसी	237776पी	रिसालदार	रघवीर सिंह	01.09.2005
72 आर्मड रेजीमेंट					
35	जेसी	237982वाइ	रिसालदार	लाल चांद यादव	01.10.2005
36	जेसी	238648के.	रिसालदार	महेंद्र सिंह	01.01.2006
73 आर्मड रेजीमेंट					
37	जेसी	238006पी	रिसालदार	बलदेव सिंह	01.01.2006
38	जेसी	238345पी	रिसालदार	मोहिन्दर सिंह	01.12.2005
75 आर्मड रेजीमेंट					
39	जेसी	237923एम	रिसालदार	अमर सिंह	01.09.2005
40	जेसी	238079एफ	रिसालदार	मुकुन्दन सी	01.10.2005
76 आर्मड रेजीमेंट					
41	जेसी	237613एफ	रिसालदार	भोला राम	01.10.2005
42	जेसी	237390पी	रिसालदार	रघवीर सिंह चिब	01.09.2005
82 आर्मड रेजीमेंट					
43	जेसी	239070वाइ	रिसालदार	होशियार सिंह	01.11.2005
44	जेसी	238962एक्स	रिसालदार	निरंजन सिंह सिकरवार	01.09.2005
83 आर्मड रेजीमेंट					
45	जेसी	238981एच	रिसालदार	हरी सिंह भाटी	01.12.2005
46	जेसी	237241एफ	रिसालदार	रमाशंकर राय	01.12.2005
47	जेसी	237059एफ	रिसालदार	रत्तन लाल	01.09.2005
84 आर्मड रेजीमेंट					
48	जेसी	238856वाइ	रिसालदार	गोकुल चांद	01.11.2005
49	जेसी	239010के.	रिसालदार	गुरमीत सिंह	01.12.2005
85 आर्मड रेजीमेंट					
50	जेसी	239251के.	रिसालदार	राम किशन	01.10.2005
51	जेसी	239329के.	रिसालदार	रामवतार सिंह चौहान	01.10.2005
86 आर्मड रेजीमेंट					
52	जेसी	239072के.	रिसालदार	चत्तर सिंह	01.11.2005
87 आर्मड रेजीमेंट					
53	जेसी	237925एक्स	रिसालदार	भगवान सिंह	01.01.2006
54	जेसी	237924पी	रिसालदार	गनेश सिंह मेहरत	01.01.2006
55	जेसी	237648एक्स	रिसालदार	गनपत सिंह	01.12.2005
56	जेसी	238199ए	रिसालदार	जगजीत सिंह	01.12.2005
57	जेसी	237419एम	रिसालदार	शिव चरण सिंह	01.11.2005
58	जेसी	237549पी	रिसालदार	सुरिन्दर सिंह	01.12.2005
88 आर्मड रेजीमेंट					
59	जेसी	237869के.	रिसालदार	बालकर सिंह	01.01.2006
60	जेसी	238221ए	रिसालदार	जय प्रकाश	01.01.2006
90 आर्मड रेजीमेंट					
61	जेसी	237794एक्स	रिसालदार	गंगा सहाय	01.10.2005
62	जेसी	237793पी	रिसालदार	शीश राम	01.11.2005
63	जेसी	238729के.	रिसालदार	योगेन्द्र सिंह	01.12.2005
41 आर्मड रेजीमेंट					
64	जेसी	238124एच	रिसालदार	राम कैलाश पांडे	01.01.2006
65	जेसी	238054पी	रिसालदार	यतिन्द्र नाथ सिंह	01.01.2006

42	आर्मड रेजीमेंट	66	जेसी	237551एम	रिसालदार	मार्क एंथोनी	01.10.2005
43	आर्मड रेजीमेंट	67	जेसी	238000एन	रिसालदार	दर्शन सिंह	01.12.2005
44	आर्मड रेजीमेंट	68	जेसी	238029डब्ल्यू	रिसालदार	हरिवंश सिंह	01.01.2006
46	आर्मड रेजीमेंट	69	जेसी	238101एफ	रिसालदार	नगेन्द्र सिंह	01.10.2005
47	आर्मड रेजीमेंट	70	जेसी	236994एफ	रिसालदार	हरी शंकर सिंह	01.01.2006
		71	जेसी	236322पी	रिसालदार	जगदीश सिंह	01.11.2005
		72	जेसी	236992डब्ल्यू	रिसालदार	रघवीर सिंह	01.12.2005
		73	जेसी	236644पी	रिसालदार	त्रिलोक सिंह	01.12.2005
48	आर्मड रेजीमेंट	74	जेसी	238147के.	रिसालदार	अमर सिंह	01.12.2005
49	आर्मड रेजीमेंट	75	जेसी	237850एल	रिसालदार	महक सिंह	01.10.2005
		76	जेसी	237861एक्स	रिसालदार	रमेश चांद	01.12.2005
		77	जेसी	236866के.	रिसालदार	श्रीनिवास राय	01.01.2006
11	आर्मड रेजीमेंट	78	जेसी	237414एन	रिसालदार	जगवीर सिंह	01.12.2005
50	आर्मड रेजीमेंट	79	जेसी	236245एल	रिसालदार	वलजिन्दर सिंह	01.09.2005
		80	जेसी	237865एन	रिसालदार	सुरिन्दर सिंह	01.09.2005
52	आर्मड रेजीमेंट	81	जेसी	237506ए	रिसालदार	सत्यवीर सिंह धतरवाल	01.11.2005
		82	जेसी	238010एक्स	रिसालदार	श्री रवीन्द्र बाबूराव दलाल	31.10.2005
		83	जेसी	237341एम	रिसालदार	वलवीर सिंह	01.11.2005
आर्मड कोर		84	जेसी	239038के.	रिसालदार	वरिंदर सिंह	01.12.2005
		85	जेसी	237911एक्स	रिसालदार	गुरनेहर सिंह	01.12.2005
		86	जेसी	236715एल	रिसालदार	जोशी कालीदास	01.10.2005
		87	जेसी	237910पी	रिसालदार	कमल किशोर	01.10.2005
		88	जेसी	237846एच	रिसालदार	खजुर सिंह	01.11.2005
		89	जेसी	236434पी	रिसालदार	लल्लन प्रसाद सिंह	01.01.2006
		90	जेसी	237606एल	रिसालदार	मोहाना कुमार पी वी	01.11.2005
		91	जेसी	236432के.	रिसालदार	रवीन्द्र नाथ भुनिया	01.12.2005
		92	जेसी	238407के.	रिसालदार	साहिब सिंह	01.12.2005
		93	जेसी	238556एक्स	रिसालदार	सत्य पाल	01.10.2005
		94	जेसी	238857एफ	रिसालदार	श्याम सिंह	01.10.2005
		95	जेसी	237518पी	रिसालदार	सुरेंद्र सिंह	01.10.2005
		96	जेसी	237555एच	रिसालदार	उदय नारायण सिंह	01.10.2005
आर्टिलरी रेजीमेंट		97	जेसी	258139एम	सुबेदार	ए अरुणागिरि	01.11.2005
		98	जेसी	264110ए	सुबेदार	ए आर जे	01.01.2006
		99	जेसी	263763पी	सुबेदार	आभी सिंह	01.12.2005
		100	जेसी	261325एन	सुबेदार	अवोनी कुमार सिन्हा	01.12.2005
		101	जेसी	259097एक्स	सुबेदार	अजायब सिंह	01.12.2005
		102	जेसी	257475एम	सुबेदार	ए सिंह	01.10.2005
		103	जेसी	221223पी	सुबेदार	अमर चांद	01.12.2005

104	जेसी	261825एल	सुबेदार	अमीर सिंह	01.12.2005
105	जेसी	260153एक्स	सुबेदार	अनन्त नारायण पांडे	01.01.2006
106	जेसी	262005एल	सुबेदार	अरोकियम स्वामी	01.12.2005
107	जेसी	257305एच	सुबेदार	अशोक कुमार	01.11.2005
108	जेसी	262899एम	सुबेदार	अशोक कुमार	01.12.2005
109	जेसी	261469डब्ल्यू	सुबेदार	अवधेश सिंह	01.09.2005
110	जेसी	259083एक्स	सुबेदार	बाबू लाल	01.01.2006
111	जेसी	257913के.	सुबेदार	बजरंग सिंह कुशवाहा	01.09.2005
112	जेसी	260740एच	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.12.2005
113	जेसी	258875एल	सुबेदार	बाना राम	01.01.2006
114	जेसी	262299के.	सुबेदार	भव देव प्रसाद	01.09.2005
115	जेसी	259378एन	सुबेदार	भोसले धान्नजयराव धोन्दीराम	01.11.2005
116	जेसी	215474एच	सुबेदार	बिरप्पा के. पी	01.10.2005
117	जेसी	257613एच	सुबेदार	बिन्दर सिंह	01.01.2006
118	जेसी	221194एल	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह	01.10.2005
119	जेसी	258012के.	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.11.2005
120	जेसी	260642एच	सुबेदार	विशम्बर दयाल	01.10.2005
121	जेसी	260268एल	सुबेदार	बोयाटे पोपुट बापू	01.12.2005
122	जेसी	258133एल	सुबेदार	बुद्धीमान सिंह	01.11.2005
123	जेसी	260120एम	सुबेदार	ब्यास जी पांडे	01.12.2005
124	जेसी	259923एम	सुबेदार	चान्दन सिंह	01.10.2005
125	जेसी	260478एल	सुबेदार	चंद्रा मनी खड्गरी	01.01.2006
126	जेसी	260873वाइ	सुबेदार	छुरिया राम	01.10.2005
127	जेसी	256308के.	सुबेदार	दलबीर सिंह	01.12.2005
128	जेसी	259449के.	सुबेदार	दलबीर सिंह	01.01.2006
129	जेसी	261616एन	सुबेदार	दलीप कुमार	01.01.2006
130	जेसी	261374डब्ल्यू	सुबेदार	दलीप सिंह	01.01.2006
131	जेसी	258373एच	सुबेदार	दोलत राम	01.12.2005
132	जेसी	260591ए	सुबेदार	दोलत सिंह	01.10.2005
133	जेसी	256173एन	सुबेदार	दया कृष्ण पाठक	01.10.2005
134	जेसी	256889एम	सुबेदार	देविन्द्र सिंह	01.12.2005
135	जेसी	260626एल	सुबेदार	धर्म वीर	01.10.2005
136	जेसी	226081एम	सुबेदार	धर्मबीर सिंह	01.11.2005
137	जेसी	263447डब्ल्यू	सुबेदार	धर्मा कांता बोरा	01.01.2006
138	जेसी	263754एन	सुबेदार	धीर पांल सिंह	01.12.2005
139	जेसी	259137एन	सुबेदार	धीरेंद्र सिंह तोमर	01.01.2006
140	जेसी	262271के.	सुबेदार	दिलीप सिंह	01.11.2005
141	जेसी	258823पी	सुबेदार	दीन दयाल तिवारी	01.10.2005
142	जेसी	260412पी	सुबेदार	दिनेश सिंह	01.10.2005
143	जेसी	263877ए	सुबेदार	डोगर सिंह	01.10.2005
144	जेसी	259904एफ	सुबेदार	जी. गुना सेकारन	01.11.2005
145	जेसी	258086वाइ	सुबेदार	गिरधारी लाल	01.12.2005
146	जेसी	259431एन	सुबेदार	गोपालाकृष्ण नायर के.	01.09.2005
147	जेसी	264420एल	सुबेदार	गोविंदन बी जी.	01.11.2005
148	जेसी	261489के.	सुबेदार	गोविंदस्वामी वी	01.12.2005
149	जेसी	259386एम	सुबेदार	गुरबचन सिंह	01.12.2005
150	जेसी	260092एल	सुबेदार	गुरदयाल सिंह	01.11.2005
151	जेसी	260054पी	सुबेदार	गुरमेल सिंह	01.01.2006
152	जेसी	258338ए	सुबेदार	गुरमीत सिंह	01.11.2005
153	जेसी	214904पी	सुबेदार	हरभजन सिंह मनहैनी	01.09.2005

154	जेसी	257937एन	सुबेदार	हरी सिंह	01.11.2005
155	जेसी	258479पी	सुबेदार	हरिदेवन दास	01.09.2005
156	जेसी	256729एम	सुबेदार	हरनेक सिंह	01.01.2006
157	जेसी	260337डब्ल्यू	सुबेदार	हयात सिंह मजीला	01.12.2005
158	जेसी	225439एन	सुबेदार	होशियार सिंह	01.12.2005
159	जेसी	259633पी	सुबेदार	इंद्र जीत सिंह	01.11.2005
160	जेसी	262767वाइ	सुबेदार	इसाकला जोरनिश	01.11.2005
161	जेसी	261357डब्ल्यू	सुबेदार	इश्वर सिंह	01.12.2005
162	जेसी	259079पी	सुबेदार	जाधव बाबन किसान	01.11.2005
163	जेसी	260350ए	सुबेदार	जगदीश चांद	01.09.2005
164	जेसी	260858के.	सुबेदार	जगदीश चांद धीमान	01.12.2005
165	जेसी	259061वाइ	सुबेदार	जगदीश चंद्र	01.01.2006
166	जेसी	262484एक्स	सुबेदार	जगमेल सिंह	01.01.2006
167	जेसी	259569एच	सुबेदार	जलेश्वर शर्मा	01.11.2005
168	जेसी	226565एम	सुबेदार	जसवंत सिंह	01.01.2006
169	जेसी	257591पी	सुबेदार	जयचन्द्रन के. बी	01.09.2005
170	जेसी	226530डब्ल्यू	सुबेदार	जीवन राम	01.12.2005
171	जेसी	257318ए	सुबेदार	जोगिंदर कुमार	01.10.2005
172	जेसी	262527एफ	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.09.2005
173	जेसी	255375एच	सुबेदार	के. चंद्रा प्रकाश	01.09.2005
174	जेसी	262020एम	सुबेदार	कमल प्रकाश	01.10.2005
175	जेसी	226031एफ	सुबेदार	कमला सिंह यादव	01.10.2005
176	जेसी	256937एफ	सुबेदार	कांजी सिंह	01.10.2005
177	जेसी	262134एल	सुबेदार	करतार सिंह	01.12.2005
178	जेसी	258153वाइ	सुबेदार	कोर सिंह	01.10.2005
179	जेसी	261334पी	सुबेदार	केहर सिंह खरवाल	01.09.2005
180	जेसी	262320एफ	सुबेदार	केवल कृष्णन	01.09.2005
181	जेसी	257010एम	सुबेदार	खजुर सिंह तरपियाल	01.01.2006
182	जेसी	262103पी	सुबेदार	किशन सिंह पोखरिया	01.01.2006
183	जेसी	258228एल	सुबेदार	किशोर सिंह राठोर	01.01.2006
184	जेसी	256192वाइ	सुबेदार	कृष्णन कुमार यादव	01.10.2005
185	जेसी	258201एन	सुबेदार	कृष्णन पाल सिंह	01.01.2006
186	जेसी	259421के.	सुबेदार	कुलदीप	01.09.2005
187	जेसी	258477के.	सुबेदार	कुलदीप राज मनोतरा	01.01.2006
188	जेसी	263719एल	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.01.2006
189	जेसी	263321डब्ल्यू	सुबेदार	कुम्भ सिंह	01.10.2005
190	जेसी	260165एम	सुबेदार	कुट्टी कृष्णन थिरिक्कोट मेथल	01.12.2005
191	जेसी	260172एच	सुबेदार	लाइक राम	01.12.2005
192	जेसी	262168वाइ	सुबेदार	लखन सिंह	01.12.2005
193	जेसी	261728एन	सुबेदार	लाला राम	01.12.2005
194	जेसी	257796के.	सुबेदार	लल्लन उपाध्याय	01.10.2005
195	जेसी	259250एच	सुबेदार	ललता प्रसाद	01.11.2005
196	जेसी	256644डब्ल्यू	सुबेदार	मदन लाल	01.12.2005
197	जेसी	221177एल	सुबेदार	मदन लाल शर्मा	01.10.2005
198	जेसी	261317पी	सुबेदार	मदन सिंह	01.11.2005
199	जेसी	260579वाइ	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.01.2006
200	जेसी	257814एफ	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.11.2005
201	जेसी	259760के.	सुबेदार	महीपाल सिंह तोमर	01.12.2005
202	जेसी	258586डब्ल्यू	सुबेदार	मान फूल सिंह	01.09.2005
203	जेसी	257185पी	सुबेदार	मोहिन्दर लाल कटारिया	01.12.2005

204	जेसी	258672एन	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.11.2005
205	जेसी	258026के.	सुबेदार	मुले शिवाजी वसंतराव	01.09.2005
206	जेसी	258081ए	सुबेदार	एन लिंगम	01.11.2005
207	जेसी	225200एल	सुबेदार	नाइक राम	01.01.2006
208	जेसी	260405बाइ	सुबेदार	नात्लानानागेश्वरा राव	01.01.2006
209	जेसी	256480एल	सुबेदार	नारायण सिंह शेखावत	01.09.2005
210	जेसी	259905के.	सुबेदार	नरोत्तुम लाल	01.12.2005
211	जेसी	258473एन	सुबेदार	नथुनी पासवान	01.11.2005
212	जेसी	200483एम	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.10.2005
213	जेसी	263900एच	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.09.2005
214	जेसी	258549एच	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.10.2005
215	जेसी	261001एच	सुबेदार	पी अमलानाथन	01.12.2005
216	जेसी	259012डब्ल्यू	सुबेदार	पी चेलियाह	01.09.2005
217	जेसी	261138पी	सुबेदार	पदमन्ना बी एस	01.11.2005
218	जेसी	260772डब्ल्यू	सुबेदार	पाला सिंह	01.01.2006
219	जेसी	260901ए	सुबेदार	पांचाल मनोहर	01.01.2006
220	जेसी	261013एक्स	सुबेदार	प्रकाश चांद	01.11.2005
221	जेसी	256195एम	सुबेदार	पाटिल दुर्योधन तुलसीराम	01.11.2005
222	जेसी	256845पी	सुबेदार	पाटिल शंकर दत्तत्रे	01.01.2006
223	जेसी	263545डब्ल्यू	सुबेदार	पादतारे बाल कृष्णा बाबू राव	01.01.2006
224	जेसी	259513डब्ल्यू	सुबेदार	फुल सिंह	01.11.2005
225	जेसी	259726के.	सुबेदार	प्रहलाद सिंह राजपूत	01.01.2006
226	जेसी	261826एन	सुबेदार	प्राण नाथ	01.11.2005
227	जेसी	258817एफ	सुबेदार	प्रेम सागर मिश्रा	01.09.2005
228	जेसी	257095एन	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.11.2005
229	जेसी	226103ए	सुबेदार	प्रीतम सिंह	01.11.2005
230	जेसी	258299एम	सुबेदार	पूरन चांद	01.12.2005
231	जेसी	261171एम	सुबेदार	आर रविनाथन	01.01.2006
232	जेसी	262830एच	सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.09.2005
233	जेसी	263541ए	सुबेदार	राय सिंह	01.11.2005
234	जेसी	261584डब्ल्यू	सुबेदार	राज कुमार	01.10.2005
235	जेसी	260756एन	सुबेदार	राज कुमार सिंह सैंगर	01.10.2005
236	जेसी	259011एन	सुबेदार	राज सिंह	01.10.2005
237	जेसी	260889के.	सुबेदार	राज सिंह	01.10.2005
238	जेसी	260787एन	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद	01.12.2005
239	जेसी	258841एक्स	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.01.2006
240	जेसी	258886एक्स	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.12.2005
241	जेसी	262942एच	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.12.2005
242	जेसी	259124डब्ल्यू	सुबेदार	राजनाथ सिंह यादव	01.09.2005
243	जेसी	262798वाइ	सुबेदार	राजू ओ	01.09.2005
244	जेसी	259123एन	सुबेदार	राम किशन	01.09.2005
245	जेसी	260519के.	सुबेदार	राम किशन यादव	01.10.2005
246	जेसी	259314एच	सुबेदार	राम पाल	01.01.2006
247	जेसी	260560ए	सुबेदार	राम प्रकाश	01.10.2005
248	जेसी	257823एच	सुबेदार	राम प्रताप	01.10.2005
249	जेसी	258121डब्ल्यू	सुबेदार	राम प्रताप यादव	01.09.2005
250	जेसी	257554एफ	सुबेदार	राम सरन	01.11.2005
251	जेसी	256106एच	सुबेदार	राम सिंह	01.01.2006
252	जेसी	262508एन	सुबेदार	राम सिंह	01.11.2005
253	जेसी	257340वाइ	सुबेदार	रमेश चांद	01.12.2005

254	जेसी	259313ए	सुबेदार	रमेश चांद	01.10.2005
255	जेसी	261538एफ	सुबेदार	रमेश चांद	01.12.2005
256	जेसी	258449एक्स	सुबेदार	रामेश्वर सिंह	01.01.2006
257	जेसी	261914के.	सुबेदार	रशपाल सिंह	01.09.2005
258	जेसी	257199पी	सुबेदार	रति पाल सिंह	01.01.2006
259	जेसी	258292एच	सुबेदार	रत्तन सिंह	01.01.2006
260	जेसी	258478एम	सुबेदार	एस के. महमूद	01.10.2005
261	जेसी	258682एल	सुबेदार	सदानंदन ए	01.09.2005
262	जेसी	200192एम	सुबेदार	साहब सिंह	01.11.2005
263	जेसी	259496एफ	सुबेदार	साजन सिंह	01.11.2005
264	जेसी	262230ए	सुबेदार	सालिगराम पांडुरंग घोड़े	01.01.2006
265	जेसी	261880एफ	सुबेदार	संसार चांद	01.10.2005
266	जेसी	258592के.	सुबेदार	सरदार सिंह यादव	01.11.2005
267	जेसी	260314पी	सुबेदार	सरूप चांद	01.09.2005
268	जेसी	262638वाइ	सुबेदार	श्रवण सिंह	01.09.2005
269	जेसी	217017एन	सुबेदार	शशि वी	01.10.2005
270	जेसी	257537एफ	सुबेदार	सतीश कुमार	01.09.2005
271	जेसी	262206के.	सुबेदार	सतीश कुमार	01.12.2005
272	जेसी	257590एम	सुबेदार	सतीश प्रकाश	01.09.2005
273	जेसी	258326एच	सुबेदार	सतवंत सिंह	01.01.2006
274	जेसी	225415के.	सुबेदार	सत्य पाल	01.11.2005
275	जेसी	260629वाइ	सुबेदार	सत्यबीर सिंह	01.12.2005
276	जेसी	256939एम	सुबेदार	सेवानन्द मिश्रा	01.01.2006
277	जेसी	258336पी	सुबेदार	शेक चीना सतरवाली	01.11.2005
278	जेसी	258510डब्ल्यू	सुबेदार	शेर सिंह	01.12.2005
279	जेसी	258677ए	सुबेदार	शिव रतन सिंह	01.11.2005
280	जेसी	260424के.	सुबेदार	श्री कण्ठन यादव	01.11.2005
281	जेसी	260695एफ	सुबेदार	सीता राम	01.12.2005
282	जेसी	263902एन	सुबेदार	सुबा सिंह	01.12.2005
283	जेसी	259700पी	सुबेदार	सुब्रमण्यन पी	01.12.2005
284	जेसी	261202एफ	सुबेदार	सुखचैन सिंह	01.10.2005
285	जेसी	263484के.	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.10.2005
286	जेसी	256713एफ	सुबेदार	सूरज सिंह	01.11.2005
287	जेसी	262052एच	सुबेदार	सूरत राम	01.12.2005
288	जेसी	260747एम	सुबेदार	सुरेन्द्र कुमार	01.10.2005
289	जेसी	226795ए	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.09.2005
290	जेसी	260024एक्स	सुबेदार	स्वामीनाथ चौधरी	01.01.2006
291	जेसी	262620एच	सुबेदार	स्वर्ण सिंह	01.01.2006
292	जेसी	259264एच	सुबेदार	स्वरूप सिंह	01.11.2005
293	जेसी	260898एल	सुबेदार	ताजेन्द्र सिंह	01.01.2006
294	जेसी	258528एम	सुबेदार	त्रिलोचन सिंह	01.10.2005
295	जेसी	260945एक्स	सुबेदार	तरसेम सिंह	01.12.2005
296	जेसी	225392एन	सुबेदार	तेज पाल सिंह	01.12.2005
297	जेसी	256169एल	सुबेदार	थामस वी जे	01.09.2005
298	जेसी	257614एल	सुबेदार	तिलक राज	01.01.2006
299	जेसी	259454पी	सुबेदार	तोता राम	01.12.2005
300	जेसी	258967एक्स	सुबेदार	उदय सिंह	01.12.2005
301	जेसी	260990के.	सुबेदार	उदयवीर सिंह	01.01.2006
302	जेसी	263212के.	सुबेदार	उमेश बाबू	01.11.2005
303	जेसी	226369एम	सुबेदार	वेद प्रकाश	01.09.2005

304	जेसी	263127एफ	सुबेदार	विनोद कुमार सिंह	01.10.2005
305	जेसी	259183एच	सुबेदार	दुधुला प्रसाद	01.09.2005
वायु सुरक्षा आर्टिलरी कोर					
306	जेसी	296338के.	सुबेदार	अमर सिंह भोज	01.09.2005
307	जेसी	296457ए	सुबेदार	बिक्रम जीत सिंह	01.11.2005
308	जेसी	214933के.	सुबेदार	दया शंकर सिंह	01.10.2005
309	जेसी	215347एन	सुबेदार	ज्ञान चांद शर्मा	01.10.2005
310	जेसी	296676एफ	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.09.2005
311	जेसी	297116एफ	सुबेदार	जनक राज	01.10.2005
312	जेसी	296902एन	सुबेदार	काली प्रसाद	01.01.2006
313	जेसी	296043एन	सुबेदार	कुंज बिहारी सिंह	01.12.2005
314	जेसी	297342वाइ	सुबेदार	मातादीन यादव	01.09.2005
315	जेसी	296810एफ	सुबेदार	आर प्रसाद पांडे	01.11.2005
316	जेसी	220071एम	सुबेदार	राजेंद्र पाल सिंह	01.01.2006
317	जेसी	297128डब्ल्यू	सुबेदार	राम लाल	01.01.2006
318	जेसी	256333एच	सुबेदार	सोलंकी एस गिरधारी	01.01.2006
319	जेसी	297081डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश कुमार यादव	01.10.2005
320	जेसी	297178एफ	सुबेदार	तपन कुमार दास	01.11.2005
मद्रास इंजीनियर समूह					
321	जेसी	306376डब्ल्यू	सुबेदार	ए विजयरामालु	01.01.2006
322	जेसी	305633डब्ल्यू	सुबेदार	अल्लादा वी पन्नैरुधु	01.09.2005
323	जेसी	305529एच	सुबेदार	बासकरन एन जी.	01.10.2005
324	जेसी	306481एम	सुबेदार	चान्द्राशेखर पिगद	01.01.2006
325	जेसी	306227एच	सुबेदार	दिलीप कुमार वी के.	01.12.2005
326	जेसी	210459के.	सुबेदार	जोगिंदर पाल सिंह	01.11.2005
327	जेसी	207552ए	सुबेदार	कृष्णन कुट्टी सी	01.01.2006
328	जेसी	305826डब्ल्यू	सुबेदार	कुरियन एम ए	01.12.2005
329	जेसी	305424वाइ	सुबेदार	एम सुब्रामनिया नायडू	01.11.2005
330	जेसी	306520ए	सुबेदार	माली सेट्टी कृष्णाहा	01.12.2005
331	जेसी	306609एम	सुबेदार	मोहानन ए	01.12.2005
332	जेसी	305946पी	सुबेदार	मूर्ती आर	01.12.2005
333	जेसी	305812डब्ल्यू	सुबेदार	एन राजसेकरन	01.01.2006
334	जेसी	306111एम	सुबेदार	पंकजाकरन सी	01.12.2005
335	जेसी	305926एफ	सुबेदार	पुष्पागंधान जी.	01.01.2006
336	जेसी	306811ए	सुबेदार	आर राजाकुमार	01.01.2006
337	जेसी	306194एच	सुबेदार	राजेन्द्रन वी	01.09.2005
338	जेसी	305927के.	सुबेदार	रामचन्द्रन सी	01.01.2006
339	जेसी	305425एफ	सुबेदार	रामचन्द्रन नायर जी.	01.11.2005
340	जेसी	325334वाइ	सुबेदार	सतीश चंद्रा गौड़	01.01.2006
341	जेसी	305051डब्ल्यू	सुबेदार	शिवनंदन पी	01.12.2005
342	जेसी	305423डब्ल्यू	सुबेदार	वी वी सनकरनारायणन	01.09.2005
बंगाल इंजीनियर समूह					
343	जेसी	216065एफ	सुबेदार	अब्दुल नायिम	01.09.2005
344	जेसी	326645वाइ	सुबेदार	बहादुर सिंह	01.12.2005
345	जेसी	325919एम	सुबेदार	बलबीर सिंह बंगा	01.09.2005
346	जेसी	326538एक्स	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.12.2005
347	जेसी	327974एफ	सुबेदार	बसवंताप्पा सिंह	01.09.2005
348	जेसी	326644डब्ल्यू	सुबेदार	भीम सिंह यादव	01.11.2005
349	जेसी	326514एन	सुबेदार	बिशन दत्त शर्मा	01.01.2006
350	जेसी	326784एच	सुबेदार	ब्रम प्रकाश	01.09.2005

351	जेसी	326840डब्ल्यू	सुबेदार	दान सिंह	01.01.2006
352	जेसी	326894एक्स	सुबेदार	दरवान सिंह	01.12.2005
353	जेसी	326937एफ	सुबेदार	गम्भीर सिंह	01.10.2005
354	जेसी	325716के.	सुबेदार	गुरलालजीत सिंह संधू	01.01.2006
355	जेसी	326534एफ	सुबेदार	हरिहर कुंवर	01.10.2005
356	जेसी	326680एफ	सुबेदार	हसीना उल्लाह	01.11.2005
357	जेसी	326717एक्स	सुबेदार	हयात सिंह	01.10.2005
358	जेसी	224819ए	सुबेदार	जगदीश सिंह नेगी	01.11.2005
359	जेसी	327465एच	सुबेदार	जगतार सिंह	01.10.2005
360	जेसी	326402एन	सुबेदार	जयराम सिंह	01.12.2005
361	जेसी	327209एन	सुबेदार	जरनैल सिंह	01.01.2006
362	जेसी	327248एम	सुबेदार	जसविन्दर सिंह	01.11.2005
363	जेसी	327498एन	सुबेदार	कुपुस्वामी एन	01.09.2005
364	जेसी	197218एच	सुबेदार	महाबीर सिंह कालूराम	01.10.2005
365	जेसी	325543डब्ल्यू	सुबेदार	महिंद्र नाथ दुबे	01.01.2006
366	जेसी	327323एल	सुबेदार	महीपाल सिंह	01.01.2006
367	जेसी	325387एक्स	सुबेदार	मलकियत सिंह	01.09.2005
368	जेसी	326433एन	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.12.2005
369	जेसी	325626एफ	सुबेदार	नरिंदर पाल सिंह	01.09.2005
370	जेसी	325713पी	सुबेदार	ओंकार नाथ	01.10.2005
371	जेसी	327064एन	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.09.2005
372	जेसी	326208वाइ	सुबेदार	प्रीतम सिंह	01.01.2006
373	जेसी	325869एम	सुबेदार	आर सिंह	01.01.2006
374	जेसी	326893पी	सुबेदार	राधे श्याम राय	01.12.2005
375	जेसी	326279ए	सुबेदार	रामआधार सिंह	01.09.2005
376	जेसी	325107वाइ	सुबेदार	सबरूप सिंह	01.09.2005
377	जेसी	327253एक्स	सुबेदार	सतबीर सिंह	01.01.2006
378	जेसी	326798एच	सुबेदार	सतपाल	01.01.2006
379	जेसी	306182एन	सुबेदार	शेक शफुद्दीन	01.12.2005
380	जेसी	327245वाइ	सुबेदार	शंकर सिंह रावल	01.09.2005
381	जेसी	327086एम	सुबेदार	शिव कुमार	01.11.2005
382	जेसी	326652पी	सुबेदार	शोभना सिंह	01.01.2006
383	जेसी	326535के.	सुबेदार	श्री राम पांडे	01.11.2005
384	जेसी	216006पी	सुबेदार	शोवाकर दास	01.01.2006
385	जेसी	327150वाइ	सुबेदार	सुनील दत्त	01.09.2005
386	जेसी	326778पी	सुबेदार	सुरेंद्र प्रताप सिंह	01.10.2005
387	जेसी	326597के.	सुबेदार	त्रिलोक सिंह जमियाल	01.09.2005

बोम्बे इंजीनियर समूह

388	जेसी	347993एन	सुबेदार	अब्दुल रशीद खान	01.12.2005
389	जेसी	347925ए	सुबेदार	अहाबरन सिंह	01.12.2005
390	जेसी	347682ए	सुबेदार	बाबू खान	01.12.2005
391	जेसी	209573पी	सुबेदार	बख्शीश सिंह	01.11.2005
392	जेसी	210817के.	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.12.2005
393	जेसी	348309एम	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.12.2005
394	जेसी	347900एन	सुबेदार	बिचे लाल	01.12.2005
395	जेसी	347322के.	सुबेदार	भाना राम गोथवाल	01.11.2005
396	जेसी	347895एन	सुबेदार	ब्रजराज प्रसाद	01.12.2005
397	जेसी	348023एक्स	सुबेदार	दीपक कुमार थापा	01.01.2006
398	जेसी	207959डब्ल्यू	सुबेदार	गजाधर शर्मा	01.01.2006
399	जेसी	347834डब्ल्यू	सुबेदार	गावडे महिपती तुकाराम	01.12.2005

400	जैसी	348283एच	सुबेदार	हरीलाल निर्मल	01.12.2005
401	जैसी	347239एम	सुबेदार	इब्राहिम	01.01.2006
402	जैसी	347937पी	सुबेदार	जगपाल सिंह	01.12.2005
403	जैसी	347781पी	सुबेदार	जल सिंह चौहान	01.12.2005
404	जैसी	347837के.	सुबेदार	जरनैल सिंह	01.12.2005
405	जैसी	348158वाइ	सुबेदार	जरनैल सिंह	01.12.2005
406	जैसी	348390के.	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.09.2005
407	जैसी	347096एक्स	सुबेदार	करनैल सिंह	01.10.2005
408	जैसी	348261के.	सुबेदार	कणन सिंह	01.01.2006
409	जैसी	347643एफ	सुबेदार	मनोहर सिंह	01.12.2005
410	जैसी	348123एच	सुबेदार	मोहम्मद बकील खान	01.09.2005
411	जैसी	347574डब्ल्यू	सुबेदार	मुखा सिंह	01.10.2005
412	जैसी	348389एफ	सुबेदार	नंगुवा राम जाटव	01.12.2005
413	जैसी	347571एच	सुबेदार	निरंजन सिंह	01.11.2005
414	जैसी	224985एन	सुबेदार	ओम प्रकाश प्रसाद	01.09.2005
415	जैसी	348312एम	सुबेदार	राजबीर	01.01.2006
416	जैसी	347334वाइ	सुबेदार	रशपाल सिंह	01.01.2006
417	जैसी	347338पी	सुबेदार	रिन्धे खुशलराव बाजीराव	01.10.2005
418	जैसी	348104एक्स	सुबेदार	सादिक मसीह	01.11.2006
419	जैसी	347918के.	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.10.2005
420	जैसी	347990ए	सुबेदार	तरसेम सिंह	01.10.2005
सिग्नल्स कोर					
421	जैसी	369522ए	सुबेदार	ए चंद्रन	01.09.2005
422	जैसी	372755एम	सुबेदार	अब्दुल खालिक	01.10.2005
423	जैसी	369100पी	सुबेदार	अमर सिंह थापा	01.10.2005
424	जैसी	371419एन	सुबेदार	अनोप सिंह राठोर	01.11.2005
425	जैसी	371810एल	सुबेदार	बाबू लाल	01.11.2005
426	जैसी	370844एम	सुबेदार	बन्दारू वेनकन्ना	01.10.2005
427	जैसी	367090एक्स	सुबेदार	बन्नावकी सिंह रावत	01.11.2005
428	जैसी	370009एल	सुबेदार	बंशी धर साहू	01.12.2005
429	जैसी	370000डब्ल्यू	सुबेदार	भूपति राय	01.11.2005
430	जैसी	370113वाइ	सुबेदार	चंद्रा मनी गुरु	01.12.2005
431	जैसी	372756पी	सुबेदार	दया शंकर सिंह	01.10.2005
432	जैसी	371429एक्स	सुबेदार	गंगा राम	01.01.2006
433	जैसी	368602एल	सुबेदार	गिरीश चंद्रा सिंह रावत	01.01.2006
434	जैसी	368886ए	सुबेदार	हरी राम	01.01.2006
435	जैसी	370791वाइ	सुबेदार	हरी सिंह दधवाल	01.10.2005
436	जैसी	370377ए	सुबेदार	हरमैन कौणारी	01.10.2005
437	जैसी	371473एफ	सुबेदार	जाधव अगातराव गमपति	01.11.2005
438	जैसी	368743ए	सुबेदार	जगबन्धु जैना	01.12.2005
439	जैसी	371098एफ	सुबेदार	जय सिंह प्रजापत	01.10.2005
440	जैसी	372343एल	सुबेदार	जाट राम करन सिंह महादेव लाल	01.11.2005
441	जैसी	369456एच	सुबेदार	जॉन थामस	01.10.2005
442	जैसी	370783ए	सुबेदार	कान्हू चरण मेसवा	01.12.2005
443	जैसी	371485ए	सुबेदार	कातीक चंद्रा विश्वास	01.01.2006
444	जैसी	370600वाइ	सुबेदार	केन्दकार दत्ताता विथोवा	01.11.2005
445	जैसी	370792एफ	सुबेदार	कोडिया सुब्बारमैया	01.12.2005
446	जैसी	370003के.	सुबेदार	कृष्णा चंद्रा कला	01.12.2005
447	जैसी	372358एच	सुबेदार	लाल चांद	01.01.2006
448	जैसी	370904डब्ल्यू	सुबेदार	लाल धारी सिंह	01.01.2006

449	जेसी	368970ए	सुबेदार	एम मुथु पुनिया	01.11.2005
450	जेसी	372353पी	सुबेदार	मेगुनी जैना	01.11.2005
451	जेसी	368957डब्ल्यू	सुबेदार	माखन लाल हाजरा	01.10.2005
452	जेसी	371080एल	सुबेदार	मल्लाह बिंदा प्रसाद हीरा	01.11.2005
453	जेसी	367753एक्स	सुबेदार	माप्पी कुट्टन नायर पी पी	01.12.2005
454	जेसी	371494एक्स	सुबेदार	मूलचन्द दुद्धी	01.10.2005
455	जेसी	369095पी	सुबेदार	नरेंद्रा प्रताप सिंह	01.10.2005
456	जेसी	371081एन	सुबेदार	पगत सिंह गिल	01.11.2005
457	जेसी	370112डब्ल्यू	सुबेदार	पयाला रामकृष्णैया	01.10.2005
458	जेसी	370401एल	सुबेदार	प्रवीन कुमार फुकन	01.09.2005
459	जेसी	371420एच	सुबेदार	प्रदीप कुमार मोहंती	01.12.2005
460	जेसी	367261वाइ	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.12.2005
461	जेसी	372255पी	सुबेदार	राज सिंह	01.09.2005
462	जेसी	371051डब्ल्यू	सुबेदार	राजपाल सिंह	01.11.2005
463	जेसी	372571एन	सुबेदार	राम कण्ठन शाक्य	01.01.2006
464	जेसी	369294एच	सुबेदार	रमाकांत राजभर	01.11.2005
465	जेसी	368745एल	सुबेदार	रवि भट्टाचार्य	01.01.2006
466	जेसी	371822ए	सुबेदार	एस गणेशन	01.11.2005
467	जेसी	372897के.	सुबेदार	एस पूर्णा शिवम	01.01.2006
468	जेसी	370460एक्स	सुबेदार	सचेंद्र कुमार	01.11.2005
469	जेसी	372299एम	सुबेदार	सतीश चंद्र	01.01.2006
470	जेसी	371853ए	सुबेदार	सतनाम	01.10.2005
471	जेसी	371502एल	सुबेदार	श्री राम सिंह	01.12.2005
472	जेसी	367300एम	सुबेदार	श्रीनिवास साहू	01.11.2005
473	जेसी	368754एम	सुबेदार	तपन कुमार चौधुरी	01.01.2006
474	जेसी	369468एक्स	सुबेदार	उत्तातम सिंह नेगी	01.12.2005
गार्ड्स					
475	जेसी	402283वाइ	सुबेदार	ए दिराविदा मनी	01.10.2005
476	जेसी	402669वाइ	सुबेदार	अनिल कुमार मेहता	01.01.2006
477	जेसी	402518ए	सुबेदार	अवधेश सिंह	01.12.2005
478	जेसी	402755के.	सुबेदार	बसंत सिंह	01.12.2005
479	जेसी	402537एल	सुबेदार	बिनोए कृष्णा सरकार	01.10.2005
480	जेसी	402488एन	सुबेदार	बृज लाल	01.10.2005
481	जेसी	402153डब्ल्यू	सुबेदार	चंद्रन टी एम	01.12.2005
482	जेसी	402579एक्स	सुबेदार	दलीप सिंह	01.01.2006
483	जेसी	402072डब्ल्यू	सुबेदार	देब सिंह	01.01.2006
484	जेसी	222600एम	सुबेदार	धन राज राय	01.12.2005
485	जेसी	402731ए	सुबेदार	दिनेश चंद्रा	01.12.2005
486	जेसी	220860वाइ	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.09.2005
487	जेसी	402899एम	सुबेदार	ग्यारसी लाल	01.11.2005
488	जेसी	402581पी	सुबेदार	हरेशर पाठक	01.12.2005
489	जेसी	402159एक्स	सुबेदार	हरी प्रसाद	01.11.2005
490	जेसी	402693पी	सुबेदार	हरी राम	01.01.2006
491	जेसी	402198डब्ल्यू	सुबेदार	हरी शंकर गीर	01.12.2005
492	जेसी	402577एम	सुबेदार	हरजीत सिंह	01.01.2006
493	जेसी	402379एफ	सुबेदार	हरनाम सिंह	01.10.2005
494	जेसी	402438एच	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.09.2005
495	जेसी	402047एक्स	सुबेदार	जसपाल सिंह	01.10.2005
496	जेसी	402274एक्स	सुबेदार	कंचन सिंह	01.09.2005
497	जेसी	402578पी	सुबेदार	कर्म चांद राना	01.01.2006

498	जेसी	402954एक्स	सुबेदार	कवल सिंह	01.01.2006
499	जेसी	402127पी	सुबेदार	खुशिया राम	01.10.2005
500	जेसी	402898के.	सुबेदार	कुवर पाल	01.11.2005
501	जेसी	402275ए	सुबेदार	मानिक राज सिंह	01.10.2005
502	जेसी	402364वाइ	सुबेदार	मनोहर	01.10.2005
503	जेसी	402472एच	सुबेदार	मनरूप	01.12.2005
504	जेसी	402297वाइ	सुबेदार	माता प्रसाद	01.10.2005
505	जेसी	402950एफ	सुबेदार	मेवा सिंह	01.01.2006
506	जेसी	402476वाइ	सुबेदार	मोहन कुमार मिश्रा	01.12.2005
507	जेसी	402409एन	सुबेदार	नागेश्वर प्रसाद	01.11.2005
508	जेसी	402519एच	सुबेदार	नरेंद्रा सिंह	01.09.2005
509	जेसी	402468ए	सुबेदार	निरंजन सिंह	01.11.2005
510	जेसी	402598एच	सुबेदार	पन्ना राम जाट	01.12.2005
511	जेसी	402124एफ	सुबेदार	रघुबीर सिंह गुर्जर	01.10.2005
512	जेसी	402511डब्ल्यू	सुबेदार	राजाराम सिंह बघेल	01.01.2006
513	जेसी	402962डब्ल्यू	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.01.2006
514	जेसी	402791पी	सुबेदार	राम औतार सिंह	01.12.2005
515	जेसी	402722वाइ	सुबेदार	राम दुलारे सिंह	01.10.2005
516	जेसी	402919पी	सुबेदार	राम किशन	01.11.2005
517	जेसी	402194ए	सुबेदार	राम किशोर	01.10.2005
518	जेसी	402672वाइ	सुबेदार	राम लारेते लाल	01.09.2005
519	जेसी	402599एल	सुबेदार	राम सरूप	01.09.2005
520	जेसी	402696एच	सुबेदार	रमा नाथ सिंह	01.01.2006
521	जेसी	402465एम	सुबेदार	रसाल सिंह चम्बियाल	01.10.2005
522	जेसी	200958एल	सुबेदार	रत्तन सिंह ठाकुर	01.09.2005
523	जेसी	402891ए	सुबेदार	सत्य पाल	31.10.2005
524	जेसी	402539डब्ल्यू	सुबेदार	सत्यवीर सिंह शियोरेन	01.10.2005
525	जेसी	402617एच	सुबेदार	शमशेर सिंह	01.11.2005
526	जेसी	402549ए	सुबेदार	शिव चरण लाल	01.01.2006
527	जेसी	402715एच	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.01.2006
528	जेसी	402309एच	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.11.2005
529	जेसी	402886पी	सुबेदार	तिलक चांद	01.10.2005
530	जेसी	402646एक्स	सुबेदार	उदा राम	01.01.2006
पैराशूट रेजीमेन्ट					
531	जेसी	412203के.	सुबेदार	बिश्नू राम बारो	01.10.2005
532	जेसी	412124पी	सुबेदार	दलजीत सिंह	01.09.2005
533	जेसी	412424डब्ल्यू	सुबेदार	डुंगरमल ढका	01.10.2005
534	जेसी	412237एक्स	सुबेदार	घोलप मधुकर अन्ना	01.10.2005
535	जेसी	412336ए	सुबेदार	निर्मल कुमार	01.09.2005
536	जेसी	412436एल	सुबेदार	राजपाल सिंह	01.11.2005
537	जेसी	412057पी	सुबेदार	राम मेहर सिंह	01.11.2005
538	जेसी	412380के.	सुबेदार	रोहताश कुमार	01.09.2005
539	जेसी	412381एम	सुबेदार	श्रवण कुमार कौंदले	01.09.2005
मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट					
540	जेसी	418710एन	सुबेदार	अजायब सिंह	01.10.2005
541	जेसी	418933एल	सुबेदार	बजरंग सिंह राठोर	01.12.2005
542	जेसी	418530एल	सुबेदार	बाल बहादुर थापा	01.09.2005
543	जेसी	418019पी	सुबेदार	बाल राम	01.11.2005
544	जेसी	216410के.	सुबेदार	बालम सिंह नेगी	01.09.2005
545	जेसी	419329एम	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.09.2005

546	जेसी	419472वाइ	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.01.2006
547	जेसी	418394ए	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.10.2005
548	जेसी	418064एफ	सुबेदार	भगत सिंह	01.10.2005
549	जेसी	418303एल	सुबेदार	भागवत सिंह	01.01.2006
550	जेसी	418928ए	सुबेदार	भंवर सिंह	01.12.2005
551	जेसी	418204एच	सुबेदार	भुपिन्द्र सिंह	01.01.2006
552	जेसी	419045एच	सुबेदार	विशन सिंह राना	01.12.2005
553	जेसी	206670एफ	सुबेदार	चंद्रा बहादुर राना	01.11.2005
554	जेसी	418052एम	सुबेदार	चरनजीत सिंह	01.01.2006
555	जेसी	419375एफ	सुबेदार	चुनी लाल चौहान	01.09.2005
556	जेसी	418690एल	सुबेदार	दीवान सिंह	01.01.2006
557	जेसी	418800पी	सुबेदार	गनेश बहादुर गुरंग	01.11.2005
558	जेसी	419468डब्ल्यू	सुबेदार	गुरचरण कुमार	01.01.2006
559	जेसी	418574एच	सुबेदार	हरपाल सिंह	01.09.2005
560	जेसी	418464एन	सुबेदार	होशियार सिंह	01.01.2006
561	जेसी	206671के.	सुबेदार	जगत राम	01.01.2006
562	जेसी	418936वाइ	सुबेदार	करण बहादुर गुरंग	01.11.2005
563	जेसी	418318एन	सुबेदार	खेम राज	01.11.2005
564	जेसी	418386एफ	सुबेदार	खूमा बहादुर थापा	01.09.2005
565	जेसी	418926पी	सुबेदार	कष्णन सिंह अंकोती	01.10.2005
566	जेसी	418348एल	सुबेदार	कुंवर सिंह	01.12.2005
567	जेसी	418441एम	सुबेदार	कुशाल सिंह	01.10.2005
568	जेसी	418763एम	सुबेदार	लाल बहादुर गुरंग	01.01.2006
569	जेसी	418916एल	सुबेदार	लाल बहादुर श्रेष्ठ	01.10.2005
570	जेसी	418381एच	सुबेदार	लेसर राम ठाकुर	01.11.2005
571	जेसी	418260एफ	सुबेदार	लुम बहादुर गुरंग	01.09.2005
572	जेसी	418807वाइ	सुबेदार	मदन कुमार थापा	01.11.2005
573	जेसी	419164वाइ	सुबेदार	मदन लाल	01.12.2005
574	जेसी	418387के.	सुबेदार	मदन मोहन	01.12.2005
575	जेसी	195454एल	सुबेदार	महावीर सिंह	01.09.2005
576	जेसी	418309एम	सुबेदार	महावीर सिंह	01.10.2005
577	जेसी	211620ए	सुबेदार	माखन सिंह	01.10.2005
578	जेसी	418877एक्स	सुबेदार	मनोहर सिंह	01.10.2005
579	जेसी	418601एफ	सुबेदार	मेवा सिंह	01.10.2005
580	जेसी	419046एल	सुबेदार	मोहन कुमार थापा	01.01.2006
581	जेसी	219275एम	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.12.2005
582	जेसी	418380ए	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.10.2005
583	जेसी	206655एम	सुबेदार	ओम परकाश	01.12.2005
584	जेसी	419072एम	सुबेदार	पांकी काकासाहेब सुराव	01.10.2005
585	जेसी	418323वाइ	सुबेदार	पाटिल रघुनाथ शामराव	01.09.2005
586	जेसी	418342के.	सुबेदार	प्राणवीर सिंह रावत	01.10.2005
587	जेसी	418195एम	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.10.2005
588	जेसी	418198ए	सुबेदार	प्रेम चांद	01.09.2005
589	जेसी	418429एल	सुबेदार	पंजाब सिंह	01.01.2006
590	जेसी	418691एन	सुबेदार	पुशकर सिंह	01.01.2006
591	जेसी	418639एल	सुबेदार	रबींद्र सिंह	01.09.2005
592	जेसी	418857एफ	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.10.2005
593	जेसी	419469वाइ	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.09.2005
594	जेसी	418506पी	सुबेदार	राम किशन	01.11.2005
595	जेसी	418336डब्ल्यू	सुबेदार	राम प्रकाश	01.12.2005

596	जेसी	418454के.	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.09.2005
597	जेसी	418904डब्ल्यू	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.10.2005
598	जेसी	419393के.	सुबेदार	रूप चांद	01.09.2005
599	जेसी	418393एक्स	सुबेदार	श्रवण सिंह	01.09.2005
600	जेसी	225986एच	सुबेदार	सैजे दाराम बाबाजी	01.09.2005
601	जेसी	219272वाइ	सुबेदार	शिव पाल	01.10.2005
602	जेसी	216436वाइ	सुबेदार	सुभाष चांद डोगरा	01.10.2005
603	जेसी	418138एल	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.11.2005
604	जेसी	419380एम	सुबेदार	सुंदर सिंह	01.09.2005
605	जेसी	419089ए	सुबेदार	सुरवासे छोंगादियो कशना	01.01.2006
606	जेसी	194211एन	सुबेदार	सुरेंद्र राना	01.11.2005
607	जेसी	418227के.	सुबेदार	तेरसाम कुमार शर्मा	01.10.2005
608	जेसी	418952डब्ल्यू	सुबेदार	उम्मेद सिंह	01.10.2005
609	जेसी	418685ए	सुबेदार	विजय सिंह	01.01.2006
610	जेसी	183648एफ	सुबेदार	विजयन पिल्लई के. वी	01.01.2006
611	जेसी	418858एम	सुबेदार	विजेन्द्र सिंह	01.10.2005
612	जेसी	225075एम	सुबेदार	याम बहादुर थापा	01.11.2005
पंजाब रेजीमेंट					
613	जेसी	428834डब्ल्यू	सुबेदार	अमर सिंह	01.09.2005
614	जेसी	428882डब्ल्यू	सुबेदार	अमीन चांद वर्मा	01.09.2005
615	जेसी	428828एच	सुबेदार	अवतार सिंह	01.10.2005
616	जेसी	428398के.	सुबेदार	बलदेव राज	01.12.2005
617	जेसी	218396एफ	सुबेदार	बिल्ला सिंह	01.12.2005
618	जेसी	428978वाइ	सुबेदार	देस राज	01.09.2005
619	जेसी	428681एक्स	सुबेदार	धनी राम	01.10.2005
620	जेसी	428968पी	सुबेदार	धर्म सिंह	01.09.2005
621	जेसी	428750एच	सुबेदार	दिलबाग सिंह	01.11.2005
622	जेसी	428270वाइ	सुबेदार	हरदीप सिंह सेसन	01.10.2005
623	जेसी	428796एल	सुबेदार	हरमंदर सिंह जामवाल	01.12.2005
624	जेसी	428435एम	सुबेदार	जगतार सिंह	01.09.2005
625	जेसी	428570ए	सुबेदार	जोगा सिंह	01.12.2005
626	जेसी	428401वाइ	सुबेदार	करन सिंह समकरिया	01.11.2005
627	जेसी	428822एफ	सुबेदार	केवल सिंह	01.11.2005
628	जेसी	428698एल	सुबेदार	कुलवंत सिंह	01.10.2005
629	जेसी	428963डब्ल्यू	सुबेदार	मदन लाल	01.10.2005
630	जेसी	428856पी	सुबेदार	मिलाप चांद	01.10.2005
631	जेसी	428644के.	सुबेदार	मोहन लाल	01.09.2005
632	जेसी	429007ए	सुबेदार	प्रेम लाल भारद्वाज	01.09.2005
633	जेसी	428989एल	सुबेदार	प्रीतम दास	01.10.2005
634	जेसी	428643एफ	सुबेदार	प्रीतपाल सिंह	01.10.2005
635	जेसी	428672डब्ल्यू	सुबेदार	राज कुमार	01.12.2005
636	जेसी	428779एल	सुबेदार	राम कुमार सैनी	01.10.2005
637	जेसी	428925ए	सुबेदार	रोमेश चांद कटोच	01.10.2005
638	जेसी	429018एफ	सुबेदार	शाम लाल	01.10.2005
639	जेसी	428573एन	सुबेदार	शेर सिंह	01.09.2005
640	जेसी	428820डब्ल्यू	सुबेदार	सुजान सिंह	01.10.2005
641	जेसी	428835वाइ	सुबेदार	सुख देव	01.09.2005
642	जेसी	428979एफ	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.10.2005
643	जेसी	428611वाइ	सुबेदार	सुरेश कुमार शर्मा	01.09.2005
644	जेसी	428845एच	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.01.2006

645	जेसी	428678एक्स	सुबेदार	सुरजीत सिंह चौहान	01.10.2005
646	जेसी	428083ए	सुबेदार	तारा चांद	01.10.2005
मद्रास रेजीमेन्ट					
647	जेसी	438039के.	सुबेदार	अलामुरु साम्बा सिवदु	01.10.2005
648	जेसी	438526के.	सुबेदार	बालथूला मोसिस थ्यागराजू	01.12.2005
649	जेसी	438459के.	सुबेदार	बसावा राज गदादे	01.11.2005
650	जेसी	438316के.	सुबेदार	भासकरण वी	01.11.2005
651	जेसी	438720वाइ	सुबेदार	बोस वी आर	01.11.2005
652	जेसी	438406एल	सुबेदार	जॉन कुट्टी सी	01.09.2005
653	जेसी	438503एच	सुबेदार	श्रीधरण यू	01.10.2005
ग्रेनेडियर्स					
654	जेसी	448662एन	सुबेदार	अजीज खान	01.09.2005
655	जेसी	448922एन	सुबेदार	बाबू खान	01.01.2006
656	जेसी	448973एफ	सुबेदार	बहादुर सिंह	01.12.2005
657	जेसी	448516एन	सुबेदार	बिजेन्द्र सिंह	01.09.2005
658	जेसी	448402एच	सुबेदार	बिशम्बर सिंह	01.11.2005
659	जेसी	449110एम	सुबेदार	बोध राज	01.10.2005
660	जेसी	448500एच	सुबेदार	दलबीर सिंह	01.11.2005
661	जेसी	449125पी	सुबेदार	दया राम सिंह	01.11.2005
662	जेसी	448715एफ	सुबेदार	धर्मवीर	01.12.2005
663	जेसी	449064एच	सुबेदार	धीरेन्द्र सिंह	01.10.2005
664	जेसी	448893के.	सुबेदार	गगन सिंह	01.11.2005
665	जेसी	449133एन	सुबेदार	गगन सिंह	01.09.2005
666	जेसी	448369डब्ल्यू	सुबेदार	गनेश लाल परमार	01.09.2005
667	जेसी	449017एल	सुबेदार	गोपाल दास	01.12.2005
668	जेसी	448719एक्स	सुबेदार	इमदाद अली	01.12.2005
669	जेसी	448885एल	सुबेदार	ईश्वरी सिंह झामता	01.01.2006
670	जेसी	448770एक्स	सुबेदार	जगदीश चांद ठाकुर	01.09.2005
671	जेसी	448728वाइ	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.10.2005
672	जेसी	449153एफ	सुबेदार	जीत राम	01.01.2006
673	जेसी	448763एफ	सुबेदार	किशन लाल मीना	01.10.2005
674	जेसी	448425के.	सुबेदार	किशन सिंह	01.09.2005
675	जेसी	224204पी	सुबेदार	किशोर सिंह	01.10.2005
676	जेसी	448782एम	सुबेदार	किशोरी लाल	01.01.2006
677	जेसी	449131एच	सुबेदार	लाल खान	01.12.2005
678	जेसी	448832एम	सुबेदार	महेन्द्र सिंह गहलावत	01.11.2005
679	जेसी	448389के.	सुबेदार	मकसूद अली	01.12.2005
680	जेसी	449122एफ	सुबेदार	माणु राम मीना	01.12.2005
681	जेसी	448771ए	सुबेदार	मथारा दास शर्मा	01.09.2005
682	जेसी	448515एल	सुबेदार	महबूब खान	01.12.2005
683	जेसी	448617एफ	सुबेदार	मोहम्मद यूनस	01.11.2005
684	जेसी	448944एम	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.12.2005
685	जेसी	448785ए	सुबेदार	मोती लाल शर्मा	01.09.2005
686	जेसी	448382ए	सुबेदार	मुनका	01.12.2005
687	जेसी	448499वाइ	सुबेदार	नारायण सिंह राव	01.09.2005
688	जेसी	448601डब्ल्यू	सुबेदार	नसीब अली	01.01.2006
689	जेसी	449018एन	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.01.2006
690	जेसी	448927एम	सुबेदार	प्रकाश चांद	01.11.2005
691	जेसी	448330के.	सुबेदार	राम आसरे सिंह	01.09.2005
692	जेसी	448892एफ	सुबेदार	रमेश कुमार	01.11.2005

693	जेसी	448908एफ	सुबेदार	रूप चांद	01.09.2005
694	जेसी	448876के	सुबेदार	रूप लाल	01.10.2005
695	जेसी	449126एक्स	सुबेदार	सरदारी लाल	01.09.2005
696	जेसी	448760एन	सुबेदार	सत्यदेव सिंह	01.11.2005
697	जेसी	448579डब्ल्यू	सुबेदार	शंकर लाल मीना	01.11.2005
698	जेसी	448795के.	सुबेदार	शिव राम सिंह	01.09.2005
699	जेसी	448619एम	सुबेदार	सोहन सिंह मन्हास	01.09.2005
700	जेसी	448283एक्स	सुबेदार	सुबाष चांद	01.11.2005
701	जेसी	449007एफ	सुबेदार	सुल्तान	01.09.2005
702	जेसी	178967के.	सुबेदार	सुल्तान अली	01.09.2005
703	जेसी	448992एम	सुबेदार	सूरज मल मीना	01.11.2005
704	जेसी	448623पी	सुबेदार	सुरेश कुमार ठाकुर	01.09.2005
705	जेसी	182941एम	सुबेदार	यासीन अली	01.09.2005
मराठा लघु सेना					
706	जेसी	184958वाइ	सुबेदार	बशीर राक्थेर एम एम	01.09.2005
707	जेसी	216759एफ	सुबेदार	जल सिंह	01.10.2005
708	जेसी	458115एम	सुबेदार	कोकारे धुलप्पा एन	01.10.2005
709	जेसी	458203एच	सुबेदार	कोकीतकर तानाजी बालू	01.12.2005
710	जेसी	458466एफ	सुबेदार	कृष्ण नायर बी	01.01.2006
711	जेसी	528404एफ	सुबेदार	लक्ष्मन अन्ना भिनताडे	01.11.2005
712	जेसी	220162एम	सुबेदार	एम डी. यूसुफ	01.09.2005
713	जेसी	458413एच	सुबेदार	मुंघे मानसिंह मल्हारी	01.10.2005
714	जेसी	222662एम	सुबेदार	नागनाथ भीमराव मोरे	01.12.2005
715	जेसी	458312पी	सुबेदार	सीताराम बापू राव पाटिल	01.10.2005
716	जेसी	458260के.	सुबेदार	तानाजी विश्वास पाटिल	01.11.2005
717	जेसी	222657एफ	सुबेदार	तसीलदार बाबासाहेब एस	01.09.2005
718	जेसी	210992वाइ	सुबेदार	थादव जीवन बालकृशना	01.12.2005
719	जेसी	458452एफ	सुबेदार	जेड बलवंत यशवंत	01.12.2005
राजपूताना राईफल्स					
720	जेसी	468536एच	सुबेदार	भीम सिंह	01.11.2005
721	जेसी	468784वाइ	सुबेदार	धर्म सिंह	01.12.2005
722	जेसी	468675एम	सुबेदार	धर्मेश सिंह	01.09.2005
723	जेसी	208317एन	सुबेदार	इम्तियाज अहमद खान	01.01.2006
724	जेसी	468720एन	सुबेदार	कुंदन सिंह	01.11.2005
725	जेसी	468643के.	सुबेदार	माही पाल सिंह	01.09.2005
726	जेसी	468484एक्स	सुबेदार	महीपाल सिंह	01.11.2005
727	जेसी	468585एल	सुबेदार	नरेंद्र सिंह	01.09.2005
728	जेसी	468440ए	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.09.2005
729	जेसी	468718डब्ल्यू	सुबेदार	पूरन सिंह	01.12.2005
730	जेसी	468042वाइ	सुबेदार	राज पाल	01.12.2005
731	जेसी	468289ए	सुबेदार	राम निवास	01.12.2005
732	जेसी	468909एल	सुबेदार	राम सिंह	01.12.2005
733	जेसी	468338एक्स	सुबेदार	शफी मोहम्मद	01.11.2005
734	जेसी	468021एच	सुबेदार	शेर पाल	01.01.2006
735	जेसी	468679एच	सुबेदार	सुखवीर सिंह	01.10.2005
736	जेसी	468244ए	सुबेदार	सुमेर सिंह	01.12.2005
737	जेसी	468795एल	सुबेदार	उमैद सिंह	01.12.2005
राजपूत रेजीमेन्ट					
738	जेसी	478358एन	सुबेदार	अमर पाल	01.10.2005

739	जेसी	478700एन	सुबेदार	अतर सिंह	01.01.2006
740	जेसी	478342पी	सुबेदार	बहोरन खान	01.12.2005
741	जेसी	193726एफ	सुबेदार	भंवर लाल	01.12.2005
742	जेसी	478225एच	सुबेदार	चतुर सिंह	01.10.2005
743	जेसी	478118एफ	सुबेदार	धर्मेन्द्र सिंह तोमर	01.10.2005
744	जेसी	478546ए	सुबेदार	गिरवर सिंह	01.10.2005
745	जेसी	478577ए	सुबेदार	इख्तियार सिंह	01.01.2006
746	जेसी	478827डब्ल्यू	सुबेदार	जग राम	01.11.2005
747	जेसी	478528एक्स	सुबेदार	जाटन पाल सिंह वैश	01.12.2005
748	जेसी	478504एन	सुबेदार	जया प्रकाश सिंह	01.01.2006
749	जेसी	478872एच	सुबेदार	जीत सिंह	01.12.2005
750	जेसी	224405एन	सुबेदार	खडक सिंह	01.11.2005
751	जेसी	478352एक्स	सुबेदार	कष्णन पाल सिंह	01.10.2005
752	जेसी	478649वाइ	सुबेदार	महावीर प्रसाद	01.12.2005
753	जेसी	478553डब्ल्यू	सुबेदार	मनजीत राज	01.09.2005
754	जेसी	478748एफ	सुबेदार	पीड़ा राम गूजर	01.10.2005
755	जेसी	478259डब्ल्यू	सुबेदार	राज कुमार सिंह	01.09.2005
756	जेसी	478432पी	सुबेदार	राज कुमार सिंह	01.09.2005
757	जेसी	478209एल	सुबेदार	राजेंद्र पांडे	01.11.2005
758	जेसी	478510एफ	सुबेदार	राम पाल	01.01.2006
759	जेसी	158230एन	सुबेदार	शिव कुमार जोशी	01.01.2006
760	जेसी	478782एफ	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह नरुका	01.11.2005
761	जेसी	478324एल	सुबेदार	तेज राम	01.10.2005
जाट रेजीमेन्ट					
762	जेसी	488733एम	सुबेदार	अजीत सिंह	01.10.2005
763	जेसी	488776एफ	सुबेदार	अनूप सिंह	01.11.2005
764	जेसी	488182एम	सुबेदार	भागीरथ सिंह	01.11.2005
765	जेसी	528614एफ	सुबेदार	बिरहम सिंह	01.12.2005
766	जेसी	488500एल	सुबेदार	जगत सिंह सनगवाँ	01.11.2005
767	जेसी	488651के.	सुबेदार	कपूर सिंह	01.10.2005
768	जेसी	488655ए	सुबेदार	करन सिंह	01.10.2005
769	जेसी	488797एक्स	सुबेदार	कष्णन पाल	01.10.2005
770	जेसी	488514एल	सुबेदार	महावीर सिंह	01.10.2005
771	जेसी	488784ए	सुबेदार	महीपाल	01.11.2005
772	जेसी	438092पी	सुबेदार	नाथू राम	01.09.2005
773	जेसी	488952एन	सुबेदार	रघुवीर सिंह चहल	01.11.2005
774	जेसी	488161डब्ल्यू	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.12.2005
775	जेसी	488233पी	सुबेदार	राम निवास	01.10.2005
776	जेसी	488941एफ	सुबेदार	राम प्रसाद धाकरवाल	01.11.2005
777	जेसी	488387एफ	सुबेदार	रामपाल सिंह	01.09.2005
778	जेसी	488623एक्स	सुबेदार	रामपत	01.11.2005
779	जेसी	488493ए	सुबेदार	रामफल	01.09.2005
780	जेसी	488782पी	सुबेदार	रण सिंह	01.11.2005
781	जेसी	488874एफ	सुबेदार	रणधीर सिंह	01.09.2005
782	जेसी	488624ए	सुबेदार	रिछपाल सिंह	01.09.2005
783	जेसी	488876एम	सुबेदार	रोहताश	01.11.2005
784	जेसी	488416एल	सुबेदार	सत प्रकाश	01.10.2005
785	जेसी	488946ए	सुबेदार	सतबीर	01.11.2005
786	जेसी	488535एफ	सुबेदार	शमशेर सिंह	01.11.2005
787	जेसी	488441के.	सुबेदार	शीश राम	01.10.2005

788	जेसी	488564डब्ल्यू	सुबेदार	सुखवीर सिंह	01.11.2005
789	जेसी	489198के.	सुबेदार	तसवीर सिंह	01.11.2005
790	जेसी	488699एक्स	सुबेदार	विद्याधर सिंह	01.10.2005
791	जेसी	488631डब्ल्यू	सुबेदार	जिले सिंह	01.09.2005
सिख रेजीमेन्ट					
792	जेसी	498253डब्ल्यू	सुबेदार	अनूप सिंह	01.10.2005
793	जेसी	498333एन	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.10.2005
794	जेसी	498560एन	सुबेदार	बसंत सिंह	01.10.2005
795	जेसी	498512एन	सुबेदार	भजन सिंह	01.09.2005
796	जेसी	493508एल	सुबेदार	दोलत सिंह	01.10.2005
797	जेसी	498529एफ	सुबेदार	घनशाम सिंह	01.12.2005
798	जेसी	498353एफ	सुबेदार	गुरमेल सिंह	01.10.2005
799	जेसी	498503एम	सुबेदार	जरनैल सिंह	01.12.2005
800	जेसी	498522एक्स	सुबेदार	जोगिंदर सिंह, एम	01.10.2005
801	जेसी	498821डब्ल्यू	सुबेदार	मलकियत सिंह	01.10.2005
802	जेसी	498513डब्ल्यू	सुबेदार	मनजीत सिंह	01.09.2005
803	जेसी	498622एच	सुबेदार	मंगल सिंह	01.10.2005
804	जेसी	498524एच	सुबेदार	मेवा सिंह	01.09.2005
805	जेसी	498040एच	सुबेदार	प्रीतम सिंह	01.10.2005
806	जेसी	498597पी	सुबेदार	रत्तन सिंह	01.09.2005
807	जेसी	498520एम	सुबेदार	सत पाल सिंह	01.10.2005
808	जेसी	498026डब्ल्यू	सुबेदार	सतनाम सिंह	01.11.2005
809	जेसी	498543एन	सुबेदार	शाम सिंह	01.09.2005
810	जेसी	498282एल	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.09.2005
811	जेसी	498181एक्स	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.09.2005
812	जेसी	498530डब्ल्यू	सुबेदार	जोरावर सिंह	01.10.2005
सिख लघु पैदल सेना					
813	जेसी	508275एल	सुबेदार	अवतार सिंह	01.11.2005
814	जेसी	508243एच	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.10.2005
815	जेसी	508535एल	सुबेदार	बूटा सिंह	01.10.2005
816	जेसी	508151डब्ल्यू	सुबेदार	चमकौर सिंह	01.12.2005
817	जेसी	508452ए	सुबेदार	दर्शन सिंह	01.09.2005
818	जेसी	508230एल	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.11.2005
819	जेसी	508150एन	सुबेदार	गुलजार सिंह	01.12.2005
820	जेसी	508390एल	सुबेदार	गुरचरण सिंह	01.09.2005
821	जेसी	508141एम	सुबेदार	गुरदेव सिंह	01.09.2005
822	जेसी	508555वाइ	सुबेदार	गुरदेव सिंह	01.12.2005
823	जेसी	508058पी	सुबेदार	गुरमीत सिंह	01.12.2005
824	जेसी	508389डब्ल्यू	सुबेदार	गुरनाम सिंह	01.10.2005
825	जेसी	508561एम	सुबेदार	हरबंस सिंह	01.11.2005
826	जेसी	508295वाइ	सुबेदार	हरबंस सिंह खन्न	01.09.2005
827	जेसी	508188एक्स	सुबेदार	हरदेव सिंह	01.09.2005
828	जेसी	558152पी	सुबेदार	हरजीत सिंह	01.12.2005
829	जेसी	508122एफ	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.11.2005
830	जेसी	508211ए	सुबेदार	जसमेर सिंह	01.11.2005
831	जेसी	204346एल	सुबेदार	जसवंत सिंह	01.09.2005
832	जेसी	508221के.	सुबेदार	जीत सिंह	01.09.2005
833	जेसी	508027पी	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.01.2006
834	जेसी	211132वाइ	सुबेदार	सालविन्दर सिंह	01.12.2005
835	जेसी	508318पी	सुबेदार	सोहन सिंह	01.10.2005

836	जेसी	218289ए	सुबेदार	सुच्चा सिंह	01.11.2005
837	जेसी	508751वाइ	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.09.2005
डोगरा रेजीमेन्ट					
838	जेसी	518911एफ	सुबेदार	अनूप सिंह राना	01.12.2005
839	जेसी	519031एक्स	सुबेदार	अर्जन दास	01.09.2005
840	जेसी	518604के.	सुबेदार	आशनी कुमार शर्मा	01.11.2005
841	जेसी	518208एन	सुबेदार	अशोक कुमार	01.10.2005
842	जेसी	519285पी	सुबेदार	अशोक कुमार शर्मा	01.11.2005
843	जेसी	519111पी	सुबेदार	अवतार सिंह गुलेरिया	01.09.2005
844	जेसी	519034एल	सुबेदार	बालक राम	01.09.2005
845	जेसी	519261एल	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.09.2005
846	जेसी	518864पी	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.09.2005
847	जेसी	519221के.	सुबेदार	बलदेव सिंह ठाकुर	01.10.2005
848	जेसी	548659एच	सुबेदार	बलराम सिंह	01.10.2005
849	जेसी	519062एक्स	सुबेदार	बंकू राम	01.09.2005
850	जेसी	519423एल	सुबेदार	बंसी लाल	01.12.2005
851	जेसी	519253एम	सुबेदार	भगवान दास धारीवाल	01.10.2005
852	जेसी	519120डब्ल्यू	सुबेदार	भगवान सिंह राना	01.09.2005
853	जेसी	519353एक्स	सुबेदार	भरत सिंह	01.12.2005
854	जेसी	518856डब्ल्यू	सुबेदार	बृजलाल सिंह	01.10.2005
855	जेसी	519223एम	सुबेदार	बोध राज	01.09.2005
856	जेसी	519147एन	सुबेदार	बृज मोहन सिंह पठानिया	01.12.2005
857	जेसी	519000एक्स	सुबेदार	छत्तार सिंह	01.10.2005
858	जेसी	518890डब्ल्यू	सुबेदार	दलेल सिंह	01.10.2005
859	जेसी	519082एल	सुबेदार	धनोत्तर सिंह	01.12.2005
860	जेसी	519476के.	सुबेदार	गंगा राम जेखोत्रा	01.12.2005
861	जेसी	519178एन	सुबेदार	गोपाल सिंह भारमोरिया	01.09.2005
862	जेसी	519313डब्ल्यू	सुबेदार	हंस राज शर्मा	01.01.2006
863	जेसी	519312एन	सुबेदार	हरबंस लाल शर्मा	01.12.2005
864	जेसी	518878पी	सुबेदार	इश्वर चांद शर्मा	01.10.2005
865	जेसी	518914पी	सुबेदार	जैसी राम	01.01.2006
866	जेसी	518998एन	सुबेदार	जामीत सिंह	01.09.2005
867	जेसी	519155एम	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.11.2005
868	जेसी	518441एफ	सुबेदार	कर्म चांद	01.10.2005
869	जेसी	519275एल	सुबेदार	कर्म चांद	01.10.2005
870	जेसी	519189ए	सुबेदार	कर्ण सिंह	01.12.2005
871	जेसी	519010एफ	सुबेदार	कुलदीप सिंह भारद्वाज	01.09.2005
872	जेसी	519194एल	सुबेदार	कुलदीप सिंह पठानिया	01.11.2005
873	जेसी	518870एच	सुबेदार	मनोहर लाल	01.09.2005
874	जेसी	519254पी	सुबेदार	मेला राम	01.09.2005
875	जेसी	519118वाइ	सुबेदार	मुकुंद लाल	01.11.2005
876	जेसी	518910वाइ	सुबेदार	ओंकार नाथ	01.12.2005
877	जेसी	519023वाइ	सुबेदार	पदमदेव सिंह	01.09.2005
878	जेसी	518899एल	सुबेदार	पर्शोत्तम चांद	01.01.2006
879	जेसी	519140के.	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.09.2005
880	जेसी	519259एन	सुबेदार	प्रकाश चांद	01.11.2005
881	जेसी	519032ए	सुबेदार	प्रेम सागर वर्मा	01.09.2005
882	जेसी	519322एक्स	सुबेदार	प्रीतम चांद राना	01.01.2006
883	जेसी	518848एक्स	सुबेदार	प्रीतम सिंह	01.01.2006
884	जेसी	519294डब्ल्यू	सुबेदार	पूरन सिंह	01.12.2005

885	जेसी	519235के.	सुबेदार	रछपाल सिंह	01.12.2005
886	जेसी	519220वाइ	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.10.2005
887	जेसी	519102एन	सुबेदार	राकेश चंद्र खजुरिया	01.12.2005
888	जेसी	518691एच	सुबेदार	राम लाल	01.11.2005
889	जेसी	519295वाइ	सुबेदार	राम सरूप	01.11.2005
890	जेसी	518766पी	सुबेदार	रमेश चांद	01.11.2005
891	जेसी	519282एफ	सुबेदार	रमेश कुमार	01.11.2005
892	जेसी	519238एक्स	सुबेदार	रमेश सिंह	01.01.2006
893	जेसी	519048एल	सुबेदार	रोमेश चंद्र	01.10.2005
894	जेसी	518785ए	सुबेदार	रोमेश कुमार	01.12.2005
895	जेसी	518917एच	सुबेदार	संतोष कुमार तलवार	01.11.2005
896	जेसी	519088एम	सुबेदार	सरदारी लाल	01.10.2005
897	जेसी	518880एम	सुबेदार	सरिसते राज कपिल	01.11.2005
898	जेसी	518984एन	सुबेदार	शक्ती सिंह	01.12.2005
899	जेसी	519234एफ	सुबेदार	सुभाष चांद	01.10.2005
900	जेसी	519290ए	सुबेदार	सूरज प्रकाश	01.12.2005
901	जेसी	518656ए	सुबेदार	सूरम सिंह	01.09.2005
902	जेसी	518810एन	सुबेदार	तिलक राज धीमान	01.12.2005
903	जेसी	519286एक्स	सुबेदार	उत्तातम सिंह पठानिया	01.12.2005
904	जेसी	518790वाइ	सुबेदार	वेद प्रकाश मनकोटिया	01.09.2005
905	जेसी	519100एच	सुबेदार	विद्या सागर	01.10.2005
गढ़वाल राईफल्स					
906	जेसी	528563वाइ	सुबेदार	बच्चे सिंह	01.01.2006
907	जेसी	529144एन	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.12.2005
908	जेसी	529131डब्ल्यू	सुबेदार	दलबीर सिंह	01.01.2006
909	जेसी	558422वाइ	सुबेदार	दरवान सिंह	01.09.2005
910	जेसी	528546वाइ	सुबेदार	देब सिंह	01.10.2005
911	जेसी	528041एच	सुबेदार	दिगम्बर सिंह	01.01.2006
912	जेसी	528610एल	सुबेदार	ज्ञान सिंह	01.01.2006
913	जेसी	529046एन	सुबेदार	ज्ञान सिंह	01.09.2005
914	जेसी	529158एन	सुबेदार	किशन सिंह	01.11.2005
915	जेसी	528393ए	सुबेदार	मंगल सिंह	01.11.2005
916	जेसी	528523एक्स	सुबेदार	मोहन सिंह	01.01.2006
917	जेसी	528836डब्ल्यू	सुबेदार	मोहन सिंह	01.10.2005
918	जेसी	528974एक्स	सुबेदार	नरेंद्रा सिंह	01.09.2005
919	जेसी	538616ए	सुबेदार	फूला राम	01.09.2005
920	जेसी	528983वाइ	सुबेदार	प्रकाश चंद्रा	01.11.2005
921	जेसी	528286वाइ	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.12.2005
922	जेसी	528343पी	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.10.2005
923	जेसी	528885वाइ	सुबेदार	तजबार सिंह	01.09.2005
924	जेसी	528774एफ	सुबेदार	त्रिलोक सिंह राना	01.01.2006
925	जेसी	528385एफ	सुबेदार	उम्मेद सिंह	01.11.2005
926	जेसी	528879एल	सुबेदार	यशवंत सिंह	01.09.2005
कुमाँउ रेजीमेन्ट					
927	जेसी	539125डब्ल्यू	सुबेदार	अटर सिंह	01.09.2005
928	जेसी	558588ए	सुबेदार	अवधेश प्रसाद सिंह	01.01.2006
929	जेसी	538718डब्ल्यू	सुबेदार	बहादुर सिंह	01.01.2006
930	जेसी	538632एक्स	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.01.2006
931	जेसी	538653पी	सुबेदार	भूपाल सिंह	01.09.2005
932	जेसी	539027डब्ल्यू	सुबेदार	भुवन चंद्रा त्रिपाठी	01.01.2006

933	जैसी	212673एल	सुबेदार	बिरजू मोहन	01.10.2005
934	जैसी	539064के.	सुबेदार	चंचल सिंह मेहता	01.01.2006
935	जैसी	538893एल	सुबेदार	चंद्र सिंह	01.10.2005
936	जैसी	538714ए	सुबेदार	दया कृष्णन	01.01.2006
937	जैसी	539047के.	सुबेदार	देवेंदर सिंह	01.12.2005
938	जैसी	222742के.	सुबेदार	धन सिंह	01.01.2006
939	जैसी	538213ए	सुबेदार	गनेश सिंह	01.10.2005
940	जैसी	538047एक्स	सुबेदार	गिरीश चंद्र जोशी	01.10.2005
941	जैसी	216894पी	सुबेदार	गोवर्धन सिंह	01.12.2005
942	जैसी	538627एम	सुबेदार	गोविंद सिंह	01.10.2005
943	जैसी	538967पी	सुबेदार	गोविंद सिंह	01.10.2005
944	जैसी	538738के.	सुबेदार	गोविंद सिंह एसएम	01.11.2005
945	जैसी	538461डब्ल्यू	सुबेदार	हर सिंह	01.01.2006
946	जैसी	539014वाइ	सुबेदार	हर सिंह	01.01.2006
947	जैसी	538618एल	सुबेदार	हरी सिंह डोगरा	01.10.2005
948	जैसी	538366के.	सुबेदार	होशियार सिंह	01.09.2005
949	जैसी	538965के.	सुबेदार	जगत सिंह	01.12.2005
950	जैसी	538666एल	सुबेदार	कैलाश चंद्र	01.10.2005
951	जैसी	538982के.	सुबेदार	खडक सिंह	01.09.2005
952	जैसी	538076एम	सुबेदार	किशन सिंह	01.01.2006
953	जैसी	538951के.	सुबेदार	कृष्णन सिंह	01.10.2005
954	जैसी	538652एम	सुबेदार	कुंदन सिंह	01.10.2005
955	जैसी	538808एक्स	सुबेदार	लाला राम यादव	01.11.2005
956	जैसी	539072एच	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.01.2006
957	जैसी	538624वाइ	सुबेदार	महेश चंद्रा	01.10.2005
958	जैसी	538183एन	सुबेदार	मंगल सिंह	01.01.2006
959	जैसी	538568एल	सुबेदार	मनोहर दत्त	01.01.2006
960	जैसी	538419एक्स	सुबेदार	नंदन सिंह	01.01.2006
961	जैसी	538823एम	सुबेदार	नारायण सिंह बोरा	01.01.2006
962	जैसी	539057एन	सुबेदार	पान सिंह	01.10.2005
963	जैसी	538785एफ	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.10.2005
964	जैसी	538655ए	सुबेदार	प्रयाग सिंह	01.09.2005
965	जैसी	538895डब्ल्यू	सुबेदार	प्रेम गिरि	01.10.2005
966	जैसी	538656एच	सुबेदार	पूरन सिंह	01.09.2005
967	जैसी	538561एफ	सुबेदार	पुशकर सिंह	01.01.2006
968	जैसी	538519एच	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.09.2005
969	जैसी	538032पी	सुबेदार	राम बिलास यादव	01.01.2006
970	जैसी	538512वाइ	सुबेदार	रमेश चंद्रा जोशी	01.01.2006
971	जैसी	538538एन	सुबेदार	सरस्ती बल्लभ	01.10.2005
972	जैसी	538899एम	सुबेदार	शंकर दत्त जोशी	01.01.2006
973	जैसी	538218वाइ	सुबेदार	शिव मंगल सिंह	01.10.2005
974	जैसी	538944एन	सुबेदार	शिवचरण सिंह	01.09.2005
975	जैसी	539012एन	सुबेदार	श्यामबीर सिंह	01.09.2005
976	जैसी	538707के.	सुबेदार	टी बी एस कंचल	01.01.2006
977	जैसी	539004पी	सुबेदार	टी एस नगरकोटी	01.11.2005
978	जैसी	538527एफ	सुबेदार	तेज सिंह	01.01.2006
979	जैसी	538835एफ	सुबेदार	त्रिलोक सिंह	01.10.2005
980	जैसी	539007एच	सुबेदार	त्रिलोचन	01.01.2006
981	जैसी	538709पी	सुबेदार	विजयवीर सिंह	01.01.2006

आसाम रेजीमेन्ट

982	जेसी	548384ए	सुबेदार	अमूल्य कुमार लहान	01.11.2005
983	जेसी	222762एक्स	सुबेदार	अनिल चंद्रा ब्रमा	01.10.2005
984	जेसी	448434एल	सुबेदार	डी. खान	01.01.2006
985	जेसी	548563ए	सुबेदार	गोविंद सिंह थापा	01.11.2005
986	जेसी	548390एन	सुबेदार	पुरंदर डेका	01.11.2005
987	जेसी	548071एफ	सुबेदार	रोबिन राम बोरो	01.12.2005
988	जेसी	548404एच	सुबेदार	उत्तातम बसुमा	01.01.2006

बिहार रेजीमेन्ट

989	जेसी	220250एम	सुबेदार	अबानी कांता साहू	01.12.2005
990	जेसी	558697एम	सुबेदार	अनिल किन्डो	01.10.2005
991	जेसी	558860एफ	सुबेदार	अरविंद कुमार शुक्ला	01.12.2005
992	जेसी	558906वाइ	सुबेदार	अरुण कुमार द्विवेदी	01.12.2005
993	जेसी	224580एच	सुबेदार	बैकुंठ नाथ नायक	01.12.2005
994	जेसी	205678एफ	सुबेदार	बिनोद बिहारी बेहेरा	01.10.2005
995	जेसी	558396एच	सुबेदार	बिरसा ओरान	01.10.2005
996	जेसी	558082एफ	सुबेदार	चंदेश्वर रबीदास	01.11.2005
997	जेसी	218346डब्ल्यू	सुबेदार	चंद्रा शेखर मोहंती	01.01.2006
998	जेसी	558305एन	सुबेदार	क्लेमेन्ट होरो	01.10.2005
999	जेसी	558301एक्स	सुबेदार	दंडपाणि साहू	01.12.2005
1000	जेसी	558713वाइ	सुबेदार	डेविड स्टैनले मुरमु	01.01.2006
1001	जेसी	558095वाइ	सुबेदार	देवेन्द्र प्रसाद सिंह	01.01.2006
1002	जेसी	558263एम	सुबेदार	दिशु बाल मुछु	01.10.2005
1003	जेसी	558481एल	सुबेदार	दोलामानी महानंदिया	01.12.2005
1004	जेसी	438137के.	सुबेदार	दुबराज ठाकुर	01.12.2005
1005	जेसी	558129एफ	सुबेदार	दुलार केर्केट्टा	01.11.2005
1006	जेसी	558490एम	सुबेदार	दुषाशन हेमब्रोम	01.10.2005
1007	जेसी	558584के.	सुबेदार	गंगाधर दूडू	01.10.2005
1008	जेसी	558383एल	सुबेदार	गोकुला नंदा ओझा	01.09.2005
1009	जेसी	558256डब्ल्यू	सुबेदार	गोपाल प्रसाद सिंह	01.11.2005
1010	जेसी	558322एन	सुबेदार	गोपीनाथ मुरमु	01.01.2006
1011	जेसी	558639एच	सुबेदार	हेमंत कुमार सिंह	01.01.2006
1012	जेसी	558489एक्स	सुबेदार	जगं नारायण पांडे	01.11.2005
1013	जेसी	558341वाइ	सुबेदार	जय मसीह सुरेन	01.11.2005
1014	जेसी	558178के.	सुबेदार	जे	01.11.2005
1015	जेसी	558596वाइ	सुबेदार	जुगेश्वर सिंह बारक	01.01.2006
1016	जेसी	558826एफ	सुबेदार	कैलाश झा	01.11.2005
1017	जेसी	558323डब्ल्यू	सुबेदार	कैलाश प्रसाद यादव	01.11.2005
1018	जेसी	558704एक्स	सुबेदार	कुलवंश सिंह	01.12.2005
1019	जेसी	558498वाइ	सुबेदार	लाल बहादुर ठाकुर	01.09.2005
1020	जेसी	558230एफ	सुबेदार	महेंद्र प्रसाद सिंह	01.01.2006
1021	जेसी	558709डब्ल्यू	सुबेदार	मेलवीन ददेल	01.11.2005
1022	जेसी	221038एफ	सुबेदार	मोतीलाल गौड़ा	01.12.2005
1023	जेसी	558623एक्स	सुबेदार	निकोडिंग किन्डो	01.11.2005
1024	जेसी	205676डब्ल्यू	सुबेदार	नीलकंठन जैना	01.01.2006
1025	जेसी	558020एफ	सुबेदार	पद्मा चरण प्रधान	01.01.2006
1026	जेसी	558507पी	सुबेदार	पशुपति सिंह यादव	01.11.2005
1027	जेसी	558326के.	सुबेदार	प्रमोद पाधी	01.12.2005
1028	जेसी	558246एम	सुबेदार	प्रवाकर साहू	01.01.2006
1029	जेसी	558455के.	सुबेदार	प्रवात कुमार पारीजा	01.01.2006

1030	जेसी	558722ए	सुबेदार	राजा किशोर साहू	01.01.2006
1031	जेसी	138612डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्र झा	01.11.2005
1032	जेसी	568298डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्र कुमार राकेश	01.01.2006
1033	जेसी	558155एच	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद सिंह	01.01.2006
1034	जेसी	558190एल	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.01.2006
1035	जेसी	558279एक्स	सुबेदार	राम एकबाल सिंह	01.12.2005
1036	जेसी	558616एफ	सुबेदार	राम दर्शन सिंह	01.01.2006
1037	जेसी	558874एफ	सुबेदार	राम दुलार राम	01.11.2005
1038	जेसी	558187एल	सुबेदार	रामआधार सिंह	01.01.2006
1039	जेसी	558635एम	सुबेदार	रामेश्वर प्रसाद सिंह	01.12.2005
1040	जेसी	558795एम	सुबेदार	शेतगी नाथ ओझा	01.12.2005
1041	जेसी	558399डब्ल्यू	सुबेदार	शम्भू नाथ सिंह	01.11.2005
1042	जेसी	558213एफ	सुबेदार	शंकर दयाल सिंह	01.12.2005
1043	जेसी	558822एल	सुबेदार	शिव इश्वर सिंह	01.11.2005
1044	जेसी	438506डब्ल्यू	सुबेदार	शिव नारायण तिवारी	01.12.2005
1045	जेसी	438602एल	सुबेदार	श्री निवास सिंह	01.11.2005
1046	जेसी	558698पी	सुबेदार	सुदर्शन केन्डी	01.09.2005
1047	जेसी	558564डब्ल्यू	सुबेदार	सुकून तिकेई	01.11.2005
1048	जेसी	558618एम	सुबेदार	सुनील टूडू	01.01.2006
1049	जेसी	558622पी	सुबेदार	सुरेश प्रसाद शर्मा	01.09.2005
1050	जेसी	225852के.	सुबेदार	त्याले नाइक	01.10.2005
1051	जेसी	558534वाइ	सुबेदार	टीरकी कंदीर	01.01.2006
महाराष्ट्र					
1052	जेसी	568955पी	सुबेदार	बहादुर सिंह	01.01.2006
1053	जेसी	568789एम	सुबेदार	बलजीत सिंह	01.01.2006
1054	जेसी	568662के.	सुबेदार	बेनी प्रसाद	01.01.2006
1055	जेसी	568765एच	सुबेदार	चांदी प्रसाद	01.12.2005
1056	जेसी	568327ए	सुबेदार	चंद्रमा राय	01.01.2006
1057	जेसी	568676के.	सुबेदार	दिनेश प्रसाद यादव	01.09.2005
1058	जेसी	568742एफ	सुबेदार	गुरू लाल	01.01.2006
1059	जेसी	568918एफ	सुबेदार	गोविंद सिंह	01.01.2006
1060	जेसी	568667एच	सुबेदार	हाकम चांद पन्धेर	01.01.2006
1061	जेसी	211299एफ	सुबेदार	हंकारे विठल मारुति	01.11.2005
1062	जेसी	568430एल	सुबेदार	जय सिंह यादव	01.09.2005
1063	जेसी	568578के.	सुबेदार	कमल सिंह	01.12.2005
1064	जेसी	568500वाइ	सुबेदार	कृष्णा कांत झा	01.01.2006
1065	जेसी	568220एल	सुबेदार	मिहिर सेनाधीर सत्पथी	01.01.2006
1066	जेसी	568682एक्स	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.09.2005
1067	जेसी	829007एन	सुबेदार	परमेश्वर राय	01.12.2005
1068	जेसी	568397वाइ	सुबेदार	रघुवंश राम	01.01.2006
1069	जेसी	568853वाइ	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.10.2005
1070	जेसी	568412एच	सुबेदार	राम करन मिश्रा	01.01.2006
1071	जेसी	568399के.	सुबेदार	राम मूर्ती यादव	01.01.2006
1072	जेसी	568557एन	सुबेदार	राम सिंह यादव	01.12.2005
1073	जेसी	568594एफ	सुबेदार	रामआशीष तिवारी	01.09.2005
1074	जेसी	568456ए	सुबेदार	सतीश हरी भाउ भगत	01.01.2006
1075	जेसी	569002वाइ	सुबेदार	शेर सिंह	01.11.2005
1076	जेसी	568520एम	सुबेदार	थोमबरे एम तुकाराम	01.01.2006
1077	जेसी	568674वाइ	सुबेदार	विजय संजी रोकाद	01.10.2005

1078	जसी	568959एल	सुबेदार	विनोद सिंह	01.01.2006
1079	जसी	568530डब्ल्यू	सुबेदार	यस पाल	01.11.2005
जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स					
1080	जसी	579092वाइ	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.10.2005
1081	जसी	579152एच	सुबेदार	भुपेन्द्र सिंह	01.11.2005
1082	जसी	488446एच	सुबेदार	बिजेन्द्र सिंह	01.10.2005
1083	जसी	579137एन	सुबेदार	चुनी लाल	01.10.2005
1084	जसी	578290एक्स	सुबेदार	दिलबाग सिंह वर्मा	01.01.2006
1085	जसी	578416एम	सुबेदार	गुरदेव सिंह गिल	01.12.2005
1086	जसी	579097एक्स	सुबेदार	हरबेज सिंह	01.09.2005
1087	जसी	578907एच	सुबेदार	हरनाम सिंह	01.10.2005
1088	जसी	579140एन	सुबेदार	जगदीश चांद	01.09.2005
1089	जसी	578959वाइ	सुबेदार	जगजीत सिंह राना	01.09.2005
1090	जसी	579147एक्स	सुबेदार	जीवन सिंह	01.09.2005
1091	जसी	578911एल	सुबेदार	कुलबीर सिंह चिब	01.11.2005
1092	जसी	578963एफ	सुबेदार	मोहिन्दर पाल	01.10.2005
1093	जसी	579151ए	सुबेदार	पशांत सिंह	01.10.2005
1094	जसी	548459एम	सुबेदार	प्रभोत्तम सिंह	01.10.2005
1095	जसी	579163पी	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.10.2005
1096	जसी	579136एल	सुबेदार	रनबीर सिंह खरवाल	01.10.2005
1097	जसी	578492वाइ	सुबेदार	सरवीन दयाल शर्मा	01.01.2006
1098	जसी	578850वाइ	सुबेदार	शिव सिंह मन्हास	01.09.2005
1099	जसी	578651एल	सुबेदार	सुभाष चांद	01.10.2005
1100	जसी	578930डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश चंद्र	01.01.2006
1101	जसी	579202एच	सुबेदार	स्वर्ण सिंह	01.10.2005
1102	जसी	579070ए	सुबेदार	तेहल सिंह	01.01.2006
1103	जसी	579242के	सुबेदार	तिलक राज रामदशिया	01.11.2005
1104	जसी	578966पी	सुबेदार	यशवंत सिंह	01.01.2006
लद्दाख स्कौट					
1105	जसी	588040के	सुबेदार	छेरिंग पुन्जोक	01.12.2005
1106	जसी	588035वाइ	सुबेदार	छेरिंग सोनम	01.12.2005
नागा रेजीमेन्ट					
1107	जसी	590097एक्स	सुबेदार	गजेन्द्र कुमार पाल	01.10.2005
1108	जसी	590060डब्ल्यू	सुबेदार	जगत सिंह	01.11.2005
1109	जसी	590111वाइ	सुबेदार	महेश चंद्र सिंह	01.10.2005
1110	जसी	590011एन	सुबेदार	नारायण सिंह	01.01.2006
1111	जसी	538628पी	सुबेदार	शेर सिंह अधिकारी	01.10.2005
1 गोरखा राईफल्स					
1112	जसी	602276एम	सुबेदार	अशोक कुमार थापा	01.10.2005
1113	जसी	602302एच	सुबेदार	चंद्रा बहादुर गुरंग	01.11.2005
1114	जसी	602333एच	सुबेदार	देब बहादुर राना	01.10.2005
1115	जसी	602356के	सुबेदार	दीप बहादुर	01.10.2005
1116	जसी	602319डब्ल्यू	सुबेदार	धर्म सिंह गुरंग	01.01.2006
1117	जसी	602308के	सुबेदार	धर्मा बहादुर थापा	01.10.2005
1118	जसी	602375पी	सुबेदार	ईके. बहादुर राना	01.01.2006
1119	जसी	602004एम	सुबेदार	गनेश बहादुर गुरंग	01.01.2006
1120	जसी	602411पी	सुबेदार	हरी बहादुर राना मगर	01.11.2005
1121	जसी	602234ए	सुबेदार	हरका बहादुर गुरंग	01.11.2005
1122	जसी	602306वाइ	सुबेदार	होम बहादुर कंवर	01.09.2005
1123	जसी	602328एक्स	सुबेदार	होम बहादुर थापा	01.09.2005

1124	जेसी	602403डब्ल्यू	सुबेदार	जीवन कुमार गुरंग	01.11.2005
1125	जेसी	602214एम	सुबेदार	काजीमन गुरंग	01.09.2005
1126	जेसी	602241डब्ल्यू	सुबेदार	केशर बहादुर ठाकुरी	01.09.2005
1127	जेसी	602324एफ	सुबेदार	खिम बहादुर थापा मगर	01.11.2005
1128	जेसी	602274एफ	सुबेदार	कृष्णा बहादुर गुरंग	01.10.2005
1129	जेसी	602290वाइ	सुबेदार	पदम बहादुर छान्देल पुन	01.12.2005
1130	जेसी	602298एल	सुबेदार	पूर्णा बहादुर श्रेष्ठ	01.09.2005
1131	जेसी	602277पी	सुबेदार	राजन गुरंग	01.10.2005
1132	जेसी	602278एक्स	सुबेदार	राम बहादुर थापा	01.10.2005
1133	जेसी	602307एफ	सुबेदार	रुद्रा बहादुर गुरंग	01.11.2005
1134	जेसी	602076डब्ल्यू	सुबेदार	सरन थापा	01.10.2005
1135	जेसी	602323वाइ	सुबेदार	शिशिर कुमार अले	01.11.2005
1136	जेसी	602279ए	सुबेदार	शिव राज थापा	01.11.2005
1137	जेसी	602229पी	सुबेदार	सोम बहादुर मुखिया	01.12.2005
1138	जेसी	602038ए	सुबेदार	तेज बहादुर गुरंग	01.09.2005
1139	जेसी	602122ए	सुबेदार	टेक बहादुर गुरंग	01.10.2005
1140	जेसी	602235एच	सुबेदार	तोला बहादुर गुरंग	01.12.2005
1141	जेसी	602322डब्ल्यू	सुबेदार	तुला बहादुर छत्री	01.01.2006
1142	जेसी	602395एच	सुबेदार	याम बहादुर गुरंग	01.11.2005
3 गोरखा राईफल्स					
1143	जेसी	607342एन	सुबेदार	चंद्रा बहादुर राना	01.10.2005
1144	जेसी	607369एल	सुबेदार	गम बहादुर थापा	01.01.2006
1145	जेसी	607319ए	सुबेदार	गनेश कुमार लामा	01.11.2005
1146	जेसी	607290एच	सुबेदार	हरी बहादुर राना	01.11.2005
1147	जेसी	607335एक्स	सुबेदार	हरकृष्ण बहादुर राना	01.09.2005
1148	जेसी	607365पी	सुबेदार	हुम बहादुर मगर	01.01.2006
1149	जेसी	607352एक्स	सुबेदार	जमन सिंग थापा	01.01.2006
1150	जेसी	607169पी	सुबेदार	झमन प्रसाद कर्मचारी	01.09.2005
1151	जेसी	607205पी	सुबेदार	केश बहादुर थापा	01.10.2005
1152	जेसी	607336ए	सुबेदार	केयर सिंग अले	01.10.2005
1153	जेसी	607329के.	सुबेदार	लाल बहादुर जीदे	01.11.2005
1154	जेसी	607289एन	सुबेदार	नूनीवाल बहादुर गुरंग	01.10.2005
1155	जेसी	607344वाइ	सुबेदार	पशुपथि राम बुराथोकी	01.01.2006
1156	जेसी	607275एन	सुबेदार	प्रेम कुमार थापा	01.09.2005
1157	जेसी	607316एम	सुबेदार	पुशकर राज	01.10.2005
1158	जेसी	607350एम	सुबेदार	तुला बहादुर थापा	01.12.2005
1159	जेसी	607295एफ	सुबेदार	याम बहादुर गुरंग	01.01.2006
4 गोरखा राईफल्स					
1160	जेसी	612294एच	सुबेदार	बहादुर सिंह थापा	01.01.2006
1161	जेसी	612219वाइ	सुबेदार	बाल बहादुर गुरंग	01.10.2005
1162	जेसी	612261एक्स	सुबेदार	चंद्रा बहादुर राना	01.01.2006
1163	जेसी	612287एम	सुबेदार	धन बहादुर पुन	01.11.2005
1164	जेसी	612387एक्स	सुबेदार	दिनेशन कुमार थापा	01.01.2006
1165	जेसी	612127एम	सुबेदार	दिवाकर गुरंग	01.09.2005
1166	जेसी	612367के.	सुबेदार	गोपी बहादुर गुरंग	01.10.2005
1167	जेसी	612188के.	सुबेदार	इन्द्रा मान गुरंग	01.10.2005
1168	जेसी	612220एन	सुबेदार	जयत गुरंग	01.10.2005
1169	जेसी	612359एल	सुबेदार	कृष्णा प्रसाद गुरंग	01.11.2005
1170	जेसी	612100पी	सुबेदार	मदन कुमार गुरंग	01.01.2006
1171	जेसी	612101एक्स	सुबेदार	मिन बहादुर थापा	01.09.2005

1172	जेसी	612253वाइ	सुबेदार	रण बहादुर गुरंग	01.10.2005
1173	जेसी	612277एच	सुबेदार	शोभी लाल पुन	01.09.2005
1174	जेसी	612252डब्ल्यू	सुबेदार	सूरजा बहादुर थापा	01.01.2006
1175	जेसी	612221डब्ल्यू	सुबेदार	तिल बहादुर गुरंग	01.11.2005
1176	जेसी	612128पी	सुबेदार	विजय सिंह गुरंग	01.09.2005
1177	जेसी	612250एल	सुबेदार	याम बहादुर अले	01.01.2006
5 गोरखा राईफल्स					
1178	जेसी	617447एल	सुबेदार	चित्रा बहादुर महकीम	01.12.2005
1179	जेसी	617380एक्स	सुबेदार	दान बहादुर थापा	01.09.2005
1180	जेसी	617118पी	सुबेदार	हरी सिंह बिस्ट	01.01.2006
1181	जेसी	617196एम	सुबेदार	कैलाश मान गुरंग	01.12.2005
1182	जेसी	617459ए	सुबेदार	खिम बहादुर गुरंग	01.12.2005
1183	जेसी	222844ए	सुबेदार	कुल बहादुर अधिकारी	01.10.2005
1184	जेसी	617329एक्स	सुबेदार	लाल बहादुर थापा	01.01.2006
1185	जेसी	617137ए	सुबेदार	ललित सिंह गुरंग	01.09.2005
1186	जेसी	617388के.	सुबेदार	लिला बहादुर गुरंग	01.11.2005
1187	जेसी	617256डब्ल्यू	सुबेदार	महेश कुमार लामा गुरुंग	01.09.2005
1188	जेसी	617432एच	सुबेदार	मनी राज श्रेष्ठ	01.12.2005
1189	जेसी	617383एल	सुबेदार	मोम बहादुर रोका	01.09.2005
1190	जेसी	617145वाइ	सुबेदार	निम बहादुर थापा	01.01.2006
1191	जेसी	617373एफ	सुबेदार	राजेंद्र कुमार थापा	01.11.2005
1192	जेसी	617107एच	सुबेदार	राम भक्ता गुरंग	01.10.2005
1193	जेसी	617178के.	सुबेदार	सुक बहादुर गुरंग	01.01.2006
1194	जेसी	617324वाइ	सुबेदार	तेज बहादुर थापा	01.01.2006
1195	जेसी	617406एफ	सुबेदार	टेक बहादुर थापा	01.12.2005
1196	जेसी	617330एम	सुबेदार	याम बहादुर गुरंग	01.12.2005
8 गोरखा राईफल्स					
1197	जेसी	623329एन	सुबेदार	अनिल कुमार थापा	01.01.2006
1198	जेसी	623260पी	सुबेदार	चंद्रा बहादुर थापा	01.01.2006
1199	जेसी	623290एम	सुबेदार	छबि लाल राना	01.09.2005
1200	जेसी	623061एफ	सुबेदार	चित्रा बहादुर गुरंग	01.10.2005
1201	जेसी	623022एच	सुबेदार	दीपक कुमार थापा	01.10.2005
1202	जेसी	623343ए	सुबेदार	धन बहादुर गुरंग	01.10.2005
1203	जेसी	623047पी	सुबेदार	इन्द्रा बहादुर गुरंग	01.11.2005
1204	जेसी	623219वाइ	सुबेदार	इन्द्रा मान गुरंग	01.01.2006
1205	जेसी	623334वाइ	सुबेदार	जय बहादुर अखेली	01.01.2006
1206	जेसी	623331एल	सुबेदार	जीत बहादुर थापा	01.12.2005
1207	जेसी	623344एच	सुबेदार	झालाक बहादुर गुरंग	01.12.2005
1208	जेसी	623392एच	सुबेदार	खेम बहादुर थापा	01.12.2005
1209	जेसी	225869एक्स	सुबेदार	कृष्णा बहादुर पुन	01.10.2005
1210	जेसी	829060वाइ	सुबेदार	कृष्णा प्रसाद धुगाना	01.12.2005
1211	जेसी	623352एफ	सुबेदार	लक्ष्मी प्रसाद धाकल	01.10.2005
1212	जेसी	623305के.	सुबेदार	मान बहादुर घरती मगर	01.11.2005
1213	जेसी	623353के.	सुबेदार	मेघ बहादुर गुरंग	01.11.2005
1214	जेसी	623363एन	सुबेदार	नील कमल चांद	01.12.2005
1215	जेसी	623083ए	सुबेदार	नेत्रा लाल थापा	01.11.2005
1216	जेसी	623208एम	सुबेदार	रुकम बहादुर गुरंग	01.12.2005
1217	जेसी	623243पी	सुबेदार	सुक बहादुर गुरंग	01.11.2005
1218	जेसी	623046एम	सुबेदार	टेक बहादुर गुरंग	01.09.2005

9 गोरखा राइफल्स

1219	जेसी	629276डब्ल्यू	सुबेदार	भीम बहादुर छत्री	01.10.2005
1220	जेसी	629306एच	सुबेदार	चंद्रा बहादुर काकी	01.09.2005
1221	जेसी	629448ए	सुबेदार	चित्रा बहादुर भंडारी	01.12.2005
1222	जेसी	629374डब्ल्यू	सुबेदार	दामोदर प्रसाद माल	01.09.2005
1223	जेसी	629496ए	सुबेदार	देव सिंह छत्री	01.12.2005
1224	जेसी	629447एक्स	सुबेदार	धन बहादुर मांझी छत्री	01.12.2005
1225	जेसी	629467एल	सुबेदार	धोज बहादुर छत्री	01.12.2005
1226	जेसी	629307एल	सुबेदार	गम बहादुर छत्री	01.10.2005
1227	जेसी	629155पी	सुबेदार	हरका बहादुर माल	01.11.2005
1228	जेसी	629336ए	सुबेदार	हुम बहादुर बसनत छत्री	01.10.2005
1229	जेसी	629364एम	सुबेदार	खगेंद्रा बहादुर धाकल छत्री	01.11.2005
1230	जेसी	629388डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा बहादुर लमीछाने	01.10.2005
1231	जेसी	629278एफ	सुबेदार	कृष्णा बहादुर माल	01.01.2006
1232	जेसी	629344वाइ	सुबेदार	कुल बहादुर छत्री	01.10.2005
1233	जेसी	629280वाइ	सुबेदार	लाल बहादुर भट्टेरे	01.12.2005
1234	जेसी	629456वाइ	सुबेदार	मान बहादुर बोहरा	01.01.2006
1235	जेसी	629455डब्ल्यू	सुबेदार	नार बहादुर झाही	01.12.2005
1236	जेसी	629433एक्स	सुबेदार	ओम बहादुर छत्री	01.10.2005
1237	जेसी	629449एच	सुबेदार	प्रेम बहादुर छत्री	01.01.2006
1238	जेसी	629390एन	सुबेदार	राजेंद्र खाती छत्री	01.12.2005
1239	जेसी	629351पी	सुबेदार	राम बहादुर चांद ठाकुरी	01.09.2005
1240	जेसी	629418एच	सुबेदार	रिखाली बहादुर काकी	01.12.2005
1241	जेसी	629429पी	सुबेदार	संजीवन माल	01.01.2006
1242	जेसी	629319ए	सुबेदार	शेर बहादुर	01.10.2005
1243	जेसी	629453एल	सुबेदार	शेर बहादुर थापा	01.10.2005
1244	जेसी	629475के.	सुबेदार	शिव धोज माल	01.12.2005
1245	जेसी	629434ए	सुबेदार	शिवा कुमार श्रेष्ठ	01.10.2005
1246	जेसी	629253पी	सुबेदार	तारक बहादुर केसी	01.07.2005

11 गोरखा राइफल्स

1247	जेसी	634210के.	सुबेदार	आनंद बहादुर राय	01.12.2005
1248	जेसी	634310पी	सुबेदार	बिश्नु कुमार राय	01.01.2006
1249	जेसी	634271एफ	सुबेदार	चंद्रा बहादुर प्रधान	01.10.2005
1250	जेसी	222815एल	सुबेदार	चंद्रा बहादुर राय	01.11.2005
1251	जेसी	634065एक्स	सुबेदार	चंद्रा कांता राय	01.10.2005
1252	जेसी	634281एल	सुबेदार	धन बहादुर लिम्बू	01.12.2005
1253	जेसी	634054एल	सुबेदार	धर्मा राज लिम्बू	01.11.2005
1254	जेसी	634061एफ	सुबेदार	दिलीप कुमार राय	01.12.2005
1255	जेसी	634191के.	सुबेदार	गनेश कुमार राय	01.12.2005
1256	जेसी	634040एल	सुबेदार	कृष्णा कुमार शर्मा	01.11.2005
1257	जेसी	634342एक्स	सुबेदार	कुमार राय	01.12.2005
1258	जेसी	634337एम	सुबेदार	परमानंद सिंह तमंग	01.10.2005
1259	जेसी	634232एच	सुबेदार	प्रिथी बहादुर राय	01.12.2005
1260	जेसी	634225एम	सुबेदार	सिसुपाल लिम्बू	01.12.2005

सेना सेवा कोर दक्षिण

1261	जेसी	213550एल	सुबेदार	अब्बाश अली अंसारी	01.09.2005
1262	जेसी	661508एक्स	सुबेदार	अखाया कुमार प्रहराज	01.09.2005
1263	जेसी	641302वाइ	सुबेदार	अमर पाल सिंह	01.01.2006
1264	जेसी	662175एच	सुबेदार	अर्जुन सिंह खाती	01.11.2005
1265	जेसी	641488पी	सुबेदार	अशोक कुमार	01.09.2005

1266	जेसी 642214पी	सुबेदार	अशोक कुमार गुप्ता	01.12.2005
1267	जेसी 641612के.	सुबेदार	अशोकन एरीम्मल	01.01.2006
1268	जेसी 661822एल	सुबेदार	अवधेश प्रसाद सिंह	01.11.2005
1269	जेसी 640628एच	सुबेदार	बी वेनुगोपालन नायर	01.12.2005
1270	जेसी 640151वाइ	सुबेदार	बलबीर सिंह रावत	01.11.2005
1271	जेसी 661548वाइ	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.09.2005
1272	जेसी 661121पी	सुबेदार	बंशी लाल	01.01.2006
1273	जेसी 661712डब्ल्यू	सुबेदार	बापू राम दियोराजा	01.11.2005
1274	जेसी 641044के.	सुबेदार	भंवर लाल सुतार	01.11.2005
1275	जेसी 661695एफ	सुबेदार	भंवर सिंह	04.10.2005
1276	जेसी 213625एक्स	सुबेदार	भूपाल चंद्रा चेतरी	01.01.2006
1277	जेसी 661726डब्ल्यू	सुबेदार	बीरबल राम सरन	01.12.2005
1278	जेसी 208963एल	सुबेदार	बीरपाल सिंह	01.11.2005
1279	जेसी 640632एल	सुबेदार	बृज भूषण	01.12.2005
1280	जेसी 221571डब्ल्यू	सुबेदार	बृज गोपाल शर्मा	01.11.2005
1281	जेसी 661824डब्ल्यू	सुबेदार	बृज मोहन कुमार सिंह	01.01.2006
1282	जेसी 640303पी	सुबेदार	सी सन्थानम	01.09.2005
1283	जेसी 661517वाइ	सुबेदार	चव्हाण नंदराव दत्तू	01.09.2005
1284	जेसी 661505के.	सुबेदार	छेदा लाल	01.09.2005
1285	जेसी 640903एक्स	सुबेदार	छहलू राम जखर	01.11.2005
1286	जेसी 640835पी	सुबेदार	देव सिंह पुंदीर	01.01.2006
1287	जेसी 199591एफ	सुबेदार	धन पाती यादव	01.12.2005
1288	जेसी 661526ए	सुबेदार	धनेश्वर सोय	01.10.2005
1289	जेसी 661303एच	सुबेदार	धर्म नाथ साह	01.01.2006
1290	जेसी 641361एल	सुबेदार	धर्म वीर शर्मा	01.11.2005
1291	जेसी 661325एफ	सुबेदार	धरमनाथ झा	01.01.2006
1292	जेसी 640555एफ	सुबेदार	ध्रुव कुमार पी एन	01.11.2005
1293	जेसी 661546एन	सुबेदार	ध्यान सिंह	01.09.2005
1294	जेसी 661701के.	सुबेदार	दिगल पाल सिंह	01.10.2005
1295	जेसी 640034एन	सुबेदार	दीना बंधु विश्वास	01.01.2006
1296	जेसी 640359एफ	सुबेदार	दिनेश चंद्र अग्निहोत्री	01.01.2006
1297	जेसी 640758एल	सुबेदार	दिनेश कुमार चौहान	01.01.2006
1298	जेसी 215511एल	सुबेदार	दिनेश प्रसाद	01.11.2005
1299	जेसी 640563ए	सुबेदार	दीपक कुमार महेंद्र भट्ट	01.10.2005
1300	जेसी 202645एल	सुबेदार	दीपक संकर नाथ	01.11.2005
1301	जेसी 661801पी	सुबेदार	फेट बहादुर राय	01.01.2006
1302	जेसी 661173एल	सुबेदार	गाबार सिंह	01.01.2006
1303	जेसी 640366एक्स	सुबेदार	गणेशन आर	01.01.2006
1304	जेसी 640644ए	सुबेदार	गनेश प्रसाद साहू	01.01.2006
1305	जेसी 661856वाइ	सुबेदार	गीदाम सुरेश रघुनाथ	01.12.2005
1306	जेसी 213634वाइ	सुबेदार	गीबाछ वरगिस जी.	01.09.2005
1307	जेसी 640992एफ	सुबेदार	गोपालाकृष्णन पी	01.01.2006
1308	जेसी 661530एच	सुबेदार	गोविंद सिंह	01.09.2005
1309	जेसी 661870एल	सुबेदार	गुलबीर सिंह	01.01.2006
1310	जेसी 661704एक्स	सुबेदार	गुलशन राज	01.11.2005
1311	जेसी 661568एम	सुबेदार	गुरनाम सिंह भाटिआ	01.09.2005
1312	जेसी 661869डब्ल्यू	सुबेदार	हर लाल सिंह	01.01.2006
1313	जेसी 661648के.	सुबेदार	हरबीर सिंह	01.12.2005
1314	जेसी 661515एन	सुबेदार	हरी नारायण	01.10.2005
1315	जेसी 186799एल	सुबेदार	हरीश चंद्रा	01.12.2005

1316	जेसी	641167डब्ल्यू	सुबेदार	हरनाम सिंह	01.09.2005
1317	जेसी	640616एन	सुबेदार	हर्ष सिंह	01.09.2005
1318	जेसी	662108एक्स	सुबेदार	हीरालाल प्रधान	01.01.2006
1319	जेसी	640836एक्स	सुबेदार	होमकर सुरेश दत्तत्रे	01.01.2006
1320	जेसी	640635वाइ	सुबेदार	इमदाद अली	01.12.2005
1321	जेसी	640945के.	सुबेदार	इन्दीवराकेशन पी	01.10.2005
1322	जेसी	661153एक्स	सुबेदार	जगत सिंह	01.01.2006
1323	जेसी	661741एल	सुबेदार	जगदीश	01.10.2005
1324	जेसी	641028एम	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.12.2005
1325	जेसी	661821एच	सुबेदार	जगदीश सिंह डिनोडिया	01.11.2005
1326	जेसी	661520वाइ	सुबेदार	जेतून मिस्त्री	01.10.2005
1327	जेसी	640777डब्ल्यू	सुबेदार	जीबन चक्रवर्ती	01.12.2005
1328	जेसी	215534एम	सुबेदार	के. दुराईसामी	01.11.2005
1329	जेसी	662062ए	सुबेदार	के. वासुदेवन	01.01.2006
1330	जेसी	213820पी	सुबेदार	कैलाश चंद्रा मोहंती	01.01.2006
1331	जेसी	661890वाइ	सुबेदार	कैलाश प्रसाद	01.01.2006
1332	जेसी	661938एफ	सुबेदार	कमला राय	01.01.2006
1333	जेसी	640730एल	सुबेदार	कनक बिहारी मिश्रा	01.10.2005
1334	जेसी	661706एच	सुबेदार	करमबीर सिंह	01.11.2005
1335	जेसी	221586वाइ	सुबेदार	करन सिंह यादव	01.01.2006
1336	जेसी	661631डब्ल्यू	सुबेदार	कनी सिंह	01.11.2005
1337	जेसी	215497के.	सुबेदार	खेम शंकर अहारी मीना	01.12.2005
1338	जेसी	641650ए	सुबेदार	कष्णन कुमार	01.10.2005
1339	जेसी	661243वाइ	सुबेदार	कृष्णा पांडा राय	01.12.2005
1340	जेसी	640150डब्ल्यू	सुबेदार	कुमार चंद्रा घोष	01.10.2005
1341	जेसी	642002के.	सुबेदार	कुंज बिहारी परीद	01.11.2005
1342	जेसी	661506एम	सुबेदार	कुंजन राम	01.09.2005
1343	जेसी	213619के.	सुबेदार	लखन सिंह	01.11.2005
1344	जेसी	661846पी	सुबेदार	ललिता कुमार भारीमल	01.10.2005
1345	जेसी	661565वाइ	सुबेदार	लतिफुर अहमद	01.09.2005
1346	जेसी	661972एफ	सुबेदार	लक्ष्मन राम शर्मा	01.10.2005
1347	जेसी	661700एफ	सुबेदार	एम दुरई राज	01.10.2005
1348	जेसी	213558एक्स	सुबेदार	मदन लाल	01.01.2006
1349	जेसी	661518पी	सुबेदार	महा देव बाबू राठोड़	01.09.2005
1350	जेसी	662028ए	सुबेदार	मान मथाई मिस्त्री	01.12.2005
1351	जेसी	661496एन	सुबेदार	मान सिंह	01.09.2005
1352	जेसी	640541एफ	सुबेदार	माने सुभाषा राजाराम	01.11.2005
1353	जेसी	661509ए	सुबेदार	मंगल सिंह	01.09.2005
1354	जेसी	661816एक्स	सुबेदार	मोहम्मद अब्दुल हमीद शेख	01.11.2005
1355	जेसी	641043एफ	सुबेदार	मोहम्मद अनोवर हुसैन	01.10.2005
1356	जेसी	640910एन	सुबेदार	मोहम्मद इजाउद्दीन	01.09.2005
1357	जेसी	661687एच	सुबेदार	मोहम्मद नूरुल होदा खान	01.10.2005
1358	जेसी	661982एल	सुबेदार	मोहम्मद उस्मान होसेन	01.12.2005
1359	जेसी	661895एक्स	सुबेदार	मोहम्मद सरीफ	01.01.2006
1360	जेसी	661897एच	सुबेदार	मोहन सिंह खेंगार	01.01.2006
1361	जेसी	661717पी	सुबेदार	मुहार सिंह	01.12.2005
1362	जेसी	641252वाइ	सुबेदार	नारायण चंद्रा मंडल	01.01.2006
1363	जेसी	661044एल	सुबेदार	नरिंदर पाल	01.12.2005
1364	जेसी	640441डब्ल्यू	सुबेदार	नवीन चंद्रा पांडे	01.01.2006
1365	जेसी	661864एक्स	सुबेदार	नेम सिंह	01.12.2005

1366	जेसी	661735एक्स	सुबेदार	निताइ पाडा दास	01.12.2005
1367	जेसी	662189एच	सुबेदार	ओम नाथ सिंह	01.12.2005
1368	जेसी	661510पी	सुबेदार	पलनिच्छामी ए	01.09.2005
1369	जेसी	661108एल	सुबेदार	पारस नाथ प्रसाद	01.01.2006
1370	जेसी	193300ए	सुबेदार	प्रकाश चांद	01.01.2006
1371	जेसी	640943वाइ	सुबेदार	प्रकाश सिंह	01.11.2005
1372	जेसी	661322एन	सुबेदार	परमजीत सिंह	01.11.2005
1373	जेसी	641870के.	सुबेदार	प्रवीन नारायण आनंदा	01.10.2005
1374	जेसी	661018के.	सुबेदार	प्रभु यादव	01.11.2005
1375	जेसी	640706पी	सुबेदार	प्रवीर कुमार हाजरा चौधुरी	01.01.2006
1376	जेसी	661645डब्ल्यू	सुबेदार	प्रदीप कुमार तिवारी	01.12.2005
1377	जेसी	661166पी	सुबेदार	प्रहलाद सिंह	01.12.2005
1378	जेसी	202569के.	सुबेदार	प्रकाश जोशी	01.11.2005
1379	जेसी	208960एक्स	सुबेदार	प्रेम सिंह करहरा	01.12.2005
1380	जेसी	661034एफ	सुबेदार	प्रीतम राम	01.11.2005
1381	जेसी	213703के.	सुबेदार	पुलकेशी अरूधा मनीकेरी	01.09.2005
1382	जेसी	661495एल	सुबेदार	आर गणेशन	01.09.2005
1383	जेसी	642154एल	सुबेदार	रबीन्द्र कुमार परीद	01.10.2005
1384	जेसी	640341एल	सुबेदार	रबीन्द्र सिंह	01.09.2005
1385	जेसी	661707एल	सुबेदार	राधा कृष्णन वी	01.11.2005
1386	जेसी	662065एन	सुबेदार	रघुवीर सिंह	01.01.2006
1387	जेसी	661567के.	सुबेदार	रघुवर दयाल शर्मा	01.09.2005
1388	जेसी	640539के.	सुबेदार	राज पाल	01.11.2005
1389	जेसी	208976एच	सुबेदार	राजा राम	01.01.2006
1390	जेसी	640308एन	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.09.2005
1391	जेसी	640307एल	सुबेदार	राजपुरा प्रवीण कुमार सवाईलाल	01.11.2005
1392	जेसी	661570के.	सुबेदार	राम अवध प्रसाद	01.10.2005
1393	जेसी	661859एम	सुबेदार	राम बहादुर सिंह आर्य	01.12.2005
1394	जेसी	213631एल	सुबेदार	राम मिलन सिंह	01.12.2005
1395	जेसी	661602एफ	सुबेदार	राम निवास पाल	01.09.2005
1396	जेसी	213698के.	सुबेदार	राम पाल	01.11.2005
1397	जेसी	661465एन	सुबेदार	राम राज	01.01.2006
1398	जेसी	661673एच	सुबेदार	राम स्नेही उत्तातम	01.09.2005
1399	जेसी	641314एन	सुबेदार	रमा कांत वर्मा	01.12.2005
1400	जेसी	661560ए	सुबेदार	रमेश चंद्र	01.09.2005
1401	जेसी	208974एक्स	सुबेदार	रमेश चंद्रा सत्पथी	01.12.2005
1402	जेसी	640312डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश चंद्रा शर्मा	01.09.2005
1403	जेसी	661843एफ	सुबेदार	रमेश कुमार	01.09.2005
1404	जेसी	640296के.	सुबेदार	रमेश कुमार यादव	01.09.2005
1405	जेसी	661688एल	सुबेदार	रामेश्वर दयाल	01.10.2005
1406	जेसी	661768एच	सुबेदार	रामेश्वर प्रसाद शर्मा	01.11.2005
1407	जेसी	661615वाइ	सुबेदार	रनबीर सिंह सिवाच	01.10.2005
1408	जेसी	640126ए	सुबेदार	रसाल नारायण हरीबा	01.11.2005
1409	जेसी	640571वाइ	सुबेदार	रतन सिंह	01.12.2005
1410	जेसी	662081एल	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार द्विवेदी	01.12.2005
1411	जेसी	640883पी	सुबेदार	एस जेयसीलन	01.10.2005
1412	जेसी	661620के.	सुबेदार	एस के. कमानुद्दीन	01.10.2005
1413	जेसी	661850एक्स	सुबेदार	सम्पति लाल	01.11.2005
1414	जेसी	661848ए	सुबेदार	संसार चांद	01.10.2005
1415	जेसी	661681एफ	सुबेदार	सर्वेश सिंह	01.10.2005

1416	जेसी	661775वाइ	सुबेदार	सरदार पाशा खान	01.11.2005
1417	जेसी	661683एम	सुबेदार	सावंत बाबासाहेब ततयाबा	01.10.2005
1418	जेसी	661569पी	सुबेदार	शेषमणि राय	01.10.2005
1419	जेसी	661623एक्स	सुबेदार	शेखरया	01.09.2005
1420	जेसी	661302ए	सुबेदार	शिव चंद्रा सिंह	01.01.2006
1421	जेसी	193267एन	सुबेदार	शिव राज सिंह	01.11.2005
1422	जेसी	662061एक्स	सुबेदार	श्याम मनी	01.12.2005
1423	जेसी	661862एम	सुबेदार	सुवर्ण सिंह	01.12.2005
1424	जेसी	661877पी	सुबेदार	श्री राम पण्डित	01.01.2006
1425	जेसी	661612एल	सुबेदार	सुधाकर राय	01.10.2005
1426	जेसी	661498वाइ	सुबेदार	सुघार सिंह	01.09.2005
1427	जेसी	661762एफ	सुबेदार	सुमेर चांद जोगी	01.09.2005
1428	जेसी	641061के.	सुबेदार	सुरजपाल शर्मा	01.12.2005
1429	जेसी	640889डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेंद्र पाल	01.12.2005
1430	जेसी	640583एन	सुबेदार	सुरेंद्र चंद्रा पुस्ती	01.12.2005
1431	जेसी	640613ए	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार राय	01.12.2005
1432	जेसी	640699के.	सुबेदार	सुरेंद्र मिश्रा	01.10.2005
1433	जेसी	661851ए	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	01.11.2005
1434	जेसी	640944एफ	सुबेदार	सुरेसन चंद्रा साहा	01.01.2006
1435	जेसी	661989पी	सुबेदार	स्वप्न तालुकदार	01.01.2006
1436	जेसी	640513पी	सुबेदार	स्वर्णजीत सिंह	01.11.2005
1437	जेसी	661491पी	सुबेदार	तलेवर सिंह	01.09.2005
1438	जेसी	640545एक्स	सुबेदार	तपन कुमार गिरि	01.11.2005
1439	जेसी	661650एफ	सुबेदार	टीकू राम महला	01.12.2005
1440	जेसी	661207एन	सुबेदार	तुमुल कुमार पांडे	01.01.2006
1441	जेसी	221577एक्स	सुबेदार	उदय शंकर राय	01.12.2005
1442	जेसी	661763के.	सुबेदार	उमेश चंद्रा तिवारी	01.10.2005
1443	जेसी	221758एच	सुबेदार	उरबा दत्त	01.01.2006
1444	जेसी	215563एफ	सुबेदार	वी अन्नद्धा वादीवेलु	01.11.2005
1445	जेसी	661519के.	सुबेदार	वी त्यागराजन	01.10.2005
1446	जेसी	640626एक्स	सुबेदार	विजयन एम	01.12.2005
1447	जेसी	661624ए	सुबेदार	विनोद कुमार	01.10.2005
1448	जेसी	661685एक्स	सुबेदार	विराज भदरप्पा हदापद	01.10.2005
1449	जेसी	641046पी	सुबेदार	यादव वासुदेवराव चौधरी	01.12.2005
1450	जेसी	661987के.	सुबेदार	यशवंत पाल सिंह	01.12.2005
सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन					
1451	जेसी	680218पी	रिसालदार	बाबू लाल चकरबर्ती	01.11.2005
1452	जेसी	680191एच	रिसालदार	भुपेन्द्र झा	01.11.2005
1453	जेसी	680173ए	रिसालदार	चंद्रिका प्रसाद साह	01.12.2005
1454	जेसी	680121के.	रिसालदार	धर्म वीर सिंह	01.11.2005
1455	जेसी	680308डब्ल्यू	रिसालदार	जी. रघुपति	01.11.2005
1456	जेसी	680198एम	रिसालदार	गम बहादुर गुरंग	01.12.2005
1457	जेसी	680168पी	रिसालदार	गन बहादुर छत्री	01.12.2005
1458	जेसी	680384एच	रिसालदार	गुरमेल सिंह	01.12.2005
1459	जेसी	860149एम	रिसालदार	हिमत सिंह	01.11.2005
1460	जेसी	680255एच	रिसालदार	जगदेव सिंह	01.01.2006
1461	जेसी	680194डब्ल्यू	रिसालदार	जगदीश सिंह	01.12.2005
1462	जेसी	213150वाइ	रिसालदार	जैनुद्दीन दगादु मुलानी	01.01.2006
1463	जेसी	680219एक्स	रिसालदार	कामेश्वर प्रसाद राय	01.01.2006
1464	जेसी	680145एन	रिसालदार	कमला प्रसाद	01.11.2005

1465	जेसी	680171पी	रिसालदार	कासिम अली	01.12.2005
1466	जेसी	680310एन	रिसालदार	खपाले जगन्नाथ बाबू राव	01.01.2006
1467	जेसी	680271ए	रिसालदार	कष्णन पाल सिंह	01.10.2005
1468	जेसी	680328के.	रिसालदार	महेश कुमार	01.01.2006
1469	जेसी	680119एम	रिसालदार	मोहानन एस	01.10.2005
1470	जेसी	680158एल	रिसालदार	मोनतोष नंदी	01.12.2005
1471	जेसी	680365एक्स	रिसालदार	ओम प्रकाश वर्मा	01.12.2005
1472	जेसी	680226एन	रिसालदार	पी अनटोनी सामी	01.01.2006
1473	जेसी	680212एन	रिसालदार	प्रियाग दत्त	01.01.2006
1474	जेसी	680232एफ	रिसालदार	प्रह्लाद सिंह वायु	01.12.2005
1475	जेसी	680248एम	रिसालदार	प्रेम चंद्रा	01.01.2006
1476	जेसी	680237ए	रिसालदार	राम किशन	01.12.2005
1477	जेसी	680154पी	रिसालदार	रनवीर सिंह	01.12.2005
1478	जेसी	680125ए	रिसालदार	शशि वेलायुधन	01.11.2005
1479	जेसी	680201एफ	रिसालदार	सतेंद्र बहादुर सिंह	01.12.2005
1480	जेसी	680252पी	रिसालदार	श्रवण कुमार	01.01.2006
1481	जेसी	680156ए	रिसालदार	शिव सरन सिंह	01.12.2005
1482	जेसी	650150के.	रिसालदार	श्याम बिहारी शुक्ल	01.12.2005
1483	जेसी	680172एक्स	रिसालदार	सिया शरण प्रसाद	01.12.2005
1484	जेसी	680339डब्ल्यू	रिसालदार	सुबाष चंद्रा पुनिया	01.01.2006
1485	जेसी	680128एन	रिसालदार	सुकून तिकई	01.11.2005
1486	जेसी	680199पी	रिसालदार	सुल्तान सिंह	01.12.2005
1487	जेसी	680283पी	रिसालदार	सुरेंद्र सिंह	01.11.2005
1488	जेसी	680079डब्ल्यू	रिसालदार	सुरेश राम	01.10.2005
1489	जेसी	680166के.	रिसालदार	यज्ञा प्रसाद छत्री	01.12.2005
सेना चिकित्सा कोर					
1490	जेसी	691139ए	सुबेदार	आलोक कुमार तनेजा	01.12.2005
1491	जेसी	693134ए	सुबेदार	आनंद सिंह	01.10.2005
1492	जेसी	692389एन	सुबेदार	बचन सिंह	01.12.2005
1493	जेसी	692401के.	सुबेदार	बचन सिंह	01.01.2006
1494	जेसी	692711पी	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.01.2006
1495	जेसी	690930एक्स	सुबेदार	बलजिन्दर सिंह	01.01.2006
1496	जेसी	215018एक्स	सुबेदार	बंडल विठल रंगनाथ	01.12.2005
1497	जेसी	692706के.	सुबेदार	बंसीधर यादव	01.12.2005
1498	जेसी	691750एफ	सुबेदार	बरुण दास गुप्ता	01.01.2006
1499	जेसी	692329वाइ	सुबेदार	भंवर लाल गुर्जर	01.11.2005
1500	जेसी	690722एच	सुबेदार	बिजय कुमार मिश्रा	01.09.2005
1501	जेसी	691956वाइ	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह बिष्ट	01.09.2005
1502	जेसी	693830एक्स	सुबेदार	बिश्राम सिंह	01.01.2006
1503	जेसी	215017पी	सुबेदार	बिश्वनाथ मोहंता	01.12.2005
1504	जेसी	691244डब्ल्यू	सुबेदार	ब्रज किशोर साहू	01.12.2005
1505	जेसी	693296एल	सुबेदार	बृज भूषण मिश्रा	01.11.2005
1506	जेसी	690932एच	सुबेदार	बृज लाल यादव	01.11.2005
1507	जेसी	692336पी	सुबेदार	चंद्रन के. एम	01.01.2006
1508	जेसी	692325एच	सुबेदार	डी. सवारी मुथु	01.10.2005
1509	जेसी	693256के.	सुबेदार	दादन तिवारी	01.06.2005
1510	जेसी	201430ए	सुबेदार	दलेल सिंह	01.01.2006
1511	जेसी	691138एक्स	सुबेदार	धीरेन्द्र राय	01.12.2005
1512	जेसी	692136वाइ	सुबेदार	डी. नारायण पाठक	01.09.2005
1513	जेसी	692099डब्ल्यू	सुबेदार	दीवान सिंह कलाकोती	01.09.2005

1514	जेसी	691618एफ	सुबेदार	दीवानी चांद	01.09.2005
1515	जेसी	692240एम	सुबेदार	दुर्जन सिंह धर्मावत	01.01.2006
1516	जेसी	693167एल	सुबेदार	गंगा सिंह बिष्ट	01.08.2005
1517	जेसी	693185एन	सुबेदार	गुरमीत सिंह	01.12.2005
1518	जेसी	214869एक्स	सुबेदार	जगबन्धु नायक	01.12.2005
1519	जेसी	692611के.	सुबेदार	जगदीश प्रसाद स्वामी	01.12.2005
1520	जेसी	691068के.	सुबेदार	जनक सिंह	01.10.2005
1521	जेसी	692234वाइ	सुबेदार	जनार्दन सिंह	01.12.2005
1522	जेसी	692841एक्स	सुबेदार	जनार्दनन के. के.	01.01.2006
1523	जेसी	690748एक्स	सुबेदार	जटा शंकर	01.11.2005
1524	जेसी	691368एल	सुबेदार	जोसेफ कुरियन	01.11.2005
1525	जेसी	691601एन	सुबेदार	जोसेफ एम एल	01.11.2005
1526	जेसी	691072एम	सुबेदार	के. जेयाचन्द्रन कुमार	01.10.2005
1527	जेसी	692291ए	सुबेदार	कुरुम्भैया पी एम	01.09.2005
1528	जेसी	690731के.	सुबेदार	किष्णा राम चौधरी	01.12.2005
1529	जेसी	692233डब्ल्यू	सुबेदार	किशोर कुमार	01.11.2005
1530	जेसी	692394वाइ	सुबेदार	कण्णन लाल साह	01.12.2005
1531	जेसी	693390पी	सुबेदार	लखन बहादुर सिंह	01.12.2005
1532	जेसी	691729वाइ	सुबेदार	लक्ष्मणन पुथिया पुरायील	01.11.2005
1533	जेसी	691505वाइ	सुबेदार	लाल चांद	01.01.2006
1534	जेसी	692400एफ	सुबेदार	लाल सिंह	01.12.2005
1535	जेसी	690986के.	सुबेदार	लक्ष्मी प्रसाद	01.12.2005
1536	जेसी	691175एल	सुबेदार	लोकपाल सिंह यादव	01.01.2006
1537	जेसी	693135वाइ	सुबेदार	एम सुदालाई मुथु	01.11.2005
1538	जेसी	692406एच	सुबेदार	माही पाल सिंह	01.01.2006
1539	जेसी	693294ए.	सुबेदार	मान सिंह बाथम	01.11.2005
1540	जेसी	691060एक्स	सुबेदार	मनी राम रोशावन	01.09.2005
1541	जेसी	691940एन	सुबेदार	मेघ नाथ	01.09.2005
1542	जेसी	690340वाइ	सुबेदार	मिंटो राज सिंह यादव	01.10.2005
1543	जेसी	692327एन	सुबेदार	मोहम्मद वसरुल्ला अंसारी	01.11.2005
1544	जेसी	692399एक्स	सुबेदार	मोहर सिंह	01.12.2005
1545	जेसी	693091डब्ल्यू	सुबेदार	मोनिन्द्रा नाथ मोन्डल	01.10.2005
1546	जेसी	692157पी	सुबेदार	मुरलीधर मिश्रा	01.09.2005
1547	जेसी	692326एल	सुबेदार	एन धर्मा राजन	01.11.2005
1548	जेसी	693029के.	सुबेदार	नंदा कुमारन पी	01.10.2005
1549	जेसी	692709एक्स	सुबेदार	नरगुण्डे रमेश शंकर राव	01.11.2005
1550	जेसी	692232एन	सुबेदार	नेटेक प्रताप बाबूराव	01.10.2005
1551	जेसी	691916एक्स	सुबेदार	निमेन चरण प्रधान	01.09.2005
1552	जेसी	692287एक्स	सुबेदार	ओम कुमार सिंह तोमर	01.09.2005
1553	जेसी	690425पी	सुबेदार	ओम प्रकाश शर्मा	01.09.2005
1554	जेसी	692397एम	सुबेदार	ओमकार सिंह सैनी	01.12.2005
1555	जेसी	692188पी	सुबेदार	ओंकार सिंह हरचंद	01.09.2005
1556	जेसी	693602पी	सुबेदार	पबि कुमार सिंघा	01.01.2006
1557	जेसी	692705एफ	सुबेदार	परमात्मा नन्द सिंह चौहान	01.12.2005
1558	जेसी	692396के.	सुबेदार	प्रमोद कुमार मिश्रा	01.12.2005
1559	जेसी	691063एल	सुबेदार	प्रेम चंद्रा	01.10.2005
1560	जेसी	692377वाइ	सुबेदार	प्रेम लाल	01.11.2005
1561	जेसी	692104डब्ल्यू	सुबेदार	प्रदीप कुमार साहा	01.09.2005
1562	जेसी	693025एन	सुबेदार	पुरुषाथमन के. पी	01.10.2005
1563	जेसी	691269एच	सुबेदार	राधाकृष्णा पनिकेर ए आर	01.10.2005

1564	जेसी	691917ए	सुबेदार	रघुनाथ जैना	01.10.2005
1565	जेसी	692755एम	सुबेदार	रघुपति	01.09.2005
1566	जेसी	691503एन	सुबेदार	राज माल सिंह गुसाई	01.01.2006
1567	जेसी	691692एच	सुबेदार	राजगोपालन पी	01.12.2005
1568	जेसी	691198एम	सुबेदार	राजशेखरन पिल्लई आर	01.01.2006
1569	जेसी	692839ए	सुबेदार	राजिन्दर पी वशिष्ट	01.10.2005
1570	जेसी	692700एच	सुबेदार	राजमोहन सिंह	01.11.2005
1571	जेसी	692082एच	सुबेदार	राम बचन यादव	01.09.2005
1572	जेसी	692392एन	सुबेदार	राम चंद्रा जैना	01.12.2005
1573	जेसी	691636के	सुबेदार	राम कण्ठन शंकर भारद्वाज	01.01.2006
1574	जेसी	692367पी	सुबेदार	राम नमीना	01.10.2005
1575	जेसी	692754के	सुबेदार	राम नारायण वर्मा	01.09.2005
1576	जेसी	692398पी	सुबेदार	राम संकर मिश्रा	01.12.2005
1577	जेसी	692108एफ	सुबेदार	रामदिनेश सिंह	01.09.2005
1578	जेसी	692239एक्स	सुबेदार	रमेश शंकर परदेसी	01.01.2006
1579	जेसी	692739पी	सुबेदार	रमेश सिंह	01.09.2005
1580	जेसी	692385एक्स	सुबेदार	रंग बहादुर सिंह	01.12.2005
1581	जेसी	691243एन	सुबेदार	रंजीत सिंह पाल	01.09.2005
1582	जेसी	692088के	सुबेदार	सागर मल सिलाइच	01.09.2005
1583	जेसी	692992डब्ल्यू	सुबेदार	सुमाराजन पी एन	01.09.2005
1584	जेसी	690729एम	सुबेदार	सरत चंद्रा मोहंती	01.01.2006
1585	जेसी	691749एम	सुबेदार	ससिधरन वी	01.01.2006
1586	जेसी	215225के	सुबेदार	सतीश पाल सिंह	01.10.2005
1587	जेसी	692361एन	सुबेदार	सत्य नारायणा कौसुरी	01.09.2005
1588	जेसी	692710एम	सुबेदार	शमशाद अहमद	01.01.2006
1589	जेसी	691058ए	सुबेदार	शक्के विलास आनंदा	01.09.2005
1590	जेसी	692331डब्ल्यू	सुबेदार	शिशिर कुमार राना	01.12.2005
1591	जेसी	691248एम	सुबेदार	सुधाकरन पी	01.12.2005
1592	जेसी	690697पी	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार	01.11.2005
1593	जेसी	692877डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.01.2006
1594	जेसी	690873एफ	सुबेदार	सुरेश कुमार एन	01.01.2006
1595	जेसी	692241पी	सुबेदार	स्वप्न कुमार नंदी	01.01.2006
1596	जेसी	691728डब्ल्यू	सुबेदार	स्वप्न कुमार सेन	01.10.2005
1597	जेसी	692222के	सुबेदार	ताजा राम चौधरी	01.11.2005
1598	जेसी	692704वाइ	सुबेदार	थन्नू राम बोरा	01.12.2005
1599	जेसी	692954ए	सुबेदार	थुलीमिल्ली नागेरवर राव	01.11.2005
1600	जेसी	691670के	सुबेदार	तिग्गा वाल्टर	01.12.2005
1601	जेसी	891239एल	सुबेदार	उत्तातम कुमार सरकार	01.10.2005
1602	जेसी	693257एम	सुबेदार	वेनु गोपालन वी	01.12.2005
1603	जेसी	692602एच	सुबेदार	येद रेडी चंद्रा बाबू	01.10.2005
1604	जेसी	693130के	सुबेदार	युधिष्ठिर सरबत	01.11.2005
सेना आयुद्ध कोर					
1605	जेसी	724655एक्स	सुबेदार	अब्दुल रशीद अहमद	01.12.2005
1606	जेसी	724526एक्स	सुबेदार	अभे राज सिंह	01.09.2005
1607	जेसी	722647एन	सुबेदार	अजीत सिंह थालोर	01.10.2005
1608	जेसी	722719वाइ	सुबेदार	अकुन चंद्रा गोस्वामी	01.12.2005
1609	जेसी	723960एक्स	सुबेदार	अनिल कुमार सिन्हा	01.01.2006
1610	जेसी	722811एक्स	सुबेदार	आशा राम जुयाल	01.10.2005
1611	जेसी	724656ए	सुबेदार	अशोक कुमार तिवारी	01.11.2005
1612	जेसी	723299डब्ल्यू	सुबेदार	बच्छन राम	01.09.2005

1613	जेसी	223131एफ	सुबेदार	बसंत प्रसाद	01.12.2005
1614	जेसी	722630एम	सुबेदार	भगवान राम कायस्थ	01.09.2005
1615	जेसी	723414एल	सुबेदार	भीखा राम बेनीवाल	01.01.2006
1616	जेसी	723413एच	सुबेदार	बिदी चांद कुमार	01.11.2005
1617	जेसी	722754एफ	सुबेदार	बिश्नू प्रसाद दाश	01.01.2006
1618	जेसी	724695वाइ	सुबेदार	बुज मोहन शर्मा	01.12.2005
1619	जेसी	723615के.	सुबेदार	बीवाइ रेडी लक्ष्मी रेडी	01.12.2005
1620	जेसी	724527ए	सुबेदार	चंद्रा प्रकाश	01.09.2005
1621	जेसी	723886एफ	सुबेदार	दया नन्द सिंह	01.10.2005
1622	जेसी	723958ए	सुबेदार	धर्म पाल सिंह	01.11.2005
1623	जेसी	723077एफ	सुबेदार	धीरेन चंद्रा मोन्डल	01.10.2005
1624	जेसी	725397पी	सुबेदार	दिल बहादुर गिरि	01.01.2006
1625	जेसी	724413पी	सुबेदार	दीना नाथ	01.09.2005
1626	जेसी	723588एल	सुबेदार	दिनेश्वर बाबूराव आउसलकर	01.12.2005
1627	जेसी	723844पी	सुबेदार	दोलेश्वर प्रसाद द्विवेदी	01.12.2005
1628	जेसी	725413एफ	सुबेदार	गनेश चंद्रा सरकार	01.09.2005
1629	जेसी	723903डब्ल्यू	सुबेदार	गिरधर गोपाल जांगीड़	01.12.2005
1630	जेसी	723144एफ	सुबेदार	गिरजा शंकर शर्मा	01.01.2006
1631	जेसी	724686एक्स	सुबेदार	हफीजुल्लाह	01.12.2005
1632	जेसी	724552वाइ	सुबेदार	हेमंद चंद्रा शर्मा	01.12.2005
1633	जेसी	723959एच	सुबेदार	हिन्च लाल	01.12.2005
1634	जेसी	722687एफ	सुबेदार	हीरा लाल दुबे	01.11.2005
1635	जेसी	725134डब्ल्यू	सुबेदार	इकबाल मोहम्मद	01.01.2006
1636	जेसी	723252एल	सुबेदार	जे के. दास	01.11.2005
1637	जेसी	723412ए	सुबेदार	जगवंती सिंह	01.12.2005
1638	जेसी	724721पी	सुबेदार	जय पेरकाश	01.11.2005
1639	जेसी	722707के.	सुबेदार	जान मेजॉय सिन्हा	01.01.2006
1640	जेसी	722873एक्स	सुबेदार	करनैल सिंह	01.01.2006
1641	जेसी	221713एच	सुबेदार	ख्याली राम	01.12.2005
1642	जेसी	723963एल	सुबेदार	महेंद्र कुमार	01.12.2005
1643	जेसी	724955वाइ	सुबेदार	मघादी यादगिरी रेडी	01.11.2005
1644	जेसी	722706एफ	सुबेदार	मेहर सिंह	01.12.2005
1645	जेसी	724375के.	सुबेदार	मोहन लाल स्वामी	01.09.2005
1646	जेसी	724548डब्ल्यू	सुबेदार	मोहन प्रसाद	01.11.2005
1647	जेसी	724016डब्ल्यू	सुबेदार	एन कृष्णा सिंह	01.11.2005
1648	जेसी	723337एफ	सुबेदार	नंदा बल्लभ जोशी	01.01.2006
1649	जेसी	722683एल	सुबेदार	नंदन सिंह रौतेला	01.11.2005
1650	जेसी	724070के.	सुबेदार	निरंजन सरकार	01.01.2006
1651	जेसी	722703एन	सुबेदार	पी राजेंद्र कुमार नायर	01.10.2005
1652	जेसी	724161एन	सुबेदार	परिखेत साहू	01.09.2005
1653	जेसी	723931एच	सुबेदार	प्रकाश चांद	01.10.2005
1654	जेसी	722662पी	सुबेदार	पाटिल सुरेश पुंजु	01.09.2005
1655	जेसी	724729एफ	सुबेदार	राधे श्याम सिंह	01.01.2006
1656	जेसी	723216ए	सुबेदार	राज कुमार	01.01.2006
1657	जेसी	723680के.	सुबेदार	राज सिंह	01.09.2005
1658	जेसी	723159के.	सुबेदार	राम किशन	01.10.2005
1659	जेसी	724684एम	सुबेदार	राम कुमार	01.12.2005
1660	जेसी	724126एल	सुबेदार	राम पाती यादव	01.09.2005
1661	जेसी	723288के.	सुबेदार	राम प्रवेश सिंह	01.11.2005
1662	जेसी	724549वाइ	सुबेदार	राम प्रीत प्रसाद	01.11.2005

1663	जेसी	724804ए	सुबेदार	राम सरूप गोयल	01.12.2005
1664	जेसी	722525डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.09.2005
1665	जेसी	724271एच	सुबेदार	एस थामस	01.11.2005
1666	जेसी	722720एम	सुबेदार	सालिंग राम तिवारी	01.11.2005
1667	जेसी	724685पी	सुबेदार	सतीश चांद	01.11.2005
1668	जेसी	722787एम	सुबेदार	समनाम सिंह	01.12.2005
1669	जेसी	723480एन	सुबेदार	शाह दीन	01.09.2005
1670	जेसी	723504एम	सुबेदार	शारदानंद सिंह	01.09.2005
1671	जेसी	722932वाइ	सुबेदार	शिव बिलास राय	01.09.2005
1672	जेसी	724127एन	सुबेदार	शिव दयाल	01.10.2005
1673	जेसी	723218एल	सुबेदार	श्याम सुंदर सेन	01.01.2006
1674	जेसी	723348एन	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार	01.09.2005
1675	जेसी	725098डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेंद्र प्रसाद सिंह	01.11.2005
1676	जेसी	722911एच	सुबेदार	सूर्या नाथ तिवारी	01.10.2005
1677	जेसी	722752डब्ल्यू	सुबेदार	तारा पांडा दुबे	01.01.2006
1678	जेसी	722626के.	सुबेदार	तेज सिंह	01.09.2005
1679	जेसी	723956पी	सुबेदार	तेजा सिंह	01.10.2005
1680	जेसी	722609के.	सुबेदार	उदय भान सिंह	01.09.2005
1681	जेसी	723314ए	सुबेदार	उमैद सिंह राना	01.10.2005
1682	जेसी	725005डब्ल्यू	सुबेदार	वेद राम	01.11.2005
1683	जेसी	223143डब्ल्यू	सुबेदार	वीर भान	01.12.2005
1684	जेसी	722749डब्ल्यू	सुबेदार	विरूपक्सी सकरी	01.01.2006
इलेक्ट्रॉनिकल एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स					
1685	जेसी	748590एन	सुबेदार	अब्राहम के. बी	01.12.2005
1686	जेसी	749045डब्ल्यू	सुबेदार	अजीत कुमार छत्री	01.01.2006
1687	जेसी	755987एच	सुबेदार	आलम्जीत सिंह	01.10.2005
1688	जेसी	752873एम	सुबेदार	अमलेंदु दास	01.12.2005
1689	जेसी	753213एफ	सुबेदार	अम्बिका प्रसाद	01.01.2006
1690	जेसी	750684के.	सुबेदार	अन्बू ए	01.10.2005
1691	जेसी	753191एन	सुबेदार	अंग्रेज सिंह	01.10.2005
1692	जेसी	751818के.	सुबेदार	अरुण चांद	01.12.2005
1693	जेसी	752126एफ	सुबेदार	अर्विन्द कुमार	01.12.2005
1694	जेसी	749451डब्ल्यू	सुबेदार	अशोक कुमार	01.09.2005
1695	जेसी	755021एच	सुबेदार	अशोक कुमार	01.12.2005
1696	जेसी	747517एच	सुबेदार	अशोक कुमार बैग	01.10.2005
1697	जेसी	750655पी	सुबेदार	अशोक कुमार दुबे	01.01.2006
1698	जेसी	750373एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार एम	01.12.2005
1699	जेसी	750657ए	सुबेदार	अशोक कुमार पण्डित	01.01.2006
1700	जेसी	754683वाइ	सुबेदार	अशोक कुमार शर्मा	01.01.2006
1701	जेसी	752717एच	सुबेदार	अशोक कुमार घोष	01.09.2005
1702	जेसी	753429एच	सुबेदार	अवधेश प्रसाद सिन्हा	01.09.2005
1703	जेसी	752013वाइ	सुबेदार	अवधेश कुमार	01.12.2005
1704	जेसी	748106डब्ल्यू	सुबेदार	बाबू राम राठौर	01.10.2005
1705	जेसी	751815डब्ल्यू	सुबेदार	बाल कृष्णन शर्मा	01.12.2005
1706	जेसी	751804के.	सुबेदार	बालन के. पी.	01.10.2005
1707	जेसी	754034एन	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.11.2005
1708	जेसी	754038के.	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.01.2006
1709	जेसी	754223एक्स	सुबेदार	बलराम सिंह कुशवाह	01.10.2005
1710	जेसी	755182एल	सुबेदार	बंकर किसान विथोवा	01.09.2005
1711	जेसी	750106पी	सुबेदार	बरहमादिन वर्मा	01.10.2005

1712	जेसी	749628वाइ	सुबेदार	बसंता कुमार बेहेरा	01.01.2006
1713	जेसी	752383वाइ	सुबेदार	भीकाजी अमरुता माने	01.09.2005
1714	जेसी	753221ए	सुबेदार	भोसले श्रीकांत डी. राव	01.10.2005
1715	जेसी	752972पी	सुबेदार	भुपेन्द्र प्रसाद	01.09.2005
1716	जेसी	752513डब्ल्यू	सुबेदार	बिगल उरॉव	01.09.2005
1717	जेसी	754468एन	सुबेदार	बिनय शंकर मिश्रा	01.01.2006
1718	जेसी	750736पी	सुबेदार	बिरेन्द्रा उपाध्याय	01.12.2005
1719	जेसी	752683ए	सुबेदार	बिश्वनाथ राय	01.12.2005
1720	जेसी	751817एफ	सुबेदार	चानन सिंह	01.12.2005
1721	जेसी	752934वाइ	सुबेदार	चदेश्वर शर्मा	01.01.2006
1722	जेसी	752494डब्ल्यू	सुबेदार	चंद्रा भान यादव	01.12.2005
1723	जेसी	749836एन	सुबेदार	चंद्राभानू एस	01.10.2005
1724	जेसी	752497के.	सुबेदार	दलीप सिंह	01.12.2005
1725	जेसी	752014एफ	सुबेदार	दावा लामा	01.12.2005
1726	जेसी	751822एम	सुबेदार	दयानन्द	01.01.2006
1727	जेसी	749293एम	सुबेदार	देवेन्द्र चौधरी	01.10.2005
1728	जेसी	749423के.	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह बिस्ट	01.01.2006
1729	जेसी	752499पी	सुबेदार	देवी प्रसाद	01.01.2006
1730	जेसी	754540वाइ	सुबेदार	देविन्द्र कुमार सिरौही	01.12.2005
1731	जेसी	750241एच	सुबेदार	धनपाल अगासार	01.01.2006
1732	जेसी	752384एफ	सुबेदार	धर्म देव सिंह	01.10.2005
1733	जेसी	751814एन	सुबेदार	धर्म पाल सिंह	01.12.2005
1734	जेसी	752729एक्स	सुबेदार	धर्म सिंह	01.09.2005
1735	जेसी	750896पी	सुबेदार	धरेप्पा नाइक	01.01.2006
1736	जेसी	752249डब्ल्यू	सुबेदार	धर्मा पाल सिंह बी	01.01.2006
1737	जेसी	750162एन	सुबेदार	दिगम्बर सिंह	01.12.2005
1738	जेसी	748995वाइ	सुबेदार	दिलीप कुमार देबनाथ	01.10.2005
1739	जेसी	749541एक्स	सुबेदार	दिलीप कुमार घोष	01.01.2006
1740	जेसी	750182एफ	सुबेदार	गजेन्द्र सिंह अफरिया	01.10.2005
1741	जेसी	751392एन	सुबेदार	गनेश्वर मरांडी	01.12.2005
1742	जेसी	748542एन	सुबेदार	गंगा दत्त कापरी	01.01.2006
1743	जेसी	752685एल	सुबेदार	घनशाम जगन्नाथजी वर्मा	01.09.2005
1744	जेसी	754015एच	सुबेदार	घीसा लाल	01.10.2005
1745	जेसी	752223वाइ	सुबेदार	गिरीश चंद्रा.	01.01.2006
1746	जेसी	749636एक्स	सुबेदार	गोपाल जेआइ चौधरी	01.01.2006
1747	जेसी	753434एन	सुबेदार	गोपाल कुर्णा साहू	01.10.2005
1748	जेसी	749049एम	सुबेदार	गोरख नाथ	01.09.2005
1749	जेसी	752176एम	सुबेदार	गोरखा नाथ पांडे	01.01.2006
1750	जेसी	752605एच	सुबेदार	गोविंद बल्लभ जोशी	01.10.2005
1751	जेसी	749723एल	सुबेदार	गुरबक्श सिंह	01.11.2005
1752	जेसी	749613डब्ल्यू	सुबेदार	हंस राज वर्मा	01.12.2005
1753	जेसी	749602के.	सुबेदार	हनुमान सिंह	01.10.2005
1754	जेसी	752174एफ	सुबेदार	हर शिव	01.12.2005
1755	जेसी	748393एल	सुबेदार	हरी भूषण सिंह	01.12.2005
1756	जेसी	753430एक्स	सुबेदार	हरीश चांद	01.09.2005
1757	जेसी	748394एन	सुबेदार	हरनाम सिंह	01.01.2006
1758	जेसी	750665वाइ	सुबेदार	इंद्रबीर सिंह लाम्बा	01.09.2005
1759	जेसी	752745पी	सुबेदार	इन्द्रिश तिवारी	01.12.2005
1760	जेसी	752337के.	सुबेदार	जग नारायण राम	01.01.2006
1761	जेसी	749960पी	सुबेदार	जगदीप चांद	01.10.2005

1762	जेसी	750719पी	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.10.2005
1763	जेसी	752600के.	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.12.2005
1764	जेसी	753016वाइ	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.01.2006
1765	जेसी	752493एच	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.11.2005
1766	जेसी	749881ए	सुबेदार	जगदीश सिंह सिकरवार	01.09.2005
1767	जेसी	753494एच	सुबेदार	जागीर सिंह	01.10.2005
1768	जेसी	751731एच	सुबेदार	जागीर सिंह चौहान	01.10.2005
1769	जेसी	750637एम	सुबेदार	जगलाल सिंह	01.09.2005
1770	जेसी	750449एल	सुबेदार	जगताप सरजीराव दगादु	01.10.2005
1771	जेसी	751937ए	सुबेदार	जय प्रकाश	01.12.2005
1772	जेसी	752124डब्ल्यू	सुबेदार	जय प्रकाश घोषे	01.11.2005
1773	जेसी	749583के.	सुबेदार	जय सिंह	01.09.2005
1774	जेसी	751267के.	सुबेदार	जयचन्द्रन एन	01.10.2005
1775	जेसी	756028वाइ	सुबेदार	जयकुमार एस	01.10.2005
1776	जेसी	750048डब्ल्यू	सुबेदार	जयराम पात्रा	01.01.2006
1777	जेसी	749780एम	सुबेदार	जीबछ चौधरी	01.12.2005
1778	जेसी	750223ए	सुबेदार	जितेन्द्र कुमार	01.10.2005
1779	जेसी	752492एल	सुबेदार	जोगेंद्र सिंह	01.09.2005
1780	जेसी	748435एम	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.01.2006
1781	जेसी	750659एल	सुबेदार	जुगल सिंह	01.01.2006
1782	जेसी	755041डब्ल्यू	सुबेदार	के. पुल्लैह	01.12.2005
1783	जेसी	755367एम	सुबेदार	के. सोमन	01.12.2005
1784	जेसी	752177पी	सुबेदार	के. वैकटैया	01.01.2006
1785	जेसी	755268के.	सुबेदार	कादम्बाला कमाल राजू	01.11.2005
1786	जेसी	751092एम	सुबेदार	कल्याण सिंह शेखावत	01.10.2005
1787	जेसी	748514एफ	सुबेदार	कमल देव	01.10.2005
1788	जेसी	749540पी	सुबेदार	कमलेश कुमार त्रिपाठी	01.12.2005
1789	जेसी	752346एल	सुबेदार	कपिल देव सिंह	01.10.2005
1790	जेसी	755826ए	सुबेदार	कर्म सिंह	01.01.2006
1791	जेसी	752127के.	सुबेदार	करीमन राम	01.12.2005
1792	जेसी	752790एफ	सुबेदार	कोशल किशोर	01.11.2005
1793	जेसी	748989एल	सुबेदार	कोशल किशोर मिश्रा	01.12.2005
1794	जेसी	750179एफ	सुबेदार	खैरती लाल	01.09.2005
1795	जेसी	752733ए	सुबेदार	खिमनन्द	01.09.2005
1796	जेसी	750846के.	सुबेदार	खुशाल सिंह	01.12.2005
1797	जेसी	753136एक्स	सुबेदार	कोपारे मारुति लक्ष्मण	01.12.2005
1798	जेसी	752767एन	सुबेदार	कृपाल सिंह	01.12.2005
1799	जेसी	752015के.	सुबेदार	कुबेर सिंह	01.12.2005
1800	जेसी	748377एन	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.09.2005
1801	जेसी	750181वाइ	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.10.2005
1802	जेसी	749751एक्स	सुबेदार	कुलताज कुमार शर्मा	01.10.2005
1803	जेसी	753495एल	सुबेदार	कुंवर पाल सिंह	01.10.2005
1804	जेसी	753312के.	सुबेदार	लक्ष्मी नारायण जंगीर	01.12.2005
1805	जेसी	750036एफ	सुबेदार	लाला राम पाल	01.09.2005
1806	जेसी	755265डब्ल्यू	सुबेदार	ललन प्रसाद सिंह	01.01.2006
1807	जेसी	749389पी	सुबेदार	लल्लन राम चौहान	01.10.2005
1808	जेसी	753259के.	सुबेदार	लेख नारायण शुक्ला	01.12.2005
1809	जेसी	751816वाइ	सुबेदार	मदन प्रसाद	01.12.2005
1810	जेसी	753222एच	सुबेदार	महेंद्र प्रसाद सिंह	01.01.2006
1811	जेसी	749366एन	सुबेदार	महेश्वर साहू	01.01.2006

1812	जेसी	748887एन	सुबेदार	माखन लाल जाना	01.10.2005
1813	जेसी	751808ए	सुबेदार	मल्कीत सिंह गिल	01.11.2005
1814	जेसी	750236एक्स	सुबेदार	मोहम्मद छाहाबुद्दीन अहमद	01.11.2005
1815	जेसी	752242के.	सुबेदार	मिलाप सिंह यादव	01.10.2005
1816	जेसी	750217एम	सुबेदार	मिश्री यादव	01.09.2005
1817	जेसी	752121एच	सुबेदार	मोहन श्याम शर्मा	01.10.2005
1818	जेसी	749396एल	सुबेदार	मोहानन ए के.	01.01.2006
1819	जेसी	750491के.	सुबेदार	मोहानन नायर ए बी	01.10.2005
1820	जेसी	750161एल	सुबेदार	मोहिन्दर पाल	01.01.2006
1821	जेसी	750773एच	सुबेदार	मोजी राम कोशिक	01.12.2005
1822	जेसी	752119एल	सुबेदार	मोलाना भूयान	01.09.2005
1823	जेसी	750291एन	सुबेदार	मुक्तार सिंह	01.01.2006
1824	जेसी	751734डब्ल्यू	सुबेदार	मुक्तनारायण सिंह	01.11.2005
1825	जेसी	751514एम	सुबेदार	मलिक डी. राजाराम	01.10.2005
1826	जेसी	749456पी	सुबेदार	नाबा कुमार मुखोपाध्याय	01.01.2006
1827	जेसी	752241के.	सुबेदार	नरेंद्र प्रताप सिंह	01.10.2005
1828	जेसी	749066एम	सुबेदार	नव रत्तन	01.12.2005
1829	जेसी	752454पी	सुबेदार	नीलप्पु गोपाल राव	01.11.2005
1830	जेसी	753137ए	सुबेदार	नीमकेयर चंद्र राव	01.01.2006
1831	जेसी	752056एन	सुबेदार	निमेन चरण स्वेन	01.12.2005
1832	जेसी	755716एल	सुबेदार	निसित कुमार विश्वास	01.12.2005
1833	जेसी	749728के.	सुबेदार	ओम प्रकाश साहू	01.09.2005
1834	जेसी	750889वाइ	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.10.2005
1835	जेसी	752874पी	सुबेदार	ओंकार सिंह	01.12.2005
1836	जेसी	752245एक्स	सुबेदार	पन्ना लाल	01.12.2005
1837	जेसी	747923एच	सुबेदार	पारेश चंद्रा सरकार	01.12.2005
1838	जेसी	752686एन	सुबेदार	परिमल चंद्रा सरकार	01.09.2005
1839	जेसी	749731के.	सुबेदार	प्रताप सिंह चौहान	01.11.2005
1840	जेसी	755136डब्ल्यू	सुबेदार	पटेल विपिन चंद्रा कांतीलाल	01.01.2006
1841	जेसी	749103पी	सुबेदार	पाटिल सभभाजी गनपत	01.01.2006
1842	जेसी	749408पी	सुबेदार	फिलिपोस के. वी	01.10.2005
1843	जेसी	751319पी	सुबेदार	पूनम सिंह	01.11.2005
1844	जेसी	752732एक्स	सुबेदार	प्रफुल्ल कुमार पैकरे	01.09.2005
1845	जेसी	748643एफ	सुबेदार	प्रफुल्ल कुमार रौय	01.12.2005
1846	जेसी	753808वाइ	सुबेदार	प्राण गोबिंदा विश्वास	01.09.2005
1847	जेसी	747670वाइ	सुबेदार	प्रेम सिंह धामी	01.11.2005
1848	जेसी	751806पी	सुबेदार	पुन्डालीक यशवंता नाइक	01.10.2005
1849	जेसी	752718एल	सुबेदार	राधाकृष्ण नायर सी	01.10.2005
1850	जेसी	749882एच	सुबेदार	राजबीर गोपीराम यादव	01.09.2005
1851	जेसी	752979वाइ	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद	01.12.2005
1852	जेसी	755046पी	सुबेदार	राजेंद्र सिंह यादव	01.12.2005
1853	जेसी	750667के.	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.10.2005
1854	जेसी	749452वाइ	सुबेदार	राम बहादुर	01.09.2005
1855	जेसी	751170वाइ	सुबेदार	राम बरन सिंह	01.12.2005
1856	जेसी	752074डब्ल्यू	सुबेदार	राम चंद्रा भगवती	01.10.2005
1857	जेसी	753409पी	सुबेदार	राम चंद्रा मंडल	01.12.2005
1858	जेसी	750038एम	सुबेदार	राम करन	01.10.2005
1859	जेसी	748866वाइ	सुबेदार	राम किशोर	01.10.2005
1860	जेसी	753408एम	सुबेदार	राम कुमार	01.09.2005
1861	जेसी	754131एल	सुबेदार	राम कुंवर बंवरिया	01.01.2006

1862	जेसी	752742एफ	सुबेदार	राम निवास	01.11.2005
1863	जेसी	749490पी	सुबेदार	राम प्रसाद तिवारी	01.10.2005
1864	जेसी	755292ए	सुबेदार	राम सर्न	01.10.2005
1865	जेसी	751820एफ	सुबेदार	रमा डडसा निशाद	01.12.2005
1866	जेसी	754808ए	सुबेदार	रामाश्रय यादवा	01.09.2005
1867	जेसी	752933डब्ल्यू	सुबेदार	रामवतार शर्मा	01.12.2005
1868	जेसी	750218पी	सुबेदार	रामचंद्र	01.09.2005
1869	जेसी	749884एन	सुबेदार	रामचंद्रन नायर टी	01.09.2005
1870	जेसी	754802के.	सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.09.2005
1871	जेसी	751550एक्स	सुबेदार	रमेश पांडुरंग बोरकर	01.01.2006
1872	जेसी	747766एफ	सुबेदार	रामेश्वर सिंह	01.01.2006
1873	जेसी	750037के.	सुबेदार	रामकिशोर मिश्रा	01.10.2005
1874	जेसी	752997एफ	सुबेदार	रामफल सिंह	01.01.2006
1875	जेसी	755138एफ	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.12.2005
1876	जेसी	748375वाइ	सुबेदार	आर यादव	01.10.2005
1877	जेसी	751821के.	सुबेदार	साईबाबा शेख	01.12.2005
1878	जेसी	752259एक्स	सुबेदार	शंकरसन पंडा	01.01.2006
1879	जेसी	754931के.	सुबेदार	संत कुमार शर्मा	01.12.2005
1880	जेसी	749405एफ	सुबेदार	संधा कुमार बी एस	01.10.2005
1881	जेसी	747432एम	सुबेदार	संतोष कुमार	01.09.2005
1882	जेसी	749963एच	सुबेदार	ससिधरन कुन्नोथ	01.10.2005
1883	जेसी	748546के.	सुबेदार	ससिधरन पी	01.12.2005
1884	जेसी	752792एम	सुबेदार	शशिधरन पी के.	01.01.2006
1885	जेसी	753428ए	सुबेदार	सतबीर सिंह	01.09.2005
1886	जेसी	752883डब्ल्यू	सुबेदार	सथियान के. एस	01.12.2005
1887	जेसी	748987ए	सुबेदार	सतीश चंद्रा धस्माना	01.10.2005
1888	जेसी	748204डब्ल्यू	सुबेदार	सत्य प्रकाश श्रीवास्तव	01.10.2005
1889	जेसी	751859एन	सुबेदार	सत्यपाल सिंह भदोरिया	01.10.2005
1890	जेसी	749635पी	सुबेदार	सउमेन्द्रा मल्लिक	01.10.2005
1891	जेसी	750222एक्स	सुबेदार	सैयद अलवी वी के.	01.10.2005
1892	जेसी	749419एफ	सुबेदार	शेक दस्तागिरी	01.11.2005
1893	जेसी	753431ए	सुबेदार	शामू विथ्थल सालुंकी	01.10.2005
1894	जेसी	752788के.	सुबेदार	शिव राम	01.09.2005
1895	जेसी	749895ए	सुबेदार	शेर सिंह वर्मा	01.11.2005
1896	जेसी	748480वाइ	सुबेदार	शिव कुमार सिंह	01.01.2006
1897	जेसी	752599ए	सुबेदार	श्री कृष्ण चौबे	01.10.2005
1898	जेसी	751007वाइ	सुबेदार	श्री नारायण मिश्रा	01.01.2006
1899	जेसी	753059एन	सुबेदार	शुभ करन	01.09.2005
1900	जेसी	750570के.	सुबेदार	श्याम लाल	01.12.2005
1901	जेसी	754130एच	सुबेदार	श्याम सुंदर दाश	01.01.2006
1902	जेसी	754649वाइ	सुबेदार	सीतल राम ठाकुर	01.01.2006
1903	जेसी	225134एन	सुबेदार	सोदी सिंह लक्ष्म	01.12.2005
1904	जेसी	754044ए	सुबेदार	सुबोध बांद राय	01.09.2005
1905	जेसी	749837डब्ल्यू	सुबेदार	सुकुमारन के.	01.10.2005
1906	जेसी	750825एन	सुबेदार	सुकुमारन पी एन	01.10.2005
1907	जेसी	748992एल	सुबेदार	सन्नी वरकैय	01.10.2005
1908	जेसी	750521डब्ल्यू	सुबेदार	सुराथ मछुआ	01.01.2006
1909	जेसी	752737डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार तिवारी	01.10.2005
1910	जेसी	752975एच	सुबेदार	सुरेंद्र प्रसाद सिंह	01.12.2005
1911	जेसी	749618पी	सुबेदार	सुरेश चंद्र वशिष्ठ	01.10.2005

1912	जेसी	748520पी	सुबेदार	सुरेश लाल देव	01.09.2005
1913	जेसी	749741एन	सुबेदार	सुरेश नंदा शर्मा	01.10.2005
1914	जेसी	753138एच	सुबेदार	सुर्याजी अकरम नालावाडे	01.01.2006
1915	जेसी	752047एम	सुबेदार	तपन कुमार मुखर्जी	01.01.2006
1916	जेसी	747475एफ	सुबेदार	तिवारी शिवकुमार चंद्रभान	01.12.2005
1917	जेसी	749289के.	सुबेदार	उदयवीर सिंह चौहान	01.01.2006
1918	जेसी	752125वाइ	सुबेदार	उमराव सिंह	01.12.2005
1919	जेसी	748238के.	सुबेदार	वी केशाप्पानाती	01.09.2005
1920	जेसी	750041एम	सुबेदार	वी मुथठाइया	01.12.2005
1921	जेसी	751266वाइ	सुबेदार	वेद प्रकाश	01.10.2005
1922	जेसी	752769वाइ	सुबेदार	वेदामिनी	01.12.2005
1923	जेसी	748750एच	सुबेदार	वेनु गोपाल सी बी	01.12.2005
1924	जेसी	753055एक्स	सुबेदार	विजय शंकर सिंह यादव	01.01.2006
1925	जेसी	749867एन	सुबेदार	विजयन नायर एम	01.12.2005
1926	जेसी	752734एच	सुबेदार	विनोद कुमार	01.09.2005
1927	जेसी	747079एल	सुबेदार	विनोद कुमार सिंह	01.11.2005
1928	जेसी	749584एम	सुबेदार	विश्वाम्बर दयाल शर्मा	01.01.2006
1929	जेसी	752132पी	सुबेदार	योगेन्द्र सिंह	01.01.2006
1930	जेसी	750720के.	सुबेदार	योगेन्द्रलाल श्रीवास्तव	01.10.2005
1931	जेसी	752585ए	सुबेदार	युद्धवीर सिंह	01.10.2005
सेना शिक्षा कोर					
1932	जेसी	218709पी	सुबेदार	बाबू राम दहिया	01.01.2006
1933	जेसी	223016एफ	सुबेदार	बहादुर सिंह भंडारी	01.11.2005
1934	जेसी	802221एम	सुबेदार	भरत चंद्रा जैना	01.11.2005
1935	जेसी	216998डब्ल्यू	सुबेदार	भीमसेन पथि	01.09.2005
1936	जेसी	802140एम	सुबेदार	भुपिन्द्र सिंह	01.09.2005
1937	जेसी	216191एन	सुबेदार	बिक्रम सिंह पोखरिया	01.10.2005
1938	जेसी	223761एफ	सुबेदार	दीप सिंह	01.01.2006
1939	जेसी	223752ए	सुबेदार	धनंजय साहू	01.10.2005
1940	जेसी	802146एन	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह रौतेला	01.12.2005
1941	जेसी	223017के.	सुबेदार	मोहन चंद्रा बावरी	01.01.2006
1942	जेसी	217001एच	सुबेदार	पत राम सियोकानंद	01.10.2005
1943	जेसी	216218ए	सुबेदार	राजेंद्र सिंह राठौर	01.10.2005
1944	जेसी	216202पी	सुबेदार	राजवीर सिंह गोयट	01.01.2006
1945	जेसी	223750पी	सुबेदार	राम कृष्ण	01.10.2005
1946	जेसी	802220के.	सुबेदार	राम कुमार शर्मा	01.09.2005
1947	जेसी	223014डब्ल्यू	सुबेदार	रमा कान्त शुक्ला	01.11.2005
1948	जेसी	223754एल	सुबेदार	एस के. अब्दुल सत्तार	01.10.2005
1949	जेसी	802409एफ	सुबेदार	सतीश कुमार	01.10.2005
1950	जेसी	218708एम	सुबेदार	शलिग राम खनकरियाल	01.12.2005
1951	जेसी	558701के.	सुबेदार	शिव शेखर झा	01.12.2005
1952	जेसी	802282के.	सुबेदार	श्याम सुंदर	01.10.2005
1953	जेसी	802266एम	सुबेदार	श्री भगवान सिंह चौधरी	01.10.2005
1954	जेसी	802024के.	सुबेदार	सुरेंद्र नाथ सिंह	01.10.2005
1955	जेसी	216188एन	सुबेदार	उममेद राम	01.10.2005
1956	जेसी	206845वाइ	सुबेदार	विनय पाल सिंह	01.01.2006
रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर					
1957	जेसी	797157एन	रिसालदार	अशोक कुमार श्रीवास्तव	01.11.2005
1958	जेसी	797217एक्स	रिसालदार	भूरे सिंह शिवाल	01.09.2005
1959	जेसी	797088एच	रिसालदार	विक्रम सिंह	01.11.2005

आसुचना कोर

1960	जेसी	217185एम	सुबेदार	चान्दन सिंह	01.12.2005
1961	जेसी	198169एक्स	सुबेदार	दातरे गंगाराम कवहाले	01.01.2006
1962	जेसी	810101एच	सुबेदार	गिरधारी लाल डेआउट	01.10.2005
1963	जेसी	218748एन	सुबेदार	घीतम सिंह	01.01.2006
1964	जेसी	810404एक्स	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.12.2005
1965	जेसी	810350एफ	सुबेदार	लक्ष्मी शंकर तिवारी	01.01.2006
1966	जेसी	219826एम	सुबेदार	मनोहर लाल	01.10.2005
1967	जेसी	218724के.	सुबेदार	नवीन चंद्रा प्रधान	01.11.2005
1968	जेसी	198168पी	सुबेदार	राश पाल चांद कटोच	01.01.2006
1969	जेसी	197781डब्ल्यू	सुबेदार	सोम दत्त यादव	01.10.2005

सेना पुलिस कोर

1970	जेसी	818520पी	सुबेदार	भोपाल सिंह	01.01.2006
1971	जेसी	818309ए	सुबेदार	चरण सिंह	01.10.2005
1972	जेसी	818527वाइ	सुबेदार	दलीवी सोपान पंधारीनाथ	01.01.2006
1973	जेसी	818485एक्स	सुबेदार	देवेंदर पाल सिंह	01.09.2005
1974	जेसी	818304एफ	सुबेदार	दिवेन्दर कुमार पांडे	01.10.2005
1975	जेसी	818518एक्स	सुबेदार	धर्मबीर सिंह	01.12.2005
1976	जेसी	818349एफ	सुबेदार	दुर्गा सिंह	01.12.2005
1977	जेसी	818507एल	सुबेदार	जी. चंद्रा पोल	01.11.2005
1978	जेसी	818413एन	सुबेदार	करनैल सिंह	01.11.2005
1979	जेसी	818327एच	सुबेदार	किताब सिंह	01.10.2005
1980	जेसी	818509डब्ल्यू	सुबेदार	लक्ष्मी नारायण	01.12.2005
1981	जेसी	818412एल	सुबेदार	लक्ष्मी शंकर	01.10.2005
1982	जेसी	818535एक्स	सुबेदार	मदन लाल यादव	01.12.2005
1983	जेसी	818429वाइ	सुबेदार	महावीर प्रसाद	01.12.2005
1984	जेसी	818306एम	सुबेदार	निर्मल चंद्रा बाला	01.10.2005
1985	जेसी	818068एल	सुबेदार	राजन पोडवाल के.	01.12.2005
1986	जेसी	818316डब्ल्यू	सुबेदार	राम बिनय ठाकुर	01.10.2005
1987	जेसी	818555एल	सुबेदार	राम निवास	01.12.2005
1988	जेसी	818350डब्ल्यू	सुबेदार	रूपम राम	01.01.2006
1989	जेसी	818414डब्ल्यू	सुबेदार	सदाफल राम	01.11.2005
1990	जेसी	829032एम	सुबेदार	शंकर पांडे	01.10.2005
1991	जेसी	198856एन	सुबेदार	एस एथोनी जार्ज	01.01.2006
1992	जेसी	818305के.	सुबेदार	सुभाष चंद्रा	01.11.2005
1993	जेसी	818330एच	सुबेदार	सुतार पोपट लाल मगजी भाई	01.01.2006
1994	जेसी	818303वाइ	सुबेदार	तारा दत्त जोशी	01.10.2005
1995	जेसी	818322के.	सुबेदार	तरसेम लाल	01.01.2006
1996	जेसी	818348वाइ	सुबेदार	विद्या लाल प्रसाद	01.10.2005

सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

1997	जेसी	826036एक्स	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह	01.09.2005
1998	जेसी	826050के.	सुबेदार	कल्याण सिंह	01.12.2005
1999	जेसी	826035पी	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.10.2005
2000	जेसी	826048एम	सुबेदार	राज कुमार शारदा	01.10.2005
2001	जेसी	826018पी	सुबेदार	सुखविंदर सिंह सिंघा	01.10.2005
2002	जेसी	826044डब्ल्यू	सुबेदार	तुफान सिंह	01.10.2005

पायोनियर कोर

2003	जेसी	829170एन	सुबेदार	आसा राम निशाद	01.01.2006
2004	जेसी	829052ए	सुबेदार	बलेश्वर दयाल	01.11.2005
2005	जेसी	829112के.	सुबेदार	भंवर लाल	01.12.2005

2006	जेसी	829168डब्ल्यू	सुबेदार	चंद्रा कांत सविता	01.12.2005
2007	जेसी	829029एम	सुबेदार	दिनेश प्रसाद	01.10.2005
2008	जेसी	829084एच	सुबेदार	उमेश सिंह	01.10.2005
रक्षा सुरक्षा कोर					
2009	जेसी	840707एफ	सुबेदार	बाबु एम के	01.11.2005
2010	जेसी	840907एक्स	सुबेदार	करन सिंह	01.09.2005
2011	जेसी	840816एन	सुबेदार	के उन्नी कृष्णन्	01.12.2005
2012	जेसी	840640एन	सुबेदार	माण सिंह	01.09.2005
प्रादेशिक सेना					
2013	टीजे	3404	सुबेदार	टी सम्बाशिव राव	01.07.2005
2014	टीजे	3632	सुबेदार	के वी रघुनाथ	01.07.2005

अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार के रूप में

अर्मांड कोर

1	जेसी	239758एल	नायब रिसालदार	बूटा सिंह	01.02.2000
2	जेसी	240102एच	नायब रिसालदार	एम सिंह	01.09.2005
3	जेसी	240089के	नायब रिसालदार	पवन सिंह गुलेरिया	01.11.2005
4	जेसी	239720एफ	नायब रिसालदार	वी सिंह	01.11.2005

आर्टिलरी रजिमेंट

5	जेसी	264933ए	नायब सुबेदार	ए ए	01.12.2005
6	जेसी	267190एन	नायब सुबेदार	बलवान सिंह	01.01.2006
7	जेसी	265464पी	नायब सुबेदार	बी पाटिल	01.12.2005
8	जेसी	265625एम	नायब सुबेदार	बी सिंह	01.10.2005
9	जेसी	266201एच	नायब सुबेदार	ब्रमा देव मिश्रा	01.01.2006
10	जेसी	265027पी	नायब सुबेदार	ब्रमा सिंह भदोरिया	01.11.2005
11	जेसी	263745एम	नायब सुबेदार	बृज भूषण सिंह	01.12.2005
12	जेसी	264501एल	नायब सुबेदार	छबि लाल छत्री	01.12.2005
13	जेसी	266356एक्स	नायब सुबेदार	सी कुमार प्रधान	01.01.2006
14	जेसी	264524एम	नायब सुबेदार	छोटे लाल यादव	01.01.2006
15	जेसी	265319एक्स	नायब सुबेदार	सीएन मधुसूदन नायर	01.09.2005
16	जेसी	265173पी	नायब सुबेदार	दलीप शांडिल्य	01.09.2005
17	जेसी	264195एफ	नायब सुबेदार	देश राज	01.09.2005
18	जेसी	265892एन	नायब सुबेदार	देवदास के वी	01.10.2005
19	जेसी	264220पी	नायब सुबेदार	दीना नाथ राम	01.01.2006
20	जेसी	266298वाइ	नायब सुबेदार	गिरवर सिंह	01.10.2005
21	जेसी	267028डब्ल्यू	नायब सुबेदार	हरदीप सिंह	01.01.2006
22	जेसी	266834डब्ल्यू	नायब सुबेदार	इंद्रराज सिंह	01.01.2006
23	जेसी	264917एच	नायब सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.11.2005
24	जेसी	264413पी	नायब सुबेदार	जगजीत प्रसाद यादव	01.11.2005
25	जेसी	265010एफ	नायब सुबेदार	जिलेदार सिंह	01.09.2005
26	जेसी	265116एन	नायब सुबेदार	जोज टी जे	01.11.2005
27	जेसी	266493डब्ल्यू	नायब सुबेदार	के. अमरुता राव	01.12.2005
28	जेसी	264652के	नायब सुबेदार	कामता प्रसाद जायसवाल	01.01.2006
29	जेसी	265136एफ	नायब सुबेदार	कपिल देव सिंह	01.11.2005
30	जेसी	266634ए	नायब सुबेदार	के.एस कार्तीकेयन	01.12.2005
31	जेसी	260479एन	नायब सुबेदार	के. धारी सिंह	01.12.2005
32	जेसी	263995एन	नायब सुबेदार	लाला राम	01.12.2005
33	जेसी	263971के	नायब सुबेदार	मान सिंह	01.11.2005

34	जेसी 265794एन	नायब सुबेदार	अमल राय यादव	01.01.2006
35	जेसी 265175ए	नायब सुबेदार	निहाल सिंह	01.09.2005
36	जेसी 266310पी	नायब सुबेदार	ओ एम प्रकाश	01.01.2006
37	जेसी 266023एल	नायब सुबेदार	ओंकार सिंह	01.01.2006
38	जेसी 266358एच	नायब सुबेदार	पी एम एम	01.12.2005
39	जेसी 263088एन	नायब सुबेदार	पी एस के	01.01.2006
40	जेसी 266240एफ	नायब सुबेदार	प्रकाश चांद	01.09.2005
41	जेसी 264380पी	नायब सुबेदार	पवन कुमार धीमान	01.12.2005
42	जेसी 265486एन	नायब सुबेदार	प्रीतम लाल	01.09.2005
43	जेसी 266858ए	नायब सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.12.2005
44	जेसी 265154के	नायब सुबेदार	रघुनाथ यादव	01.01.2006
45	जेसी 264712एन	नायब सुबेदार	राजेंदरन	01.01.2006
46	जेसी 265226एच	नायब सुबेदार	राजेंद्र कुरूप टीसी	01.09.2005
47	जेसी 266105एन	नायब सुबेदार	राम नारायण	01.09.2005
48	जेसी 265994के	नायब सुबेदार	रमा कांत	01.11.2005
49	जेसी 264634एफ	नायब सुबेदार	एस मुखिया	01.09.2005
50	जेसी 266172वाइ	नायब सुबेदार	एस नागाराजन	01.09.2005
51	जेसी 266899पी	नायब सुबेदार	संतोष सिंह	01.01.2006
52	जेसी 259947डब्ल्यू	नायब सुबेदार	संतोष कुमार पंडा	01.01.2006
53	जेसी 265274एच	नायब सुबेदार	सतपाल वर्मा	01.09.2005
54	जेसी 264341डब्ल्यू	नायब सुबेदार	समशेर सिंह	01.01.2006
55	जेसी 265753के	नायब सुबेदार	शर्मन लाल	01.09.2005
56	जेसी 265882के	नायब सुबेदार	शिव यादव विश्वास	01.12.2005
57	जेसी 266010एन	नायब सुबेदार	शिव कुमार	01.01.2006
58	जेसी 264379ए	नायब सुबेदार	एस दत्त शुक्ला	01.11.2005
59	जेसी 264637पी	नायब सुबेदार	श्याम सिंह यादव	01.01.2006
60	जेसी 265733डब्ल्यू	नायब सुबेदार	शिघेश्वर यादव	01.09.2005
61	जेसी 262574वाइ	नायब सुबेदार	एस सिंह	01.12.2005
62	जेसी 265007एफ	नायब सुबेदार	सुरेश सिंह	01.01.2006
63	जेसी 264381एक्स	नायब सुबेदार	सुलसिंघरन पिल्लई	01.09.2005
64	जेसी 263511एच	नायब सुबेदार	त्रिलोचन भट्ट	01.01.2006
65	जेसी 264237एच	नायब सुबेदार	वरधेसे के वी	01.12.2005
वायु सुरक्षा आर्टिलरी कोर				
66	जेसी 298250वाइ	नायब सुबेदार	बच्चू सिंह	01.01.2006
67	जेसी 298187पी	नायब सुबेदार	बलबीर सिंह	01.12.2005
68	जेसी 298099वाइ	नायब सुबेदार	बाली राम	01.12.2005
69	जेसी 298248के	नायब सुबेदार	भरत सिंह यादव	01.01.2006
70	जेसी 297874वाइ	नायब सुबेदार	देव नारायण	01.01.2006
71	जेसी 298310एच	नायब सुबेदार	प्रदीप कुमार सिंह	01.01.2006
72	जेसी 298825एच	नायब सुबेदार	एस सिंह	01.01.2006
महास इंजीनियर समूह				
73	जेसी 307587एल	नायब सुबेदार	ए ए बेग	01.09.2005
74	जेसी 307629एम	नायब सुबेदार	ए नरेश्वरन	01.12.2005
75	जेसी 307140एन	नायब सुबेदार	अकबर जली मठफ	01.12.2005
76	जेसी 307586एच	नायब सुबेदार	बी भास्कर राव	01.10.2005
77	जेसी 307555एच	नायब सुबेदार	बी मुनिसामी	01.10.2005
78	जेसी 307290के	नायब सुबेदार	भास्कर गोड बी एल	01.01.2006
79	जेसी 307322एफ	नायब सुबेदार	देवैया डी के	01.09.2005
80	जेसी 307741वाइ	नायब सुबेदार	एमसी टी	01.12.2005
81	जेसी 307475एल	नायब सुबेदार	एन रवि	01.09.2005

	82	जेसी 307305एफ	नायब सुबेदार	नरसिम्हा के.	01.01.2006
	83	जेसी 307114एम	नायब सुबेदार	पी थंगा राजू	01.12.2005
	84	जेसी 307380एल	नायब सुबेदार	आर राजू	01.01.2006
	85	जेसी 307411ए	नायब सुबेदार	वरुधिस सी के.	01.09.2005
	86	जेसी 307762पी	नायब सुबेदार	विलास काम्बले	01.12.2005
बंगाल	इंजीनियर समूह				
	87	जेसी 328831एन	नायब सुबेदार	हुम बहादुर थापा	01.10.2005
	88	जेसी 328905एक्स	नायब सुबेदार	केशर सिंह	01.12.2005
	89	जेसी 328233डब्ल्यू	नायब सुबेदार	प्रदीप डे	01.12.2005
	90	जेसी 328903एम	नायब सुबेदार	राम नाथ सिंह	01.10.2005
	91	जेसी 328883के.	नायब सुबेदार	सतींद्र सिंह	01.01.2006
	92	जेसी 328227एच	नायब सुबेदार	सुरेश मिश्रा	01.01.2006
बोम्बे	इंजीनियर समूह				
	93	जेसी 348734एक्स	नायब सुबेदार	डी. सिंह	01.09.2005
	94	जेसी 349440डब्ल्यू	नायब सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.01.2006
	95	जेसी 349740एक्स	नायब सुबेदार	मातु सिंह	01.09.2005
	96	जेसी 349291एन	नायब सुबेदार	शंकर तुकाराम एस	01.12.2005
सिग्नल्स कोर					
	97	जेसी 374858के.	नायब सुबेदार	ए सिंह	01.01.2006
	98	जेसी 374860एफ	नायब सुबेदार	अमर जीत	01.01.2006
	99	जेसी 374695एफ	नायब सुबेदार	अशोक कुमार	01.01.2006
	100	जेसी 374501एन	नायब सुबेदार	अशोक कुमार पांडे	01.12.2005
	101	जेसी 373976एल	नायब सुबेदार	अशोका कुमार पात्रा	01.01.2006
	102	जेसी 374676डब्ल्यू	नायब सुबेदार	देबब्रत देब	01.01.2006
	103	जेसी 374512ए	नायब सुबेदार	देबी प्रसाद दाश	01.12.2005
	104	जेसी 375068एफ	नायब सुबेदार	देवादसन नायर पी	01.09.2005
	105	जेसी 374345पी	नायब सुबेदार	हरपाल सिंह सुहाग	01.10.2005
	106	जेसी 373915एन	नायब सुबेदार	एच कुमार त्रिपाठी	01.10.2005
	107	जेसी 375109ए	नायब सुबेदार	जाधव सहाजी तुकाराम	01.12.2005
	108	जेसी 374942के.	नायब सुबेदार	जय प्रकाश सिंह	01.12.2005
	109	जेसी 374854एन	नायब सुबेदार	कमलेश प्रसाद सिंह	01.01.2006
	110	जेसी 374459ए	नायब सुबेदार	कन्हैया यादव	01.12.2005
	111	जेसी 375255ए	नायब सुबेदार	मल्कीत सिंह	01.01.2006
	112	जेसी 374980ए	नायब सुबेदार	मामन राम	01.11.2005
	113	जेसी 374288वाइ	नायब सुबेदार	मोहम्मद अमीनुल्लाह हुक	01.01.2006
	114	जेसी 374274वाइ	नायब सुबेदार	मोरे सुभाष गणपति	01.12.2005
	115	जेसी 374511एक्स	नायब सुबेदार	मुरारी उपाध्याय	01.12.2005
	116	जेसी 375163एन	नायब सुबेदार	पी गोविंद	01.12.2005
	117	जेसी 372546पी	नायब सुबेदार	परम हंस पांडे	01.10.2005
	118	जेसी 374859एम	नायब सुबेदार	प्रसाद ए	01.01.2006
	119	जेसी 372530के.	नायब सुबेदार	प्रमोद शर्मा	01.12.2005
	120	जेसी 375110पी	नायब सुबेदार	पुशकर सिंह	01.01.2006
	121	जेसी 375108एक्स	नायब सुबेदार	रबीन्द्र नाथ पी	01.12.2005
	122	जेसी 374853एल	नायब सुबेदार	राज देव सिंह	01.01.2006
	123	जेसी 374857एफ	नायब सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.01.2006
	124	जेसी 374851ए	नायब सुबेदार	राम धारी	01.10.2005
	125	जेसी 449463एम	नायब सुबेदार	राम सरन	01.11.2005
	126	जेसी 374168ए	नायब सुबेदार	रनेन्द्रा प्रसाद	01.01.2006
	127	जेसी 375230एन	नायब सुबेदार	रेहिताशवा प्रसाद मिश्रा	01.10.2005

128	जेसी 374877पी	नायब सुबेदार	सलील कुमार सामंत	01.10.2005
129	जेसी 374964एच	नायब सुबेदार	शाम शेर सिंह	01.10.2005
130	जेसी 372547एक्स	नायब सुबेदार	श्याम नारायण तिवारी	01.11.2005
131	जेसी 374941एफ	नायब सुबेदार	श्रीबत्सा बी	01.11.2005
132	जेसी 373436एम	नायब सुबेदार	सुरिन्दर पाल	01.12.2005
133	जेसी 374886डब्ल्यू	नायब सुबेदार	टी आर	01.10.2005
134	जेसी 374332एक्स	नायब सुबेदार	थामस जॉन	01.12.2005
135	जेसी 375069के	नायब सुबेदार	विनायकनागेश रघुनाथ दुबल	01.01.2006
136	जेसी 372693एक्स	नायब सुबेदार	यशवंत सिंह	01.12.2005
137	जेसी 374219एच	नायब सुबेदार	जिले सिंह	01.10.2005
गार्ड्स				
138	जेसी 403328ए	नायब सुबेदार	गनेश सिंह	01.12.2005
139	जेसी 403324के	नायब सुबेदार	मोहन सिंह	01.12.2005
140	जेसी 403344एक्स	नायब सुबेदार	रमेश सिंह	01.12.2005
141	जेसी 403112वाइ	नायब सुबेदार	जेवियर कुजुर	01.01.2006
पैराशूट रेजीमेन्ट				
142	जेसी 412750वाइ	नायब सुबेदार	होशियार चांद	01.01.2006
143	जेसी 412649वाइ	नायब सुबेदार	जय विजय सिंह भादौरिया	01.09.2005
144	जेसी 412534एल	नायब सुबेदार	पूरन चंद्रा जोशी	01.11.2005
145	जेसी 412732डब्ल्यू	नायब सुबेदार	रच्छपाल सिंह	01.10.2005
मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट				
146	जेसी 418709वाइ	नायब सुबेदार	अमर नाथ	01.09.2005
147	जेसी 419087पी	नायब सुबेदार	साहिब सिंह	01.12.2005
ग्रेनेडियर्स				
148	जेसी 449260एच	नायब सुबेदार	बलजीत सिंह	01.11.2005
149	जेसी 374954वाइ	नायब सुबेदार	नरिंदर सिंह	01.11.2005
मराठा लघु सेना				
150	जेसी 458768एन	नायब सुबेदार	शिंदे तनानी वसंत	01.10.2005
राजपूताना राईफल्स				
151	जेसी 469406एम	नायब सुबेदार	बहादुर सिंह	21.12.2005
152	जेसी 469568एक्स	नायब सुबेदार	कान सिंह	01.11.2005
153	जेसी 469089डब्ल्यू	नायब सुबेदार	पी सिंह शेखावत	01.10.2005
154	जेसी 469690एन	नायब सुबेदार	राम सिंह	01.01.2006
राजपूत रेजीमेन्ट				
155	जेसी 479090वाइ	नायब सुबेदार	सत्यवीर सिंह चौहान	01.01.2006
156	जेसी 479106वाइ	नायब सुबेदार	शिव रत्तन सिंह	01.10.2005
जाट रेजीमेन्ट				
157	जेसी 489235एम	नायब सुबेदार	जगदीश प्रसाद वर्मा	01.11.2005
डोगरा रेजीमेन्ट				
158	जेसी 519664एल	नायब सुबेदार	कुलदीप सिंह सलारिया	01.12.2005
159	जेसी 519646एच	नायब सुबेदार	प्रथिबान सिंह राना	01.10.2005
160	जेसी 519500पी	नायब सुबेदार	सुरेश कुमार	01.12.2005
गढ़वाल राईफल्स				
161	जेसी 529085एम	नायब सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.09.2005
कुर्माँउ रेजीमेन्ट				
162	जेसी 538889एच	नायब सुबेदार	कैलाश चंद्र	01.10.2005
163	जेसी 538936पी	नायब सुबेदार	कावेरी सिंह	01.09.2005
164	जेसी 539266एल	नायब सुबेदार	लाल सिंह बी	01.09.2005
आसाम रेजीमेन्ट				
165	जेसी 548683वाइ	नायब सुबेदार	दिलीप कुमार सेकिआ	01.12.2005
166	जेसी 548692ए	नायब सुबेदार	के. बाबू सिंघा	01.09.2005
167	जेसी 548902एम	नायब सुबेदार	एस पी वाइफेइ	01.11.2005
168	जेसी 548915एम	नायब सुबेदार	जेड एस	01.01.2006

बिहार रेजीमेन्ट

169	जेसी 558881एक्स	नायब सुबेदार	दिलीप कुमार सिंह	01.11.2005
170	जेसी 559159एल	नायब सुबेदार	कै. प्रसाद यादव	01.11.2005
171	जेसी 559086के	नायब सुबेदार	ललन सिंह	01.12.2005
172	जेसी 559187एक्स	नायब सुबेदार	आर सिंह	01.11.2005
173	जेसी 559134वाइ	नायब सुबेदार	रामआशीष ठाकुर	01.11.2005

महाराष्ट्र रेजीमेन्ट

174	जेसी 569464एल	नायब सुबेदार	हरीश चंद्रा	01.01.2006
175	जेसी 568940एम	नायब सुबेदार	सुरेश कुमार के.	01.12.2005

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

176	जेसी 579438एक्स	नायब सुबेदार	देश राज	01.01.2006
-----	-----------------	--------------	---------	------------

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल

177	जेसी 593108के	नायब सुबेदार	गुलाम हसन	01.12.2005
178	जेसी 579682एक्स	नायब सुबेदार	रमेश चांद एस	01.11.2005

1 गोरेखा राईफल्स

179	जेसी 602376एक्स	नायब सुबेदार	गिरधर थापा	01.09.2005
-----	-----------------	--------------	------------	------------

8 गोरेखा राईफल्स

180	जेसी 623457एल	नायब सुबेदार	इन्द्रजीत थापा	01.09.2005
181	जेसी 633497एम	नायब सुबेदार	कमाल राज घले	01.11.2005
182	जेसी 623504के	नायब सुबेदार	मान बहादुर थापा	01.12.2005
183	जेसी 623417के	नायब सुबेदार	मनी राज गुरंग	01.11.2005
184	जेसी 623485के	नायब सुबेदार	पथा बहादुर मगर	01.09.2005
185	जेसी 623345एल	नायब सुबेदार	राम बहादुर भुजल	01.12.2005

सेना सेवा कोर दक्षिण

186	जेसी 642405के	नायब सुबेदार	ए राधाकृष्ण	01.12.2005
187	जेसी 662581एच	नायब सुबेदार	बाबन प्रसाद तिवारी	01.12.2005
188	जेसी 642973पी	नायब सुबेदार	बुधी बल्लभ	01.01.2006
189	जेसी 662101एन	नायब सुबेदार	जनार्दन सिंह	01.12.2005
190	जेसी 641913एन	नायब सुबेदार	जितेन्द्रा नाइक	01.09.2005
191	जेसी 622461एच	नायब सुबेदार	करादे सी लक्ष्मन	01.09.2005
192	जेसी 641851वाइ	नायब सुबेदार	कै. वाइ कै.	01.09.2005
193	जेसी 662519डब्ल्यू	नायब सुबेदार	कै. अनन्त बी	01.01.2006
194	जेसी 641926एल	नायब सुबेदार	कृष्णा पाल वर्मा	01.10.2005
195	जेसी 662670एफ	नायब सुबेदार	मधु मोहान्न टी	01.11.2005
196	जेसी 642522पी	नायब सुबेदार	एम दास	01.01.2006
197	जेसी 662755एक्स	नायब सुबेदार	मोहम्मद आइ	01.09.2005
198	जेसी 642966वाइ	नायब सुबेदार	मोहन सिंह पठानिया	01.10.2005
199	जेसी 662103वाइ	नायब सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.12.2005
200	जेसी 662938एन	नायब सुबेदार	राम अवतार	01.11.2005
201	जेसी 662630ए	नायब सुबेदार	राम कृष्णा डी.	01.10.2005
202	जेसी 642970एफ	नायब सुबेदार	रमेश चांद	01.11.2005
203	जेसी 662663एल	नायब सुबेदार	एस जेम्स	01.12.2005
204	जेसी 642490एक्स	नायब सुबेदार	एस एस	01.10.2005
205	जेसी 642431एल	नायब सुबेदार	एस थंगाराज	01.11.2005
206	जेसी 642724डब्ल्यू	नायब सुबेदार	शाली पांडा जस	01.01.2006
207	जेसी 662683वाइ	नायब सुबेदार	शम्भू दयाल त्रिपाठी	01.11.2005
208	जेसी 642453के	नायब सुबेदार	शिंदे शाम राव तुकाराम	01.11.2005
209	जेसी 662701डब्ल्यू	नायब सुबेदार	श्याम सुंदर प्रसाद शाह	01.11.2005
210	जेसी 662099एफ	नायब सुबेदार	सुरेंद्र कुमार शर्मा	01.12.2005
211	जेसी 642343पी	नायब सुबेदार	विजया कुमार वी एस	01.12.2005

सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

212	जेसी	680637एम	नायब रिसालदार	अबधेश कुमार सिंह	01.01.2006
213	जेसी	680495ए	नायब रिसालदार	आलोक कुमार चकबर्ती	01.10.2005
214	जेसी	680644एच	नायब रिसालदार	बाला कृष्णन के.	01.10.2005
215	जेसी	680607पी	नायब रिसालदार	बीएस आर	01.11.2005
216	जेसी	680556एम	नायब रिसालदार	चिन्नैया	01.10.2005
217	जेसी	680472वाइ	नायब रिसालदार	धन राम	01.09.2005
218	जेसी	680589एक्स	नायब रिसालदार	जी. वीरईया	01.11.2005
219	जेसी	680615एन	नायब रिसालदार	जगदीश प्रसाद	01.09.2005
220	जेसी	680586के.	नायब रिसालदार	नेत राम	01.10.2005
221	जेसी	680610पी	नायब रिसालदार	राम शाकाहारी शर्मा	01.10.2005
222	जेसी	680604एफ	नायब रिसालदार	सिया राम यादव	01.11.2005
223	जेसी	680628के.	नायब रिसालदार	श्री कृष्णन मिश्रा	01.11.2005
224	जेसी	680636के.	नायब रिसालदार	यू एम के.	01.12.2005

सेना चिकित्सा कोर

225	जेसी	693016एम	नायब सुबेदार	अशोक कुमार श्रीवास्तव	01.10.2005
226	जेसी	693015के.	नायब सुबेदार	डी. कुमार	01.10.2005
227	जेसी	693994एन	नायब सुबेदार	दिनेश चंद्र	01.12.2005
228	जेसी	694402एल	नायब सुबेदार	जगन्नाथ सिंह	01.09.2005
229	जेसी	693761एम	नायब सुबेदार	के. रामामूर्ति	01.11.2005
230	जेसी	693339पी	नायब सुबेदार	लाल चांद मोर्या	01.12.2005
231	जेसी	693020पी	नायब सुबेदार	महा सिंह	01.01.2006
232	जेसी	693303डब्ल्यू	नायब सुबेदार	मेहर सिंह खोखर	01.10.2005
233	जेसी	694024एक्स	नायब सुबेदार	राजन पीजी.	01.12.2005
234	जेसी	693993एल	नायब सुबेदार	राजेंद्र कुमार उपाध्याय	01.01.2006
235	जेसी	693617एक्स	नायब सुबेदार	राम दास मंडल	01.08.2005
236	जेसी	694325एफ	नायब सुबेदार	राम नरेश वर्मा	01.10.2005
237	जेसी	693674वाइ	नायब सुबेदार	ऋषिकान्त उपाध्याय	01.10.2005
238	जेसी	694373एफ	नायब सुबेदार	एस सिंह	01.10.2005
239	जेसी	694081वाइ	नायब सुबेदार	श्री कुमारन नायर के.	01.09.2005
240	जेसी	693616पी	नायब सुबेदार	सुभास चंद्रा गिरि	01.09.2005
241	जेसी	694045एन	नायब सुबेदार	तमिलारसन आर	01.10.2005
242	जेसी	693301एल	नायब सुबेदार	त्रिलोक सिंह के.	01.10.2005
243	जेसी	693044वाइ	नायब सुबेदार	वेद राम शाक्य	01.10.2005

सेना आयुध कोर

244	जेसी	726247एल	नायब सुबेदार	अशोक कुमार उपाध्याय	01.12.2005
245	जेसी	725114एच	नायब सुबेदार	हुकम सिंह	01.01.2006
246	जेसी	726143के.	नायब सुबेदार	कुंवर राव	01.12.2005
247	जेसी	725166वाइ	नायब सुबेदार	नेताई मोन्डल	01.09.2005
248	जेसी	726105एन	नायब सुबेदार	प्रेम चांद	01.01.2006
249	जेसी	726153एन	नायब सुबेदार	पूरन बहादुर चेतरी	01.10.2005
250	जेसी	726144एम	नायब सुबेदार	राम फल के.	01.12.2005
251	जेसी	725183वाइ	नायब सुबेदार	शिवाजी राम	01.12.2005
252	जेसी	726134एच	नायब सुबेदार	विजय कुमार	01.10.2005

इलेक्ट्रॉनिकल एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

253	जेसी	757943के.	नायब सुबेदार	आशीस कुमार कुंडू	01.10.2005
254	जेसी	752962एल	नायब सुबेदार	बरेन्द्र कुमार नायक	01.10.2005
255	जेसी	757296पी	नायब सुबेदार	सी चंद्रा बालन	01.11.2005
256	जेसी	756171एल	नायब सुबेदार	देव नंदन मिश्रा	01.09.2005
257	जेसी	758295वाइ	नायब सुबेदार	किशोरी मोहन दाश	01.09.2005
258	जेसी	758293एन	नायब सुबेदार	एम नाबा किशोर सिंघा	01.12.2005
259	जेसी	756964एन	नायब सुबेदार	प्रेम पोल	01.10.2005
260	जेसी	754814वाइ	नायब सुबेदार	राजेन कुमार प्रधान	01.10.2005
261	जेसी	756213एम	नायब सुबेदार	राम प्रकाश	01.10.2005

सेना शिक्षा कोर

262	जेसी	802983ए	नायब सुबेदार	ब्रज बिहारी सिंघा	01.10.2005
-----	------	---------	--------------	-------------------	------------

रिमाउन्ट एवं वेबनरी कोर

263	जेसी	797284एच	नायब रिसालदार	बिहारी लाल	01.01.2006
-----	------	----------	---------------	------------	------------

सेना पुलिस कोर

264	जेसी	818791एम	नायब सुबेदार	सत्यवीर सिंह	01.11.2005
-----	------	----------	--------------	--------------	------------

सेना स्तारिक प्रशिक्षण कोर

265	जेसी	826117एक्स	नायब सुबेदार	हेम बहादुर राना	01.11.2005
-----	------	------------	--------------	-----------------	------------

पायोनिअर कोर

266	जेसी	829263एच	नायब सुबेदार	गुलजारी लाल	01.09.2005
267	जेसी	829235डब्ल्यू	नायब सुबेदार	राकेश कुमार द्विवेदी	01.09.2005

सेना डाक सेवा

268	जेसी	834371डब्ल्यू	नायब सुबेदार	राजशेखरन के.	01.09.2005
-----	------	---------------	--------------	--------------	------------

रक्षा सुरक्षा कोर

269	जेसी	841280पी	नायब सुबेदार	खुशाल सिंह	01.01.2006
270	जेसी	841663एफ	नायब सुबेदार	मोहिंदर सिंह	01.11.2005
271	जेसी	841415एल	नायब सुबेदार	महाबीर सिंह	01.11.2005
272	जेसी	841256वाई	नायब सुबेदार	रतन चंद	01.09.2005
273	जेसी	841123एच	नायब सुबेदार	शोभा सिंह	01.09.2005
274	जेसी	841193एफ	नायब सुबेदार	सुलखन राम	01.09.2005
275	जेसी	841090एच	नायब सुबेदार	जले सिंह	01.01.2005

[सं. बी/43432/आर डी-06/एजी/सीडब्ल्यू-2]

अनूप एस जामवाल, लै. जनरल, एडजुटेंट जनरल

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2006

No. 2(E) dated 26 January, 2006.—The President is pleased to grant honorary ranks to the undermentioned Honorary Lieutenants/JCOs on the eve of Republic Day 2006 on retirement under Para 179 of Regulations for the Army 1987 with effect from the dates shown against their names :—

TO BE HONORARY CAPTAINS**8 CAVALRY**

1	JC 239088P	RIS & HONY LT	HUSAN SINGH	01-09-2005
---	------------	------------------	-------------	------------

4 HORSE

2	JC 235867A	RIS MAJ & HONY LT	BALWINDER SINGH	01-11-2005
---	------------	----------------------	-----------------	------------

62 CAVALRY

3	JC 239334P	RIS & HONY LT	TARSEM SINGH	01-10-2005
---	------------	------------------	--------------	------------

63 CAVALRY

4	JC 237715X	RIS & HONY LT	BALDEV SINGH	01-12-2005
---	------------	------------------	--------------	------------

65 ARMOURED REGIMENT

5	JC 238065F	RIS & HONY LT	TELU RAM	01-10-2005
---	------------	------------------	----------	------------

66 ARMOURED REGIMENT

6	JC 236306X	RIS MAJ & HONY LT	JAWAHAR LAL	01-11-2005
---	------------	----------------------	-------------	------------

67 ARMOURED REGIMENT

7	JC 237891P	RIS & HONY LT	GIRDHARI LAL	01-10-2005
---	------------	------------------	--------------	------------

73 ARMOURED REGIMENT

8	JC 236377Y	RIS MAJ & HONY LT	DALBIR SINGH	01-10-2005
---	------------	----------------------	--------------	------------

9	JC 237150X	RIS MAJ & HONY LT	MANWAR KHAN KAYAM KHANI	01-10-2005
---	------------	----------------------	-------------------------	------------

10	JC 238223L	RIS & HONY LT	AKBAR KHAN	01-10-2005
----	------------	------------------	------------	------------

81 ARMOURED REGIMENT

11	JC 236217Y	RIS MAJ & HONY LT	RAM SINGH GURJAR	01-10-2005
----	------------	----------------------	------------------	------------

88 ARMoured REGIMENT

12	JC 239172P	RIS & HONY LT	JAGDISH SINGH	01-11-2005
----	------------	------------------	---------------	------------

90 ARMoured REGIMENT

13	JC 236273X	RIS MAJ & HONY LT	BEG RAJ SAINI	01-12-2005
----	------------	----------------------	---------------	------------

44 ARMoured REGIMENT

14	JC 236635N	RIS & HONY LT	OM PARKASH	01-09-2005
----	------------	------------------	------------	------------

48 ARMoured REGIMENT

15	JC 237996Y	RIS & HONY LT	LAXMAN SINGH	01-01-2006
----	------------	------------------	--------------	------------

6 ARMoured REGIMENT

16	JC 198830Y	RIS & HONY LT	ASARI BACHU BHAI VALJI	01-10-2005
----	------------	------------------	------------------------	------------

11 ARMoured REGIMENT

17	JC 236137F	RIS MAJ & HONY LT	RAM CHAND	01-10-2005
----	------------	----------------------	-----------	------------

19 ARMoured REGIMENT

18	JC 235844Y	RIS MAJ & HONY LT	FATEH SINGH	01-12-2005
----	------------	----------------------	-------------	------------

19	JC 235843W	RIS MAJ & HONY LT	MUNI LAL YADAV	01-11-2005
----	------------	----------------------	----------------	------------

50 ARMoured REGIMENT

20	JC 236415K	RIS MAJ & HONY LT	MANJIT SINGH	01-01-2006
----	------------	----------------------	--------------	------------

52 ARMoured REGIMENT

21	JC 235773H	RIS MAJ & HONY LT	JAGTAR SINGH	01-11-2005
----	------------	----------------------	--------------	------------

REGIMENT OF ARTILLERY

22	JC 226958H	SUB MAJ & HONY LT	ABHEY SINGH	01-09-2005
----	------------	----------------------	-------------	------------

23	JC 201721A	SUB MAJ & HONY LT	AMIR SINGH	01-09-2005
----	------------	----------------------	------------	------------

24	JC 195074M	SUB MAJ & HONY LT	BRAHM SINGH	01-12-2005
----	------------	----------------------	-------------	------------

25	JC 193495W	SUB MAJ & HONY LT	CHANDGI RAM	01-09-2005
----	------------	----------------------	-------------	------------

26	JC 163846L	SUB MAJ & HONY LT	DEEN DAYAL GIRI	01-09-2005
----	------------	----------------------	-----------------	------------

27	JC 193486P	SUB MAJ & HONY LT	JAISHANKAR SINGH	01-10-2005
----	------------	----------------------	------------------	------------

28	JC 255204W	SUB MAJ & HONY LT	JAMMULLA CHINNA RAMAIAH	01-10-2005
----	------------	----------------------	-------------------------	------------

29	JC 259703H	SUB MAJ & HONY LT	JAYASOORIYAN NAIR N	01-09-2005
30	JC 213408F	SUB MAJ & HONY LT	JUGRAJ SINGH BRAR	01-01-2006
31	JC 186766A	SUB MAJ & HONY LT	K KESAVAN	01-10-2005
32	JC 208753L	SUB MAJ & HONY LT	KARTAR SINGH	01-11-2005
33	JC 203549H	SUB MAJ & HONY LT	LAXMAN RAM MEENA	01-09-2005
34	JC 186537P	SUB MAJ & HONY LT	MAKHAN SINGH	01-10-2005
35	JC 223601F	SUB MAJ & HONY LT	OM PARKASH	01-09-2005
36	JC 225601A	SUB MAJ & HONY LT	PARAS RAM	01-01-2006
37	JC 208778X	SUB MAJ & HONY LT	PURUSHOTHAMAN B	01-01-2006
38	JC 208776M	SUB MAJ & HONY LT	RADHA KISHAN	01-01-2006
39	JC 198742H	SUB MAJ & HONY LT	RAJ KUMAR	01-11-2005
40	JC 203894W	SUB MAJ & HONY LT	RAJINDER SINGH JAMWAL	01-12-2005
41	JC 199116L	SUB MAJ & HONY LT	SASIDHARAN NAIR V	01-10-2005
42	JC 197940F	SUB MAJ & HONY LT	SATYA NARAIN YADAVA	01-01-2006
43	JC 088420A	SUB MAJ & HONY LT	SHATROSHAN LAL SHUKLA	01-01-2006
44	JC 211875A	SUB MAJ & HONY LT	SURESH KUMAR	01-12-2005
45	JC 201258K	SUB MAJ & HONY LT	VEER SINGH YADAV	01-09-2005
46	JC 260580N	SUB & HONY LT	AMAR PAL SINGH	01-12-2005
47	JC 256513L	SUB & HONY LT	AMARJIT SINGH	01-10-2005
48	JC 225943N	SUB & HONY LT	ARJUN ANAND RAO GOTMARE	01-11-2005
49	JC 264557X	SUB & HONY LT	BAHADUR SINGH	01-10-2005
50	JC 262297Y	SUB & HONY LT	BEERENDRA SINGH	01-01-2006

51	JC	226608W	SUB & HONY LT	BHANWAR LAL RENIWAL	01-01-2006
52	JC	260946A	SUB & HONY LT	BHUPINDER KUMAR	01-10-2005
53	JC	257713N	SUB & HONY LT	BINOD KUMAR PANDEY	01-12-2005
54	JC	259470M	SUB & HONY LT	BRIJ RAJ	01-10-2005
55	JC	261294Y	SUB & HONY LT	CHERIAN K C	01-09-2005
56	JC	264479L	SUB & HONY LT	DALBIR SINGH	01-01-2006
57	JC	258623Y	SUB & HONY LT	FAGGAN SINGH JAT	01-09-2005
58	JC	261497H	SUB & HONY LT	GURMAIL SINGH BHARAJ	01-10-2005
59	JC	260891F	SUB & HONY LT	JAGDISH PARASAD	01-09-2005
60	JC	255629P	SUB & HONY LT	JANAK RAJ	01-10-2005
61	JC	259954M	SUB & HONY LT	JAWALA CHAND GULERIA	01-09-2005
62	JC	262754F	SUB & HONY LT	KAILASH SINGH	01-12-2005
63	JC	257994P	SUB & HONY LT	KOMAL SINGH	01-12-2005
64	JC	256014W	SUB & HONY LT	KRISHAN LAL	01-01-2006
65	JC	262519H	SUB & HONY LT	KRISHNA BILASH MONDAL	01-11-2005
66	JC	260093N	SUB & HONY LT	LAL CHAND	01-10-2005
67	JC	260582Y	SUB & HONY LT	LAL SINGH SAMANT	01-10-2005
68	JC	257381P	SUB & HONY LT	LALA RAM	01-11-2005
69	JC	263491A	SUB & HONY LT	MAHESH KUMAR	01-11-2005
70	JC	257987Y	SUB & HONY LT	MANJIT SINGH	01-09-2005
71	JC	259748H	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-12-2005
72	JC	260601Y	SUB & HONY LT	MOHAR SINGH	01-01-2006

73	JC 261568Y	SUB & HONY LT	PATIL DHANAJI VISHNU	01-01-2006
74	JC 258811A	SUB & HONY LT	RAJ MAL SEOHIA	01-10-2005
75	JC 261543M	SUB & HONY LT	RAJENDER PARSHAD	01-10-2005
76	JC 259522X	SUB & HONY LT	RAJENDRA PRASAD SINGH	01-10-2005
77	JC 261121F	SUB & HONY LT	RAJENDRA PRASAD YADAV	01-10-2005
78	JC 262495K	SUB & HONY LT	RAJINDER SINGH	01-10-2005
79	JC 263223W	SUB & HONY LT	RATTAN LAL	01-10-2005
80	JC 225409W	SUB & HONY LT	RAVINDER CHAND KATOCH	01-10-2005
81	JC 259162M	SUB & HONY LT	RAVINDER SINGH	01-10-2005
82	JC 255804Y	SUB & HONY LT	SATYA PAL	01-11-2005
83	JC 258131A	SUB & HONY LT	SHINDE DIGAMBAR MURLIDHAR	01-09-2005
84	JC 258740K	SUB & HONY LT	SHISH PAL SINGH RANA	01-11-2005
85	JC 256510X	SUB & HONY LT	SURJIT SINGH	01-09-2005
86	JC 262022L	SUB & HONY LT	TARSEM SINGH	01-01-2006
87	JC 214919X	SUB & HONY LT	TIKU RAM JAT	01-11-2005

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

88	JC 200171W	SUB MAJ & HONY LT	BALJIT SINGH	01-09-2005
89	JC 223253L	SUB MAJ & HONY LT	DALIP SINGH	01-09-2005
90	JC 223277P	SUB MAJ & HONY LT	DAYA NAND	01-09-2005
91	JC 175583K	SUB MAJ & HONY LT	LILADHAR KESHAO WARADE	01-01-2006
92	JC 255494Y	SUB MAJ & HONY LT	S DEO PATI TRIPATHI	01-09-2005
93	JC 190737H	SUB MAJ & HONY LT	SURINDER PAL SINGH	01-11-2005
94	JC 256952Y	SUB MAJ & HONY LT	VISHRAM SINGH	01-01-2006

95	JC 214999A	SUB & HONY LT	AMAR SINGH	01-10-2005
96	JC 296032F	SUB & HONY LT	ARVIND	01-01-2006
97	JC 296291K	SUB & HONY LT	DHARAM PAL	01-10-2005
98	JC 829130M	SUB & HONY LT	DULAL CHANDRA BORAH	01-01-2006
99	JC 296726F	SUB & HONY LT	G MANI	01-10-2005
100	JC 256392P	SUB & HONY LT	KAILASH SINGH RAJPUT	01-01-2006
101	JC 297073X	SUB & HONY LT	KRISHAN DEV SHARMA	01-11-2005
102	JC 214979M	SUB & HONY LT	RAM ASRA	01-10-2005
103	JC 256188W	SUB & HONY LT	SAREB DIYAL	01-11-2005
104	JC 296346H	SUB & HONY LT	SUDERSHAN KUMAR	01-01-2006

MADRAS ENGINEER GROUP

105	JC 182640H	SUB MAJ & HONY LT	DANIEL P V	01-09-2005
106	JC 305178Y	SUB MAJ & HONY LT	DNYANDEV POWAR	01-12-2005
107	JC 191242H	SUB MAJ & HONY LT	KUPPAN S	01-11-2005
108	JC 191272A	SUB MAJ & HONY LT	M RAMESH RAO	01-11-2005
109	JC 305170M	SUB MAJ & HONY LT	MOHAMMAD USAFF	01-01-2006
110	JC 207506L	SUB MAJ & HONY LT	SAMUEL JOHN S	01-10-2005
111	JC 305172X	SUB MAJ & HONY LT	SYED MEERAN M	01-11-2005
112	JC 219459L	SUB MAJ & HONY LT	UNNIKRISHNAN K T	01-11-2005
113	JC 305167N	SUB MAJ & HONY LT	VENGARUGU KRISHNA REDDY	01-11-2005
114	JC 306086Y	SUB & HONY LT	BALAKRISHNAN P	01-01-2006
115	JC 305683F	SUB & HONY LT	DHARMAN G	01-11-2005
116	JC 305947X	SUB & HONY LT	KUNHIRAMAN NAIR E	01-01-2006

117	JC 306773P	SUB & HONY LT	P TAMILKUMARAN	01-01-2006
118	JC 305684K	SUB & HONY LT	PASUPATHY J	01-12-2005
119	JC 306524W	SUB & HONY LT	PREAMNATH S	01-09-2005
120	JC 305422N	SUB & HONY LT	RAHAMATHULLA M	01-09-2005
121	JC 306027M	SUB & HONY LT	RAJENDRAN PILLAI K	01-12-2005
122	JC 306593M	SUB & HONY LT	RAVEENDRAN NAIR B	01-12-2005
123	JC 306094X	SUB & HONY LT	S DURAI RAJ	01-12-2005
124	JC 306230H	SUB & HONY LT	S OBULESU	01-01-2006
125	JC 305362K	SUB & HONY LT	SHAIKKHAJA MOINUDDIN	01-09-2005

BENGAL ENGINEER GROUP

126	JC 210403X	SUB MAJ & HONY LT	BHADRINATHAN M	01-11-2005
127	JC 199831N	SUB MAJ & HONY LT	BHINDER SINGH	01-01-2006
128	JC 210546X	SUB MAJ & HONY LT	DHIRENDRA KUMAR DAS	01-11-2005
129	JC 199720W	SUB MAJ & HONY LT	DIWAKAR PRASAD KOTNALA	01-11-2005
130	JC 199832W	SUB MAJ & HONY LT	GAMDOOR SINGH	01-09-2005
131	JC 199705F	SUB MAJ & HONY LT	LAL SINGH	01-09-2005
132	JC 210393Y	SUB MAJ & HONY LT	PRAGAT SINGH	01-11-2005
133	JC 326532W	SUB & HONY LT	BADAR SINGH	01-10-2005
134	JC 326726Y	SUB & HONY LT	BAHADUR SINGH NAYAL	01-09-2005
135	JC 327282M	SUB & HONY LT	BANARASI DAS	01-09-2005
136	JC 197113Y	SUB & HONY LT	BHARAT SINGH THAPA	01-09-2005
137	JC 326583K	SUB & HONY LT	BIHUPENDRA NARAYAN SINGH	01-09-2005
138	JC 326938K	SUB & HONY LT	BIRENDER SINGH NEGI	01-01-2006

139	JC 326939M	SUB & HONY LT	CHANDRA BHAN SINGH	01-09-2005
140	JC 326990M	SUB & HONY LT	CHITRA SEN SINGH	01-10-2005
141	JC 327210H	SUB & HONY LT	DEVENDRA BAHADUR SINGH	01-10-2005
142	JC 327976M	SUB & HONY LT	GOPAL SINGH	01-01-2006
143	JC 326562N	SUB & HONY LT	GURBAX SINGH	01-09-2005
144	JC 327981X	SUB & HONY LT	JANARDAN PRASAD	01-10-2005
145	JC 326499K	SUB & HONY LT	KALYAN CHAND RAJWAR	01-09-2005
146	JC 326786N	SUB & HONY LT	KALYAN SINGH	01-01-2006
147	JC 327208L	SUB & HONY LT	MAHADEV PRASAD MALLAH	01-12-2005
148	JC 224816M	SUB & HONY LT	MILKH RAJ	01-01-2006
149	JC 326839F	SUB & HONY LT	MOHAN RAM	01-12-2005
150	JC 327945M	SUB & HONY LT	NARAYAN SINGH	01-09-2005
151	JC 326676Y	SUB & HONY LT	OM PRAKASH	01-01-2006
152	JC 328070N	SUB & HONY LT	PABITRA KUMAR MOHANTY	01-01-2006
153	JC 326592L	SUB & HONY LT	RAJ KANWAR	01-10-2005
154	JC 326582F	SUB & HONY LT	RAM PRAKASH SINGH	01-09-2005
155	JC 326715M	SUB & HONY LT	RAVINDRA SINGH	01-10-2005

BOMBAY ENGINEER GROUP

156	JC 200047P	SUB MAJ & HONY LT	ARJUN SHARMA	01-11-2005
157	JC 209642A	SUB MAJ & HONY LT	BHAGAT SINGH BISHT	01-10-2005
158	JC 207911H	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH PRASAD DWIVEDI	01-11-2005
159	JC 197255W	SUB MAJ & HONY LT	JOGA SINGH	01-10-2005
160	JC 207916F	SUB MAJ & HONY LT	KULDIP SINGH	01-11-2005

161	JC 200094M	SUB MAJ & HONY LT	MADAN LAL	01-09-2005
162	JC 197254N	SUB MAJ & HONY LT	MOHAMAD YUSUF	01-09-2005
163	JC 200101X	SUB MAJ & HONY LT	MOHD NASIM KHAN	01-11-2005
164	JC 207908H	SUB MAJ & HONY LT	PIARA LAL	01-09-2005
165	JC 207973H	SUB MAJ & HONY LT	RANJIT SINGH	01-10-2005
166	JC 200108F	SUB MAJ & HONY LT	ROJDAR KHAN	01-09-2005
167	JC 210803K	SUB MAJ & HONY LT	SUBHASEKHARA RAO CHILAKAPATI	01-10-2005
168	JC 348222L	SUB & HONY LT	ABDUL SAEED	01-10-2005
169	JC 225040W	SUB & HONY LT	ASHOK KASHIRAM CHAUGULE	01-12-2005
170	JC 347548P	SUB & HONY LT	BASANT SINGH	01-12-2005
171	JC 348570M	SUB & HONY LT	BENEDICT TIRKEY	01-01-2006
172	JC 347939A	SUB & HONY LT	JAGTAR SINGH	01-01-2006
173	JC 348229P	SUB & HONY LT	MAHAN SINGH	01-10-2005
174	JC 348072A	SUB & HONY LT	MALAGEKAR MAHADEV	01-01-2006
175	JC 347748L	SUB & HONY LT	MANSUR AHAMMED	01-09-2005
176	JC 347140W	SUB & HONY LT	NACIHATTAR SINGH	01-10-2005
177	JC 347439H	SUB & HONY LT	PURAN SINGH	01-09-2005
178	JC 348137H	SUB & HONY LT	SURJIT SINGH	01-12-2005

CORPS OF SIGNALS

179	JC 192097H	SUB MAJ & HONY LT	APPADORAI JAYAPRAKASH	01-09-2005
180	JC 188353P	SUB MAJ & HONY LT	BANBARI LAL	01-01-2006
181	JC 207329W	SUB MAJ & HONY LT	BHOI KESHAV BABU	01-01-2006
182	JC 368013P	SUB MAJ & HONY LT	CHIN BAHADUR THAPA	01-11-2005

183	JC 367653M	SUB MAJ & HONY LT	DEBENDRA NATH PANDA	01-09-2005
184	JC 367007P	SUB MAJ & HONY LT	DHARAMVIR SINGH	01-09-2005
185	JC 367828K	SUB MAJ & HONY LT	DINANATH MISHRA	01-11-2005
186	JC 83654A	SUB MAJ & HONY LT	HANS RAJ PRASAD TRIPATHI	01-11-2005
187	JC 367826Y	SUB MAJ & HONY LT	HARKESH SINGH	01-11-2005
188	JC 368280W	SUB MAJ & HONY LT	HIRDESH KUMAR BAJPAI	01-12-2005
189	JC 367604K	SUB MAJ & HONY LT	HUKAM CHAND	01-10-2005
190	JC 188196N	SUB MAJ & HONY LT	INDER LAL SHARMA	01-01-2006
191	JC 367335H	SUB MAJ & HONY LT	JOSEPH FRANCIS	01-10-2005
192	JC 367051Y	SUB MAJ & HONY LT	KAPUR CHAND GUPTA	01-01-2006
193	JC 188188P	SUB MAJ & HONY LT	LAL SINGH	01-11-2005
194	JC 367822H	SUB MAJ & HONY LT	MAHENDRA SINGH	01-11-2005
195	JC 371082W	SUB MAJ & HONY LT	MOHAMMAD SALAHUDDIN KHAN	01-12-2005
196	JC 368229W	SUB MAJ & HONY LT	OM PRAKASH	01-01-2006
197	JC 196125F	SUB MAJ & HONY LT	PADMANABHAN P	01-10-2005
198	JC 192118N	SUB MAJ & HONY LT	PARSEM SINGH	01-12-2005
199	JC 188352M	SUB MAJ & HONY LT	PREM PAUL	01-09-2005
200	JC 368228N	SUB MAJ & HONY LT	PURAN SINGH	01-01-2006
201	JC 188187M	SUB MAJ & HONY LT	RAJ KARAN KAUSHIK	01-11-2005
202	JC 367009A	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDRA SINGH NEGI	01-10-2005
203	JC 207327L	SUB MAJ & HONY LT	RAM SHARAN SINGH KUSHWAHA	01-01-2006
204	JC 368054Y	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH NARAIN SINGH	01-12-2005

205	JC 368051L	SUB MAJ & HONY LT	SANT RAM	01-01-2006
206	JC 367857Y	SUB MAJ & HONY LT	SANTOKH SINGH	01-12-2005
207	JC 368055F	SUB MAJ & HONY LT	SATPAL KAUSHAL	01-01-2006
208	JC 367800K	SUB MAJ & HONY LT	SHANKER PRASAD SINGH	01-10-2005
209	JC 200655W	SUB MAJ & HONY LT	SHILK RAM KHATRI	01-11-2005
210	JC 367823L	SUB MAJ & HONY LT	SOM PRAKASH GUPTA	01-12-2005
211	JC 368060M	SUB MAJ & HONY LT	SRIPAL SINGH YADAV	01-01-2006
212	JC 188354X	SUB MAJ & HONY LT	SUBHASH CHANDRA SHARMA	01-10-2005
213	JC 197667X	SUB MAJ & HONY LT	SURESH CHANDRA	01-09-2005
214	JC 367801M	SUB MAJ & HONY LT	TARLOK SINGH	01-10-2005
215	JC 83653X	SUB MAJ & HONY LT	UNNE MISHRA	01-10-2005
216	JC 368436H	SUB MAJ & HONY LT	YADAV SAMBHAJI NARAYAN RAO	01-12-2005
217	JC 371048W	SUB & HONY LT	AKHILESWAR SINGH	01-09-2005
218	JC 371540F	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-01-2006
219	JC 372354X	SUB & HONY LT	BAHADUR SINGH	01-12-2005
220	JC 371244W	SUB & HONY LT	BALJIT SINGH	01-11-2005
221	JC 369328L	SUB & HONY LT	BASANT LAL	01-12-2005
222	JC 371493P	SUB & HONY LT	BHIM PRASAD SINGH	01-09-2005
223	JC 369455A	SUB & HONY LT	K SREEKUMARAN NAIR	01-01-2006
224	JC 370567M	SUB & HONY LT	KAMLESH CHANDRA AGNIHOTARI	01-01-2006
225	JC 371725H	SUB & HONY LT	MAHABIR PRASAD	01-10-2005
226	JC 371394M	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH SAUN BISHT	01-11-2005

227	JC 369780A	SUB & HONY LT	NRIPENDRA NATH LASKAR	01-11-2005
228	JC 370762K	SUB & HONY LT	RAJAN POMMALARI KOROTH	01-10-2005
229	JC 370882H	SUB & HONY LT	RAMESH LAL SAINI	01-10-2005
230	JC 371064N	SUB & HONY LT	SANJAY VINAYAK DESHPANDE	01-11-2005
231	JC 370330P	SUB & HONY LT	SATYA PAL	01-10-2005
232	JC 368921X	SUB & HONY LT	SHAJI A	01-10-2005

THE BRIGADE OF GUARDS

233	JC 188599N	SUB MAJ & HONY LT	BIRBAL SINGH	01-09-2005
234	JC 184238X	SUB MAJ & HONY LT	HARI SINGH	01-09-2005
235	JC 402838P	SUB & HONY LT	ATUL CHANDRA BORAH	01-10-2005
236	JC 402637W	SUB & HONY LT	BASHIR KHAN	01-12-2005
237	JC 402819K	SUB & HONY LT	DIWAN SINGH KUNWAR	01-09-2005
238	JC 402447K	SUB & HONY LT	I BABASANA SINGHA	01-09-2005
239	JC 402649L	SUB & HONY LT	KUBER BABU SINGHA	01-10-2005
240	JC 402815N	SUB & HONY LT	PRABHU RAM GODARA	01-10-2005
241	JC 402227A	SUB & HONY LT	ROSHAN LAL BHARMORIA	01-10-2005
242	JC 402695A	SUB & HONY LT	SHIV CHARAN	01-10-2005
243	JC 402397K	SUB & HONY LT	SURENDRA PAL	01-12-2005

THE PARACHUTE REGIMENT

244	JC 412004W	SUB MAJ & HONY LT	PYAR CHAND	01-12-2005
245	JC 210879K	SUB MAJ & HONY LT	SATVIR SINGH	01-11-2005
246	JC 412290H	SUB & HONY LT	BAIJNATH SINGH	01-01-2006
247	JC 412297M	SUB & HONY LT	BHAG CHANDRA SINGH	01-11-2005

248	JC 412407W	SUB & HONY LT	ONKAR CHAND RANA	01-09-2005
249	JC 412289N	SUB & HONY LT	RAGHUBIR SINGH	01-09-2005
250	JC 412448A	SUB & HONY LT	RAKSHBIR SINGH	01-09-2005
251	JC 412178W	SUB & HONY LT	RAMU RAM	01-11-2005
252	JC 412435H	SUB & HONY LT	SATYA PRASAD	01-09-2005

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

253	JC 201543H	SUB MAJ & HONY LT	DHARAM SINGH	01-09-2005
254	JC 206659H	SUB MAJ & HONY LT	GULZAR SINGH	01-09-2005
255	JC 206619F	SUB MAJ & HONY LT	GURBACHAN SINGH	01-09-2005
256	JC 225081A	SUB MAJ & HONY LT	KARTAR SINGH	01-10-2005
257	JC 206638M	SUB MAJ & HONY LT	NARENDRA SINGH GURUNG	01-12-2005
258	JC 418290Y	SUB & HONY LT	GURMIT SINGH	01-01-2006
259	JC 829037L	SUB & HONY LT	HIMMAT SINGH	01-10-2005
260	JC 419009X	SUB & HONY LT	HOSHIAR SINGH	01-01-2006
261	JC 211592Y	SUB & HONY LT	INDER SINGH, SM	01-10-2005
262	JC 225083L	SUB & HONY LT	RAJINDER KUMAR THAKUR	01-09-2005
263	JC 419177W	SUB & HONY LT	VISHANU NARAYAN ACHARYA	01-01-2006

THE PUNJAB REGIMENT

264	JC 208025L	SUB MAJ & HONY LT	AVTAR SINGH	01-12-2005
265	JC 194518Y	SUB MAJ & HONY LT	SAT PAL	01-10-2005
266	JC 428063M	SUB & HONY LT	AMAR CHAND VERMA	01-11-2005
267	JC 428802N	SUB & HONY LT	AVTAR SINGH	01-01-2006
268	JC 428721N	SUB & HONY LT	BALAK RAM SHARMA	01-09-2005

269	JC 218402K	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH	01-01-2006
270	JC 428866Y	SUB & HONY LT	BANSI RAM DOGRA	01-09-2005
271	JC 428553A	SUB & HONY LT	DHIAN SINGH	01-10-2005
272	JC 428865W	SUB & HONY LT	GULER CHAND RANA	01-09-2005
273	JC 428719W	SUB & HONY LT	INDERJIT SINGH	01-11-2005
274	JC 428344H	SUB & HONY LT	KARAM CHAND	01-09-2005
275	JC 428375H	SUB & HONY LT	KASHMIR SINGH	01-01-2006
276	JC 428869M	SUB & HONY LT	KEWAL SINGH	01-11-2005
277	JC 428619L	SUB & HONY LT	KISHAN SINGH KATOCH	01-10-2005
278	JC 428492N	SUB & HONY LT	KULDIP CHAND	01-12-2005
279	JC 428373X	SUB & HONY LT	RAGHBIR SINGH	01-09-2005
280	JC 428903F	SUB & HONY LT	RAM LAL	01-09-2005
281	JC 428831H	SUB & HONY LT	RAM MEHAR	01-11-2005
282	JC 428499X	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH KONDLE	01-09-2005
283	JC 428906P	SUB & HONY LT	SUBHASH CHAND SHUKLA	01-01-2006
284	JC 428890P	SUB & HONY LT	TILAK RAJ SHARMA	01-11-2005

THE MADRAS REGIMENT

285	J1 72549Y	SUB MAJ & HONY LT	R NAGARAJAN	01-09-2005
286	JC 224182F	SUB MAJ & HONY LT	VIJAYAN K	01-10-2005
287	JC 438219M	SUB & HONY LT	CHANDRAN KUNDATHIL	01-01-2006
288	JC 438192A	SUB & HONY LT	KENCHIAPPA BAPU YAMAGAR	01-11-2005
289	JC 438017L	SUB & HONY LT	L SERMALAI	01-11-2005
290	JC 438073K	SUB & HONY LT	MALLIKARJUN MAHALANK	01-11-2005

291	JC 438618W	SUB & HONY LT	NAGARAJULU A	01-09-2005
292	JC 438314Y	SUB & HONY LT	PRABHAKARAN T	01-11-2005
293	JC 193662F	SUB & HONY LT	RAJENDRAN NAIR T K	01-12-2005
294	JC 220899L	SUB & HONY LT	RONANKI KURMANAIKULU	01-01-2006
295	JC 438317M	SUB & HONY LT	SUGUNAKUMARAN C	01-11-2005

THE GRENADIERS

296	JC 168530H	SUB MAJ & HONY LT	FATEH SINGH	01-11-2005
297	JC 183400X	SUB MAJ & HONY LT	MAHINDRA SINGH SHEKHAWAT	01-12-2005
298	JC 220143L	SUB MAJ & HONY LT	PRITAM CHAND	01-09-2005
299	JC 448964A	SUB & HONY LT	ALAM ALI	01-12-2005
300	JC 448898H	SUB & HONY LT	BALEER SINGH	01-09-2005
301	JC 449192A	SUB & HONY LT	HARIHAR SINGH	01-01-2006
302	JC 448566Y	SUB & HONY LT	HARJIT SINGH PARIHAR	01-09-2005
303	JC 449109X	SUB & HONY LT	JAI DEV SINGH	01-09-2005
304	JC 448938Y	SUB & HONY LT	JAI SINGH	01-10-2005
305	JC 448679F	SUB & HONY LT	JOGINDER SINGH	01-09-2005
306	JC 448344K	SUB & HONY LT	KARIM KHAN	01-12-2005
307	JC 448703M	SUB & HONY LT	KAWAR PAL CHAUHAN	01-09-2005
308	JC 448194Y	SUB & HONY LT	KRIPAL SINGH	01-11-2005
309	JC 448946X	SUB & HONY LT	LAL KHAN	01-12-2005
310	JC 448812Y	SUB & HONY LT	OM PAL SINGH	01-09-2005
311	JC 448779M	SUB & HONY LT	PRITPAL SINGH, SC	01-10-2005
312	JC 448655X	SUB & HONY LT	PURAN CHAND BHARDWAI, SM	01-12-2005

313	JC 448411K	SUB & HONY LT	RAJ LAL	01-01-2006
314	JC 449173P	SUB & HONY LT	RAJENDER PRASAD MEENA	01-10-2005
315	JC 448972Y	SUB & HONY LT	RAJENDRA SINGH	01-12-2005
316	JC 449073K	SUB & HONY LT	REWAT KHAN	01-01-2006
317	JC 449037Y	SUB & HONY LT	ROMEL CHAND	01-10-2005
318	JC 448865X	SUB & HONY LT	ROOP LAL	01-11-2005
319	JC 449026M	SUB & HONY LT	SABBIR AHMED	01-11-2005
320	JC 448707H	SUB & HONY LT	UGAM SINGH	01-10-2005

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

321	JC 178237Y	SUB MAJ & HONY LT	C MANJE GOWDA	01-09-2005
322	JC 185504X	SUB MAJ & HONY LT	CHAVAN MAHADEO TULASHIRAM	01-12-2005
323	JC 181789X	SUB MAJ & HONY LT	CHIGARE ANANDA MARUTI	01-11-2005
324	JC 173161A	SUB MAJ & HONY LT	JIVABA KIVANDE	01-12-2005
325	JC 171844P	SUB MAJ & HONY LT	KOTULE SATWA MAROTI	01-11-2005
326	JC 167178X	SUB MAJ & HONY LT	MININ SHALU DISOZA	01-12-2005
327	JC 162274H	SUB MAJ & HONY LT	NAMDEO SHEDGE	01-10-2005
328	JC 458282H	SUB & HONY LT	HANUMANT BABURAO SHINDE	01-10-2005
329	JC 458670A	SUB & HONY LT	JADHAV BHANUDAS YASHWANT	01-12-2005
330	JC 458660W	SUB & HONY LT	PADATE BABU LAXMAN	01-12-2005
331	JC 184970A	SUB & HONY LT	PATIL VITOBA RAMA	01-11-2005
332	JC 458084X	SUB & HONY LT	RAMCHANDRA S R	01-09-2005
333	JC 458344X	SUB & HONY LT	YADAV AKARAM BAPU	01-10-2005

THE RAJPUTANA RIFLES

334	JC 167430L	SUB MAJ & HONY LT	AMAR SINGH	01-10-2005
335	JC 468587W	SUB & HONY LT	BHAGWAN SAHAI JAT	01-12-2005
336	JC 468570H	SUB & HONY LT	BIHARI LAL DHAWAN	01-11-2005
337	JC 468569N	SUB & HONY LT	BIR SINGH	01-09-2005
338	JC 468226X	SUB & HONY LT	DHAN SINGH	01-09-2005
339	JC 468456L	SUB & HONY LT	HAWA SINGH	01-12-2005
340	JC 468726P	SUB & HONY LT	INDRESH KUMAR	01-09-2005
341	JC 468993W	SUB & HONY LT	MAHA SINGH	01-10-2005
342	JC 468927N	SUB & HONY LT	PREM SINGH	01-11-2005
343	JC 468460N	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH MALIK	01-01-2006
344	JC 468445Y	SUB & HONY LT	RAM CHANDRA SINGH	01-01-2006
345	JC 468941A	SUB & HONY LT	RANBIR SINGH THAWAR	01-10-2005
346	JC 188461Y	SUB & HONY LT	SHREE NIWAS	01-11-2005

THE RAJPUT REGIMENT

347	JC 205112N	SUB MAJ & HONY LT	ATAR SINGH	01-11-2005
348	JC 205905W	SUB MAJ & HONY LT	BHANWAR SINGH GUJJAR	01-01-2006
349	JC 208060N	SUB MAJ & HONY LT	BIR SINGH	01-10-2005
350	JC 183444P	SUB MAJ & HONY LT	HARISH CHANDRA SINGH	01-09-2005
351	JC 220170P	SUB MAJ & HONY LT	INDERJIT	01-01-2006
352	JC 196224K	SUB MAJ & HONY LT	RAMPAL SINGH CHAUHAN	01-10-2005
353	JC 478884X	SUB & HONY LT	BHALLE RAM	01-09-2005
354	JC 478600H	SUB & HONY LT	BRIJPAL SINGH	01-11-2005

355	JC 478854A	SUB & HONY LT	DHARAM PAL SINGH	01-09-2005
356	JC 478632L	SUB & HONY LT	LAKHAN SINGH	01-12-2005
357	JC 478574M	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH	01-12-2005
358	JC 478469W	SUB & HONY LT	RAM BAHADUR MISRA	01-11-2005
359	JC 478048N	SUB & HONY LT	RAM DASS	01-09-2005
360	JC 478812N	SUB & HONY LT	RAM NIWAS	01-11-2005
361	JC 478580A	SUB & HONY LT	SARJIT SINGH	01-10-2005
362	JC 478788H	SUB & HONY LT	SUBHASH CHANDRA	01-10-2005
363	JC 478613A	SUB & HONY LT	SURENDRA SINGH TOMAR	01-11-2005
364	JC 478426F	SUB & HONY LT	TEJ PAL	01-09-2005

THE JAT REGIMENT

365	JC 199244H	SUB MAJ & HONY LT	CHANDGI RAM JAT	01-10-2005
366	JC 205576L	SUB MAJ & HONY LT	GAJRAJ SINGH YADAV	01-12-2005
367	JC 488760W	SUB & HONY LT	ATMA RAM JAT	01-11-2005
368	JC 488633F	SUB & HONY LT	BANWARI LAL	01-10-2005
369	JC 488128Y	SUB & HONY LT	CHHOTU RAM PUNIA	01-09-2005
370	JC 488748P	SUB & HONY LT	CHHOTU RAM TAKHAR	01-10-2005
371	JC 488569P	SUB & HONY LT	GANGA RAM JAT	01-11-2005
372	JC 488857F	SUB & HONY LT	JAI NARAYAN	01-11-2005
373	JC 488777K	SUB & HONY LT	JAIPAL SINGH	01-10-2005
374	JC 488841W	SUB & HONY LT	LILADHAR BORAIN	01-10-2005
375	JC 488412P	SUB & HONY LT	SULTAN SINGH	01-10-2005

THE SIKH REGIMENT

376	JC 205143N	SUB MAJ & HONY LT	ASSA SINGH	01-01-2006
377	JC 216562L	SUB MAJ & HONY LT	BHAGWANT SINGH	01-01-2006
378	JC 185775P	SUB MAJ & HONY LT	FAQIR SINGH	01-01-2006
379	JC 193770L	SUB MAJ & HONY LT	HARDIP SINGH	01-11-2005
380	JC 177984X	SUB MAJ & HONY LT	SATNAM SINGH	01-11-2005
381	JC 185007N	SUB MAJ & HONY LT	SUKHDEV SINGH	01-01-2006
382	JC 498443H	SUB & HONY LT	AMARJIT SINGH	01-09-2005
383	JC 498116X	SUB & HONY LT	AMRIK SINGH, S M	01-09-2005
384	JC 498617X	SUB & HONY LT	ANGREJ SINGH	01-11-2005
385	JC 498507H	SUB & HONY LT	BHAJAN SINGH, S M	01-10-2005
386	JC 498638N	SUB & HONY LT	BIKAR SINGH	01-10-2005
387	JC 498244P	SUB & HONY LT	DALJIT SINGH	01-10-2005
388	JC 498697A	SUB & HONY LT	DHARAM SINGH	01-09-2005
389	JC 498231X	SUB & HONY LT	JASWANT SINGH	01-10-2005
390	JC 498310M	SUB & HONY LT	JASWINDER SINGH	01-10-2005
391	JC 498296L	SUB & HONY LT	JIWAN SINGH	01-09-2005
392	JC 498696X	SUB & HONY LT	JOGINDER SINGH	01-09-2005
393	JC 498521P	SUB & HONY LT	KULJIT SINGH	01-10-2005
394	JC 498363L	SUB & HONY LT	LAL SINGH	01-11-2005
395	JC 498202H	SUB & HONY LT	SATNAM SINGH	01-10-2005
396	JC 498460H	SUB & HONY LT	SWARN SINGH	01-10-2005
397	JC 498509N	SUB & HONY LT	TARSEM SINGH	01-12-2005

THE SIKH LIGHT INFANTRY

398	JC 216573X	SUB MAJ & HONY LT	BAKSHISH SINGH BHATTI	01-10-2005
399	JC 508003L	SUB MAJ & HONY LT	HARBANS SINGH	01-12-2005
400	JC 508563X	SUB & HONY LT	DHARAM SINGH	01-12-2005
401	JC 508055F	SUB & HONY LT	JOGINDER SINGH, S M	01-01-2006
402	JC 204303W	SUB & HONY LT	MANGAL SINGH	01-01-2006
403	JC 508288H	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-12-2005
404	JC 508419H	SUB & HONY LT	SAWINDER SINGH	01-10-2005
405	JC 508045X	SUB & HONY LT	TARA SINGH	01-09-2005

THE DOGRA REGIMENT

406	JC 518150F	SUB MAJ & HONY LT	LEKH RAJ MANHAS	01-01-2006
407	JC 519007F	SUB & HONY LT	BAJAN SINGH	01-11-2005
408	JC 519232W	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-09-2005
409	JC 519421A	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	01-09-2005
410	JC 519014X	SUB & HONY LT	BISHAMBAR DASS	01-09-2005
411	JC 518964A	SUB & HONY LT	DES RAJ	01-11-2005
412	JC 518628N	SUB & HONY LT	DHARAM CHAND VERMA	01-11-2005
413	JC 519264Y	SUB & HONY LT	DHARAM SINGH	01-09-2005
414	JC 518933A	SUB & HONY LT	DHARUB CHAND	01-09-2005
415	JC 519572Y	SUB & HONY LT	GIAN CHAND	01-11-2005
416	JC 518809Y	SUB & HONY LT	JAGGATER SINGH	01-12-2005
417	JC 519244L	SUB & HONY LT	KAMAL KUMAR	01-09-2005
418	JC 518708L	SUB & HONY LT	LALIT KUMAR	01-11-2005

419	JC 519306A	SUB & HONY LT	OM PARKASH	01-12-2005
420	JC 519160X	SUB & HONY LT	PARKASH CHAND SHARMA	01-09-2005
421	JC 519394F	SUB & HONY LT	RAJINDER SINGH	01-09-2005
422	JC 519035N	SUB & HONY LT	RAMESH KUMAR SHARMA	01-09-2005
423	JC 519107M	SUB & HONY LT	RAVI PARKASH, SM	01-09-2005
424	JC 519252K	SUB & HONY LT	TILAK RAJ	01-09-2005
425	JC 519041F	SUB & HONY LT	WALAITI RAM NADDA	01-12-2005

THE GARHWAL RIFLES

426	JC 216862M	SUB MAJ & HONY LT	BHIM SINGH	01-10-2005
427	JC 193816H	SUB MAJ & HONY LT	DHANI RAM	01-01-2006
428	JC 220223H	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH PRASAD	01-10-2005
429	JC 211225M	SUB MAJ & HONY LT	RAGHUNATH SINGH	01-09-2005
430	JC 205990K	SUB MAJ & HONY LT	RAM PRASAD	01-09-2005
431	JC 528309P	SUB & HONY LT	BACHAN SINGH	01-10-2005
432	JC 528888M	SUB & HONY LT	BACHHI RAM	01-01-2006
433	JC 528558N	SUB & HONY LT	BALKRISHN	01-01-2006
434	JC 529044H	SUB & HONY LT	DHANI LAL	01-01-2006
435	JC 222740Y	SUB & HONY LT	NARINDRA SINGH	01-09-2005
436	JC 528613Y	SUB & HONY LT	NATHI SINGH RAWAT	01-01-2006
437	JC 528011L	SUB & HONY LT	SHYAM DUTT JOSHI	01-11-2005
438	JC 528498K	SUB & HONY LT	SOTE SINGH	01-11-2005
439	JC 529047W	SUB & HONY LT	SULTAN SINGH	01-09-2005
440	JC 528517K	SUB & HONY LT	UDAI SINGH	01-01-2006

THE KUMAON REGIMENT

441	JC 224455Y	SUB MAJ & HONY LT	BIKRAM SINGH	01-01-2006
442	JC 196558Y	SUB MAJ & HONY LT	RAM KUMAR SINGH RAJPUT	01-01-2006
443	JC 538634H	SUB & HONY LT	BACHE SINGH	01-01-2006
444	JC 538448M	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH YADAV	01-01-2006
445	JC 538264N	SUB & HONY LT	BHAGWAN SINGH	01-12-2005
446	JC 538940K	SUB & HONY LT	DARPAN SINGH	01-10-2005
447	JC 538916F	SUB & HONY LT	DENESH SARKI	01-10-2005
448	JC 538870K	SUB & HONY LT	DEV BAHADUR	01-09-2005
449	JC 538736Y	SUB & HONY LT	DIWAN SINGH BORA	01-09-2005
450	JC 538629X	SUB & HONY LT	DURGA SINGH	01-01-2006
451	JC 538898K	SUB & HONY LT	HARISH CHANDER KAPRI	01-09-2005
452	JC 538985X	SUB & HONY LT	JAGDISH CHANDRA	01-12-2005
453	JC 538746H	SUB & HONY LT	JAGDISH SINGH	01-01-2006
454	JC 538971X	SUB & HONY LT	JANAK BAHADUR CHAND	01-01-2006
455	JC 538452P	SUB & HONY LT	KALYAN SINGH RAUTELA	01-09-2005
456	JC 538698N	SUB & HONY LT	KARAN SINGH DHAMI	01-09-2005
457	JC 538995F	SUB & HONY LT	KHARAK CHAND	01-10-2005
458	JC 538853K	SUB & HONY LT	KUNDAL SINGH RAWAL	01-12-2005
459	JC 538434M	SUB & HONY LT	LAL SINGH	01-11-2005
460	JC 538450K	SUB & HONY LT	MAHESH CHANDRA	01-09-2005
461	JC 538309H	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-12-2005
462	JC 538669Y	SUB & HONY LT	PABUDAN SINGH	01-09-2005

463	JC 538235Y	SUB & HONY LT	PARTAP SINGH	01-10-2005
464	JC 538370M	SUB & HONY LT	PREM GIRI	01-01-2006
465	JC 538637W	SUB & HONY LT	PREM SINGH	01-01-2006
466	JC 539067X	SUB & HONY LT	PURAN SINGH	01-12-2005
467	JC 538727X	SUB & HONY LT	PURAN SINGH DHAUNI	01-10-2005
468	JC 538082A	SUB & HONY LT	RAM CHANDRA YADAV	01-01-2006
469	JC 539242F	SUB & HONY LT	RANJEET SINGH ADHIKARI	01-11-2005
470	JC 538362N	SUB & HONY LT	ROHITASHVA YADAV	01-09-2005
471	JC 538540L	SUB & HONY LT	SHRIKRISHNA JOSHI	01-11-2005
472	JC 538439L	SUB & HONY LT	SURENDRA SINGH	01-09-2005
473	JC 212671A	SUB & HONY LT	TEJ SINGH BORA	01-10-2005
474	JC 539062Y	SUB & HONY LT	TRILOK SINGH	01-10-2005
475	JC 539009N	SUB & HONY LT	UMED SINGH MEHRA	01-10-2005

THE ASSAM REGIMENT

476	JC 548610M	SUB MAJ & HONY LT	B MANGA GANGTE	01-12-2005
477	JC 194658L	SUB MAJ & HONY LT	DHARMESWAR RAI	01-01-2006
478	JC 548216F	SUB MAJ & HONY LT	DY BEREN ANAL NAGA	01-01-2006
479	JC 178639W	SUB MAJ & HONY LT	JITENDRA NARAYAN ROY	01-01-2006
480	JC 548043P	SUB MAJ & HONY LT	KAREN CHANDRA RAY	01-01-2006
481	JC 548504N	SUB MAJ & HONY LT	NANDESWAR SAIKIA	01-09-2005
482	JC 212718A	SUB & HONY LT	ATUL CH BARMAN	01-09-2005
483	JC 205667P	SUB & HONY LT	BANESWAR RABHA	01-09-2005
484	JC 203783Y	SUB & HONY LT	BHABEN CH BARO	01-09-2005

485	JC 204162M	SUB & HONY LT	GARGA NARAYAN BASUMATARY	01-09-2005
486	JC 196286K	SUB & HONY LT	GUNESWAR ROY	01-01-2006
487	JC 548238A	SUB & HONY LT	JOGESWAR RAY	01-01-2006
488	JC 224266P	SUB & HONY LT	JYOTI MOHAN SINGHA	01-11-2005
489	JC 548152F	SUB & HONY LT	KAMESWAR BASUMATARY	01-12-2005
490	JC 202040K	SUB & HONY LT	SARAT CH GOGOI	01-12-2005
491	JC 548387N	SUB & HONY LT	SATISH CHANDRA MEDHI	01-09-2005

THE BIHAR REGIMENT

492	JC 558085P	SUB MAJ & HONY LT	BRAHMESWAR PRASAD	01-01-2006
493	JC 172624X	SUB MAJ & HONY LT	JITENDER BAHADUR SINGH	01-10-2005
494	JC 204349Y	SUB MAJ & HONY LT	SOMAI ORAON	01-09-2005
495	JC 558186H	SUB & HONY LT	ANUGRAH NARAYAN SINGH	01-10-2005
496	JC 558433L	SUB & HONY LT	BIRENDRA KUMAR SINGH	01-09-2005
497	JC 558409P	SUB & HONY LT	JAWAHAR MEHTA	01-01-2006
498	JC 558579X	SUB & HONY LT	KAILASH CHANDRA SWAMI	01-11-2005
499	JC 558382H	SUB & HONY LT	KALANDI CHARAN SAIHOO	01-12-2005
500	JC 558198X	SUB & HONY LT	MUNSHI HEMBROM	01-01-2006
501	JC 558427X	SUB & HONY LT	RABON MARANDI	01-01-2006
502	JC 558188N	SUB & HONY LT	RAJENDRA PRASAD SINGH	01-01-2006
503	JC 558398N	SUB & HONY LT	RAMDEO SINGH	01-01-2006
504	JC 558093N	SUB & HONY LT	SAMBHU SHARAN SINGH	01-09-2005
505	JC 558539X	SUB & HONY LT	SUBAS CHANDRA KHANDUALA	01-01-2006

THE MAHAR REGIMENT

506	JC 173948P	SUB MAJ & HONY LT	BRAHM SARUP SINGH	01-10-2005
507	JC 568001K	SUB MAJ & HONY LT	GOPINATHAN PILLAI PK	01-09-2005
508	JC 173939N	SUB MAJ & HONY LT	JAISWAL NARAYAN RUP CHAND	01-09-2005
509	JC 183091A	SUB MAJ & HONY LT	SALV RAJ	01-11-2005
510	JC 568695P	SUB & HONY LT	BRIJ KISHORE	01-01-2006
511	JC 568482F	SUB & HONY LT	CHABOK SAVAR ANANDA JANKU	01-12-2005
512	JC 568639W	SUB & HONY LT	GIRDHARI SINGH	01-12-2005
513	JC 568624N	SUB & HONY LT	GOPINATHAN NAIR N	01-09-2005
514	JC 569035K	SUB & HONY LT	GOURI SANKAR SATPATHY	01-12-2005
515	JC 568694M	SUB & HONY LT	HAR SARUP SINGH	01-01-2006
516	JC 568730M	SUB & HONY LT	HARSAHAY GUJJAR	01-12-2005
517	JC 568559Y	SUB & HONY LT	JAI DAYAL GURJER	01-01-2006
518	JC 568653H	SUB & HONY LT	KAILASH CHANDRA	01-01-2006
519	JC 568590L	SUB & HONY LT	MARANDA TIU	01-10-2005
520	JC 568337K	SUB & HONY LT	MOHAMMAD IMRAN SIDDIQUE	01-11-2005
521	JC 568652A	SUB & HONY LT	OM PARKASH	01-01-2006
522	JC 568638N	SUB & HONY LT	RAM NARAIN RAMAN	01-09-2005
523	JC 568502K	SUB & HONY LT	RAMESHWAR RAI	01-12-2005
524	JC 568896N	SUB & HONY LT	ROSHAN LAL VERMA	01-11-2005
525	JC 568732X	SUB & HONY LT	SHAM LAL	01-01-2006
526	JC 568609Y	SUB & HONY LT	SUKHDEV RAJ	01-11-2005

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

527	JC 224475M	SUB MAJ & HONY LT	ONKAR CHAND	01-09-2005
528	JC 579088W	SUB & HONY LT	ABDUL MAJID	01-10-2005
529	JC 579032K	SUB & HONY LT	ARJAN SINGH	01-09-2005
530	JC 579083X	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-01-2006
531	JC 578945Y	SUB & HONY LT	BRIKAM CHAND SUMAN	01-09-2005
532	JC 570175H	SUB & HONY LT	DALIP SINGH	01-10-2005
533	JC 579228X	SUB & HONY LT	GANESH DASS	01-01-2006
534	JC 579118H	SUB & HONY LT	GANI MOHD	01-10-2005
535	JC 579217L	SUB & HONY LT	GIAN SINGH	01-01-2006
536	JC 579104H	SUB & HONY LT	JAMAL DIN	01-12-2005
537	JC 578848F	SUB & HONY LT	MADHU SUDEN	01-09-2005
538	JC 579156Y	SUB & HONY LT	PARKASH CHAND	01-10-2005
539	JC 579093F	SUB & HONY LT	SANTOSH KUMAR	01-10-2005
540	JC 579371K	SUB & HONY LT	SHASHI PAL	01-09-2005
541	JC 579203L	SUB & HONY LT	SHASHI PAL SHARMA	01-11-2005
542	JC 578858L	SUB & HONY LT	SUDESH KUMAR	01-12-2005
543	JC 578946F	SUB & HONY LT	SURJIT SINGH	01-10-2005
544	JC 578341A	SUB & HONY LT	SWARAN DASS	01-01-2006

THE LADAKH SCOUTS

545	JC 216961P	SUB MAJ & HONY LT	SONAM PHUNCHUK	01-11-2005
546	JC 183576H	SUB MAJ & HONY LT	TSEWANG RIGZIN	01-10-2005
547	JC 588072M	SUB & HONY LT	ORGAIN TSETAN	01-12-2005

THE NAGA REGIMENT

548	JC 185544Y	SUB MAJ & HONY LT	ATHIOS LOTHIA	01-11-2005
549	JC 590129P	SUB & HONY LT	GOPAL SINGH	01-10-2005

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

550	JC 166127X	SUB MAJ & HONY LT	DES RAJ	01-10-2005
551	JC 592051N	SUB MAJ & HONY LT	PREM NATH	01-09-2005
552	JC 592062A	SUB MAJ & HONY LT	RAM SAROOP	01-10-2005
553	JC 592141P	SUB MAJ & HONY LT	ROOP LAL SHARMA	01-11-2005
554	JC 592311N	SUB & HONY LT	AHSOK SINGH	01-09-2005
555	JC 592660X	SUB & HONY LT	CHAMAN LAL	01-11-2005
556	JC 592672M	SUB & HONY LT	JIA LAL	01-01-2006
557	JC 592420A	SUB & HONY LT	MOHD SHAFI BUHROO	01-11-2005
558	JC 592361Y	SUB & HONY LT	NEK RAM	01-10-2005
559	JC 592655M	SUB & HONY LT	SARDAR SINGH	01-10-2005

1 GORKHA RIFLES

560	JC 602003K	SUB MAJ & HONY LT	INDER SINGH	01-01-2006
561	JC 602261K	SUB & HONY LT	BOM BAHADUR THAPA	01-01-2006
562	JC 602289K	SUB & HONY LT	CHANDRA BAHADUR RANA	01-12-2005
563	JC 602410M	SUB & HONY LT	GYAN BAHADUR THAPA, S M	01-11-2005
564	JC 602313P	SUB & HONY LT	JUDHA BAHADUR THAPA	01-09-2005
565	JC 602355F	SUB & HONY LT	MAN KAJI GURUNG	01-11-2005
566	JC 602373K	SUB & HONY LT	PREM KUMAR GURUNG	01-10-2005
567	JC 602362K	SUB & HONY LT	UMESH BAHADUR ALE	01-09-2005
568	JC 602394A	SUB & HONY LT	YAM BAHADUR GHALE	01-10-2005

3 GORKHA RIFLES

569	JC 221069F	SUB MAJ & HONY LT	PANDAB BAHADUR GHARTI	01-10-2005
570	JC 607122K	SUB & HONY LT	CHANDRA BAHADUR PALUPHAIYA	01-11-2005
571	JC 607338L	SUB & HONY LT	DEB BAHADUR THAPA	01-10-2005
572	JC 607337H	SUB & HONY LT	DIK BAHADUR GURUNG	01-10-2005
573	JC 607315K	SUB & HONY LT	MUKTA BAHADUR GURUNG	01-01-2006
574	JC 607059A	SUB & HONY LT	PRITAM BAHADUR PUN	01-09-2005
575	JC 607330Y	SUB & HONY LT	REKHA SINGH GURUNG	01-11-2005
576	JC 607343W	SUB & HONY LT	RUM BAHADUR PUN	01-10-2005
577	JC 607340H	SUB & HONY LT	SHAMAN SINGH RANA	01-12-2005
578	JC 607328F	SUB & HONY LT	YUB KUMAR GURUNG	01-09-2005

4 GORKHA RIFLES

579	J1 94712N	SUB MAJ & HONY LT	KULDIP SINGH KHATRI	01-10-2005
580	JC 612335F	SUB & HONY LT	BHAGWAN SING	01-11-2005
581	JC 612264L	SUB & HONY LT	BIR BHUSHAN MALL	01-12-2005
582	JC 612352F	SUB & HONY LT	GAJUR MAN GURUNG	01-12-2005
583	JC 612381W	SUB & HONY LT	PHARSA BAHADUR THAPA	01-12-2005

5 GORKHA RIFLES

584	JC 617341Y	SUB MAJ & HONY LT	TEK BAHADUR BALAL	01-09-2005
585	JC 617463H	SUB & HONY LT	BHAN BIR GURUNG	01-11-2005
586	JC 617464L	SUB & HONY LT	DHAN BAHADUR THAPA	01-12-2005
587	JC 617357K	SUB & HONY LT	KRISHNA BAHADUR THAPA	01-12-2005

8 GORKHA RIFLES

588	JC 623016P	SUB MAJ & HONY LT	KEHAR SINGH SHILPKAR	01-11-2005
-----	------------	----------------------	----------------------	------------

589	JC 205399W	SUB MAJ & HONY LT	MAHENDRA SINGH THAPA	01-12-2005
590	JC 623342X	SUB & HONY LT	TIL BAHADUR GURUNG	01-10-2005

9 GORKHA RIFLES

591	JC 629297M	SUB & HONY LT	IMAN SINGH CHHETRI	01-10-2005
592	JC 629043P	SUB & HONY LT	JEEBAN SHAHI	01-12-2005
593	JC 629402X	SUB & HONY LT	KARNA BAHADUR SHAHI	01-10-2005
594	JC 629437N	SUB & HONY LT	KUL BAHADUR GHARTI CHHETRI	01-12-2005
595	JC 629409F	SUB & HONY LT	OM PRAKASH CHHETRI	01-11-2005
596	JC 629389Y	SUB & HONY LT	PREM BAHADUR CHHETRI	01-10-2005
597	JC 629334P	SUB & HONY LT	RATTAN KUMAR CHHETRI	01-10-2005
598	JC 629372L	SUB & HONY LT	SHER BAHADUR CHHETRI	01-09-2005

11 GORKHA RIFLES

599	JC 192503X	SUB MAJ & HONY LT	NAR BAHADUR GURUNG	01-11-2005
600	JC 185139F	SUB MAJ & HONY LT	RAM BAHADUR RAI	01-11-2005
601	JC 634348Y	SUB & HONY LT	RAN BAHADUR RAI	01-12-2005
602	JC 634301N	SUB & HONY LT	SIVA KUMAR RAI	01-09-2005

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

603	JC 213562A	SUB MAJ & HONY LT	BHIM SINGH	01-09-2005
604	JC 213579N	SUB MAJ & HONY LT	E NEELAKANTAMA RAJU	01-09-2005
605	JC 213639X	SUB MAJ & HONY LT	GHULE KARBHARI BABU RAO	01-09-2005
606	JC 209018F	SUB MAJ & HONY LT	PROVASH CHANDRA DHAIR	01-12-2005
607	JC 213605K	SUB MAJ & HONY LT	RAM ADHAR SINGH	01-11-2005
608	JC 660549P	SUB MAJ & HONY LT	RAM SHARAN	01-12-2005
609	JC 660563F	SUB MAJ & HONY LT	SAHAB SINGH	01-12-2005

610	JC 202556M	SUB MAJ & HONY LT	SHEO SHARAN	01-11-2005
611	JC 660531Y	SUB MAJ & HONY LT	TEJ PAL SINGH	01-11-2005
612	JC 661597F	SUB & HONY LT	AJIT KUMAR SHUKLA	01-09-2005
613	JC 661874F	SUB & HONY LT	BADRI PRASAD	01-01-2006
614	JC 213601N	SUB & HONY LT	BASUDEO PRASAD DEO	01-11-2005
615	JC 661608H	SUB & HONY LT	BRATI LAL	01-09-2005
616	JC 661691L	SUB & HONY LT	CHANDRA PAL SHARMA	01-10-2005
617	JC 193275M	SUB & HONY LT	DRONACHARYA BUGALAI	01-01-2006
618	JC 661952N	SUB & HONY LT	HARBILAS	01-09-2005
619	JC 661842Y	SUB & HONY LT	HARI NATH CHAUDHARY	01-09-2005
620	JC 661725N	SUB & HONY LT	HARI NATH SINGH	01-12-2005
621	JC 661275F	SUB & HONY LT	HOREN CHANDRA DUTTA	01-01-2006
622	JC 640622F	SUB & HONY LT	ISHWAR SINGH DAHIA	01-11-2005
623	JC 640686M	SUB & HONY LT	KAMAL KRISHNA ROY	01-01-2006
624	JC 640766K	SUB & HONY LT	LOHIT CH BHUYAN	01-10-2005
625	JC 661389M	SUB & HONY LT	MAHESHWAR PANDEY	01-01-2006
626	JC 221567N	SUB & HONY LT	MOHAMMAD SHAMIM	01-11-2005
627	JC 640878K	SUB & HONY LT	NOGEN CH BORA	01-12-2005
628	JC 661242W	SUB & HONY LT	PURUSHOTAM LAL	01-11-2005
629	JC 661493A	SUB & HONY LT	RAM KRISHAN	01-09-2005
630	JC 641486H	SUB & HONY LT	RAMESH KUMAR	01-01-2006
631	JC 640950P	SUB & HONY LT	SHANKAR KUNDLIK DHAWADE	01-01-2006

632	JC 213694N	SUB & HONY LT	SHEO SHANKAR PANDEY	01-09-2005
633	JC 193274K	SUB & HONY LT	SHRAWAN KUMAR SHARMA	01-01-2006
634	JC 640772X	SUB & HONY LT	SUDHAKAR TRIPATHI	01-09-2005

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

635	JC 680193N	RIS & HONY LT	AWADH KISHOR TIWARI	01-12-2005
636	JC 680204P	RIS & HONY LT	BABAJI CHARAN JENA	01-12-2005
637	JC 680169X	RIS & HONY LT	BAJRANGI	01-12-2005
638	JC 680093H	RIS & HONY LT	BALWANT SINGH MADWAL	01-10-2005
639	JC 680257N	RIS & HONY LT	CHAMAN LAL	01-01-2006
640	JC 680152K	RIS & HONY LT	DAYA RAM	01-12-2005
641	JC 680284X	RIS & HONY LT	HARI NATH	01-12-2005
642	JC 680175L	RIS & HONY LT	HARI RAM	01-11-2005
643	JC 680196F	RIS & HONY LT	KANWAR PAL SINGH	01-12-2005
644	JC 680133Y	RIS & HONY LT	KEDAR NATH SINGH	01-12-2005
645	JC 680311W	RIS & HONY LT	LAL MANI	01-01-2006
646	JC 680137P	RIS & HONY LT	MADAN APPA KURANE	01-11-2005
647	JC 680141X	RIS & HONY LT	MOTI LAL SHARMA	01-12-2005
648	JC 680116Y	RIS & HONY LT	PRABHU NARAIN SINGH	01-10-2005
649	JC 680174H	RIS & HONY LT	PUNWASI RAM	01-12-2005
650	JC 680251M	RIS & HONY LT	RAGHBIR SINGH	01-11-2005
651	JC 680167M	RIS & HONY LT	RAM BISHNU RAY	01-12-2005
652	JC 680227W	RIS & HONY LT	RAM NAGINA RAM	01-01-2006
653	JC 680134F	RIS & HONY LT	RAMANUJ RAM	01-11-2005

654	JC 680151F	RIS & HONY LT	RAMVIR SINGH	01-12-2005
655	JC 680203M	RIS & HONY LT	SHIV LAL	01-11-2005
656	JC 680200Y	RIS & HONY LT	SIBA PRASADA ROUT	01-12-2005
657	JC 680155X	RIS & HONY LT	SURENDER SINGH	01-12-2005
ARMY MEDICAL CORPS				
658	JC 691478A	SUB MAJ & HONY LT	BHANWER SINGH BHATI	01-10-2005
659	JC 83479W	SUB MAJ & HONY LT	DAYA SHANKER MISHRA	01-10-2005
660	JC 690809K	SUB MAJ & HONY LT	JAISHI RAM	01-11-2005
661	JC 212192Y	SUB MAJ & HONY LT	KEDAR NATH DOGRA	01-10-2005
662	JC 690433N	SUB MAJ & HONY LT	MOHINDER SINGH	01-11-2005
663	JC 690434W	SUB MAJ & HONY LT	NARENDER SINGH	01-11-2005
664	JC 690803H	SUB MAJ & HONY LT	ROSHAN LAL	01-12-2005
665	JC 690841Y	SUB MAJ & HONY LT	SANGRAM SINGH	01-11-2005
666	JC 690805N	SUB MAJ & HONY LT	SHEO RAM	01-10-2005
667	JC 690839F	SUB MAJ & HONY LT	SHOBA RAM	01-12-2005
668	JC 692190M	SUB & HONY LT	ARJUN SINGH KUSHWAHA	01-10-2005
669	JC 691987Y	SUB & HONY LT	BENUDHAR NAYAK	01-01-2006
670	JC 693410X	SUB & HONY LT	DAYANIDHI SWAIN	01-01-2006
671	JC 691961K	SUB & HONY LT	HARISH CHANDRA SINGH	01-01-2006
672	JC 692948M	SUB & HONY LT	MAHERMAN THAPA	01-12-2005
673	JC 691417H	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-12-2005
674	JC 692740K	SUB & HONY LT	MOHINDER SINGH	01-01-2006
675	JC 691073P	SUB & HONY LT	OM PRAKASH VESHANAVA	01-10-2005

676	JC 691924W	SUB & HONY LT	PREM CHAND RAJWAR	01-09-2005
677	JC 691173A	SUB & HONY LT	RAGHNATH PRASAD	01-01-2006
678	JC 692337X	SUB & HONY LT	RAM MURTI	01-01-2006
679	JC 693389A	SUB & HONY LT	S K AJAD UDDIN	01-12-2005
680	JC 692500M	SUB & HONY LT	UNNIKKANNAN E V	01-10-2005
681	JC 692282Y	SUB & HONY LT	VISHWA VIJAY KUMAR	01-09-2005

ARMY ORDNANCE CORPS

682	JC 722423A	SUB MAJ & HONY LT	AMAR CHAND	01-09-2005
683	JC 217695N	SUB MAJ & HONY LT	BHAG SINGH	01-11-2005
684	JC 213201F	SUB MAJ & HONY LT	BIJOY KUMAR DAS	01-09-2005
685	JC 722648H	SUB MAJ & HONY LT	INDRA SINGH SHEKHAWAT	01-12-2005
686	JC 722113P	SUB MAJ & HONY LT	JACOB KOSHY	01-11-2005
687	JC 221731L	SUB MAJ & HONY LT	KANWER SUDERSHAN SINGH SUMBRIA	01-11-2005
688	JC 217515A	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN DAS V	01-01-2006
689	JC 722180A	SUB MAJ & HONY LT	NARA SINGH SWAIN	01-12-2005
690	JC 217411Y	SUB MAJ & HONY LT	ONKAR NATH BLOTRA	01-10-2005
691	JC 723017M	SUB MAJ & HONY LT	PRATAP RAM	01-09-2005
692	JC 223150M	SUB MAJ & HONY LT	RAGHBIR SINGH	01-10-2005
693	JC 722030K	SUB MAJ & HONY LT	SHIV KARAN JAT	01-11-2005
694	JC 225170Y	SUB MAJ & HONY LT	SHYAM LAL SHARMA	01-10-2005
695	JC 209974K	SUB MAJ & HONY LT	SWARN CHAND PANTOLA	01-10-2005
696	JC 225173M	SUB MAJ & HONY LT	TARA CHAND KHURARA	01-11-2005
697	JC 221633L	SUB MAJ & HONY LT	WAZIR SINGH	01-01-2006

698	JC 723586A	SUB & HONY LT	ARVIND KUMAR MISHRA	01-09-2005
699	JC 723578F	SUB & HONY LT	BADAN CHANDRA NEOG	01-01-2006
700	JC 724460M	SUB & HONY LT	DAYA KISHAN	01-11-2005
701	JC 722697L	SUB & HONY LT	GULZAR SINGH	01-12-2005
702	JC 723204L	SUB & HONY LT	PIJUSH KANTI NATH BARBHUIYA	01-01-2006
703	JC 723042L	SUB & HONY LT	SUBASH MOZUMDER	01-01-2006

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

704	JC 210207X	SUB MAJ & HONY LT	BAHADUR SINGH ANKOTI	01-12-2005
705	JC 207226X	SUB MAJ & HONY LT	BHAGYA NARAYAN SINGH	01-09-2005
706	JC 187840H	SUB MAJ & HONY LT	G V MURALI KRISHNA RAO	01-10-2005
707	JC 217277Y	SUB MAJ & HONY LT	HARISH CHANDRA	01-11-2005
708	JC 747889N	SUB MAJ & HONY LT	INDRA DEO RAI	01-10-2005
709	JC 189018X	SUB MAJ & HONY LT	ISHWAR CHANDER	01-12-2005
710	JC 189009W	SUB MAJ & HONY LT	KULWANT SINGH KAHILON	01-11-2005
711	JC 218757P	SUB MAJ & HONY LT	MOBTA RAM VISHNOI	01-09-2005
712	JC 189034P	SUB MAJ & HONY LT	PARAB MAHADEO	01-09-2005
713	JC 189107W	SUB MAJ & HONY LT	PRATAP SINGH	01-10-2005
714	JC 189074W	SUB MAJ & HONY LT	RAJ PAL SINGH	01-10-2005
715	JC 222441A	SUB MAJ & HONY LT	RAM JANAM SINGH	01-09-2005
716	JC 747929K	SUB MAJ & HONY LT	RAM NARESH THAKUR	01-01-2006
717	JC 749273Y	SUB MAJ & HONY LT	RAMESHWAR PRASAD TIWARI	01-09-2005
718	JC 225463K	SUB MAJ & HONY LT	SARWAN SINGH	01-10-2005
719	JC 188827L	SUB MAJ & HONY LT	SHANKAR PAL SINGH	01-09-2005

720	JC 187848P	SUB MAJ & HONY LT	SHEO NATH SINGH	01-11-2005
721	JC 189280A	SUB MAJ & HONY LT	SHYAMAL BAIDYA	01-11-2005
722	JC 188970X	SUB MAJ & HONY LT	VENKATARAMA NAIDU GANDHI ROOBAN	01-11-2005
723	JC 189017P	SUB MAJ & HONY LT	VIJANDER SINGH TEOTIA	01-12-2005
724	JC 755721W	SUB & HONY LT	AKHILESH KUMAR MISRA	01-12-2005
725	JC 750045H	SUB & HONY LT	ASHOK PRASAD SINGH	01-01-2006
726	JC 755047X	SUB & HONY LT	BALARAM BELGUNDAKAR	01-12-2005
727	JC 751730A	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH SHARMA	01-09-2005
728	JC 751549H	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	01-10-2005
729	JC 748212P	SUB & HONY LT	BALJIT SINGH	01-09-2005
730	JC 750166K	SUB & HONY LT	BALRAM SHARMA	01-01-2006
731	JC 754749K	SUB & HONY LT	BANSIDHAR JOSHI	01-09-2005
732	JC 748966K	SUB & HONY LT	BISHNU KANT PANDEY	01-10-2005
733	JC 756031Y	SUB & HONY LT	BRIJ KISHORE SINGH	01-01-2006
734	JC 747897M	SUB & HONY LT	CHHABI CHAND SHARMA	01-10-2005
735	JC 751799K	SUB & HONY LT	DAYA CHAND SINGH CHAHAR	01-09-2005
736	JC 752672N	SUB & HONY LT	DESHMANE RAMKISAN UMAJI	01-09-2005
737	JC 753068P	SUB & HONY LT	DEV RAJ	01-01-2006
738	JC 751583H	SUB & HONY LT	DIN DAYAL SINGH	01-01-2006
739	JC 752130K	SUB & HONY LT	DINESH CHANDER	01-01-2006
740	JC 751800N	SUB & HONY LT	HUKAM SINGH GURJAR	01-09-2005
741	JC 755044K	SUB & HONY LT	JAG NARAYAN SINGH	01-12-2005

742	JC 752957A	SUB & HONY LT	JOSEPH FRANCIS	01-12-2005
743	JC 749418Y	SUB & HONY LT	KRISHNA DHAN LAL NATH	01-10-2005
744	JC 752775M	SUB & HONY LT	MADAN LAL MEENA	01-12-2005
745	JC 752048P	SUB & HONY LT	MAHENDRA BEHERA	01-09-2005
746	JC 752331H	SUB & HONY LT	MANKAMANA PRASAD	01-09-2005
747	JC 755264N	SUB & HONY LT	MOHAN RAY	01-01-2006
748	JC 225460W	SUB & HONY LT	PADMANAYA PARIDA	01-11-2005
749	JC 749503F	SUB & HONY LT	PARES NATH GHOSH	01-01-2006
750	JC 750847M	SUB & HONY LT	PATIL TANAJI MAHADEO	01-01-2006
751	JC 749502Y	SUB & HONY LT	RAGHUVeer SINGH	01-12-2005
752	JC 752736N	SUB & HONY LT	RAJ NARAYAN LAL	01-10-2005
753	JC 755022L	SUB & HONY LT	RAM PRASAD	01-01-2006
754	JC 750039P	SUB & HONY LT	RAMESHAN M P	01-11-2005
755	JC 748712M	SUB & HONY LT	RAVINDRA PRASAD	01-01-2006
756	JC 748752N	SUB & HONY LT	SANGAT SINGH	01-01-2006
757	JC 749607H	SUB & HONY LT	SREEKANTAN PILLAI J	01-10-2005
758	JC 747425W	SUB & HONY LT	SUSHIL KUMAR SHARMA	01-12-2005
759	JC 756030W	SUB & HONY LT	THIYAGARAJAN A	01-01-2006
760	JC 754500X	SUB & HONY LT	UGMA RAM	01-01-2006
761	JC 751813L	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR	01-12-2005
762	JC 750044A	SUB & HONY LT	VIRENDRA SINGH	01-12-2005
ARMY EDUCATION CORPS				
763	JC 200580K	SUB MAJ & HONY LT	AJIT SINGH	01-12-2005

764	JC 200579P	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH GILL	01-12-2005
765	JC 201640A	SUB MAJ & HONY LT	DHARAM PAL RAVISH	01-01-2006
766	JC 206840A	SUB MAJ & HONY LT	HAKIM SINGH	01-09-2005
767	JC 198887N	SUB MAJ & HONY LT	MANORANJAN DHYANI	01-09-2005
768	JC 198882P	SUB MAJ & HONY LT	SWATANTRA VIR VIKRAM BAHADURSINGH	01-09-2005
769	JC 218707K	SUB & HONY LT	DEBASHIS CHAUDHURI	01-11-2005
770	JC 216180F	SUB & HONY LT	NARENDRA SINGH CHAUHAN	01-01-2006
771	J2 07059M	SUB & HONY LT	NIHAL SINGH NEGI	01-01-2006
772	JC 223015Y	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH	01-11-2005

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

773	RV 7745W	RIS MAJ & HONY LT	MAHABIR	01-10-2005
774	JC 797242W	RIS & HONY LT	RAJENDAR YADAV	01-10-2005

THE INTELLIGENCE CORPS

775	JC 198159N	SUB MAJ & HONY LT	BIKRAM SINGH	01-11-2005
776	JC 197792F	SUB MAJ & HONY LT	BIRENDRA SINGH RAWAT	01-10-2005
777	JC 197788Y	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH KAIRA	01-12-2005
778	JC 204677M	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	01-10-2005
779	JC 197789F	SUB & HONY LT	RANBIR SINGH	01-09-2005
780	JC 195891L	SUB & HONY LT	SURJIT SINGH BIRDA	01-09-2005

CORPS OF MILITARY POLICE

781	JC 818310P	SUB & HONY LT	BHABESH CHANDRA KIRTUNIA	01-11-2005
782	JC 818318F	SUB & HONY LT	PRITHVI SINGH RATHORE	01-11-2005
783	JC 818415Y	SUB & HONY LT	SALIK RAM	01-12-2005
784	JC 818187F	SUB & HONY LT	YUMNAM BIDYA BABU SINGH	01-12-2005

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

785	JC 826078K	SUB & HONY LT	RAMESHWAR SINGH	01-01-2006
-----	------------	------------------	-----------------	------------

THE PIONEER CORPS

786	JC 829120H	SUB & HONY LT	DIWAN SINGH	01-01-2006
787	JC 140322X	SUB & HONY LT	OM PARKASH SHARMA	01-11-2005

TERRITORIAL ARMY

788	TJ 3505	SUB MAJ & HONY LT	VILAS YALLAPPA KAMBLE	01.07.2005
789	TJ 4296	SUB & HONY LT	ALBAIL SINGH	01.05.2005
790	TJ 3358	SUB & HONY LT	CHANDRAPAT SINGH YADAV	01.02.2005
791	TJ 3250M	SUB & HONY LT	K MOHAN	01.02.2005
792	TJ 3253A	SUB & HONY LT	K BALAKRISHNAN	01.02.2005
793	TJ 3023	SUB & HONY LT	KHILA RAM	01.04.2005
794	TJ 3201	SUB & HONY LT	M I KRISHANAN	01.03.2005
795	TJ 3140	SUB & HONY LT	NAGAPPA BHUSHI	01.03.2005
796	TJ 3380P	SUB & HONY LT	UMED SINGH	01.04.2005
797	TJ 3507	SUB & HONY LT	VISHWAS MARTAND KAMBLE	01.07.2005
798	TJ 3387N	SUB & HONY LT	VISHNU NATHU KASDBHANE	01.08.2005

TO BE HONORARY LIEUTENANTS**17 HORSE**

1	JC 204569H	RIS MAJ	JOGINDER SINGH	01-11-2005
---	------------	---------	----------------	------------

45 CAVALRY

2	JC 235629N	RIS MAJ	BHIKU RAM	01-01-2006
---	------------	---------	-----------	------------

64 CAVALRY

3	JC 236329Y	RIS MAJ	SAMUDRA SINGH	01-11-2005
---	------------	---------	---------------	------------

15 ARMOURED REGIMENT

4	JC 236218F	RIS MAJ	CHATTAR SINGH	01-10-2005
---	------------	---------	---------------	------------

51 ARMOURED REGIMENT

5	JC 235924W	RIS MAJ	HARJIT SINGH	01-09-2005
---	------------	---------	--------------	------------

REGIMENT OF ARTILLERY

6	JC 202325W	SUB MAJ	AMB SINGH	01-09-2005
7	JC 223626N	SUB MAJ	BABBAN CHAUBEY	01-11-2005
8	JC 206483H	SUB MAJ	BALKAR SINGH	01-12-2005
9	JC 190604M	SUB MAJ	BASHIR AHMAD KHAN	01-10-2005
10	JC 225253K	SUB MAJ	BHOOP SINGH YADAV	01-09-2005
11	JC 256864A	SUB MAJ	GEORGE V G	01-10-2005
12	JC 206177N	SUB MAJ	GURBACHAN SINGH	01-10-2005
13	JC 197602K	SUB MAJ	INDRAJ SINGH	01-01-2006
14	JC 226484M	SUB MAJ	KRISHAN KUMAR JASWAL	01-09-2005
15	JC 182095K	SUB MAJ	KULWANT SINGH	01-01-2006
16	JC 193438P	SUB MAJ	M PACHAPPAN	01-09-2005
17	JC 200387X	SUB MAJ	MOHAMMAD KARIMULLA	01-09-2005
18	JC 226307M	SUB MAJ	NANAK SINGH	01-12-2005
19	JC 200309A	SUB MAJ	P UMA MAHESWARA RAO	01-11-2005
20	JC 203326L	SUB MAJ	RAM NIWAS	01-09-2005
21	JC 190608H	SUB MAJ	RAWEL SINGH	01-12-2005
22	JC 255586L	SUB MAJ	ROMESH CHAND	01-11-2005
23	JC 225550X	SUB MAJ	S GNANAPRAKASAM	01-01-2006
24	JC 221264Y	SUB MAJ	SARDEV SINGH	01-10-2005
25	JC 198736P	SUB MAJ	SHO NARAIN YADAV	01-10-2005
26	JC 201273Y	SUB MAJ	SOMA SHEKARAN	01-11-2005
27	JC 211916Y	SUB MAJ	TRIVENI SINGH	01-01-2006

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

28	JC 169778Y	SUB MAJ	DATA RAM YADAVA	01-09-2005
29	JC 165645L	SUB MAJ	DAYA NAND	01-12-2005
30	JC 226591N	SUB MAJ	RAM CHANDRA SINGH BHADORIA	01-12-2005

MADRAS ENGINEER GROUP

31	JC 224782K	SUB MAJ	G NAMASIVAYAM	01-09-2005
32	JC 305171P	SUB MAJ	KASHINATH	01-12-2005
33	JC 305175L	SUB MAJ	RAJAN P	01-12-2005
34	JC 224780Y	SUB MAJ	SOMAN NAIR S	01-12-2005

BENGAL ENGINEER GROUP

35	JC 210598N	SUB MAJ	BISHESWAR BORUAH	01-01-2006
36	JC 325347W	SUB MAJ	DEOKAR DHONDIBHAU BHAGAJI	01-11-2005
37	JC 326056H	SUB MAJ	G RAJENDRAN	01-10-2005
38	JC 174713P	SUB MAJ	GURBJAHAN SINGH	01-01-2006
39	JC 210543K	SUB MAJ	JASPAL SINGH	01-10-2005
40	JC 224855L	SUB MAJ	MADAN CHANDRA BHATT	01-10-2005
41	JC 325734L	SUB MAJ	MOHAN M M	01-10-2005
42	JC 179844K	SUB MAJ	NARAYAN DATT	01-12-2005
43	JC 325346N	SUB MAJ	R BALASUBRAMNIAN	01-10-2005
44	JC 210547A	SUB MAJ	RAM MEHAR	01-10-2005
45	JC 174833N	SUB MAJ	SATISH CHANDRA DWIVEDI	01-09-2005
46	JC 210568W	SUB MAJ	SATYA PRAKASH	01-11-2005
47	JC 210447P	SUB MAJ	SULAKHAN SINGH	01-01-2006
48	JC 122934M	SUB MAJ	SUNIL KUMAR VERMA	01-12-2005
49	JC 207578P	SUB MAJ	TRILOK SINGH SAUN	01-01-2006

BOMBAY ENGINEER GROUP

50	JC 207915Y	SUB MAJ	BIJENDRA SINGH	01-12-2005
51	JC 207910A	SUB MAJ	CHAUDHARI NAGARAJ LOTAN	01-10-2005
52	JC 209639A	SUB MAJ	ISHWER SINGH SIWATCH	01-12-2005
53	JC 207917K	SUB MAJ	KULDEEP KUMAR SHARMA	01-10-2005
54	JC 209636M	SUB MAJ	MOHMAD SAKHEEL	01-10-2005
55	JC 207929Y	SUB MAJ	NARENDRA KUMAR GUPTA	01-12-2005
56	JC 207914W	SUB MAJ	SURAJ BHAN	01-10-2005

CORPS OF SIGNALS

57	JC 200647X	SUB MAJ	BIRANJE BALARAM RAO	01-10-2005
58	JC 368240P	SUB MAJ	INDRABHAN SINGH	01-01-2006
59	JC 206749K	SUB MAJ	JAGDISH CHANDER	01-12-2005
60	JC 207322M	SUB MAJ	JAI BHAGWAN	01-01-2006
61	JC 188194H	SUB MAJ	JASWANT SINGH	01-01-2006
62	JC 163315N	SUB MAJ	KULDIP SINGH	01-12-2005
63	JC 197666P	SUB MAJ	LALAN SINGH	01-09-2005
64	JC 200666H	SUB MAJ	NAR SINGH	01-01-2006
65	JC 200651A	SUB MAJ	PIARA LAL	01-10-2005
66	JC 207321K	SUB MAJ	RADHAKRISHNAN V	01-09-2005
67	JC 163987A	SUB MAJ	RAVENDRA PILAI K	01-06-2005
68	JC 218839X	SUB MAJ	SANTOSH KUMAR SAHI	01-10-2005
69	JC 188241P	SUB MAJ	SUBASH CHAND	01-09-2005
70	JC 200650X	SUB MAJ	SURJIT SINGH	01-10-2005
71	JC 368694H	SUB MAJ	VIRENDRA KUMAR SHARMA	01-12-2005

THE BRIGADE OF GUARDS

72	JC 184234F	SUB MAJ	AYODHYA SINGH CHAUHAN	01-09-2005
73	JC 205425M	SUB MAJ	RAM SINGH	01-10-2005
74	JC 200960H	SUB MAJ	RATTAN LAL SHARMA	01-10-2005
75	JC 188597H	SUB MAJ	ROHTAS SINGH	01-09-2005

76	JC 194478H	SUB MAJ	TARA CHAND SINGH	01-01-2006
<u>THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT</u>				
77	JC 204614K	SUB MAJ	BACHOTTER SINGH	01-11-2005
78	JC 195470H	SUB MAJ	JANG SHER SINGH	01-11-2005
79	JC 206640K	SUB MAJ	SHEO NAND	01-11-2005
80	JC 204615M	SUB MAJ	TARA SINGH GULERIA	01-11-2005
<u>THE GRENADIERS</u>				
81	JC 220904L	SUB MAJ	BACHAN LAL	01-09-2005
82	JC 184946K	SUB MAJ	KISHORI LAL	01-09-2005
83	JC 220130N	SUB MAJ	MADHO SINGH	01-09-2005
84	JC 218444W	SUB MAJ	PRABHU SINGH RATHORE	01-12-2005
<u>THE RAJPUT REGIMENT</u>				
85	JC 211066A	SUB MAJ	RAJ SINGH	01-09-2005
86	JC 478100L	SUB MAJ	RAM KUMAR	01-11-2005
87	JC 205548Y	SUB MAJ	SHIV KUMAR SINGH, SM	01-09-2005
<u>THE JAT REGIMENT</u>				
88	JC 168863P	SUB MAJ	DULI CHAND	01-11-2005
89	JC 488121P	SUB MAJ	NATHU LAL JAT	01-09-2005
90	JC 184996P	SUB MAJ	RAN SINGH	01-12-2005
<u>THE SIKH LIGHT INFANTRY</u>				
91	JC 219715P	SUB MAJ	CHARAN SINGH	01-01-2006
92	JC 196247L	SUB MAJ	GURBACHAN SINGH	01-12-2005
93	JC 196508N	SUB MAJ	MALKIAT SINGH WALIA	01-12-2005
94	JC 508071Y	SUB MAJ	WAZIR SINGH	01-09-2005
<u>THE DOGRA REGIMENT</u>				
95	JC 518010P	SUB MAJ	NAWANG TASHI	01-12-2005
<u>THE GARHWAL RIFLES</u>				
96	JC 205669A	SUB MAJ	BALBIR SINGH	01-12-2005
97	JC 188534A	SUB MAJ	HOSHIYAR SINGH NEGI	01-10-2005
<u>THE BIHAR REGIMENT</u>				
98	JC 212964L	SUB MAJ	ELESIUS KUJUR	01-09-2005
99	JC 186829X	SUB MAJ	RAM BABU RAY	01-09-2005
<u>THE MAHAR REGIMENT</u>				
100	JC 192483P	SUB MAJ	RAJ KISHOR SINGH	01-01-2006
<u>THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES</u>				
101	JC 578005N	SUB MAJ	JOGINDER SINGH	01-09-2005
<u>11 GORKHA RIFLES</u>				
102	JC 168957M	SUB MAJ	DEEPAK JANG THAPA	01-01-2006
<u>ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)</u>				
103	JC 641127P	SUB MAJ	ANANDAN NAIR K	01-09-2005
104	JC 691955W	SUB MAJ	ASHIS DUTTA	01-01-2006
105	JC 640217K	SUB MAJ	BIJENDER SINGH	01-01-2006
106	JC 640147W	SUB MAJ	BIJOY KUMAR DAS	01-01-2006
107	JC 213604F	SUB MAJ	GOPALA PANICKER M	01-11-2005
108	JC 215475L	SUB MAJ	GOUR CHANDRA BISWAS	01-11-2005

109	JC 213588P	SUB MAJ	HARPHOOL SINGH	01-11-2005
110	JC 640207A	SUB MAJ	JANKI LAL	01-09-2005
111	JC 640213N	SUB MAJ	MACHAVENKATA SUBBAIAH	01-09-2005
112	JC 640574M	SUB MAJ	MAHESH CHANDER SINGH KARKI	01-11-2005
113	JC 213592X	SUB MAJ	MANGE LAL	01-11-2005
114	JC 213663N	SUB MAJ	MRINAL KANTI ROY	01-12-2005
115	JC 640578H	SUB MAJ	NITAI CHANDRA MANDAL	01-12-2005
116	JC 640577A	SUB MAJ	RAJENDRA PRASAD	01-01-2006
117	JC 213632N	SUB MAJ	RAMAJEE TIWARY	01-11-2005
118	JC 640200W	SUB MAJ	RAMESH BOYAT	01-09-2005

ARMY MEDICAL CORPS

119	JC 690843K	SUB MAJ	ALEKH CHANDRA PARIDA	01-11-2005
120	JC 690808F	SUB MAJ	BAIJNATH MISHRA	01-11-2005
121	JC 690802A	SUB MAJ	GANGA BAHADUR GURUNG	01-09-2005
122	JC 690861M	SUB MAJ	GIGA RAM KUMBHAWAT	01-12-2005
123	JC 690758F	SUB MAJ	LALITA PRASAD	01-01-2006
124	JC 690248A	SUB MAJ	RAJAT KUMAR PATTANAYAK	01-09-2005
125	JC 690494L	SUB MAJ	RAM BHAWAN SINGH	01-10-2005
126	JC 691479H	SUB MAJ	RAMESH PRASAD SINGH	01-11-2005
127	JC 690189Y	SUB MAJ	SURENDRA CHOUDHARY	01-11-2005
128	JC 690707N	SUB MAJ	VISHWA NATH THAKUR	01-12-2005

ARMY ORDNANCE CORPS

129	JC 722060F	SUB MAJ	JAI PAL SINGH BHANDARI	01-11-2005
130	JC 217719M	SUB MAJ	T G ABRAHAM	01-11-2005

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

131	JC 750135K	SUB MAJ	BIJAYA KUMAR PRADHAN	01-01-2006
132	JC 749516Y	SUB MAJ	CHANDRAN C	01-09-2005
133	JC 749517F	SUB MAJ	DIHAMBARE KISAN MANSINGH	01-10-2005
134	JC 189038L	SUB MAJ	HARK BAHADUR GURUNG	01-10-2005
135	JC 750132W	SUB MAJ	JAGIR SINGH	01-10-2005
136	JC 189037H	SUB MAJ	KUNWAR SINGH MEHTA	01-10-2005
137	JC 750131N	SUB MAJ	MAHADIK DATTARAM DHAKATU	01-11-2005
138	JC 224124X	SUB MAJ	NATHU LAL MEGHWAL	01-10-2005
139	JC 750308W	SUB MAJ	RAJ KUMAR SINGH	01-11-2005
140	JC 747936A	SUB MAJ	RAM KUMAR VERMA	01-09-2005
141	JC 759512I	SUB MAJ	RAMACHANDRAN C	01-09-2005
142	JC 222023L	SUB MAJ	SHREE RAM SINGH	01-01-2006
143	JC 189112F	SUB MAJ	SHRIKANT TIWARI	01-12-2005
144	JC 747464P	SUB MAJ	SUBODH CHANDRA MANDAL	01-10-2005
145	JC 749270L	SUB MAJ	SUMER CHAND	01-10-2005
146	JC 189186W	SUB MAJ	T K SUDHAKARAN NAIR	01-11-2005
147	JC 189285Y	SUB MAJ	TEK CHAND	01-10-2005
148	JC 222078P	SUB MAJ	TRILOK CHAND	01-10-2005
149	JC 222341P	SUB MAJ	VIJAY NARAYAN TEWARI	01-11-2005
150	JC 748551P	SUB MAJ	YUVRAJ SINGH	01-01-2006

ARMY EDUCATION CORPS

151	JC 206144H	SUB MAJ	MAHA NARAIN SINGH	01-01-2006
152	JC 206082N	SUB MAJ	MAN MOHAN KALA	01-01-2006
153	JC 211999P	SUB MAJ	RAMACHANDRAN T	01-12-2005
154	JC 206842L	SUB MAJ	RAMACHANDRAN M	01-12-2005
155	JC 206327Y	SUB MAJ	SADHAN KUMAR CHAKRABARTI	01-10-2005

156	JC 203366M	SUB MAJ	SWAPAN KUMAR DAS	01-01-2006
157	JC 203981K	SUB MAJ	UMESH CHANDRA	01-01-2006
<u>REMOUNT AND VETERINARY CORPS</u>				
158	JC 797037P	RIS MAJ	SARDAR SINGH GUJAR	01-01-2006
<u>THE INTELLIGENCE CORPS</u>				
159	JC 217187X	SUB MAJ	MAN SINGH RAWAT	01-12-2005
<u>DEFENCE SECURITY CORPS</u>				
160	JC 163756K	SUB MAJ	RAJENDAR SINGH	01.12.2005

TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJOR

PRESIDENT'S BODY GUARD

1	JC 237719N	RIS	KASHMIR SINGH	01-12-2005
2	JC 236855X	RIS	ZORA SINGH	01-12-2005
<u>16 CAVALRY</u>				
3	JC 238154A	RIS	SALWINDER SINGH	01-12-2005
4	JC 238153X	RIS	VAJRAM P	01-12-2005
5	JC 238103M	RIS	VIJAYAN V	01-09-2005
<u>7 CAVALRY</u>				
6	JC 238291Y	RIS	KULDIP SINGH	01-12-2005
7	JC 238974M	RIS	MOHAN LAL	01-09-2005
8	JC 239087M	RIS	SURENDRA SINGH	01-10-2005
9	JC 239356N	RIS	UMED SINGH	01-10-2005
<u>8 CAVALRY</u>				
10	JC 238875K	RIS	NAZZAR SINGH	01-12-2005
11	JC 238693W	RIS	ROTASH KUMAR	01-09-2005
12	JC 239596L	RIS	SATWINDER PAL SINGH	01-12-2005
<u>1 HORSE</u>				
13	JC 238496N	RIS	AMRIK SINGH	01-12-2005
14	JC 238864X	RIS	BAHADUR SINGH	01-01-2006
<u>14 HORSE</u>				
15	JC 237730M	RIS	BISHAMBER DASS	01-10-2005
<u>3 CAVALRY</u>				
16	JC 238270H	RIS	RAM RATAN	01-10-2005
<u>18 CAVALRY</u>				
17	JC 238484Y	RIS	BHAGWAN DAYAL SINGH	01-10-2005
<u>4 HORSE</u>				
18	JC 239174A	RIS	AJMER SINGH	01-12-2005
<u>CENTRAL INDIA HORSE</u>				
19	JC 239171M	RIS	PARSHOTAM CHAND	01-09-2005
20	JC 237885F	RIS	PRABHAT CHANDRA BARMAN	01-12-2005
<u>62 CAVALRY</u>				
21	JC 238489X	RIS	JAGIR SINGH	01-12-2005
22	JC 238178K	RIS	JAGROOP SINGH	01-12-2005
<u>20 LANCERS</u>				
23	JC 238404W	RIS	JORA RAM	01-09-2005
24	JC 238356F	RIS	SHYAMBIR SINGH RAWAT	01-10-2005
<u>63 CAVALRY</u>				
25	JC 238768H	RIS	RANVIR SINGH	01-11-2005
26	JC 238078Y	RIS	SURINDER SINGH	01-12-2005
<u>64 CAVALRY</u>				
27	JC 238110H	RIS	AZAD SINGH	01-12-2005

66 ARMoured REGIMENT

28	JC 238480H	RIS	MUKHTAR SINGH YADAV	01-10-2005
----	------------	-----	---------------------	------------

67 ARMoured REGIMENT

29	JC 239242H	RIS	HARBHAJAN SINGH	01-01-2006
30	JC 237995W	RIS	HUKAM SINGH	01-09-2005
31	JC 239194N	RIS	KARTAR SINGH	01-10-2005

70 ARMoured REGIMENT

32	JC 238639H	RIS	KIRPAL SINGH	01-12-2005
33	JC 238403N	RIS	LAXMAN SINGH	01-12-2005

71 ARMoured REGIMENT

34	JC 237776P	RIS	RAGHBIR SINGH	01-09-2005
----	------------	-----	---------------	------------

72 ARMoured REGIMENT

35	JC 237982Y	RIS	LAL CHAND YADAV	01-10-2005
36	JC 238648K	RIS	MAHENDRA SINGH	01-01-2006

73 ARMoured REGIMENT

37	JC 238006P	RIS	BALDEV SINGH	01-01-2006
38	JC 238345P	RIS	MOHINDER SINGH	01-12-2005

75 ARMoured REGIMENT

39	JC 237923M	RIS	AMAR SINGH	01-09-2005
40	JC 238079F	RIS	MUKUNDAN C	01-10-2005

76 ARMoured REGIMENT

41	JC 237613F	RIS	BHOLA RAM	01-10-2005
42	JC 237390P	RIS	RAGHBIR SINGH CHIB	01-09-2005

82 ARMoured REGIMENT

43	JC 239070Y	RIS	HOSHIAR SINGH	01-11-2005
44	JC 238962X	RIS	NIRANJAN SINGH SIKARWAR	01-09-2005

83 ARMoured REGIMENT

45	JC 238981H	RIS	HARI SINGH BHATI	01-12-2005
46	JC 237241F	RIS	RAMASHANKER RAY	01-12-2005
47	JC 237059F	RIS	RATTAN LAL	01-09-2005

84 ARMoured REGIMENT

48	JC 238856Y	RIS	GOKUL CHAND	01-11-2005
49	JC 239010K	RIS	GURMIT SINGH	01-12-2005

85 ARMoured REGIMENT

50	JC 239251K	RIS	RAM KISHAN	01-10-2005
51	JC 239329K	RIS	RAMAVTAR SINGH CHAUHAN	01-10-2005

86 ARMoured REGIMENT

52	JC 239072K	RIS	CHATTAR SINGH	01-11-2005
----	------------	-----	---------------	------------

87 ARMoured REGIMENT

53	JC 237925X	RIS	BIHAGWAN SINGH	01-01-2006
54	JC 237924P	RIS	GANESH SINGH MEHRAT	01-01-2006
55	JC 237648X	RIS	GANPAT SINGH	01-12-2005
56	JC 238199A	RIS	JAGJIT SINGH	01-12-2005
57	JC 237419M	RIS	SHIV CHARAN SINGH	01-11-2005
58	JC 237549P	RIS	SURINDER SINGH	01-12-2005

88 ARMoured REGIMENT

59	JC 237869K	RIS	BALKAR SINGH	01-01-2006
----	------------	-----	--------------	------------

60	JC 238221A	RIS	JAI PARKASH	01-01-2006
90 ARMOURED REGIMENT				
61	JC 237794X	RIS	GANGA SAHAY	01-10-2005
62	JC 237793P	RIS	SHISH RAM	01-11-2005
63	JC 238729K	RIS	YOGENDRA SINGH	01-12-2005
41 ARMOURED REGIMENT				
64	JC 238124H	RIS	RAM KAILASH PANDEY	01-01-2006
65	JC 238054P	RIS	YATINDRA NATH SINGH	01-01-2006
42 ARMOURED REGIMENT				
66	JC 237551M	RIS	MARK ANTHONY	01-10-2005
43 ARMOURED REGIMENT				
67	JC 238000N	RIS	DARSHAN SINGH	01-12-2005
44 ARMOURED REGIMENT				
68	JC 238029W	RIS	HARIVANSH SINGH	01-01-2006
46 ARMOURED REGIMENT				
69	JC 238101F	RIS	NAGENDER SINGH	01-10-2005
47 ARMOURED REGIMENT				
70	JC 236994F	RIS	HARI SHANKAR SINGH	01-01-2006
71	JC 236322P	RIS	JAGDISH SINGH	01-11-2005
72	JC 236992W	RIS	RAGHBIR SINGH	01-12-2005
73	JC 236644P	RIS	TARLOK SINGH	01-12-2005
48 ARMOURED REGIMENT				
74	JC 238147K	RIS	AMAR SINGH	01-12-2005
49 ARMOURED REGIMENT				
75	JC 237850L	RIS	MAHAK SINGH	01-10-2005
76	JC 237861X	RIS	RAMESH CHAND	01-12-2005
77	JC 236866K	RIS	SHRINIWAS RAI	01-01-2006
11 ARMOURED REGIMENT				
78	JC 237414N	RIS	JAGBIR SINGH	01-12-2005
50 ARMOURED REGIMENT				
79	JC 236245L	RIS	BALJINDER SINGH	01-09-2005
80	JC 237865N	RIS	SURINDER SINGH	01-09-2005
52 ARMOURED REGIMENT				
81	JC 237506A	RIS	SATYAVEER SINGH DHATTERWAL	01-11-2005
82	JC 238010X	RIS	SHRI RAVINDRA BABURAO DALAL	31-10-2005
53 ARMOURED REGIMENT				
83	JC 237341M	RIS	BALBIR SINGH	01-11-2005
ARMOURED CORPS				
84	JC 239038K	RIS	BARINDER SINGH	01-12-2005
85	JC 237911X	RIS	GURNAHAR SINGH	01-12-2005
86	JC 236715L	RIS	JOSHI KALIDAS	01-10-2005
87	JC 237910P	RIS	KAMAL KISHORE	01-10-2005
88	JC 237846H	RIS	KHAJUR SINGH	01-11-2005
89	JC 236434P	RIS	LALLAN PRASAD SINGH	01-01-2006
90	JC 237606L	RIS	MOHANA KUMAR P V	01-11-2005

91	JC 236432K	RIS	RABINDRA NATH BHUNIA	01-12-2005
92	JC 238407K	RIS	SAHIB SINGH	01-12-2005
93	JC 238556X	RIS	SATYA PAL	01-10-2005
94	JC 238857F	RIS	SHYAM SINGH	01-10-2005
95	JC 237518P	RIS	SURENDRA SINGH	01-10-2005
96	JC 237555H	RIS	UDAI NARAIN SINGH	01-10-2005

REGIMENT OF ARTILLERY

97	JC 258139M	SUB	A ARUNAGIRI	01-11-2005
98	JC 264110A	SUB	A R JOYAPPA	01-01-2006
99	JC 263763P	SUB	ABHAI SINGH	01-12-2005
100	JC 261325N	SUB	ABONI KUMAR SINHA	01-12-2005
101	JC 259097X	SUB	AJAIB SINGH	01-12-2005
102	JC 257475M	SUB	AJAYPAL SINGH	01-10-2005
103	JC 221223P	SUB	AMAR CHAND	01-12-2005
104	JC 261825L	SUB	AMIR SINGH	01-12-2005
105	JC 260153X	SUB	ANANT NARAYAN PANDEY	01-01-2006
106	JC 262005L	SUB	AROKIA SWAMY	01-12-2005
107	JC 257305H	SUB	ASHOK KUMAR	01-11-2005
108	JC 262899M	SUB	ASHOK KUMAR	01-12-2005
109	JC 261469W	SUB	AWADHESH SINGH	01-09-2005
110	JC 259083X	SUB	BABU LAL	01-01-2006
111	JC 257913K	SUB	BAJRANG SINGH KUSHWAHA	01-09-2005
112	JC 260740H	SUB	BALWANT SINGH	01-12-2005
113	JC 258875L	SUB	BANA RAM	01-01-2006
114	JC 262299K	SUB	BHAV DEO PRASAD	01-09-2005
115	JC 259378N	SUB	BHOSALE DHANANJAYRAO DHONDIRAM	01-11-2005
116	JC 215474H	SUB	BIDDAPPA K P	01-10-2005
117	JC 257613H	SUB	BINDER SINGH	01-01-2006
118	JC 221194L	SUB	BIRENDER SINGH	01-10-2005
119	JC 258012K	SUB	BIRENDRA SINGH	01-11-2005
120	JC 260642H	SUB	BISHAMBAR DAYAL	01-10-2005
121	JC 260268L	SUB	BOYATE POPUT BAPU	01-12-2005
122	JC 258133L	SUB	BUDHIMAN SINGH	01-11-2005
123	JC 260120M	SUB	BYAS JEE PANDEY	01-12-2005
124	JC 259923M	SUB	CHANDAN SINGH	01-10-2005
125	JC 260478L	SUB	CHANDRA MANI KHANDURI	01-01-2006
126	JC 260873Y	SUB	CHURIYA RAM	01-10-2005
127	JC 256308K	SUB	DALBIR SINGH	01-12-2005
128	JC 259449K	SUB	DALBIR SINGH	01-01-2006
129	JC 261616N	SUB	DALEEP KUMAR	01-01-2006
130	JC 261374W	SUB	DALIP SINGH	01-01-2006
131	JC 258373H	SUB	DAULAT RAM	01-12-2005
132	JC 260591A	SUB	DAULAT SINGH	01-10-2005
133	JC 256173N	SUB	DAYA KRISHAN PATHAK	01-10-2005

134	JC 256889M	SUB	DEVINDER SINGH	01-12-2005
135	JC 260626L	SUB	DHARAM VIR	01-10-2005
136	JC 226081M	SUB	DHARAMBIR SINGH	01-11-2005
137	JC 263447W	SUB	DHARMA KANTA BORA	01-01-2006
138	JC 263754N	SUB	DHIR PAL SINGH	01-12-2005
139	JC 259137N	SUB	DHIRENDER SINGH TOMAR	01-01-2006
140	JC 262271K	SUB	DILIP SINGH	01-11-2005
141	JC 258823P	SUB	DIN DAYAL TIWARI	01-10-2005
142	JC 260412P	SUB	DINESH SINGH	01-10-2005
143	JC 263877A	SUB	DOGAR SINGH	01-10-2005
144	JC 259904F	SUB	G GUNA SEKARAN	01-11-2005
145	JC 258086Y	SUB	GIRDHARI LAL	01-12-2005
146	JC 259431N	SUB	GOPALAKRISHNAN NAIR K	01-09-2005
147	JC 264420L	SUB	GOVINDAN B G	01-11-2005
148	JC 261489K	SUB	GOVINDASAMY.V	01-12-2005
149	JC 259386M	SUB	GURBACHAN SINGH	01-12-2005
150	JC 260092L	SUB	GURDIAL SINGH	01-11-2005
151	JC 260054P	SUB	GURMAIL SINGH	01-01-2006
152	JC 258338A	SUB	GURMIT SINGH	01-11-2005
153	JC 214904P	SUB	HARBHAJAN SINGH MANIHAIRI	01-09-2005
154	JC 257937N	SUB	HARI SINGH	01-11-2005
155	JC 258479P	SUB	HARIDEV DAS	01-09-2005
156	JC 256729M	SUB	HARNEK SINGH	01-01-2006
157	JC 260337W	SUB	HAYAT SINGH MAJHA	01-12-2005
158	JC 225439N	SUB	HOSHIAR SINGH	01-12-2005
159	JC 259633P	SUB	INDER JIT SINGH	01-11-2005
160	JC 262767Y	SUB	ISAKALA JORNISHI	01-11-2005
161	JC 261357W	SUB	ISHWAR SINGH	01-12-2005
162	JC 259079P	SUB	JADHAV BABAN KISAN	01-11-2005
163	JC 260350A	SUB	JAGDISH CHAND	01-09-2005
164	JC 260858K	SUB	JAGDISH CHAND DHIMAN	01-12-2005
165	JC 259061Y	SUB	JAGDISH CHANDER	01-01-2006
166	JC 262484X	SUB	JAGMAIL SINGH	01-01-2006
167	JC 259569H	SUB	JALESII SHARMA	01-11-2005
168	JC 226565M	SUB	JASWANT SINGH	01-01-2006
169	JC 257591P	SUB	JAYACHANDRAN K B	01-09-2005
170	JC 226530W	SUB	JIWAN RAM	01-12-2005
171	JC 257318A	SUB	JOGINDER KUMAR	01-10-2005
172	JC 262527F	SUB	JOGINDER SINGH	01-09-2005
173	JC 255375H	SUB	K CHANDRA PRAKASHI	01-09-2005
174	JC 262028M	SUB	KAMAL PRAKASHI	01-10-2005
175	JC 226031F	SUB	KAMLA SINGH YADAV	01-10-2005
176	JC 256937F	SUB	KANJI SINGH	01-10-2005
177	JC 262134L	SUB	KARTAR SINGH	01-12-2005
178	JC 258153Y	SUB	KAUR SINGH	01-10-2005

179	JC 261334P	SUB	KEHAR SINGH KHARWAL	01-09-2005
180	JC 262320F	SUB	KEWAL KRISHAN	01-09-2005
181	JC 257010M	SUB	KHAJUR SINGH TERPIAL	01-01-2006
182	JC 262103P	SUB	KISHAN SINGH POKHRIYA	01-01-2006
183	JC 258228L	SUB	KISHORE SINGH RATHORE	01-01-2006
184	JC 256192Y	SUB	KRISHAN KUMAR YADAV	01-10-2005
185	JC 258201N	SUB	KRISHAN PAL SINGH	01-01-2006
186	JC 259421K	SUB	KULDIP	01-09-2005
187	JC 258477K	SUB	KULDIP RAJ MANOTRA	01-01-2006
188	JC 263719L	SUB	KULDIP SINGH	01-01-2006
189	JC 263321W	SUB	KUMBH SINGH	01-10-2005
190	JC 260165M	SUB	KUTTY KRISHNAN THIRIKKOTT MEETHAL	01-12-2005
191	JC 260172H	SUB	LAIQ RAM	01-12-2005
192	JC 262168Y	SUB	LAKHAN SINGH	01-12-2005
193	JC 261728N	SUB	LALA RAM	01-12-2005
194	JC 257796K	SUB	LALLAN UPADHAYAY	01-10-2005
195	JC 259250H	SUB	LALTA PRASAD	01-11-2005
196	JC 256644W	SUB	MADAN LAL	01-12-2005
197	JC 221177L	SUB	MADAN LAL SHARMA	01-10-2005
198	JC 261317P	SUB	MADAN SINGH	01-11-2005
199	JC 260579Y	SUB	MAHANDER SINGH	01-01-2006
200	JC 257814F	SUB	MAHENDRA SINGH	01-11-2005
201	JC 259760K	SUB	MAHIPAL SINGH TOMAR	01-12-2005
202	JC 258586W	SUB	MAN PHOOL SINGH	01-09-2005
203	JC 257185P	SUB	MOHINDER LAL KATARIA	01-12-2005
204	JC 259672N	SUB	MOHINDER SINGH	01-11-2005
205	JC 258026K	SUB	MULE SHIVAJI VASHANTRAO	01-09-2005
206	JC 258081A	SUB	N LINGAM	01-11-2005
207	JC 225200L	SUB	NAIK RAM	01-01-2006
208	JC 260405Y	SUB	NALLANANAGESWARA RAO	01-01-2006
209	JC 256480L	SUB	NARAYAN SINGH SHEKHAWAT	01-09-2005
210	JC 259905K	SUB	NAROTUM LAL	01-12-2005
211	JC 258473N	SUB	NATHUNI PASWAN	01-11-2005
212	JC 200483M	SUB	OM PARKASH	01-10-2005
213	JC 263900H	SUB	OM PARKASH	01-09-2005
214	JC 258549H	SUB	OM PRAKASH	01-10-2005
215	JC 261001H	SUB	P AMALANATHAN	01-12-2005
216	JC 259012W	SUB	P CHELLIAH	01-09-2005
217	JC 261138P	SUB	PADMANNA B S	01-11-2005
218	JC 260872W	SUB	PALA SINGH	01-01-2006
219	JC 260901A	SUB	PANCHAL MANOHAR	01-01-2006
220	JC 261013X	SUB	PARKASH CHAND	01-11-2005
221	JC 256195M	SUB	PATIL DURYODHAN TULSIRAM	01-11-2005
222	JC 256845P	SUB	PATIL SHANKAR DATTA TRAY	01-01-2006

223	JC 263545W	SUB	PHADTARE BAL KRISHNA BABU RAO	01-01-2006
224	JC 259513W	SUB	PHUL SINGH	01-11-2005
225	JC 259726K	SUB	PRAHLAD SINGH RAJPUT	01-01-2006
226	JC 261826N	SUB	PRAN NATH	01-11-2005
227	JC 258817F	SUB	PREM SAGAR MISHRA	01-09-2005
228	JC 257095N	SUB	PREM SINGH	01-11-2005
229	JC 226103A	SUB	PRITAM SINGH	01-11-2005
230	JC 258299M	SUB	PURAN CHAND	01-12-2005
231	JC 261171M	SUB	R RAVINATHAN	01-01-2006
232	JC 262830H	SUB	RAGHUBIR SINGH	01-09-2005
233	JC 263541A	SUB	RAI SINGH	01-11-2005
234	JC 261584W	SUB	RAJ KUMAR	01-10-2005
235	JC 260756N	SUB	RAJ KUMAR SINGH SENGAR	01-10-2005
236	JC 259011N	SUB	RAJ SINGH	01-10-2005
237	JC 260889K	SUB	RAJ SINGH	01-10-2005
238	JC 260787N	SUB	RAJENDER PRASAD	01-12-2005
239	JC 258841X	SUB	RAJENDER SINGH	01-01-2006
240	JC 258886X	SUB	RAJENDER SINGH	01-12-2005
241	JC 262942H	SUB	RAJINDER SINGH	01-12-2005
242	JC 259124W	SUB	RAJNATH SINGH YADAV	01-09-2005
243	JC 262798Y	SUB	RAJU O	01-09-2005
244	JC 259123N	SUB	RAM KISHAN	01-09-2005
245	JC 260519K	SUB	RAM KISHAN YADAV	01-10-2005
246	JC 259314H	SUB	RAMPAL	01-01-2006
247	JC 260560A	SUB	RAM PARKASH	01-10-2005
248	JC 257823H	SUB	RAM PRATAP	01-10-2005
249	JC 258121W	SUB	RAM PRATAP YADAVA	01-09-2005
250	JC 257554F	SUB	RAM SARAN	01-11-2005
251	JC 256106H	SUB	RAM SINGH	01-01-2006
252	JC 262507N	SUB	RAM SINGH	01-11-2005
253	JC 257340Y	SUB	RAMESH CHAND	01-12-2005
254	JC 259313A	SUB	RAMESH CHAND	01-10-2005
255	JC 261538F	SUB	RAMESH CHAND	01-12-2005
256	JC 258449X	SUB	RAMESHWAR SINGH	01-01-2006
257	JC 261914K	SUB	RASHIPAL SINGH	01-09-2005
258	JC 257199P	SUB	RATI PAL SINGH	01-01-2006
259	JC 258292H	SUB	RATTAN SINGH	01-01-2006
260	JC 258478M	SUB	S K MAHAMOOD	01-10-2005
261	JC 258682L	SUB	SADANANDAN A	01-09-2005
262	JC 200192M	SUB	SAHAB SINGH	01-11-2005
263	JC 259496F	SUB	SAJJAN SINGH	01-11-2005
264	JC 262230A	SUB	SALIGRAM PANDURANG GHODE	01-01-2006
265	JC 261880F	SUB	SANSAR CHAND	01-10-2005
266	JC 258592K	SUB	SARDAR SINGH YADAV	01-11-2005
267	JC 260314P	SUB	SARUP CHAND	01-09-2005
268	JC 262638Y	SUB	SARWAN SINGH	01-09-2005
269	JC 217017N	SUB	SASI V	01-10-2005
270	JC 257537F	SUB	SATISH KUMAR	01-09-2005
271	JC 262206K	SUB	SATISH KUMAR	01-11-2005
272	JC 257590M	SUB	SATISH PRAKASH	01-09-2005

273	JC 258326H	SUB	SATWANT SINGH	01-01-2006
274	JC 225415K	SUB	SATYA PAL	01-11-2005
275	JC 260629Y	SUB	SATYABIR SINGH	01-12-2005
276	JC 256939M	SUB	SEWANAND MISHRA	01-01-2006
277	JC 258336P	SUB	SHAIK CHINA SATTARVALI	01-11-2005
278	JC 258510W	SUB	SHER SINGH	01-12-2005
279	JC 258677A	SUB	SHIV RATAN SINGH	01-11-2005
280	JC 260424K	SUB	SHRI KRISHAN YADAV	01-11-2005
281	JC 260695F	SUB	SITA RAM	01-12-2005
282	JC 263902N	SUB	SUBA SINGH	01-12-2005
283	JC 259700P	SUB	SUBRAHMANYAN P	01-12-2005
284	JC 261202F	SUB	SUKHCHAIN SINGH	01-10-2005
285	JC 263484K	SUB	SUKHDEV SINGH	01-10-2005
286	JC 256713F	SUB	SURAJ SINGH	01-11-2005
287	JC 262052H	SUB	SURAT RAM	01-12-2005
288	JC 260747M	SUB	SURENDAR KUMAR	01-10-2005
289	JC 226795A	SUB	SURESH KUMAR	01-09-2005
290	JC 260024X	SUB	SWAMINATH CHOWDHARY	01-01-2006
291	JC 262620H	SUB	SWARAN SINGH	01-01-2006
292	JC 259264H	SUB	SWAROOP SINGH	01-11-2005
293	JC 260898L	SUB	TAJINDER SINGH	01-01-2006
294	JC 258528M	SUB	TARLOCHAN SINGH	01-10-2005
295	JC 260945X	SUB	TARSEM SINGH	01-12-2005
296	JC 225392N	SUB	TEJ PAL SINGH	01-12-2005
297	JC 256169L	SUB	THOMAS V J	01-09-2005
298	JC 257614L	SUB	TILAK RAJ	01-01-2006
299	JC 259454P	SUB	TOTA RAM	01-12-2005
300	JC 258967X	SUB	UDAI SINGH	01-12-2005
301	JC 260990K	SUB	UDAIVIR SINGH	01-01-2006
302	JC 263212K	SUB	UMESH BABU	01-11-2005
303	JC 226369M	SUB	VED PARKASH	01-09-2005
304	JC 263127F	SUB	VINOD KUMAR SINGH	01-10-2005
305	JC 259183H	SUB	VUCHULA PRASAD	01-09-2005

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

306	JC 296338K	SUB	AMAR SINGH BHOJ	01-09-2005
307	JC 296457A	SUB	BIKRAM JEET SINGH	01-11-2005
308	JC 214933K	SUB	DAYA SHANKER SINGH	01-10-2005
309	JC 215347N	SUB	GIAN CHAND SHARMA	01-10-2005
310	JC 296676F	SUB	JAGDISH PARASAD	01-09-2005
311	JC 297116F	SUB	JANAK RAJ	01-10-2005
312	JC 296902N	SUB	KALI PRASAD	01-01-2006
313	JC 296043N	SUB	KUNJ BIHARI SINGH	01-12-2005
314	JC 297342Y	SUB	MATADIN YADAV	01-09-2005
315	JC 296810F	SUB	R PRASHAD PANDEY	01-11-2005
316	JC 220071M	SUB	RAJENDRA PAL SINGH	01-01-2006
317	JC 297128W	SUB	RAM LAL	01-01-2006
318	JC 255333H	SUB	SOLANKI S GIRADHAR	01-01-2006
319	JC 297081W	SUB	SURESH KUMAR YADAV	01-10-2005
320	JC 297178F	SUB	TAPAN KUMAR DAS	01-11-2005

MADRAS ENGINEER GROUP

321	JC 306376W	SUB	A VIJAYARAMULU	01-01-2006
322	JC 305633W	SUB	ALLADA V PHANEENDRUDU	01-09-2005
323	JC 305529H	SUB	BASKARAN N G	01-10-2005
324	JC 306481M	SUB	CHANDRASHEKHAR PIGAD	01-01-2006
325	JC 306227H	SUB	DILEEP KUMAR V K	01-12-2005
326	JC 210459K	SUB	JOGINDER PAL SINGH	01-11-2005
327	JC 207552A	SUB	KRISHNAN KUTTY C	01-01-2006
328	JC 305826W	SUB	KURIEN M A	01-12-2005
329	JC 305424Y	SUB	M SUBRAMANIA NAIDU	01-11-2005
330	JC 306520A	SUB	MALI SETTY KRISHNAIAH	01-12-2005
331	JC 306609M	SUB	MOHANAN A	01-12-2005
332	JC 305946P	SUB	MURTHY R	01-12-2005
333	JC 305812W	SUB	N RAJASEKARAN	01-01-2006
334	JC 306111M	SUB	PANKAJAKSHAN C	01-12-2005
335	JC 305926F	SUB	PUSHPANGADAN G	01-01-2006
336	JC 306811A	SUB	R RAJAKUMAR	01-01-2006
337	JC 306194H	SUB	RAJENDRAN B	01-09-2005
338	JC 305927K	SUB	RAMACHANDRAN C	01-01-2006
339	JC 305425F	SUB	RAMACHANDRAN NAIR G	01-11-2005
340	JC 325334Y	SUB	SATISH CHANDRA GAUR	01-01-2006
341	JC 305051W	SUB	SIVANANDAN P	01-12-2005
342	JC 305423W	SUB	V V SANKARANARAYANAN	01-09-2005

BENGAL ENGINEER GROUP

343	JC 216065F	SUB	ABDUL NAYEEM	01-09-2005
344	JC 326645Y	SUB	BAHADUR SINGH	01-12-2005
345	JC 325919M	SUB	BALBIR SINGH BANGA	01-09-2005
346	JC 326538X	SUB	BALWINDER SINGH	01-12-2005
347	JC 327974F	SUB	BASWANT SINGH	01-09-2005
348	JC 326644W	SUB	BHIM SINGH YADAV	01-11-2005
349	JC 326514N	SUB	BISHAN DATT SHARMA	01-01-2006
350	JC 326784H	SUB	BRAHAM PRAKASH	01-09-2005
351	JC 326840W	SUB	DAN SINGH	01-01-2006
352	JC 326894X	SUB	DARWAN SINGH	01-12-2005
353	JC 326937F	SUB	GAMBHIR SINGH	01-10-2005
354	JC 325716K	SUB	GURLALJIT SINGH SANDHU	01-01-2006
355	JC 326534F	SUB	HARIHAR KUNWAR	01-10-2005
356	JC 326680F	SUB	HASIN ULLAH	01-11-2005
357	JC 326717X	SUB	HAYAT SINGH	01-10-2005
358	JC 224819A	SUB	JAGDISH SINGH NEGI	01-11-2005
359	JC 327465H	SUB	JAGTAR SINGH	01-10-2005
360	JC 326402N	SUB	JAIRAM SINGH	01-12-2005
361	JC 327209N	SUB	JARNAIL SINGH	01-01-2006
362	JC 327248M	SUB	JASWINDER SINGH	01-11-2005
363	JC 327498N	SUB	KUPPUSAMI N	01-09-2005
364	JC 197218H	SUB	MAHABEER SINGH KALURA	01-10-2005
365	JC 325543W	SUB	MAHINDER NATH DUBEY	01-01-2006
366	JC 327323L	SUB	MAHIPAL SINGH	01-01-2006
367	JC 325387X	SUB	MALKIAT SINGH	01-09-2005
368	JC 326433N	SUB	MOHINDER SINGH	01-12-2005
369	JC 325626F	SUB	NARINDER PAL SINGH	01-09-2005

370	JC 325713P	SUB	ONKAR NATH	01-10-2005
371	JC 327064N	SUB	PRATAP SINGH	01-09-2005
372	JC 326208Y	SUB	PREETAM SINGH	01-01-2006
373	JC 325869M	SUB	RABHNDRA SINGH	01-01-2006
374	JC 326893P	SUB	RADHE SHYAM RAI	01-12-2005
375	JC 326279A	SUB	RAMADHAR SINGH	01-09-2005
376	JC 325107Y	SUB	SABRUP SINGH	01-09-2005
377	JC 327253X	SUB	SATBIR SINGH	01-01-2006
378	JC 326798H	SUB	SATPAL	01-01-2006
379	JC 306182N	SUB	SHAIK SHARFUDDIN	01-12-2005
380	JC 327245Y	SUB	SHANKAR SINGH RAWAL	01-09-2005
381	JC 327086M	SUB	SHIV KUMAR	01-11-2005
382	JC 326652P	SUB	SHOBHAN SINGH	01-01-2006
383	JC 326535K	SUB	SHRI RAM PANDEY	01-11-2005
384	JC 216006P	SUB	SOVAKAR DAS	01-01-2006
385	JC 327150Y	SUB	SUNIL DATT	01-09-2005
386	JC 326778P	SUB	SURENDRA PRATAP SINGH	01-10-2005
387	JC 326597K	SUB	TRILOK SINGH JAMIYAL	01-09-2005

BOMBAY ENGINEER GROUP

388	JC 347993N	SUB	ABDUL RASHID KHAN	01-12-2005
389	JC 347925A	SUB	AHABARAN SINGH	01-12-2005
390	JC 347682A	SUB	BABU KHAN	01-12-2005
391	JC 209573P	SUB	BAKSHSHIS SINGH	01-11-2005
392	JC 210817K	SUB	BALDEV SINGH	01-12-2005
393	JC 348309M	SUB	BALDEV SINGH	01-12-2005
394	JC 347900N	SUB	BECHE LAL	01-12-2005
395	JC 347322K	SUB	BHANA RAM GOTHWAL	01-11-2005
396	JC 347895N	SUB	BRAJRAJ PRASAD	01-12-2005
397	JC 348023X	SUB	DEEPAK KUMAR THAPA	01-01-2006
398	JC 207959W	SUB	GAJADHAR SHARMA	01-01-2006
399	JC 347834W	SUB	GAVADE MAHIPATI TUKARAM	01-12-2005
400	JC 348283H	SUB	HARILAL NIRMAL	01-12-2005
401	JC 347239M	SUB	IBRAHIM	01-01-2006
402	JC 347937P	SUB	JAGPAL SINGH	01-12-2005
403	JC 347761P	SUB	JAL SINGH CHOUHAN	01-12-2005
404	JC 347837K	SUB	JARNAIL SINGH	01-12-2005
405	JC 348158Y	SUB	JARNAIL SINGH	01-12-2005
406	JC 348390K	SUB	JOGINDER SINGH	01-09-2005
407	JC 347096X	SUB	KARNAIL SINGH	01-10-2005
408	JC 348261K	SUB	KRISHAN SINGH	01-01-2006
409	JC 347643F	SUB	MANOHAR SINGH	01-12-2005
410	JC 348123H	SUB	MOHD WAKIL KHAN	01-09-2005
411	JC 347574W	SUB	MUKHA SINGH	01-10-2005
412	JC 348369F	SUB	NANGU RAM JATAV	01-12-2005
413	JC 347571H	SUB	NIRANJAN SINGH	01-11-2005
414	JC 224985N	SUB	OM PRAKASH PRASAD	01-09-2005
415	JC 348312M	SUB	RAJBIR	01-01-2006
416	JC 347334Y	SUB	RASHPAL SINGH	01-01-2006
417	JC 347338P	SUB	RINDHE KHUSHALRAO BAJIRAO	01-10-2005
418	JC 348104X	SUB	SADIQ MASHI	01-11-2005
419	JC 347918K	SUB	SURINDER SINGH	01-10-2005
420	JC 347990A	SUB	TARSEM SINGH	01-10-2005

CORPS OF SIGNALS

421	JC 369522A	SUB	A CHANDRAN	01-09-2005
422	JC 372755M	SUB	ABDUL KHALIK	01-10-2005
423	JC 369100P	SUB	AMAR SINGH THAPA	01-10-2005
424	JC 371419N	SUB	ANOP SINGH RATHORE	01-11-2005
425	JC 371810L	SUB	BABU LAL	01-11-2005
426	JC 370844M	SUB	BANDARU VENKANNA	01-10-2005
427	JC 367090X	SUB	BANNA SINGH RAWAT	01-11-2005
428	JC 370009L	SUB	BANSHI DHAR SAHOO	01-12-2005
429	JC 370000W	SUB	BHUPATI RAI	01-11-2005
430	JC 370113Y	SUB	CHANDRA MANI GURU	01-12-2005
431	JC 372756P	SUB	DAYA SHANKAR SINGH	01-10-2005
432	JC 371429X	SUB	GANGA RAM	01-01-2006
433	JC 368602L	SUB	GIRISH CHANDRA SINGH RAWAT	01-01-2006
434	JC 368886A	SUB	HARI RAM	01-01-2006
435	JC 370791Y	SUB	HARI SINGH DADHWAL	01-10-2005
436	JC 370377A	SUB	HERMAN KONGARI	01-10-2005
437	JC 371473F	SUB	JADHAV AGATRAO GANPATI	01-11-2005
438	JC 368743A	SUB	JAGABANDHU JENA	01-12-2005
439	JC 371098F	SUB	JAI SINGH PARJAPAT	01-10-2005
440	JC 372343L	SUB	JAT RAM KARAN SINGH	01-11-2005
			MAHADEV LAL	
441	JC 369456H	SUB	JOHN THOMAS	01-10-2005
442	JC 370783A	SUB	KANHU CHARAN MESHUA	01-12-2005
443	JC 371495A	SUB	KARTIK CHANDRA BISWAS	01-01-2006
444	JC 370600Y	SUB	KHENDKAR DATTA VITHOBA	01-11-2005
445	JC 370792F	SUB	KODI SUBBARAMAIAH	01-12-2005
446	JC 370003K	SUB	KRISHNA CHANDRA KALA	01-12-2005
447	JC 372356H	SUB	LAL CHAND	01-01-2006
448	JC 370904W	SUB	LAL DHARI SINGH	01-01-2006
449	JC 368970A	SUB	M MUTHU PONNIAH	01-11-2005
450	JC 372353P	SUB	MAGUNI JENA	01-11-2005
451	JC 368957W	SUB	MAKHAN LAL HAZRA	01-10-2005
452	JC 371080L	SUB	MALLAH BINDA PRASAD HIRA	01-11-2005
453	JC 367753X	SUB	MANNI KUTTAN NAIR P P	01-12-2005
454	JC 371494X	SUB	MULCHAND DUDDI	01-10-2005
455	JC 369095P	SUB	NARENDRA PRATAP SINGH	01-10-2005
456	JC 371081N	SUB	PARGAT SINGH GILL	01-11-2005
457	JC 370112W	SUB	PAYALA RAMAKRISHNAIAH	01-10-2005
458	JC 370401L	SUB	PRABIN KUMAR PHUKAN	01-09-2005
459	JC 371420H	SUB	PRADIP KUMAR MOHANTY	01-12-2005
460	JC 367261Y	SUB	PRATAP SINGH	01-12-2005
461	JC 372255P	SUB	RAJ SINGH	01-09-2005
462	JC 371051W	SUB	RAJPAL SINGH	01-11-2005
463	JC 372571N	SUB	RAM KRISHAN SHAKYA	01-01-2006
464	JC 369294H	SUB	RAMAKANT RAJBHAR	01-11-2005
465	JC 368745L	SUB	RAVI BHATTACHARYA	01-01-2006
466	JC 371822A	SUB	S GANESAN	01-11-2005
467	JC 372897K	SUB	S POORNA SIVAM	01-01-2006
468	JC 370460X	SUB	SACHENDRA KUMAR	01-11-2005
469	JC 372299M	SUB	SATISH CHANDER	01-01-2006

470	JC 371853A	SUB	SATNAM	01-10-2005
471	JC 371502L	SUB	SIRI RAM SINGH	01-12-2005
472	JC 367300M	SUB	SRINIBAS SAHOO	01-11-2005
473	JC 368754M	SUB	TAPAN KUMAR CHOWDHURY	01-01-2006
474	JC 369468X	SUB	UTTAM SINGH NEGI	01-12-2005

THE BRIGADE OF GUARDS

475	JC 402283Y	SUB	A DIRAVIDA MANI	01-10-2005
476	JC 402669Y	SUB	ANIL KUMAR MEHTA	01-01-2006
477	JC 402518A	SUB	AWDESH SINGH	01-12-2005
478	JC 402755K	SUB	BASANT SINGH	01-12-2005
479	JC 402537L	SUB	BINOY KRISHNA SARKAR	01-10-2005
480	JC 402488N	SUB	BRIJ LAL	01-10-2005
481	JC 402153W	SUB	CHANDRAN T M	01-12-2005
482	JC 402579X	SUB	DALIP SINGH	01-01-2006
483	JC 402072W	SUB	DEB SINGH	01-01-2006
484	JC 222600M	SUB	DHAN RAJ RAI	01-12-2005
485	JC 402731A	SUB	DINESH CHANDRA	01-12-2005
486	JC 220860Y	SUB	GOPAL SINGH	01-09-2005
487	JC 402899M	SUB	GYARSI LAL	01-11-2005
488	JC 402581P	SUB	HARESHWAR PATHAK	01-12-2005
489	JC 402159X	SUB	HARI PRASAD	01-11-2005
490	JC 402693P	SUB	HARI RAM	01-01-2006
491	JC 402198W	SUB	HARI SHANKER GIR	01-12-2005
492	JC 402577M	SUB	HARJIT SINGH	01-01-2006
493	JC 402379F	SUB	HARNAM SINGH	01-10-2005
494	JC 402438H	SUB	JAGDISH PRASAD	01-09-2005
495	JC 402047X	SUB	JASPAL SINGH	01-10-2005
496	JC 402274X	SUB	KANCHAN SINGH	01-09-2005
497	JC 402578P	SUB	KARAM CHAND RANA	01-01-2006
498	JC 402954X	SUB	KAWAL SINGH	01-01-2006
499	JC 402127P	SUB	KHUSIYA RAM	01-10-2005
500	JC 402898K	SUB	KUWAR PAL	01-11-2005
501	JC 402275A	SUB	MANIK RAJ SINGH	01-10-2005
502	JC 402364Y	SUB	MANOHAR	01-10-2005
503	JC 402472H	SUB	MANROOP	01-12-2005
504	JC 402297Y	SUB	MATA PRASAD	01-10-2005
505	JC 402950F	SUB	MEWA SINGH	01-01-2006
506	JC 402476Y	SUB	MOHAN KUMAR MISRA	01-12-2005
507	JC 402409N	SUB	NAGESHWAR PRASAD	01-11-2005
508	JC 402519H	SUB	NARENDRA SINGH	01-09-2005
509	JC 402468A	SUB	NIRANJAN SINGH	01-11-2005
510	JC 402598H	SUB	PANNA RAM JAT	01-12-2005
511	JC 402124F	SUB	RAGHUBIR SINGH GURJAR	01-10-2005
512	JC 402511W	SUB	RAJARAM SINGH BAGHEL	01-01-2006
513	JC 402962W	SUB	RAJINDER SINGH	01-01-2006
514	JC 402791P	SUB	RAM AUTAR SINGH	01-12-2005
515	JC 402722Y	SUB	RAM DULARE SINGH	01-10-2005
516	JC 402919P	SUB	RAM KISHAN	01-11-2005
517	JC 402194A	SUB	RAM KISHORE	01-10-2005
518	JC 402672Y	SUB	RAM LARETE LAL	01-09-2005
519	JC 402599L	SUB	RAM SAROOP	01-09-2005

520	JC 402696H	SUB	RAMA NATH SINGH	01-01-2006
521	JC 402465M	SUB	RASAL SINGH CHAMBIAL	01-10-2005
522	JC 200958L	SUB	RATTAN SINGH THAKUR	01-09-2005
523	JC 402891A	SUB	SATYA PAL	31-10-2005
524	JC 402539W	SUB	SATYAVIR SINGH SHEORAIN	01-10-2005
525	JC 402617H	SUB	SHAMSHER SINGH	01-11-2005
526	JC 402549A	SUB	SHIV CHARAN LAL	01-01-2006
527	JC 402715H	SUB	SUKHDEV SINGH	01-01-2006
528	JC 402309H	SUB	SURJIT SINGH	01-11-2005
529	JC 402886P	SUB	TILAK CHAND	01-10-2005
530	JC 402646X	SUB	UDA RAM	01-01-2006

THE PARACHUTE REGIMENT

531	JC 412203K	SUB	BISHNU RAM BARO	01-10-2005
532	JC 412124P	SUB	DALJIT SINGH	01-09-2005
533	JC 412424W	SUB	DUNGARMAL DHAKA	01-10-2005
534	JC 412237X	SUB	GHOLAP MADHUKAR ANNA	01-10-2005
535	JC 412336A	SUB	NIRMAL KUMAR	01-09-2005
536	JC 412436L	SUB	RAJPAL SINGH	01-11-2005
537	JC 412057P	SUB	RAM MEHAR SINGH	01-11-2005
538	JC 412380K	SUB	ROHTASH KUMAR	01-09-2005
539	JC 412381M	SUB	SHARWAN KUMAR CONDLE	01-09-2005

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

540	JC 418710N	SUB	AJAIB SINGH	01-10-2005
541	JC 418933L	SUB	BAJRANG SINGH RATHORE	01-12-2005
542	JC 418530L	SUB	BAL BAHADUR THAPA	01-09-2005
543	JC 418019P	SUB	BAL RAM	01-11-2005
544	JC 216410K	SUB	BALAM SINGH NEGI	01-09-2005
545	JC 419329M	SUB	BALDEV SINGH	01-09-2005
546	JC 419472Y	SUB	BALDEV SINGH	01-01-2006
547	JC 418394A	SUB	BALWINDER SINGH	01-10-2005
548	JC 418064F	SUB	BHAGAT SINGH	01-10-2005
549	JC 418303L	SUB	BHAGWAT SINGH	01-01-2006
550	JC 418928A	SUB	BHANWAR SINGH	01-12-2005
551	JC 418204H	SUB	BHUPINDER SINGH	01-01-2006
552	JC 419045H	SUB	BISAN SINGH RANA	01-12-2005
553	JC 206670F	SUB	CHANDRA BAHADUR RANA	01-11-2005
554	JC 418052M	SUB	CHARANJIT SINGH	01-01-2006
555	JC 419375F	SUB	CHUNI LAL CHAUHAN	01-09-2005
556	JC 418690L	SUB	DIWAN SINGH	01-01-2006
557	JC 418800P	SUB	GANESH BAHADUR GURUNG	01-11-2005
558	JC 419468W	SUB	GURCHARAN KUMAR	01-01-2006
559	JC 418574H	SUB	HARPAL SINGH	01-09-2005
560	JC 418464N	SUB	HOSHIAR SINGH	01-01-2006
561	JC 206671K	SUB	JAGAT RAM	01-01-2006
562	JC 418936Y	SUB	KARNA BAHADUR GURUNG	01-11-2005
563	JC 418318N	SUB	KHEM RAJ	01-11-2005
564	JC 418386F	SUB	KHUM BAHADUR THAPA	01-09-2005
565	JC 418926P	SUB	KRISHAN SINGH ANKOTI	01-10-2005
566	JC 418348L	SUB	KUNWAR SINGH	01-12-2005
567	JC 418441M	SUB	KUSHAL SINGH	01-10-2005

568	JC	418763M	SUB	LAL BAHADUR GURUNG	01-01-2006
569	JC	418916L	SUB	LAL BAHADUR SHRESTHA	01-10-2005
570	JC	418381H	SUB	LESAR RAM THAKUR	01-11-2005
571	JC	418260F	SUB	LUM BAHADUR GURUNG	01-09-2005
572	JC	418807Y	SUB	MADAN KUMAR THAPA	01-11-2005
573	JC	419164Y	SUB	MADAN LAL	01-12-2005
574	JC	418387K	SUB	MADAN MOHAN	01-12-2005
575	JC	195454L	SUB	MAHABIR SINGH	01-09-2005
576	JC	418309M	SUB	MAHAVIR SINGH	01-10-2005
577	JC	211620A	SUB	MAKHAN SINGH	01-10-2005
578	JC	418877X	SUB	MANOHAR SINGH	01-10-2005
579	JC	418601F	SUB	MEWA SINGH	01-10-2005
580	JC	419046L	SUB	MOHAN KUMAR THAPA	01-01-2006
581	JC	219275M	SUB	NIRMAL SINGH	01-12-2005
582	JC	418380A	SUB	OM PARKASH	01-10-2005
583	JC	206655M	SUB	OM PERKASH	01-12-2005
584	JC	419072M	SUB	PANKE KAKASAHEB SUBRAO	01-10-2005
585	JC	418323Y	SUB	PATIL RAGHUNATH SHAMRAO	01-09-2005
586	JC	418342K	SUB	PRANVIR SINGH RAWAT	01-10-2005
587	JC	418195M	SUB	PRATAP SINGH	01-10-2005
588	JC	418198A	SUB	PREM CHAND	01-09-2005
589	JC	418429L	SUB	PUNJAB SINGH	01-01-2006
590	JC	418691N	SUB	PUSHKAR SINGH	01-01-2006
591	JC	418639L	SUB	RABINDER SINGH	01-09-2005
592	JC	418857F	SUB	RAJENDER SINGH	01-10-2005
593	JC	419469Y	SUB	RAJINDER SINGH	01-09-2005
594	JC	418506P	SUB	RAM KISHAN	01-11-2005
595	JC	418336W	SUB	RAM PRAKASH	01-12-2005
596	JC	418454K	SUB	RANBIR SINGH	01-09-2005
597	JC	418904W	SUB	RANJIT SINGH	01-10-2005
598	JC	419393K	SUB	RUP CHAND	01-09-2005
599	JC	418393X	SUB	SARWAN SINGH	01-09-2005
600	JC	225986H	SUB	SHEDGE DATTARAM BABAJI	01-09-2005
601	JC	219272Y	SUB	SHIV PAL	01-10-2005
602	JC	216436Y	SUB	SUBHASH CHAND DOGRA	01-10-2005
603	JC	418138L	SUB	SUKHDEV SINGH	01-11-2005
604	JC	419380M	SUB	SUNDER SINGH	01-09-2005
605	JC	419089A	SUB	SURAVASE CHANGADEO KRASHNA	01-01-2006
606	JC	194211N	SUB	SURENDRA RANA	01-11-2005
607	JC	418227K	SUB	TERSAM KUMAR SHARMA	01-10-2005
608	JC	418952W	SUB	UMMED SINGH	01-10-2005
609	JC	418685A	SUB	VIJAI SINGH	01-01-2006
610	JC	183648F	SUB	VIJAYAN PILLAI K V	01-01-2006
611	JC	418858M	SUB	VIJENDER SINGH	01-10-2005
612	JC	225075M	SUB	YAM BAHADUR THAPA	01-11-2005

THE PUNJAB REGIMENT

613	JC	428834W	SUB	AMAR SINGH	01-09-2005
614	JC	428882W	SUB	AMIN CHAND VERMA	01-09-2005
615	JC	428828H	SUB	AVTAR SINGH	01-10-2005
616	JC	428398K	SUB	BALDEV RAJ	01-12-2005
617	JC	218396F	SUB	BILLA SINGH	01-12-2005

618	JC 428978Y	SUB	DES RAJ	01-09-2005
619	JC 428681X	SUB	DHANI RAM	01-10-2005
620	JC 428968P	SUB	DHARAM SINGH	01-09-2005
621	JC 428750H	SUB	DILBAGH SINGH	01-11-2005
622	JC 428270Y	SUB	HARDIP SINGH SASAN	01-10-2005
623	JC 428796L	SUB	HARMENDER SINGH JAMWAL	01-12-2005
624	JC 428435M	SUB	JAGTAR SINGH	01-09-2005
625	JC 428570A	SUB	JOGA SINGH	01-12-2005
626	JC 428401Y	SUB	KARAN SINGH SAMKARIA	01-11-2005
627	JC 428822F	SUB	KEWAL SINGH	01-11-2005
628	JC 428678L	SUB	KULWANT SINGH	01-10-2005
629	JC 428963W	SUB	MADAN LAL	01-10-2005
630	JC 428856P	SUB	MILAP CHAND	01-10-2005
631	JC 428644K	SUB	MOHAN LAL	01-09-2005
632	JC 429007A	SUB	PREM LAL BHARDWAJ	01-09-2005
633	JC 428989L	SUB	PRITAM DASS	01-10-2005
634	JC 428643F	SUB	PRITPAL SINGH	01-10-2005
635	JC 428672W	SUB	RAJ KUMAR	01-12-2005
636	JC 428779L	SUB	RAM KUMAR SAINI	01-10-2005
637	JC 428925A	SUB	ROMESH CHAND KATOCH	01-10-2005
638	JC 429016F	SUB	SHAM LAL	01-10-2005
639	JC 428573N	SUB	SHER SINGH	01-09-2005
640	JC 428820W	SUB	SUJAN SINGH	01-10-2005
641	JC 428835Y	SUB	SUKH DEV	01-09-2005
642	JC 428979F	SUB	SURESH KUMAR	01-10-2005
643	JC 428611Y	SUB	SURESH KUMAR SHARMA	01-09-2005
644	JC 428845H	SUB	SURINDER SINGH	01-01-2006
645	JC 428678X	SUB	SURJIT SINGH CHAUHAN	01-10-2005
646	JC 428083A	SUB	TARA CHAND	01-10-2005

THE MADRAS REGIMENT

647	JC 438039K	SUB	ALAMURU SAMBA SIVUDU	01-10-2005
648	JC 438526K	SUB	BALTHULA MOSES THYAGARAJU	01-12-2005
649	JC 438459K	SUB	BASAVA RAJ GADAD	01-11-2005
650	JC 438316K	SUB	BHASKARAN V	01-11-2005
651	JC 438720Y	SUB	BOSE V R	01-11-2005
652	JC 438406L	SUB	JOHN KUTTY C	01-09-2005
653	JC 438503H	SUB	SREEDHARAN U	01-10-2005

THE GRENADIERS

654	JC 448662N	SUB	AZIZ KHAN	01-09-2005
655	JC 448922N	SUB	BABU KHAN	01-01-2006
656	JC 448973F	SUB	BAHADUR SINGH	01-12-2005
657	JC 448516N	SUB	BIJENDRA SINGH	01-09-2005
658	JC 448402H	SUB	BISHAMBER SINGH	01-11-2005
659	JC 449110M	SUB	BODHI RAJ	01-10-2005
660	JC 448500H	SUB	DALBIR SINGH	01-11-2005

661	JC 449125P	SUB	DAYA RAM SINGH	01-11-2005
662	JC 448715F	SUB	DHARAMVIR	01-12-2005
663	JC 449064H	SUB	DHIRENDRA SINGH	01-10-2005
664	JC 448893K	SUB	GAGAN SINGH	01-11-2005
665	JC 449133N	SUB	GAGAN SINGH	01-09-2005
666	JC 448369W	SUB	GANESH LAL PARMAR	01-09-2005
667	JC 449017L	SUB	GOPAL DASS	01-12-2005
668	JC 448719X	SUB	IMDAD ALI	01-12-2005
669	JC 448885L	SUB	ISHWARI SINGH JHAMTA	01-01-2006
670	JC 448770X	SUB	JAGDISH CHAND THAKUR	01-09-2005
671	JC 448728Y	SUB	JAGDISH PRASAD	01-10-2005
672	JC 449153F	SUB	JEET RAM	01-01-2006
673	JC 448763F	SUB	KISHAN LAL MEENA	01-10-2005
674	JC 448425K	SUB	KISHAN SINGH	01-09-2005
675	JC 224204P	SUB	KISHOR SINGH	01-10-2005
676	JC 448782M	SUB	KISHORI LAL	01-01-2006
677	JC 449131H	SUB	LAL KHAN	01-12-2005
678	JC 448832M	SUB	MAHENDER SINGH GEHLAWAT	01-11-2005
679	JC 448389K	SUB	MAKSOOD ALI	01-12-2005
680	JC 449122F	SUB	MANSHU RAM MEENA	01-12-2005
681	JC 448771A	SUB	MATHARA DASS SHARMA	01-09-2005
682	JC 448515L	SUB	MEHABOOB KHAN	01-12-2005
683	JC 448617F	SUB	MOHAMMAD YUNUS	01-11-2005
684	JC 448944M	SUB	MOHINDER SINGH	01-12-2005
685	JC 448785A	SUB	MOTI LAL SHARMA	01-09-2005
686	JC 448382A	SUB	MUKNA	01-12-2005
687	JC 448499Y	SUB	NARAIN SINGH RAO	01-09-2005
688	JC 448601W	SUB	NASIB ALI	01-01-2006
689	JC 449018N	SUB	OM PARKASH	01-01-2006
690	JC 448927M	SUB	PARKASH CHAND	01-11-2005
691	JC 448330K	SUB	RAM ASRE SINGH	01-09-2005
692	JC 448892F	SUB	RAMESH KUMAR	01-11-2005
693	JC 448908F	SUB	ROOP CHAND	01-09-2005
694	JC 448876K	SUB	RUP LAL	01-10-2005
695	JC 449126X	SUB	SARDARI LAL	01-09-2005
696	JC 448760N	SUB	SATYADEO SINGH	01-11-2005
697	JC 448579W	SUB	SHANKAR LAL MEENA	01-11-2005
698	JC 448795K	SUB	SHIV RAM SINGH	01-09-2005
699	JC 448619M	SUB	SOHAN SINGH MANHAS	01-09-2005
700	JC 448283X	SUB	SUBASH CHAND	01-11-2005
701	JC 449007F	SUB	SULTAN	01-09-2005
702	JC 178967K	SUB	SULTAN ALI	01-09-2005
703	JC 448992M	SUB	SURAJ MAL MEENA	01-11-2005
704	JC 448623P	SUB	SURESH KUMAR THAKUR	01-09-2005
705	JC 182941M	SUB	YASIN ALI	01-09-2005

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

706	JC 184958Y	SUB	BASHEER RAWTHER M M	01-09-2005
707	JC 216759F	SUB	JAL SINGH	01-10-2005
708	JC 458115M	SUB	KOKARE DHULAPPA N	01-10-2005
709	JC 458203H	SUB	KOKITKAR TANAJI BALU	01-12-2005
710	JC 458466F	SUB	KRISHNAN NAIR B	01-01-2006
711	JC 528404F	SUB	LAXMAN ANNA BHINTADE	01-11-2005
712	JC 220152M	SUB	M D YOUSUF	01-09-2005
713	JC 458413H	SUB	MUNDHE MANSING MALHARI	01-10-2005
714	JC 222662M	SUB	NAGNATH BHIMRAO MORE	01-12-2005
715	JC 458312P	SUB	SITARAM BAPU RAO PATIL	01-10-2005
716	JC 458260K	SUB	TANAJI VISHWAS PATIL	01-11-2005
717	JC 222657F	SUB	TASILDAR BABASAHEB	01-09-2005
			SARDARSAHEB	
718	JC 210992Y	SUB	YADAV JEEWAN BALKRISHNA	01-12-2005
719	JC 458452F	SUB	ZAMBARE BALWANT YESHWANT	01-12-2005

THE RAJPUTANA RIFLES

720	JC 468536H	SUB	BHIM SINGH	01-11-2005
721	JC 468784Y	SUB	DHARAM SINGH	01-12-2005
722	JC 468675M	SUB	DHARMESH SINGH	01-09-2005
723	JC 208317N	SUB	IMTIYAJ AHMAD KHAN	01-01-2006
724	JC 468720N	SUB	KUNDAN SINGH	01-11-2005
725	JC 468643K	SUB	MAHI PAL SINGH	01-09-2005
726	JC 468484X	SUB	MAHIPAL SINGH	01-11-2005
727	JC 468585L	SUB	NARENDAR SINGH	01-09-2005
728	JC 468440A	SUB	OM PARKASH	01-09-2005
729	JC 468718W	SUB	PURAN SINGH	01-12-2005
730	JC 468042Y	SUB	RAJ PAL	01-12-2005
731	JC 468289A	SUB	RAM NIWAS	01-12-2005
732	JC 468909L	SUB	RAM SINGH, SM	01-12-2005
733	JC 468338X	SUB	SHAFI MOHIMAD	01-11-2005
734	JC 468021H	SUB	SHER PAL	01-01-2006
735	JC 468679H	SUB	SUKHIBIR SINGH	01-10-2005
736	JC 468244A	SUB	SUMER SINGH	01-12-2005
737	JC 468795L	SUB	UMAID SINGH	01-12-2005

THE RAJPUT REGIMENT

738	JC 478358N	SUB	AMAR PAL	01-10-2005
739	JC 478700N	SUB	ATAR SINGH	01-01-2006
740	JC 478642P	SUB	BAHORAN KHAN	01-12-2005
741	JC 193726F	SUB	BHANWAR LAL	01-12-2005
742	JC 478225H	SUB	CHATUR SINGH	01-10-2005
743	JC 478118F	SUB	DIHARMENDRA SINGH TOMAR	01-10-2005
744	JC 478546A	SUB	GIRWAR SINGH	01-10-2005
745	JC 478577A	SUB	IKHTIAR SINGH	01-01-2006
746	JC 478827W	SUB	JAG RAM	01-11-2005

747	JC 478528X	SUB	JATAN PAL SINGH VAISH	01-12-2005
748	JC 478504N	SUB	JAYA PRAKASH SINGH	01-01-2006
749	JC 478872H	SUB	JEET SINGH	01-12-2005
750	JC 224405N	SUB	KHARAK SINGH	01-11-2005
751	JC 478352X	SUB	KRISHAN PAL SINGH	01-10-2005
752	JC 478649Y	SUB	MAHAVIR PARSHAD	01-12-2005
753	JC 478553W	SUB	MANJIT RAJ	01-09-2005
754	JC 478748F	SUB	PEERA RAM GUJAR	01-10-2005
755	JC 478259W	SUB	RAJ KUMAR SINGH	01-09-2005
756	JC 478432P	SUB	RAJ KUMAR SINGH	01-09-2005
757	JC 478209L	SUB	RAJENDRA PANDEY	01-11-2005
758	JC 478510F	SUB	RAM PAL	01-01-2006
759	JC 158230N	SUB	SHIV KUMAR JOSHI	01-01-2006
760	JC 478782F	SUB	SURENDRA SINGH NARUKA	01-11-2005
761	JC 478324L	SUB	TEJ RAM	01-10-2005

THE JAT REGIMENT

762	JC 488733M	SUB	AJIT SINGH	01-10-2005
763	JC 488776F	SUB	ANUP SINGH	01-11-2005
764	JC 488182M	SUB	BHAGIRATH SINGH	01-11-2005
765	JC 528614F	SUB	BIRHAM SINGH	01-12-2005
766	JC 488500L	SUB	JAGAT SINGH SANGWAN	01-11-2005
767	JC 488651K	SUB	KAPOOR SINGH	01-10-2005
768	JC 488655A	SUB	KARAN SINGH	01-10-2005
769	JC 488797X	SUB	KRISHAN PAL	01-10-2005
770	JC 488514L	SUB	MAHAVIR SINGH	01-10-2005
771	JC 488784A	SUB	MAHIPAL	01-11-2005
772	JC 438092P	SUB	NATHU RAM	01-09-2005
773	JC 488952N	SUB	RAGHUVIR SINGH CHAHAL	01-11-2005
774	JC 488161W	SUB	RAJBIR SINGH	01-12-2005
775	JC 488233P	SUB	RAM NIWAS	01-10-2005
776	JC 488941F	SUB	RAM PRASHAD DHAKARWAL	01-11-2005
777	JC 488387F	SUB	RAMPAL SINGH	01-09-2005
778	JC 488623X	SUB	RAMPAT	01-11-2005
779	JC 488493A	SUB	RAMPHAL	01-09-2005
780	JC 488782P	SUB	RAN SINGH	01-11-2005
781	JC 488874F	SUB	RANDHIR SINGH	01-09-2005
782	JC 488624A	SUB	RICHHPAL SINGH	01-09-2005
783	JC 488876M	SUB	ROHTASH	01-11-2005
784	JC 488416L	SUB	SAT PARKASH	01-10-2005
785	JC 488946A	SUB	SATBIR	01-11-2005
786	JC 488535F	SUB	SHAMSHER SINGH	01-11-2005
787	JC 488441K	SUB	SHISH RAM	01-10-2005
788	JC 488564W	SUB	SUKHBIR SINGH	01-11-2005
789	JC 489198K	SUB	TASVIR SINGH	01-11-2005
790	JC 488699X	SUB	VIDYADHAR SINGH	01-10-2005

791	JC 488631W	SUB	ZILE SINGH	01-09-2005
<u>THE SIKH REGIMENT</u>				
792	JC 498253W	SUB	ANUP SINGH	01-10-2005
793	JC 498333N	SUB	BALWINDER SINGH	01-10-2005
794	JC 498560N	SUB	BASANT SINGH	01-10-2005
795	JC 498512N	SUB	BHAJAN SINGH	01-09-2005
796	JC 498508L	SUB	DAULAT SINGH	01-10-2005
797	JC 498529F	SUB	GHANSHYAM SINGH	01-12-2005
798	JC 498353F	SUB	GURMAIL SINGH	01-10-2005
799	JC 498503M	SUB	JARNAIL SINGH	01-12-2005
800	JC 498522X	SUB	JOGINDER SINGH, S M	01-10-2005
801	JC 498821W	SUB	MALKIAT SINGH	01-10-2005
802	JC 498513W	SUB	MANJIT SINGH	01-09-2005
803	JC 498622H	SUB	MENGAL SINGH	01-10-2005
804	JC 498524H	SUB	MEWA SINGH	01-09-2005
805	JC 498040H	SUB	PRITAM SINGH	01-10-2005
806	JC 498597P	SUB	RATTAN SINGH	01-09-2005
807	JC 498520M	SUB	SAT PAL SINGH	01-10-2005
808	JC 498026W	SUB	SATNAM SINGH	01-11-2005
809	JC 498543N	SUB	SHAM SINGH	01-09-2005
810	JC 498282L	SUB	SUKHDEV SINGH	01-09-2005
811	JC 498181X	SUB	SURJIT SINGH	01-09-2005
812	JC 498530W	SUB	ZORAWAR SINGH	01-10-2005
<u>THE SIKH LIGHT INFANTRY</u>				
813	JC 508275L	SUB	AVTAR SINGH	01-11-2005
814	JC 508243H	SUB	BALDEV SINGH	01-10-2005
815	JC 508535L	SUB	BUTA SINGH	01-10-2005
816	JC 508151W	SUB	CHAMKAUR SINGH	01-12-2005
817	JC 508452A	SUB	DARSHAN SINGH	01-09-2005
818	JC 508230L	SUB	GOPAL SINGH	01-11-2005
819	JC 508150N	SUB	GULJAR SINGH	01-12-2005
820	JC 508390L	SUB	GURCHARAN SINGH	01-09-2005
821	JC 508141M	SUB	GURDEV SINGH	01-09-2005
822	JC 508555Y	SUB	GURDEV SINGH	01-12-2005
823	JC 508058P	SUB	GURMIT SINGH	01-12-2005
824	JC 508389W	SUB	GURNAM SINGH	01-10-2005
825	JC 508561M	SUB	HARBANS SINGH	01-11-2005
826	JC 508295Y	SUB	HARBANS SINGH KHANNA	01-09-2005
827	JC 508188X	SUB	HARDEV SINGH	01-09-2005
828	JC 558152P	SUB	HARJIT SINGH	01-12-2005
829	JC 508122F	SUB	JAGDISH SINGH	01-11-2005
830	JC 508211A	SUB	JASMER SINGH	01-11-2005
831	JC 204346L	SUB	JASWANT SINGH	01-09-2005
832	JC 508221K	SUB	JIT SINGH	01-09-2005
833	JC 508027P	SUB	JOGINDER SINGH	01-01-2006

834	JC 211132Y	SUB	SALWINDER SINGH	01-12-2005
835	JC 508318P	SUB	SOHAN SINGH	01-10-2005
836	JC 218289A	SUB	SUCHA SINGH	01-11-2005
837	JC 508751Y	SUB	SURJIT SINGH	01-09-2005

THE DOGRA REGIMENT

838	JC 518911F	SUB	ANUP SINGH RANA	01-12-2005
839	JC 519031X	SUB	ARJAN DASS	01-09-2005
840	JC 518604K	SUB	ASHNI KUMAR SHARMA	01-11-2005
841	JC 518208N	SUB	ASHOK KUMAR	01-10-2005
842	JC 519285P	SUB	ASHOK KUMAR SHARMA	01-11-2005
843	JC 519111P	SUB	AVTAR SINGH GULERIA	01-09-2005
844	JC 519034L	SUB	BALAK RAM	01-09-2005
845	JC 519261L	SUB	BALBIR SINGH	01-09-2005
846	JC 518864P	SUB	BALDEV SINGH	01-09-2005
847	JC 519221K	SUB	BALDEV SINGH THAKUR	01-10-2005
848	JC 548659H	SUB	BALRAM SINGH	01-10-2005
849	JC 519062X	SUB	BANKU RAM	01-09-2005
850	JC 519423L	SUB	BANSI LAL	01-12-2005
851	JC 519253M	SUB	BHAGWAN DASS DHARIWAL	01-10-2005
852	JC 519120W	SUB	BHAGWAN SINGH RANA	01-09-2005
853	JC 519353X	SUB	BHARAT SINGH	01-12-2005
854	JC 518856W	SUB	BIRI SINGH	01-10-2005
855	JC 519223M	SUB	BODH RAJ	01-09-2005
856	JC 519147N	SUB	BRIJ MOHAN SINGH PATHANIA	01-12-2005
857	JC 519000X	SUB	CHHATTAR SINGH	01-10-2005
858	JC 518890W	SUB	DALEL SINGH	01-10-2005
859	JC 519082L	SUB	DHANATTAR SINGH	01-12-2005
860	JC 519476K	SUB	GANGA RAM JAKHOTRA	01-12-2005
861	JC 519178N	SUB	GOPAL SINGH BHARMORIA	01-09-2005
862	JC 519313W	SUB	HANS RAJ SHARMA	01-01-2006
863	JC 519312N	SUB	HARBANS LAL SHARMA	01-12-2005
864	JC 518878P	SUB	ISHWAR CHAND SHARMA	01-10-2005
865	JC 518914P	SUB	JAISI RAM	01-01-2006
866	JC 518998N	SUB	JAMEET SINGH	01-09-2005
867	JC 519155M	SUB	JOGINDER SINGH	01-11-2005
868	JC 518441F	SUB	KARAM CHAND	01-10-2005
869	JC 519275L	SUB	KARAM CHAND	01-10-2005
870	JC 519189A	SUB	KARN SINGH	01-12-2005
871	JC 519010F	SUB	KULDIP SINGH BHARDWAJ	01-09-2005
872	JC 519194L	SUB	KULDIP SINGH PATHANIA	01-11-2005
873	JC 518870H	SUB	MANOHAR LAL	01-09-2005
874	JC 519254P	SUB	MELA RAM	01-09-2005
875	JC 519118Y	SUB	MUKUND LAL	01-11-2005
876	JC 518910Y	SUB	ONKAR NATH	01-12-2005
877	JC 519023Y	SUB	PADAMDEV SINGH	01-09-2005

878	JC 518899L	SUB	PARSHOTAM CHAND	01-01-2006
879	JC 519140K	SUB	PARTAP SINGH	01-09-2005
880	JC 519259N	SUB	PRAKASH CHAND	01-11-2005
881	JC 519032A	SUB	PREM SAGAR VERMA	01-09-2005
882	JC 519322X	SUB	PRITAM CHAND RANA	01-01-2006
883	JC 518848X	SUB	PRITAM SINGH	01-01-2006
884	JC 519294W	SUB	PURAN SINGH	01-12-2005
885	JC 519235K	SUB	RACHHPAL SINGH	01-12-2005
886	JC 519220Y	SUB	RAJINDER SINGH	01-10-2005
887	JC 519102N	SUB	RAKESH CHANDER KHAJURIA	01-12-2005
888	JC 518691H	SUB	RAM LAL	01-11-2005
889	JC 519295Y	SUB	RAM SAROOP	01-11-2005
890	JC 518766P	SUB	RAMESH CHAND	01-11-2005
891	JC 519282F	SUB	RAMESH KUMAR	01-11-2005
892	JC 519238X	SUB	RAMESH SINGH	01-01-2006
893	JC 519048L	SUB	ROMESH CHANDER	01-10-2005
894	JC 518785A	SUB	ROMESH KUMAR	01-12-2005
895	JC 518917H	SUB	SANTOSH KUMAR TALWAR	01-11-2005
896	JC 519088M	SUB	SARDARI LAL	01-10-2005
897	JC 518880M	SUB	SARISTY RAJ KAPIL	01-11-2005
898	JC 518984N	SUB	SHAKTI SINGH	01-12-2005
899	JC 519234F	SUB	SUBHASH CHAND	01-10-2005
900	JC 519290A	SUB	SURAJ PARKASH	01-12-2005
901	JC 518656A	SUB	SURAM SINGH	01-09-2005
902	JC 518810N	SUB	TILAK RAJ DHIMAN	01-12-2005
903	JC 519286X	SUB	UTTAM SINGH PATHANIA	01-12-2005
904	JC 518790Y	SUB	VED PRAKASH MANKOTIA	01-09-2005
905	JC 519100H	SUB	VIDYA SAGAR	01-10-2005

THE GARHWAL RIFLES

906	JC 528563Y	SUB	BACHE SINGH	01-01-2006
907	JC 529144N	SUB	BALWANT SINGH	01-12-2005
908	JC 529131W	SUB	DALBIR SINGH	01-01-2006
909	JC 558422Y	SUB	DARWAN SINGH	01-09-2005
910	JC 528546Y	SUB	DEB SINGH	01-10-2005
911	JC 528041H	SUB	DIGAMBAR SINGH	01-01-2006
912	JC 528610L	SUB	GYAN SINGH	01-01-2006
913	JC 529046N	SUB	GYAN SINGH	01-09-2005
914	JC 529158N	SUB	KISHAN SINGH	01-11-2005
915	JC 528393A	SUB	MANGAL SINGH	01-11-2005
916	JC 528523X	SUB	MOHAN SINGH	01-01-2006
917	JC 528836W	SUB	MOHAN SINGH	01-10-2005
918	JC 528974X	SUB	NARENDRA SINGH	01-09-2005
919	JC 538616A	SUB	PHOOLA RAM	01-09-2005
920	JC 528983Y	SUB	PRAKASH CHANDRA	01-11-2005
921	JC 528286Y	SUB	PREM SINGH	01-12-2005

922	JC 528343P	SUB	PREM SINGH	01-10-2005
923	JC 528885Y	SUB	TAJBAR SINGH	01-09-2005
924	JC 528774F	SUB	TRILOK SINGH RANA	01-01-2006
925	JC 528385F	SUB	UMMED SINGH	01-11-2005
926	JC 528879L	SUB	YASHWANT SINGH	01-09-2005

THE KUMAON REGIMENT

927	JC 539125W	SUB	ATTER SINGH	01-09-2005
928	JC 558588A	SUB	AWADHESH PRASAD SINGH	01-01-2006
929	JC 538718W	SUB	BAHADUR SINGH	01-01-2006
930	JC 538632X	SUB	BALWANT SINGH	01-01-2006
931	JC 538653P	SUB	BHUPAL SINGH	01-09-2005
932	JC 539027W	SUB	BHUWAN CHANDRA TRIPATHI	01-01-2006
933	JC 212673L	SUB	BIRJU MOHAN	01-10-2005
934	JC 539064K	SUB	CHANCHAL SINGH MEHTA	01-01-2006
935	JC 538893L	SUB	CHANDER SINGH	01-10-2005
936	JC 538714A	SUB	DAYA KRISHAN	01-01-2006
937	JC 539047K	SUB	DEVENDER SINGH	01-12-2005
938	JC 222742K	SUB	DIHAN SINGH	01-01-2006
939	JC 538213A	SUB	GANESH SINGH	01-10-2005
940	JC 538047X	SUB	GIRISH CHANDER JOSHI	01-10-2005
941	JC 216894P	SUB	GOVARDHAN SINGH	01-12-2005
942	JC 538627M	SUB	GOVIND SINGH	01-10-2005
943	JC 538967P	SUB	GOVIND SINGH	01-10-2005
944	JC 538738K	SUB	GOVIND SINGH SM	01-11-2005
945	JC 538461W	SUB	HAR SINGH	01-01-2006
946	JC 539014Y	SUB	HAR SINGH	01-01-2006
947	JC 538618L	SUB	HARI SINGH DOGRA	01-10-2005
948	JC 538366K	SUB	HOSHIAH SINGH	01-09-2005
949	JC 538965K	SUB	JAGAT SINGH	01-12-2005
950	JC 538666L	SUB	KAILASH CHANDER	01-10-2005
951	JC 538982K	SUB	KHARAK SINGH	01-09-2005
952	JC 538076M	SUB	KISHAN SINGH	01-01-2006
953	JC 538951K	SUB	KRISHAN SINGH	01-10-2005
954	JC 538652M	SUB	KUNDAN SINGH	01-10-2005
955	JC 538808X	SUB	LALA RAM YADAV	01-11-2005
956	JC 539072H	SUB	LAXMAN SINGH	01-01-2006
957	JC 538624Y	SUB	MAHESH CHANDRA	01-10-2005
958	JC 538183N	SUB	MANGAL SINGH	01-01-2006
959	JC 538568L	SUB	MANOHAR DATT	01-01-2006
960	JC 538419X	SUB	NANDAN SINGH	01-01-2006
961	JC 538823M	SUB	NARAIN SINGH BORA	01-01-2006
962	JC 539057N	SUB	PAN SINGH	01-10-2005
963	JC 538785F	SUB	PRATAP SINGH	01-10-2005
964	JC 538655A	SUB	PRAYAG SINGH	01-09-2005
965	JC 538895W	SUB	PREM GIRI	01-10-2005

966	JC 538656H	SUB	PURAN SINGH	01-09-2005
967	JC 538561F	SUB	PUSKAR SINGH	01-01-2006
968	JC 538519H	SUB	RAJBIR SINGH	01-09-2005
969	JC 538032P	SUB	RAM BILAS YADAV	01-01-2006
970	JC 538512Y	SUB	RAMESH CHANDRA JOSHI	01-01-2006
971	JC 538538N	SUB	SASHTI BALLABH	01-10-2005
972	JC 538899M	SUB	SHANKAR DATT JOSHI	01-01-2006
973	JC 538218Y	SUB	SHIV MANGAL SINGH	01-10-2005
974	JC 538944N	SUB	SHIVCHARAN SINGH	01-09-2005
975	JC 539012N	SUB	SHYAMBIR SINGH	01-09-2005
976	JC 538707K	SUB	T B S KANWAL	01-01-2006
977	JC 539004P	SUB	T S NAGARKOTI	01-11-2005
978	JC 538527F	SUB	TEJ SINGH	01-01-2006
979	JC 538835F	SUB	TIRLOK SINGH	01-10-2005
980	JC 539007H	SUB	TRILOCHAN	01-01-2006
981	JC 538709P	SUB	VIAIVIR SINGH	01-01-2006

THE ASSAM REGIMENT

982	JC 548384A	SUB	AMULYA KUMAR LAHAN	01-11-2005
983	JC 222762X	SUB	ANIL CHANDRA BRAHMA	01-10-2005
984	JC 448434L	SUB	DARAB KHAN	01-01-2006
985	JC 548563A	SUB	GOVIND SINGH THAPA	01-11-2005
986	JC 548390N	SUB	PURANDAR DEKA	01-11-2005
987	JC 548071F	SUB	ROBI RAM BORO	01-12-2005
988	JC 548404H	SUB	UTTAM BASUMATARY	01-01-2006

THE BIHAR REGIMENT

989	JC 220250M	SUB	ABANI KANTA SAHOO	01-12-2005
990	JC 558697M	SUB	ANIL KINDO	01-10-2005
991	JC 558860F	SUB	ARBIND KUMAR SUKLA	01-12-2005
992	JC 558906Y	SUB	ARUN KUMAR DWIVEDI	01-12-2005
993	JC 224580H	SUB	BAIKUNTH NATH NAYAK	01-12-2005
994	JC 205678F	SUB	BINOD BEHARI BEHERA	01-10-2005
995	JC 558396H	SUB	BIRSA ORAON	01-10-2005
996	JC 558082F	SUB	CHANDESHWAR RABIDASH	01-11-2005
997	JC 218346W	SUB	CHANDRA SEKHAR MOHANTY	01-01-2006
998	JC 558305N	SUB	CLEMENT HORO	01-10-2005
999	JC 558301X	SUB	DANDAPANI SAHU	01-12-2005
1000	JC 558713Y	SUB	DAVID STANLEY MURMU	01-01-2006
1001	JC 558095Y	SUB	DEVENDRA PRASAD SINGH	01-01-2006
1002	JC 558263M	SUB	DISHU BAL MUCHU	01-10-2005
1003	JC 558481L	SUB	DOLAMANI MAHANANDIA	01-12-2005
1004	JC 438137K	SUB	DUBRAJ THAKUR	01-12-2005
1005	JC 558129F	SUB	DULAR KERKETTA	01-12-2005
1006	JC 558490M	SUB	DUSHASAN HEMBRAM	01-12-2005
1007	JC 558584K	SUB	GANGADHAR TUDU	01-12-2005
1008	JC 558383L	SUB	GOKULA NANDA OJHA	01-12-2005

1009	JC 558256W	SUB	GOPAL PRASAD SINGH	01-11-2005
1010	JC 558322N	SUB	GOPINATH MURMU	01-01-2006
1011	JC 558639H	SUB	HEMANT KUMAR SINGH	01-01-2006
1012	JC 558489X	SUB	JAG NARAIN PANDEY	01-11-2005
1013	JC 558341Y	SUB	JAI MASIH SUREN	01-11-2005
1014	JC 558178K	SUB	JC558178K	01-11-2005
1015	JC 558596Y	SUB	JUGESHWAR SINGH BARAIK	01-01-2006
1016	JC 558826F	SUB	KAILASH JHA	01-11-2005
1017	JC 558323W	SUB	KAILASH PRASAD YADAV	01-11-2005
1018	JC 558704X	SUB	KULBANSI SINGH	01-12-2005
1019	JC 558498Y	SUB	LAL BAHADUR THAKUR	01-09-2005
1020	JC 558230F	SUB	MAHENDRA PRASAD SINGH	01-01-2006
1021	JC 558709W	SUB	MELVIN DADEL	01-11-2005
1022	JC 221038F	SUB	MOTILAL GAUDA	01-12-2005
1023	JC 558623X	SUB	NICODING KINDO	01-11-2005
1024	JC 205676W	SUB	NILAKANTHA JENA	01-01-2006
1025	JC 558020F	SUB	PADMA CHARAN PRADHAN	01-01-2006
1026	JC 558507P	SUB	PASHUPATI SINGH YADAV	01-11-2005
1027	JC 558326K	SUB	PRAMOD PADHI	01-12-2005
1028	JC 558246M	SUB	PRAVAKAR SAHOO	01-01-2006
1029	JC 558455K	SUB	PRAVAT KUMAR PARJA	01-01-2006
1030	JC 558722A	SUB	RAJA KISHORE SAHU	01-01-2006
1031	JC 138612W	SUB	RAJENDRA JHA	01-11-2005
1032	JC 568298W	SUB	RAJENDRA KUMAR RAKESH	01-01-2006
1033	JC 558155H	SUB	RAJENDRA PRASAD SINGH	01-01-2006
1034	JC 558190L	SUB	RAJENDRA SINGH	01-01-2006
1035	JC 558279X	SUB	RAM AKBAL SINGH	01-12-2005
1036	JC 558616F	SUB	RAM DARSAN SINGH	01-01-2006
1037	JC 558874F	SUB	RAM DULAR RAM	01-11-2005
1038	JC 558187L	SUB	RAMADHAR SINGH	01-01-2006
1039	JC 558635M	SUB	RAMESHWAR PRASAD SINGH	01-12-2005
1040	JC 558795M	SUB	SET NATH OJHA	01-12-2005
1041	JC 558399W	SUB	SHAMBHU NATH SINGH	01-11-2005
1042	JC 558213F	SUB	SHANKAR DAYAL SINGH	01-12-2005
1043	JC 558822L	SUB	SHEO ISHWAR SINGH	01-11-2005
1044	JC 438506W	SUB	SHEO NARAYAN TIWARY	01-12-2005
1045	JC 438602L	SUB	SHRI NIWAS SINGH	01-11-2005
1046	JC 558698P	SUB	SUDARSAN KANDAY	01-09-2005
1047	JC 558564W	SUB	SUKRA TIRKEY	01-11-2005
1048	JC 558618M	SUB	SUNIL TUDU	01-01-2006
1049	JC 558622P	SUB	SURESH PRASAD SHARMA	01-09-2005
1050	JC 225852K	SUB	TEYALE NAIK	01-10-2005
1051	JC 558534Y	SUB	TIRA KANDIR	01-01-2006
THE MAHAR REGIMENT				
1052	JC 568955P	SUB	BAHADUR SINGH	01-01-2006

1053	JC 568789M	SUB	BALJIT SINGH	01-01-2006
1054	JC 568662K	SUB	BENI PRASAD	01-01-2006
1055	JC 568765H	SUB	CHANDI PRASAD	01-12-2005
1056	JC 568327A	SUB	CHANDRAMA RAI	01-01-2006
1057	JC 568676K	SUB	DINESH PRASAD YADAV	01-09-2005
1058	JC 568742F	SUB	GABRU LAL	01-01-2006
1059	JC 568918F	SUB	GOVIND SINGH	01-01-2006
1060	JC 568667H	SUB	HAKAM CHAND PANDHER	01-01-2006
1061	JC 211299F	SUB	HANKARE VITTHAL MARUTI	01-11-2005
1062	JC 568430L	SUB	JAI SINGH YADAV	01-09-2005
1063	JC 568578K	SUB	KAMAL SINGH	01-12-2005
1064	JC 568500Y	SUB	KRISHNA KANT JHA	01-01-2006
1065	JC 568220L	SUB	MIHIR SENA SATAPATHY	01-01-2006
1066	JC 568682X	SUB	MOHINDER SINGH	01-09-2005
1067	JC 829007N	SUB	PARMESHWAR RAI	01-12-2005
1068	JC 568397Y	SUB	RAGHUBANSH RAM	01-01-2006
1069	JC 568853Y	SUB	RAJINDER SINGH	01-10-2005
1070	JC 568412H	SUB	RAM KARAN MISHRA	01-01-2006
1071	JC 568399K	SUB	RAM MURTI YADAV	01-01-2006
1072	JC 568557N	SUB	RAM SINGH YADAV	01-12-2005
1073	JC 568594F	SUB	RAMASHISH TIWARY	01-09-2005
1074	JC 568456A	SUB	SATISH HARI BHAI BHAGAT	01-01-2006
1075	JC 569002Y	SUB	SHER SINGH	01-11-2005
1076	JC 568520M	SUB	THOMBRE M TUKARAM	01-01-2006
1077	JC 568674Y	SUB	VIJAY SONAJI ROKADE	01-10-2005
1078	JC 568959L	SUB	VINOD SINGH	01-01-2006
1079	JC 568530W	SUB	YAS PAL	01-11-2005

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

1080	JC 579092Y	SUB	BALBIR SINGH	01-10-2005
1081	JC 579152H	SUB	BIHUPENDRA SINGH	01-11-2005
1082	JC 488446H	SUB	BIJENDER SINGH	01-10-2005
1083	JC 579137N	SUB	CHUNI LAL	01-10-2005
1084	JC 578290X	SUB	DILBAG SINGH VERMA	01-01-2006
1085	JC 578416M	SUB	GURDEV SINGH GILL	01-12-2005
1086	JC 579097X	SUB	HARBHIEJ SINGH	01-09-2005
1087	JC 578907H	SUB	HARNAM SINGH	01-10-2005
1088	JC 579140N	SUB	JAGDISH CHAND	01-09-2005
1089	JC 578959Y	SUB	JAGIT SINGH RANA	01-09-2005
1090	JC 579147X	SUB	JITWAN SINGH	01-09-2005
1091	JC 578911L	SUB	KULBIR SINGH CHIB	01-11-2005
1092	JC 578963F	SUB	MOHINDER PAL	01-10-2005
1093	JC 579151A	SUB	PARSHOTAM SINGH	01-10-2005
1094	JC 548459M	SUB	PRASHOTAM SINGH	01-09-2005
1095	JC 579163P	SUB	RAJINDER SINGH	01-01-2006
1096	JC 579136L	SUB	RANBIR SINGH KHARWAL	01-10-2005

1097	JC 578492Y	SUB	SARVE DAYAL SHARMA	01-01-2006
1098	JC 578850Y	SUB	SHIV SINGH MANHAS	01-09-2005
1099	JC 578651L	SUB	SUBHASH CHAND	01-10-2005
1100	JC 578930W	SUB	SURESH CHANDER	01-01-2006
1101	JC 579202H	SUB	SWARAN SINGH	01-10-2005
1102	JC 579070A	SUB	TEHAL SINGH	01-01-2006
1103	JC 579242K	SUB	TILAK RAJ RAMDASIA	01-11-2005
1104	JC 578966P	SUB	YESHWANT SINGH	01-01-2006

THE LADAKH SCOUTS

1105	JC 588040K	SUB	CHHERING PUNCHOK	01-12-2005
1106	JC 588035Y	SUB	CHHERING SONAM	01-12-2005

THE NAGA REGIMENT

1107	JC 590097X	SUB	GAJENDRA KUMAR PAL	01-10-2005
1108	JC 590060W	SUB	JAGAT SINGH	01-11-2005
1109	JC 590111Y	SUB	MAHESH CHANDER SINGH	01-10-2005
1110	JC 590011N	SUB	NARAIN SINGH	01-01-2006
1111	JC 538628P	SUB	SHER SINGH ADHIKARI	01-10-2005

1 GORKHA RIFLES

1112	JC 602276M	SUB	ASHOK KUMAR THAPA	01-10-2005
1113	JC 602302H	SUB	CHANDRA BAHADUR GURUNG	01-11-2005
1114	JC 602333H	SUB	DEB BAHADUR RANA	01-10-2005
1115	JC 602356K	SUB	DEEP BAHADUR	01-10-2005
1116	JC 602319W	SUB	DHARAM SING GURUNG	01-01-2006
1117	JC 602308K	SUB	DHARMA BAHADUR THAPA	01-10-2005
1118	JC 602375P	SUB	EK BAHADUR RANA	01-01-2006
1119	JC 602004M	SUB	GANESH BAHADUR GURUNG	01-01-2006
1120	JC 602411P	SUB	HARI BAHADUR RANA MAGAR	01-11-2005
1121	JC 602234A	SUB	HARK BAHADUR GURUNG	01-11-2005
1122	JC 602306Y	SUB	HOM BAHADUR KANWAR	01-09-2005
1123	JC 602328X	SUB	HOM BAHADUR THAPA	01-09-2005
1124	JC 602403W	SUB	JIWAN KUMAR GURUNG	01-11-2005
1125	JC 602214M	SUB	KAZIMAN GURUNG	01-09-2005
1126	JC 602241W	SUB	KESHAR BAHADUR THAKURI	01-09-2005
1127	JC 602324F	SUB	KHIM BAHADUR THAPA MAGAR	01-11-2005
1128	JC 602274F	SUB	KRISHNA BAHADUR GURUNG	01-10-2005
1129	JC 602290Y	SUB	PADAM BAHADUR CHHANDEL PUN	01-12-2005
1130	JC 602298L	SUB	PURNA BAHADUR SHRESTHA	01-09-2005
1131	JC 602277P	SUB	RAJAN GURUNG	01-10-2005
1132	JC 602278X	SUB	RAM BAHADUR THAPA	01-10-2005
1133	JC 602307F	SUB	RUDRA BAHADUR GURUNG	01-11-2005
1134	JC 602076W	SUB	SARAN THAPA	01-10-2005
1135	JC 602323Y	SUB	SHISHIR KUMAR ALE	01-11-2005
1136	JC 602279A	SUB	SHIV RAJ THAPA	01-11-2005
1137	JC 602229P	SUB	SOM BAHADUR MUKHIA	01-12-2005
1138	JC 602038A	SUB	TEJ BAHADUR GURUNG	01-09-2005

1139	JC 602122A	SUB	TEK BAHADUR GURUNG	01-10-2005
1140	JC 602235H	SUB	TOL BAHADUR GURUNG	01-12-2005
1141	JC 602322W	SUB	TUL BAHADUR CHHETRI	01-01-2006
1142	JC 602395H	SUB	YAM BAHADUR GURUNG	01-11-2005

3 GORKHA RIFLES

1143	JC 607342N	SUB	CHANDRA BAHADUR RANA	01-10-2005
1144	JC 607369L	SUB	GAM BAHADUR THAPA	01-01-2006
1145	JC 607319A	SUB	GANESH KUMAR LAMA	01-11-2005
1146	JC 607290H	SUB	HARI BAHADUR RANA	01-11-2005
1147	JC 607335X	SUB	HARKSHA BAHADUR RANA	01-09-2005
1148	JC 607365P	SUB	HUM BAHADUR MAGAR	01-01-2006
1149	JC 607352X	SUB	JAMAN SING THAPA	01-01-2006
1150	JC 607169P	SUB	JHAMAN PRASAD KARMACHARI	01-09-2005
1151	JC 607205P	SUB	KESH BAHADUR THAPA	01-10-2005
1152	JC 607336A	SUB	KEYAR SING ALE	01-10-2005
1153	JC 607329K	SUB	LAL BAHADUR JHEDI	01-11-2005
1154	JC 607289N	SUB	NOON BAHADUR GURUNG	01-10-2005
1155	JC 607344Y	SUB	PASU RAM BURATHOKI	01-01-2006
1156	JC 607275N	SUB	PREM KUMAR THAPA	01-09-2005
1157	JC 607316M	SUB	PUSHKAR RAJ	01-10-2005
1158	JC 607350M	SUB	TUL BAHADUR THAPA	01-12-2005
1159	JC 607295F	SUB	YAM BAHADUR GURUNG	01-01-2006

4 GORKHA RIFLES

1160	JC 612294H	SUB	BAHADUR SINGH THAPA	01-01-2006
1161	JC 612219Y	SUB	BAL BAHADUR GURUNG	01-10-2005
1162	JC 612261X	SUB	CHANDRA BAHADUR RANA	01-01-2006
1163	JC 612287M	SUB	DIHAN BAHADUR PUN	01-11-2005
1164	JC 612387X	SUB	DINES KUMAR THAPA	01-01-2006
1165	JC 612127M	SUB	DIVAKAR GURUNG	01-09-2005
1166	JC 612367K	SUB	GOPI BAHADUR GURUNG	01-10-2005
1167	JC 612188K	SUB	INDRA MAN GURUNG	01-10-2005
1168	JC 612220N	SUB	JAYAT GURUNG	01-10-2005
1169	JC 612359L	SUB	KRISHNA PARSAD GURUNG	01-11-2005
1170	JC 612100P	SUB	MADAN KUMAR GURUNG	01-01-2006
1171	JC 612101X	SUB	MIN BAHADUR THAPA	01-09-2005
1172	JC 612253Y	SUB	RAN BAHADUR GURUNG	01-10-2005
1173	JC 612277H	SUB	SHOBHI LAL PUN	01-09-2005
1174	JC 612252W	SUB	SURJA BAHADUR THAPA	01-01-2006
1175	JC 612221W	SUB	TIL BAHADUR GURUNG	01-11-2005
1176	JC 612128P	SUB	VIJAY SINGH GURUNG	01-09-2005
1177	JC 612250L	SUB	YAM BAHADUR ALE	01-01-2006

5 GORKHA RIFLES

1178	JC 617447L	SUB	CHITRA BAHADUR MAHAJIM	01-12-2005
1179	JC 617380X	SUB	DAN BAHADUR THAPA	01-09-2005
1180	JC 617118P	SUB	HARI SINGH BIST	01-01-2006

1181	JC 617196M	SUB	KAILASH MAN GURUNG	01-12-2005
1182	JC 617459A	SUB	KHIM BAHADUR GURUNG	01-12-2005
1183	JC 222844A	SUB	KUL BAHADUR ADHIKARI	01-10-2005
1184	JC 617329X	SUB	LAL BAHADUR THAPA	01-01-2006
1185	JC 617137A	SUB	LALIT SINGH GURUNG	01-09-2005
1186	JC 617388K	SUB	LILA BAHADUR GURUNG	01-11-2005
1187	JC 617256W	SUB	MAHESH KUMAR LAMA (GURUNG)	01-09-2005
1188	JC 617432H	SUB	MANI RAJ SHRESTHA	01-12-2005
1189	JC 617383L	SUB	MOM BAHADUR ROKA	01-09-2005
1190	JC 617145Y	SUB	NIM BAHADUR THAPA	01-01-2006
1191	JC 617373F	SUB	RAJENDRA KUMAR THAPA	01-11-2005
1192	JC 617107H	SUB	RAM BHAKTA GURUNG	01-10-2005
1193	JC 617178K	SUB	SUK BAHADUR GURUNG	01-01-2006
1194	JC 617324Y	SUB	TEJ BAHADUR THAPA	01-01-2006
1195	JC 617406F	SUB	TEK BAHADUR THAPA	01-12-2005
1196	JC 617330M	SUB	YAM BAHADUR GURUNG	01-12-2005

8 GORKHA RIFLES

1197	JC 623329N	SUB	ANIL KUMAR THAPA	01-01-2006
1198	JC 623260P	SUB	CHANDRA BAHADUR THAPA	01-01-2006
1199	JC 623290M	SUB	CHHABI LAL RANA	01-09-2005
1200	JC 623061F	SUB	CHITRA BAHADUR GURUNG	01-10-2005
1201	JC 623022H	SUB	DEEPAK KUMAR THAPA	01-10-2005
1202	JC 623343A	SUB	DHAN BAHADUR GURUNG	01-10-2005
1203	JC 623047P	SUB	INDRA BAHADUR GURUNG	01-11-2005
1204	JC 623219Y	SUB	INDRA MAN GURUNG	01-01-2006
1205	JC 623334Y	SUB	JAI BAHADUR AKHELI	01-01-2006
1206	JC 623331L	SUB	JEET BAHADUR THAPA	01-12-2005
1207	JC 623344H	SUB	JHALAK BAHADUR GURUNG	01-12-2005
1208	JC 623392H	SUB	KHEM BAHADUR THAPA	01-12-2005
1209	JC 225869X	SUB	KRISHNA BAHADUR PUN	01-10-2005
1210	JC 829060Y	SUB	KRISHNA PRASAD DHUGANA	01-12-2005
1211	JC 623352F	SUB	LAXMI PRASAD DHAKAL	01-10-2005
1212	JC 623305K	SUB	MAN BAHADUR GHARTI MAGAR	01-11-2005
1213	JC 623353K	SUB	MEGH BAHADUR GURUNG	01-11-2005
1214	JC 623363N	SUB	NEEL KAMAL CHAND	01-12-2005
1215	JC 623083A	SUB	NETRA LAL THAPA	01-11-2005
1216	JC 623208M	SUB	RUK BAHADUR GURUNG	01-12-2005
1217	JC 623243P	SUB	SUK BAHADUR GURUNG	01-11-2005
1218	JC 623046M	SUB	TEK BAHADUR GURUNG	01-09-2005

9 GORKHA RIFLES

1219	JC 629276W	SUB	BHIM BAHADUR CHHETRI	01-10-2005
1220	JC 629306H	SUB	CHANDRA BAHADUR KARKI	01-09-2005
1221	JC 629448A	SUB	CHITRA BAHADUR BHANDARI	01-12-2005
1222	JC 629374W	SUB	DAMODAR PRASAD MALL	01-09-2005
1223	JC 629496A	SUB	DEV SINGH CHHETRI	01-12-2005

1224	JC 629447X	SUB	DHAN BAHADUR MANJHI CHHETRI	01-12-2005
1225	JC 629467L	SUB	DHOJ BAHADUR CHHETRI	01-12-2005
1226	JC 629307L	SUB	GAM BAHADUR CHHETRI	01-10-2005
1227	JC 629155P	SUB	HARKA BAHADUR MALL	01-11-2005
1228	JC 629336A	SUB	HUM BAHADUR BASNET CHHETRI	01-10-2005
1229	JC 629364M	SUB	KHAGENDRA BAHADUR DHAKAL CHHETRI	01-11-2005
1230	JC 629388W	SUB	KRISHNA BAHADUR LAMICHHANE	01-10-2005
1231	JC 629278F	SUB	KRISHNA BAHADUR MALL	01-01-2006
1232	JC 629344Y	SUB	KUL BAHADUR CHHETRI	01-10-2005
1233	JC 629280Y	SUB	LAL BAHADUR BHATTARAY	01-12-2005
1234	JC 629456Y	SUB	MAN BAHADUR BOHORA	01-01-2006
1235	JC 629455W	SUB	NAR BAHADUR SHAHI	01-12-2005
1236	JC 629433X	SUB	OM BAHADUR CHHETRI	01-10-2005
1237	JC 629449H	SUB	PREM BAHADUR CHHETRI	01-01-2006
1238	JC 629390N	SUB	RAJENDRA KHATI CHHETRI	01-12-2005
1239	JC 629351P	SUB	RAM BAHADUR CHAND THAKURI	01-09-2005
1240	JC 629418H	SUB	RIKHA BAHADUR KARKI	01-12-2005
1241	JC 629429P	SUB	SANJIWAN MALL	01-01-2006
1242	JC 629319A	SUB	SHER BAHADUR	01-10-2005
1243	JC 629453L	SUB	SHER BAHADUR THAPA	01-10-2005
1244	JC 629475K	SUB	SHIV DHOJ MALL	01-12-2005
1245	JC 629434A	SUB	SHIVA KUMAR SHRESTHA	01-10-2005
1246	JC 629253P	SUB	TARAK BAHADUR KC	01-07-2005

11 GORKHA RIFLES

1247	JC 634210K	SUB	ANAND BAHADUR RAI	01-12-2005
1248	JC 634310P	SUB	BISHNU KUMAR RAI	01-01-2006
1249	JC 634271F	SUB	CHANDRA BAHADUR PRADHAN	01-10-2005
1250	JC 222815L	SUB	CHANDRA BAHADUR RAI	01-11-2005
1251	JC 634065X	SUB	CHANDRA KANTA ROY	01-10-2005
1252	JC 634281L	SUB	DHAN BAHADUR LIMBU	01-12-2005
1253	JC 634054L	SUB	DHARMA RAJ LIMBU	01-11-2005
1254	JC 634061F	SUB	DILIP KUMAR RAY	01-12-2005
1255	JC 634191K	SUB	GANESH KUMAR RAI	01-12-2005
1256	JC 634040L	SUB	KRISHNA KUMAR SHARMA	01-11-2005
1257	JC 634342X	SUB	KUMAR RAI	01-12-2005
1258	JC 634337M	SUB	PERMAN SINGH TAMANG	01-10-2005
1259	JC 634232H	SUB	PRITHI BAHADUR RAI	01-12-2005
1260	JC 634225M	SUB	SISUPAL LIMBU	01-12-2005

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

1261	JC 213550L	SUB	ABBASH ALI ANSARI	01-09-2005
1262	JC 661508X	SUB	AKHAYA KUMAR PRAHARAJ	01-09-2005
1263	JC 641302Y	SUB	AMAR PAL SINGH	01-01-2006
1264	JC 662175H	SUB	ARJUN SINGH KHATI	01-11-2005
1265	JC 641488P	SUB	ASHOK KUMAR	01-09-2005

1266	JC 642214P	SUB	ASHOK KUMAR GUPTA	01-12-2005
1267	JC 641612K	SUB	ASHOKAN ERIMMAL	01-01-2006
1268	JC 661822L	SUB	AWADHESH PRASAD SINGH	01-11-2005
1269	JC 640628H	SUB	B VENUGOPALAN NAIR	01-12-2005
1270	JC 640151Y	SUB	BALBIR SINGH RAWAT	01-11-2005
1271	JC 661548Y	SUB	BALWANT SINGH	01-09-2005
1272	JC 661121P	SUB	BANSHI LAL	01-01-2006
1273	JC 661712W	SUB	BAPU RAM DEORAJA	01-11-2005
1274	JC 641044K	SUB	BHANWAR LAL SUTHAR	01-11-2005
1275	JC 661695F	SUB	BHANWAR SINGH	01-10-2005
1276	JC 213625X	SUB	BHUPAL CHANDRA CHETRI	01-01-2006
1277	JC 661726W	SUB	BIRBAL RAM SARAN	01-12-2005
1278	JC 208963L	SUB	BIRPAL SINGH	01-11-2005
1279	JC 640632L	SUB	BRIJ BHUSHAN	01-12-2005
1280	JC 221571W	SUB	BRIJ GOPAL SHARMA	01-11-2005
1281	JC 661824W	SUB	BRIJ MOHAN KUMAR SINGH	01-01-2006
1282	JC 640303P	SUB	C SANTHANAM	01-09-2005
1283	JC 661517Y	SUB	CHAVAN ANANDRAO DATTU	01-09-2005
1284	JC 661505K	SUB	CHEDA LAL	01-09-2005
1285	JC 640903X	SUB	CHHAILU RAM JAKHAR	01-11-2005
1286	JC 640835P	SUB	DEV SINGH PUNDIR	01-01-2006
1287	JC 199591F	SUB	DHAN PATI YADAV	01-12-2005
1288	JC 661526A	SUB	DHANESWAR SOY	01-10-2005
1289	JC 661303H	SUB	DHARAM NATH SAH	01-01-2006
1290	JC 641361L	SUB	DHARAM VIR SHARMA	01-11-2005
1291	JC 661325F	SUB	DHARAMNATH JHA	01-01-2006
1292	JC 640555F	SUB	DHRUVA KUMAR P N	01-11-2005
1293	JC 661546N	SUB	DHYAN SINGH	01-09-2005
1294	JC 661701K	SUB	DIG PAL SINGH	01-10-2005
1295	JC 640034N	SUB	DINA BANDHU BISWAS	01-01-2006
1296	JC 640359F	SUB	DINESH CHANDER AGNIHOTRI	01-01-2006
1297	JC 640758L	SUB	DINESH KUMAR CHAUHAN	01-01-2006
1298	JC 215511L	SUB	DINESH PRASAD	01-11-2005
1299	JC 640563A	SUB	DIPAK KUMAR MAHENDRA BHATT	01-10-2005
1300	JC 202645L	SUB	DIPAK SANKAR NATH	01-11-2005
1301	JC 661801P	SUB	FATE BAHADUR RAI	01-01-2006
1302	JC 661173L	SUB	GABAR SINGH	01-01-2006
1303	JC 640366X	SUB	GANESAN R	01-01-2006
1304	JC 640644A	SUB	GANESH PRASAD SAHOO	01-01-2006
1305	JC 661856Y	SUB	GEDAM SURESH RAGHUNATH	01-12-2005
1306	JC 213634Y	SUB	GEE VARGHEES G	01-09-2005
1307	JC 640992F	SUB	GOPALAKRISHNAN P	01-01-2006
1308	JC 661530H	SUB	GOVIND SINGH	01-09-2005
1309	JC 661870L	SUB	GULBIR SINGH	01-01-2006
1310	JC 661704X	SUB	GULSHAN RAJ	01-11-2005

1311	JC 661568M	SUB	GURNAM SINGH BHATIA	01-09-2005
1312	JC 661869W	SUB	HAR LAL SINGH	01-01-2006
1313	JC 661648K	SUB	HARBIR SINGH	01-12-2005
1314	JC 661515N	SUB	HARI NARAYAN	01-10-2005
1315	JC 186799L	SUB	HARISH CHANDRA	01-12-2005
1316	JC 641167W	SUB	HARNAM SINGH	01-09-2005
1317	JC 640616N	SUB	HARSH SINGH	01-09-2005
1318	JC 662108X	SUB	HIRALAL PRADHAN	01-01-2006
1319	JC 640836X	SUB	HOMKAR SURESH DATTATRAY	01-01-2006
1320	JC 640635Y	SUB	IMDAD ALI	01-12-2005
1321	JC 640945K	SUB	INDEEVARAKSHAN P	01-10-2005
1322	JC 661153X	SUB	JAGAT SINGH	01-01-2006
1323	JC 661741L	SUB	JAGDISH	01-10-2005
1324	JC 641028M	SUB	JAGDISH SINGH	01-12-2005
1325	JC 661821H	SUB	JAGDISH SINGH DINODIA	01-11-2005
1326	JC 661520Y	SUB	JETU MISTRI	01-10-2005
1327	JC 640777W	SUB	JIBAN CHAKRABORTY	01-12-2005
1328	JC 215534M	SUB	K DURAISAMI	01-11-2005
1329	JC 662062A	SUB	K VASUDEVAN	01-01-2006
1330	JC 213820P	SUB	KAILASH CHANDRA MOHANTY	01-01-2006
1331	JC 661890Y	SUB	KAILASH PRASAD	01-01-2006
1332	JC 661938F	SUB	KAMLA RAI	01-01-2006
1333	JC 640730L	SUB	KANAK BIHARI MISHRA	01-10-2005
1334	JC 661706H	SUB	KARAMBIR SINGH	01-11-2005
1335	JC 221586Y	SUB	KARAN SINGH YADAV	01-01-2006
1336	JC 661631W	SUB	KARNI SINGH	01-11-2005
1337	JC 215497K	SUB	KHEM SHANKER AHARI MEENA	01-12-2005
1338	JC 641650A	SUB	KRISHAN KUMAR	01-10-2005
1339	JC 661243Y	SUB	KRISHNA PADA RAY	01-12-2005
1340	JC 640150W	SUB	KUMAR CHANDRA GHOSH	01-10-2005
1341	JC 642002K	SUB	KUNJA BIHARI PARIDA	01-11-2005
1342	JC 661506M	SUB	KUNJAN RAM	01-09-2005
1343	JC 213619K	SUB	LAKHAN SINGH	01-11-2005
1344	JC 661846P	SUB	LALITA KUMAR BHARIMAL	01-10-2005
1345	JC 661565Y	SUB	LATIF AHAMED	01-09-2005
1346	JC 661972F	SUB	LAXMAN RAM SHARMA	01-10-2005
1347	JC 661700F	SUB	M DURAI RAJ	01-10-2005
1348	JC 213558X	SUB	MADAN LAL	01-01-2006
1349	JC 661518P	SUB	MAHA DEV BABU RATHOD	01-09-2005
1350	JC 662028A	SUB	MAN MATHA MISTRI	01-12-2005
1351	JC 661496N	SUB	MAN SINGH	01-09-2005
1352	JC 640541F	SUB	MANE SUBHASHA RAJARAM	01-11-2005
1353	JC 661509A	SUB	MANGAL SINGH	01-09-2005
1354	JC 661816X	SUB	MD ABDUL HAMID SHAIKH	01-11-2005
1355	JC 641043F	SUB	MD ANOWAR HOSSAIN	01-10-2005

1356	JC 640910N	SUB	MD EJAUDDIN	01-09-2005
1357	JC 661687H	SUB	MD NURUL HODA KHAN	01-10-2005
1358	JC 661982L	SUB	MD USMAN HOSSEN	01-12-2005
1359	JC 661895X	SUB	MOHAMMAD SARIF	01-01-2006
1360	JC 661897H	SUB	MOHAN SINGH KHENGAR	01-01-2006
1361	JC 661717P	SUB	MUHAM SINGH	01-12-2005
1362	JC 641252Y	SUB	NARAYAN CHANDRA MANDAL	01-01-2006
1363	JC 661044L	SUB	NARINDER PAL	01-12-2005
1364	JC 640441W	SUB	NAVIN CHANDRA PANDEY	01-01-2006
1365	JC 661864X	SUB	NEM SINGH	01-12-2005
1366	JC 661735X	SUB	NITAI PADA DAS	01-12-2005
1367	JC 662189H	SUB	OM NATH SINGH	01-12-2005
1368	JC 661510P	SUB	PALANICHAMY A	01-09-2005
1369	JC 661108L	SUB	PARAS NATH PRASAD	01-01-2006
1370	JC 193300A	SUB	PARKASH CHAND	01-01-2006
1371	JC 640943Y	SUB	PARKASH SINGH	01-11-2005
1372	JC 661322N	SUB	PARMEET SINGH	01-11-2005
1373	JC 641870K	SUB	PARVE NARAYAN ANANDA	01-10-2005
1374	JC 661018K	SUB	PRABHU YADAV	01-11-2005
1375	JC 640706P	SUB	PRABIR KUMAR HAZRA CHOUDHURY	01-01-2006
1376	JC 661645W	SUB	PRADIP KUMAR TIWARI	01-12-2005
1377	JC 661166P	SUB	PRAHLAD SINGH	01-12-2005
1378	JC 202569K	SUB	PRAKASH JOSHI	01-11-2005
1379	JC 208960X	SUB	PREM SINGH KRAHRA	01-12-2005
1380	JC 661034F	SUB	PRITAM RAM	01-11-2005
1381	JC 213703K	SUB	PULAKESHI AROODHA MANNIKERI	01-09-2005
1382	JC 661495L	SUB	R GANESAN	01-09-2005
1383	JC 642154L	SUB	RABIN KUMAR PARIDA	01-10-2005
1384	JC 640341L	SUB	RABINDRA SINGH	01-09-2005
1385	JC 661707L	SUB	RADHA KRISHNAN V	01-11-2005
1386	JC 662065N	SUB	RAGHUBAR SINGH	01-01-2006
1387	JC 661567K	SUB	RAGHUWAR DAYAL SHARMA	01-09-2005
1388	JC 640539K	SUB	RAJ PAL	01-11-2005
1389	JC 208976H	SUB	RAJA RAM	01-01-2006
1390	JC 640308N	SUB	RAJENDRA SINGH	01-09-2005
1391	JC 640307L	SUB	RAJPURA PRAVIN KUMAR SAVAILAL	01-11-2005
1392	JC 661570K	SUB	RAM AWADH PRASAD	01-10-2005
1393	JC 661859M	SUB	RAM BAHADUR SINGH ARYA	01-12-2005
1394	JC 213631L	SUB	RAM MILAN SINGH	01-12-2005
1395	JC 661602F	SUB	RAM NIWAS PAL	01-09-2005
1396	JC 213698K	SUB	RAM PAL	01-11-2005
1397	JC 661465N	SUB	RAM RAJ	01-01-2006
1398	JC 661673H	SUB	RAM SANEHI UTTAM	01-09-2005
1399	JC 641314N	SUB	RAMA KANT VERMA	01-12-2005
1400	JC 661560A	SUB	RAMESH CHANDER	01-09-2005

1401	JC 208974X	SUB	RAMESH CHANDRA SATAPATHY	01-12-2005
1402	JC 640312W	SUB	RAMESH CHANDRA SHARMA	01-09-2005
1403	JC 661843F	SUB	RAMESH KUMAR	01-09-2005
1404	JC 640296K	SUB	RAMESH KUMAR YADAV	01-09-2005
1405	JC 661688L	SUB	RAMESHWAR DAYAL	01-10-2005
1406	JC 661768H	SUB	RAMESHWAR PRASAD SHARMA	01-11-2005
1407	JC 661615Y	SUB	RANBIR SINGH SIWATCH	01-10-2005
1408	JC 640126A	SUB	RASAL NARAYAN HARIBA	01-11-2005
1409	JC 640571Y	SUB	RATAN SINGH	01-12-2005
1410	JC 662081L	SUB	RAVINDRA KUMAR DWIVEDI	01-12-2005
1411	JC 640883P	SUB	S JEYASEELAN	01-10-2005
1412	JC 661620K	SUB	S K KAMALUDDIN	01-10-2005
1413	JC 661850X	SUB	SAMPATI LAL	01-11-2005
1414	JC 661848A	SUB	SANSAR CHAND	01-10-2005
1415	JC 661681F	SUB	SARBESH SINGH	01-10-2005
1416	JC 661775Y	SUB	SARDAR PASHA KHAN	01-11-2005
1417	JC 661683M	SUB	SAWANT BABASAHEB TATYA	01-10-2005
1418	JC 661569P	SUB	SESHMANI RAI	01-10-2005
1419	JC 661623X	SUB	SHEKHARAYYA	01-09-2005
1420	JC 661302A	SUB	SHIB CHANDRA SINGH	01-01-2006
1421	JC 193267N	SUB	SHIV RAJ SINGH	01-11-2005
1422	JC 662061X	SUB	SHYAM MANI	01-12-2005
1423	JC 661862M	SUB	SOWARAN SINGH	01-12-2005
1424	JC 661877P	SUB	SRI RAM PANDIT	01-01-2006
1425	JC 661612L	SUB	SUDHAKAR RAI	01-10-2005
1426	JC 661498Y	SUB	SUGHAR SINGH	01-09-2005
1427	JC 661762F	SUB	SUMER CHAND JOGI	01-09-2005
1428	JC 641061K	SUB	SURAJPAL SHARMA	01-12-2005
1429	JC 640889W	SUB	SURENDER PAL	01-12-2005
1430	JC 640583N	SUB	SURENDRA CHANDRA PRUSTY	01-12-2005
1431	JC 640613A	SUB	SURENDRA KUMAR RAI	01-12-2005
1432	JC 640699K	SUB	SURENDRA MISHRA	01-10-2005
1433	JC 661851A	SUB	SURENDRA SINGH	01-11-2005
1434	JC 640944F	SUB	SURES CHANDRA SAHA	01-01-2006
1435	JC 661989P	SUB	SWAPAN TALUKDAR	01-01-2006
1436	JC 640513P	SUB	SWARANJIT SINGH	01-11-2005
1437	JC 661491P	SUB	TALEWAR SINGH	01-09-2005
1438	JC 640545X	SUB	TAPAN KUMAR GIRI	01-11-2005
1439	JC 661650F	SUB	THELAKAM MAHLA	01-12-2005
1440	JC 661207N	SUB	TUMUL KUMAR PANDEY	01-01-2006
1441	JC 221577X	SUB	UDAL SHANKAR RAI	01-12-2005
1442	JC 661763K	SUB	UMESH CHANDRA TIWARI	01-10-2005
1443	JC 221758H	SUB	URBA DATT	01-01-2006
1444	JC 215563F	SUB	V ANANDHA VADIVEL	01-11-2005
1445	JC 661519K	SUB	V THIYAGARAJAN	01-10-2005

1446	JC 640626X	SUB	VIJAYAN M	01-12-2005
1447	JC 661624A	SUB	VINOD KUMAR	01-10-2005
1448	JC 661685X	SUB	VIRA BHADRAPPA HADAPAD	01-10-2005
1449	JC 641046P	SUB	YADAO WASUDEO CHAUDHARI	01-12-2005
1450	JC 661987K	SUB	YESH PAL SINGH	01-12-2005

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

1451	JC 680218P	RIS	BABU LAL CHAKRABARTTY	01-11-2005
1452	JC 680191H	RIS	BHUPENDRA JHA	01-11-2005
1453	JC 680173A	RIS	CHANDRIKA PRASAD SAH	01-12-2005
1454	JC 680121K	RIS	DHARAM VIR SINGH	01-11-2005
1455	JC 680308W	RIS	G RAGHUPATHY	01-11-2005
1456	JC 680198M	RIS	GAM BAHADUR GURUNG	01-12-2005
1457	JC 680168P	RIS	GUN BAHADUR CHHETRI	01-12-2005
1458	JC 680384H	RIS	GURMAIL SINGH	01-12-2005
1459	JC 860149M	RIS	HIMAT SINGH	01-11-2005
1460	JC 680255H	RIS	JAGDEV SINGH	01-01-2006
1461	JC 680194W	RIS	JAGDISH SINGH	01-12-2005
1462	JC 213150Y	RIS	JAINUDDIN DAGADU MULANI	01-01-2006
1463	JC 680219X	RIS	KAMESHWAR PRASAD RAI	01-01-2006
1464	JC 680145N	RIS	KAMLA PRASAD	01-11-2005
1465	JC 680171P	RIS	KASIM ALI	01-12-2005
1466	JC 680310N	RIS	KHAPALE JAGANNATH BABU RAO	01-01-2006
1467	JC 680271A	RIS	KRISHAN PAL SINGH	01-10-2005
1468	JC 680328K	RIS	MAHESH KUMAR	01-01-2006
1469	JC 680119M	RIS	MOHANAN S	01-10-2005
1470	JC 680158L	RIS	MONTOSH NANDI	01-12-2005
1471	JC 680365X	RIS	OM PRAKASH VERMA	01-12-2005
1472	JC 680226N	RIS	P ANTONY SAMY	01-01-2006
1473	JC 680212N	RIS	PIRYAG DATT	01-01-2006
1474	JC 680232F	RIS	PRAHLAD SINGH AIR	01-12-2005
1475	JC 680248M	RIS	PREM CHANDRA	01-01-2006
1476	JC 680237A	RIS	RAM KISHAN	01-12-2005
1477	JC 680154P	RIS	RANVIR SINGH	01-12-2005
1478	JC 680125A	RIS	SASI VELAYUDHAN	01-11-2005
1479	JC 680201F	RIS	SATENDRA BAHADUR SINGH	01-12-2005
1480	JC 680252P	RIS	SHARWAN KUMAR	01-01-2006
1481	JC 680156A	RIS	SHIV SARAN SINGH	01-12-2005
1482	JC 650150K	RIS	SHYAM BIHARI SHUKAL	01-12-2005
1483	JC 680172X	RIS	SIYA SHARAN PRASAD	01-12-2005
1484	JC 680339W	RIS	SUBASH CHANDRA PUNIA	01-01-2006
1485	JC 680128N	RIS	SUKRA TIRKEY	01-11-2005
1486	JC 680199P	RIS	SULTAN SINGH	01-12-2005
1487	JC 680283P	RIS	SURENDER SINGH	01-11-2005
1488	JC 680079W	RIS	SURESH RAM	01-10-2005
1489	JC 680166K	RIS	YAGYA PRASAD CHHETRI	01-12-2005

ARMY MEDICAL CORPS

1490	JC 691139A	SUB	ALOK KUMAR TANEJA	01-12-2005
1491	JC 693134A	SUB	ANAND SINGH	01-10-2005
1492	JC 692389N	SUB	BACHAN SINGH	01-12-2005
1493	JC 692401K	SUB	BACHAN SINGH	01-01-2006
1494	JC 692711P	SUB	BALBIR SINGH	01-01-2006
1495	JC 690930X	SUB	BALJINDER SINGH	01-01-2006
1496	JC 215018X	SUB	BANDAL VITTHAL RANGANATH	01-12-2005
1497	JC 692706K	SUB	BANSIDHAR YADAV	01-12-2005
1498	JC 691750F	SUB	BARUN DAS GUPTA	01-01-2006
1499	JC 692329Y	SUB	BHANWAR LAL GURJAR	01-11-2005
1500	JC 690722H	SUB	BIJOY KUMAR MISHRA	01-09-2005
1501	JC 691956Y	SUB	BIRENDRA SINGH BISHT	01-09-2005
1502	JC 693830X	SUB	BISHRAM SINGH	01-01-2006
1503	JC 215017P	SUB	BISHWANATH MOHANTA	01-12-2005
1504	JC 691244W	SUB	BRAJA KISHORE SAHOO	01-12-2005
1505	JC 693296L	SUB	BRIJ BHUSHAN MISHRA	01-11-2005
1506	JC 690932H	SUB	BRIJ LAL YADAV	01-11-2005
1507	JC 692336P	SUB	CHANDRAN K M	01-01-2006
1508	JC 692325H	SUB	D SAVARI MUTHU	01-10-2005
1509	JC 693256K	SUB	DADAN TIWARI	01-06-2005
1510	JC 201430A	SUB	DALEL SINGH	01-01-2006
1511	JC 691138X	SUB	DHIRENDRA RAI	01-12-2005
1512	JC 692136Y	SUB	DHRUV NARAIN PATHAK	01-09-2005
1513	JC 692099W	SUB	DIWAN SINGH KALAKOTI	01-09-2005
1514	JC 691618F	SUB	DIWANI CHAND	01-09-2005
1515	JC 692240M	SUB	DURJAN SINGH DHARMAWAT	01-01-2006
1516	JC 693167L	SUB	GANGA SINGH BISHT	01-08-2005
1517	JC 693185N	SUB	GURMEET SINGH	01-12-2005
1518	JC 214869X	SUB	JAGABANDHU NAYAK	01-12-2005
1519	JC 692611K	SUB	JAGDISH PRASAD SWAMI	01-12-2005
1520	JC 691068K	SUB	JANAK SINGH	01-10-2005
1521	JC 692234Y	SUB	JANARDAN SINGH	01-12-2005
1522	JC 692841X	SUB	JANARDANAN K K	01-01-2006
1523	JC 690748X	SUB	JATA SHANKER	01-11-2005
1524	JC 691368L	SUB	JOSEPH KURIAN	01-11-2005
1525	JC 691601N	SUB	JOSEPH M L	01-11-2005
1526	JC 691072M	SUB	K JEYA KUMAR	01-10-2005
1527	JC 692291A	SUB	KARUMBALAH P M	01-09-2005
1528	JC 690731K	SUB	KISHNA RAM CHOUDHARY	01-12-2005
1529	JC 692233W	SUB	KISHOR KUMAR	01-11-2005
1530	JC 692394Y	SUB	KRISHAN LAL SAH	01-12-2005
1531	JC 693390P	SUB	LAKHAN BAHADUR SINGH	01-12-2005
1532	JC 691729Y	SUB	LAKSHMANAN PUTHIYA PURAYIL	01-11-2005
1533	JC 691505Y	SUB	LAL CHAND	01-01-2006

1534	JC 692400F	SUB	LAL SINGH	01-12-2005
1535	JC 690986K	SUB	LAXMI PRASAD	01-12-2005
1536	JC 691175L	SUB	LOKPAL SINGH YADAV	01-01-2006
1537	JC 693135Y	SUB	M SUDALAI MUTHU	01-11-2005
1538	JC 692406H	SUB	MAHI PAL SINGH	01-01-2006
1539	JC 693294A	SUB	MAN SINGH BATHAM	01-11-2005
1540	JC 691060X	SUB	MANI RAM ROSAWAN	01-09-2005
1541	JC 691940N	SUB	MEGH NATH	01-09-2005
1542	JC 690340Y	SUB	MINT RAJ SINGH YADAV	01-10-2005
1543	JC 692327N	SUB	MOHAMMAD WASRULLAH ANSARI	01-11-2005
1544	JC 692399X	SUB	MOHAR SINGH.	01-12-2005
1545	JC 693091W	SUB	MONINDRA NATH MONDAL	01-10-2005
1546	JC 692157P	SUB	MURLIDHAR MISHRA	01-09-2005
1547	JC 692326L	SUB	N DHARMA RAJAN	01-11-2005
1548	JC 693029K	SUB	NANDA KUMARAN P	01-10-2005
1549	JC 692709X	SUB	NARGUNDE RAMESH SHANKAR RAO	01-11-2005
1550	JC 692232N	SUB	NETAKE PRATAP BABURAO	01-10-2005
1551	JC 691916X	SUB	NIMAIN CHARAN PRADHAN	01-09-2005
1552	JC 692287X	SUB	OM KUMAR SINGH TOMAR	01-09-2005
1553	JC 690425P	SUB	OM PARKASH SHARMA	01-09-2005
1554	JC 692397M	SUB	OMKAR SINGH SAINI	01-12-2005
1555	JC 692188P	SUB	ONKAR SINGH HARCHAND	01-09-2005
1556	JC 693602P	SUB	PABITRA KUMAR SINGHA	01-01-2006
1557	JC 692705F	SUB	PARMATMA NAND SINGH CHAUHAN	01-12-2005
1558	JC 692396K	SUB	PRAMOD KUMAR MISHRA	01-12-2005
1559	JC 691063L	SUB	PREM CHANDRA	01-10-2005
1560	JC 692377Y	SUB	PREM LAL	01-11-2005
1561	JC 692104W	SUB	PRODIP KUMAR SAHA	01-09-2005
1562	JC 693025N	SUB	PURUSHOTHAMAN K P	01-10-2005
1563	JC 691269H	SUB	RADHAKRISHNA PANICKER A R	01-10-2005
1564	JC 691917A	SUB	RAGHUNATH JENA	01-10-2005
1565	JC 692755M	SUB	RAGHUPATHI	01-09-2005
1566	JC 691503N	SUB	RAJ PAL SINGH GUSAIN	01-01-2006
1567	JC 691692H	SUB	RAJAGOPALAN P	01-12-2005
1568	JC 691198M	SUB	RAJASEKHARAN PILLAI R	01-01-2006
1569	JC 692839A	SUB	RAJINDER PARASHAD VASHIST	01-10-2005
1570	JC 692700H	SUB	RAJMOHAN SINGH	01-11-2005
1571	JC 692082H	SUB	RAM BACHAN YADAV	01-09-2005
1572	JC 692392N	SUB	RAM CHANDRA JENA	01-12-2005
1573	JC 691636K	SUB	RAM KRISHAN SHANKAR	01-01-2006
			BHARADWAJ	
1574	JC 692367P	SUB	RAM NAGINA	01-10-2005
1575	JC 692754K	SUB	RAM NARAYAN VERMA	01-09-2005
1576	JC 692398P	SUB	RAM SANKAR MISRA	01-12-2005
1577	JC 692106F	SUB	RAMDINESH SINGH	01-09-2005

1578	JC 692239X	SUB	RAMESH SHANKAR PARDESHI	01-01-2006
1579	JC 692739P	SUB	RAMESH SINGH	01-09-2005
1580	JC 692385X	SUB	RANG BAHADUR SINGH	01-12-2005
1581	JC 691243N	SUB	RANJEET SINGH PAL	01-09-2005
1582	JC 692088K	SUB	SAGAR MAL SILAICH	01-09-2005
1583	JC 692992W	SUB	SAMARAJAN P N	01-09-2005
1584	JC 690729M	SUB	SARAT CHANDRA MOHANTY	01-01-2006
1585	JC 691749M	SUB	SASIDHARAN V	01-01-2006
1586	JC 215225K	SUB	SATISH PAL SINGH	01-10-2005
1587	JC 692361N	SUB	SATYA NARAYANA KOSURI	01-09-2005
1588	JC 692710M	SUB	SHAMSHAD AHMAD	01-01-2006
1589	JC 691058A	SUB	SHELKE VILAS ANANDA	01-09-2005
1590	JC 692331W	SUB	SISIR KUMAR RANA	01-12-2005
1591	JC 691248M	SUB	SUDHAKARAN P	01-12-2005
1592	JC 690697P	SUB	SURENDRA KUMAR	01-11-2005
1593	JC 692877W	SUB	SURESH KUMAR	01-01-2006
1594	JC 690873F	SUB	SURESH KUMAR N	01-01-2006
1595	JC 692241P	SUB	SWAPAN KUMAR NANDY	01-01-2006
1596	JC 691728W	SUB	SWAPAN KUMAR SEN	01-10-2005
1597	JC 692222K	SUB	TAJA RAM CHOWDHARY	01-11-2005
1598	JC 692704Y	SUB	THANU RAM BORA	01-12-2005
1599	JC 692954A	SUB	THULLIMILLI NAGESWARA RAO	01-11-2005
1600	JC 691670K	SUB	TIGGA WALTER	01-12-2005
1601	JC 691239L	SUB	UTTAM KUMAR SARKAR	01-10-2005
1602	JC 693257M	SUB	venu GOPALAN V	01-12-2005
1603	JC 692602H	SUB	YEND REDDY CHANDRA BABU	01-10-2005
1604	JC 693130K	SUB	YUDHISTHIR SABAT	01-11-2005

ARMY ORDNANCE CORPS

1605	JC 724655X	SUB	ABDUL RASHID AHMED	01-12-2005
1606	JC 724526X	SUB	ABHE RAJ SINGH	01-09-2005
1607	JC 722647N	SUB	AJIT SINGH THALOR	01-10-2005
1608	JC 722719Y	SUB	AKUN CHANDRA GOSWAMI	01-12-2005
1609	JC 723960X	SUB	ANIL KUMAR SINHA	01-01-2006
1610	JC 722811X	SUB	ASHA RAM JUYAL	01-10-2005
1611	JC 724656A	SUB	ASHOK KUMAR TIWARI	01-11-2005
1612	JC 723299W	SUB	BACHCHAN RAM	01-09-2005
1613	JC 223131F	SUB	BASANT PRASAD	01-12-2005
1614	JC 722630M	SUB	BHAGWAN RAM KAYASTH	01-09-2005
1615	JC 723414L	SUB	BHEEKHA RAM BENIWAL	01-01-2006
1616	JC 723413H	SUB	BIRDI CHAND KUMAR	01-11-2005
1617	JC 722754F	SUB	BISHNU PRASAD DASH	01-01-2006
1618	JC 724695Y	SUB	BRIJ MOHAN SHARMA	01-12-2005
1619	JC 723615K	SUB	BY REDDY LAKSHMI REDDY	01-12-2005
1620	JC 724527A	SUB	CHANDRA PRAKASH	01-09-2005
1621	JC 723886F	SUB	DAYA NAND SINGH	01-10-2005

1622	JC 723958A	SUB	DHARM PAL SINGH	01-11-2005
1623	JC 723077F	SUB	DHIREN CHANDRA MONDAL	01-10-2005
1624	JC 725397P	SUB	DIL BAHADUR GIRI	01-01-2006
1625	JC 724413P	SUB	DINA NATH	01-09-2005
1626	JC 723588L	SUB	DNYANESHWAR BABURAO AUSALKAR	01-12-2005
1627	JC 723844P	SUB	DOLESHWAR PRASAD DWIVEDI	01-12-2005
1628	JC 725413F	SUB	GANESH CHANDRA SARKAR	01-09-2005
1629	JC 723903W	SUB	GIRDHAR GOPAL JANGID	01-12-2005
1630	JC 723144F	SUB	GIRJA SHANKAR SHARMA	01-01-2006
1631	JC 724686X	SUB	HAFIJULLAH	01-12-2005
1632	JC 724552Y	SUB	HEMENDRA CHANDRA SHARMA	01-12-2005
1633	JC 723959H	SUB	HINCH LAL	01-12-2005
1634	JC 722687F	SUB	HIRA LAL DUBEY	01-11-2005
1635	JC 725134W	SUB	IQBAL MOHMAD	01-01-2006
1636	JC 723252L	SUB	J K DAS	01-11-2005
1637	JC 723412A	SUB	JAGWANT SINGH	01-12-2005
1638	JC 724721P	SUB	JAI PERKASH	01-11-2005
1639	JC 722707K	SUB	JAN MEJOY SINHA	01-01-2006
1640	JC 722873X	SUB	KARNAIL SINGH	01-01-2006
1641	JC 221713H	SUB	KHIYA RAM	01-12-2005
1642	JC 723963L	SUB	MAHENDRA KUMAR	01-12-2005
1643	JC 724955Y	SUB	MANDHADI YADAGIRI REDDY	01-11-2005
1644	JC 722706F	SUB	MEHAR SINGH	01-12-2005
1645	JC 724375K	SUB	MOHAN LAL SWAMI	01-09-2005
1646	JC 724548W	SUB	MOHAN PRASAD	01-11-2005
1647	JC 724016W	SUB	N KRISHNA SINGH	01-11-2005
1648	JC 723337F	SUB	NANDA BALLABH JOSHI	01-01-2006
1649	JC 722683L	SUB	NANDAN SINGH RAUTELA	01-11-2005
1650	JC 724070K	SUB	NIRANJAN SARKAR	01-01-2006
1651	JC 722703N	SUB	P RAJENDER KUMAR NAIR	01-10-2005
1652	JC 724161N	SUB	PARIKHIT SAHU	01-09-2005
1653	JC 723931H	SUB	PARKASH CHAND	01-10-2005
1654	JC 722662P	SUB	PATIL SURESH PUNJU	01-09-2005
1655	JC 724729F	SUB	RADHEY SHYAM SINGH	01-01-2006
1656	JC 723216A	SUB	RAJ KUMAR	01-01-2006
1657	JC 723680K	SUB	RAJ SINGH	01-09-2005
1658	JC 723159K	SUB	RAM KISHAN	01-10-2005
1659	JC 724684M	SUB	RAM KUMAR	01-12-2005
1660	JC 724126L	SUB	RAM PATI YADAV	01-09-2005
1661	JC 723288K	SUB	RAM PRAVESH SINGH	01-11-2005
1662	JC 724549Y	SUB	RAM PRIT PRASAD	01-11-2005
1663	JC 724804A	SUB	RAM SARUP GOYAL	01-12-2005
1664	JC 722525W	SUB	RAMESH CHANDRA	01-09-2005
1665	JC 72427111	SUB	S THOMAS	01-11-2005

1666	JC 722720M	SUB	SALIG RAM TIWARI	01-11-2005
1667	JC 724685P	SUB	SATISH CHAND	01-11-2005
1668	JC 722787M	SUB	SATNAM SINGH	01-12-2005
1669	JC 723480N	SUB	SHAH DEEN	01-09-2005
1670	JC 723504M	SUB	SHARADANAND SINGH	01-09-2005
1671	JC 722932Y	SUB	SHIV BILAS RAI	01-09-2005
1672	JC 724127N	SUB	SHIV DAYAL	01-10-2005
1673	JC 723218L	SUB	SHYAM SUNDER SEN	01-01-2006
1674	JC 723348N	SUB	SURENDRA KUMAR	01-09-2005
1675	JC 725098W	SUB	SURENDRA PRASAD SINGH	01-11-2005
1676	JC 722911H	SUB	SURYA NATH TIWARI	01-10-2005
1677	JC 722752W	SUB	TARA PADA DOBEY	01-01-2006
1678	JC 722626K	SUB	TEJ SINGH	01-09-2005
1679	JC 723956P	SUB	TEJA SINGH	01-10-2005
1680	JC 722609K	SUB	UDAI BHAN SINGH	01-09-2005
1681	JC 723314A	SUB	UMMED SINGH RANA	01-10-2005
1682	JC 725005W	SUB	VED RAM	01-11-2005
1683	JC 223143W	SUB	VEER BHAN	01-12-2005
1684	JC 722749W	SUB	VIRUPAXI SAKRI	01-01-2006

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

1685	JC 748590N	SUB	ABRAHAM K B	01-12-2005
1686	JC 749045W	SUB	AJIT KUMAR CHHETRI	01-01-2006
1687	JC 755987H	SUB	ALAMJIT SINGH	01-10-2005
1688	JC 752873M	SUB	AMALENDU DAS	01-12-2005
1689	JC 753213F	SUB	AMBIKA PRASAD	01-01-2006
1690	JC 750684K	SUB	ANBU A	01-10-2005
1691	JC 753191N	SUB	ANGREJ SINGH	01-10-2005
1692	JC 751818K	SUB	ARUN CHAND	01-12-2005
1693	JC 752126F	SUB	ARVIND KUMAR	01-12-2005
1694	JC 749451W	SUB	ASHOK KUMAR	01-09-2005
1695	JC 755021H	SUB	ASHOK KUMAR	01-12-2005
1696	JC 747517H	SUB	ASHOK KUMAR BAG	01-10-2005
1697	JC 750655P	SUB	ASHOK KUMAR DUBEY	01-01-2006
1698	JC 750373X	SUB	ASHOK KUMAR M	01-12-2005
1699	JC 750657A	SUB	ASHOK KUMAR PANDIT	01-01-2006
1700	JC 754683Y	SUB	ASHOK KUMAR SHARMA	01-01-2006
1701	JC 752717H	SUB	ASOK KUMAR GHOSH	01-09-2005
1702	JC 753429H	SUB	AWADHESH PRASAD SINHA	01-09-2005
1703	JC 752013Y	SUB	AWD HESH KUMAR	01-12-2005
1704	JC 748106W	SUB	BABU RAM RATHAUR	01-10-2005
1705	JC 751815W	SUB	BAL KRISHAN SHARMA	01-12-2005
1706	JC 751804K	SUB	BALAN K P	01-10-2005
1707	JC 754034N	SUB	BALBIR SINGH	01-11-2005
1708	JC 754038K	SUB	BALBIR SINGH	01-01-2006
1709	JC 754223X	SUB	BALRAM SINGH KUSHWAH	01-10-2005

1710	JC 755182L	SUB	BANKAR KISAN VITHOBA	01-09-2005
1711	JC 750106P	SUB	BARHMADIN VERMA	01-10-2005
1712	JC 749628Y	SUB	BASANTA KUMAR BEHERA	01-01-2006
1713	JC 752383Y	SUB	BHIKAJI AMRUTA MANE	01-09-2005
1714	JC 753221A	SUB	BHOSALE SHRIKANT D RAO	01-10-2005
1715	JC 752972P	SUB	BHUPENDR PRASAD	01-09-2005
1716	JC 752513W	SUB	BIGAL URAON	01-09-2005
1717	JC 754468N	SUB	BINAY SHANKER MISHRA	01-01-2006
1718	JC 750736P	SUB	BIRENDRA UPADHYAY	01-12-2005
1719	JC 752683A	SUB	BISHWANATH RAI	01-12-2005
1720	JC 751817F	SUB	CHANAN SINGH	01-12-2005
1721	JC 752934Y	SUB	CHANDESHWAR SHARMA	01-01-2006
1722	JC 752494W	SUB	CHANDRA BHAN YADAV	01-12-2005
1723	JC 749836N	SUB	CHANDRABHANU S	01-10-2005
1724	JC 752497K	SUB	DALIP SINGH	01-12-2005
1725	JC 752014F	SUB	DAWA LAMA	01-12-2005
1726	JC 751822M	SUB	DAYANAND	01-01-2006
1727	JC 749293M	SUB	DEVENDRA CHOUDHARY	01-10-2005
1728	JC 749423K	SUB	DEVENDRA SINGH BIST	01-01-2006
1729	JC 752499P	SUB	DEVI PRASAD	01-01-2006
1730	JC 754540Y	SUB	DEVINDER KUMAR SIROHI	01-12-2005
1731	JC 750241H	SUB	DHANAPAL AGASAR	01-01-2006
1732	JC 752384F	SUB	DHARAM DEV SINGH	01-10-2005
1733	JC 751814N	SUB	DHARAM PAL SINGH	01-12-2005
1734	JC 752729X	SUB	DHARAM SINGH	01-09-2005
1735	JC 750896P	SUB	DHAREPPA NAIK	01-01-2006
1736	JC 752249W	SUB	DHARMA PAL SINGH BHAMBOO	01-01-2006
1737	JC 750162N	SUB	DIGAMBAR SINGH	01-12-2005
1738	JC 748995Y	SUB	DILIP KUMAR DEBNATH	01-10-2005
1739	JC 749541X	SUB	DILIP KUMAR GHOSH	01-01-2006
1740	JC 750182F	SUB	GAJENDER SINGH AFRIA	01-10-2005
1741	JC 751392N	SUB	GANESWAR MARANDI	01-12-2005
1742	JC 748542N	SUB	GANGA DATT KAPRI	01-01-2006
1743	JC 752685L	SUB	GHANSHYAM JAGANNATHJI VERMA	01-09-2005
1744	JC 754015H	SUB	GHISA LAL	01-10-2005
1745	JC 752223Y	SUB	GIRISH CHANDRA	01-01-2006
1746	JC 749636X	SUB	GOPAL JI CHOUDHARY	01-01-2006
1747	JC 753434N	SUB	GOPAL KRUSHNA SAHOO	01-10-2005
1748	JC 749049M	SUB	GORAKH NATH	01-09-2005
1749	JC 752176M	SUB	GORKH NATH PANDEY	01-01-2006
1750	JC 752605H	SUB	GOVIND BALLABH JOSHI	01-10-2005
1751	JC 749723L	SUB	GURBAKASH SINGH	01-11-2005
1752	JC 749613W	SUB	HANS RAJ VERMA	01-12-2005
1753	JC 749602K	SUB	HANUMAN SINGH	01-10-2005
1754	JC 752174F	SUB	HAR SHIV	01-12-2005

1755	JC 748393L	SUB	HARI BHUSHAN SINGH	01-12-2005
1756	JC 753430X	SUB	HARISH CHAND	01-09-2005
1757	JC 748394N	SUB	HARNAM SINGH	01-01-2006
1758	JC 750665Y	SUB	INDERBIR SINGH LAMBA	01-09-2005
1759	JC 752745P	SUB	INDIRESH TIWARI	01-12-2005
1760	JC 752337K	SUB	JAG NARAIN RAM	01-01-2006
1761	JC 749960P	SUB	JAGDEEP CHAND	01-10-2005
1762	JC 750719P	SUB	JAGDISH PRASAD	01-10-2005
1763	JC 752600K	SUB	JAGDISH PRASAD	01-12-2005
1764	JC 753016Y	SUB	JAGDISH PRASAD	01-01-2006
1765	JC 752493H	SUB	JAGDISH SINGH	01-11-2005
1766	JC 749881A	SUB	JAGDISH SINGH SIKARWAR	01-09-2005
1767	JC 753494H	SUB	JAGIR SINGH	01-10-2005
1768	JC 751731H	SUB	JAGIR SINGH CHOCHAN	01-10-2005
1769	JC 750637M	SUB	JAGLAL SINGH	01-09-2005
1770	JC 750449L	SUB	JAGTAP SARJERAO DAGADU	01-10-2005
1771	JC 751937A	SUB	JAI PRAKASH	01-12-2005
1772	JC 752124W	SUB	JAI PRAKASH CHAUBEY	01-11-2005
1773	JC 749583K	SUB	JAI SINGH	01-09-2005
1774	JC 751267K	SUB	JAYACHANDRAN N	01-10-2005
1775	JC 756028Y	SUB	JAYAKUMAR S	01-10-2005
1776	JC 750048W	SUB	JAYARAM PATRA	01-01-2006
1777	JC 749780M	SUB	JIBACHH CHOUDHARY	01-12-2005
1778	JC 750223A	SUB	JITENDRA KUMAR	01-10-2005
1779	JC 752492L	SUB	JOGENDR SINGH	01-09-2005
1780	JC 748435M	SUB	JOGINDER SINGH	01-01-2006
1781	JC 750659L	SUB	JUGAL SINGH	01-01-2006
1782	JC 755041W	SUB	K PULLAIAH	01-12-2005
1783	JC 755367M	SUB	K SOMAN	01-12-2005
1784	JC 752177P	SUB	K VENKATAIAH	01-01-2006
1785	JC 755268K	SUB	KADAMBALA KAMA RAJU	01-11-2005
1786	JC 751092M	SUB	KALYAN SINGH SHEKHAWAT	01-10-2005
1787	JC 748514F	SUB	KAMAL DEV	01-10-2005
1788	JC 749540P	SUB	KAMLESH KUMAR TRIPATHI	01-12-2005
1789	JC 752346L	SUB	KAPIL DEO SINGH	01-10-2005
1790	JC 755826A	SUB	KARAM SINGH	01-01-2006
1791	JC 752127K	SUB	KARIMAN RAM	01-12-2005
1792	JC 752790F	SUB	KAUSHAL KISHOR	01-11-2005
1793	JC 748989L	SUB	KAUSHAL KISHORE MISRA	01-12-2005
1794	JC 750179F	SUB	KHARAITI LAL	01-09-2005
1795	JC 752733A	SUB	KHIMANAND	01-09-2005
1796	JC 750846K	SUB	KHUSHAL SINGH	01-12-2005
1797	JC 753136X	SUB	KOPARE MARUTI LAXMAN	01-12-2005
1798	JC 752767N	SUB	KRAPAL SINGH	01-12-2005
1799	JC 752015K	SUB	KUBER SINGH	01-12-2005

1800	JC	748377N	SUB	KULDEEP SINGH	01-09-2005
1801	JC	750181Y	SUB	KULDEEP SINGH	01-10-2005
1802	JC	749751X	SUB	KULTAJ KUMAR SHARMA	01-10-2005
1803	JC	753495L	SUB	KUVAR PAL SINGH	01-10-2005
1804	JC	753312K	SUB	LAKSHMI NARAIN JANGIR	01-12-2005
1805	JC	750036F	SUB	LALA RAM PAL	01-09-2005
1806	JC	755265W	SUB	LALAN PRASAD SINGH	01-01-2006
1807	JC	749389P	SUB	LALLAN RAM CHAUHAN	01-10-2005
1808	JC	753259K	SUB	LEKH NARAIN SHUKLA	01-12-2005
1809	JC	751816Y	SUB	MADAN PRASAD	01-12-2005
1810	JC	753222H	SUB	MAHENDRA PRASAD SINGH	01-01-2006
1811	JC	749366N	SUB	MAHESHWAR SAHU	01-01-2006
1812	JC	748887N	SUB	MAKHAN LAL JANA	01-10-2005
1813	JC	751808A	SUB	MALKIT SINGH GILL	01-11-2005
1814	JC	750236X	SUB	MD CHAHABUDDIN AHMED	01-11-2005
1815	JC	752242K	SUB	MILAP SINGH YADAV	01-10-2005
1816	JC	750217M	SUB	MISHRI YADAV	01-09-2005
1817	JC	752121H	SUB	MOHAN SHYAM SHARMA	01-10-2005
1818	JC	749396L	SUB	MOHANAN A K	01-01-2006
1819	JC	750491K	SUB	MOHANAN NAIR A B	01-10-2005
1820	JC	750161L	SUB	MOHINDER PAL	01-01-2006
1821	JC	750773H	SUB	MOJI RAM KAUSHIK	01-12-2005
1822	JC	752119L	SUB	MOLAN BHUYAN	01-09-2005
1823	JC	750291N	SUB	MUKHATAR SINGH	01-01-2006
1824	JC	751734W	SUB	MUKTINARAYAN SINGH	01-11-2005
1825	JC	751514M	SUB	MULIK DAJU RAJARAM	01-10-2005
1826	JC	749456P	SUB	NABA KUMAR MUKHOPADHYAY	01-01-2006
1827	JC	752241K	SUB	NARENDRA PRATAP SINGH	01-10-2005
1828	JC	749066M	SUB	NAV RATTAN	01-12-2005
1829	JC	752454P	SUB	NEELAPU GOPALA RAO	01-11-2005
1830	JC	753137A	SUB	NEEMKER CHANDER RAO	01-01-2006
1831	JC	752056N	SUB	NIMAIN CHARAN SWAIN	01-12-2005
1832	JC	755716L	SUB	NISITH KUMAR BISWAS	01-12-2005
1833	JC	749728K	SUB	OM PARKASH SAHU	01-09-2005
1834	JC	750889Y	SUB	OM PRAKASH	01-10-2005
1835	JC	752874P	SUB	ONKAR SINGH	01-12-2005
1836	JC	752245X	SUB	PANNA LAL	01-12-2005
1837	JC	747923H	SUB	PARESH CHANDRA SARKAR	01-12-2005
1838	JC	752686N	SUB	PARIMAL CHANDRA SARKAR	01-09-2005
1839	JC	749731K	SUB	PARTAP SINGH CHAUHAN	01-11-2005
1840	JC	755136W	SUB	PATEL VIPIN CHANDRA KANTILAL	01-01-2006
1841	JC	749103P	SUB	PATIL SAMBHAJI GANPAT	01-01-2006
1842	JC	749408P	SUB	PHILOPOSE K V	01-10-2005
1843	JC	751319P	SUB	POONAM SINGH	01-11-2005
1844	JC	752732X	SUB	PRAFULL KUMAR PAIKARAY	01-09-2005

1845	JC 748643F	SUB	PRAFULLA KUMAR ROY	01-12-2005
1846	JC 753808Y	SUB	PRAN GOBINDA BISWAS	01-09-2005
1847	JC 747670Y	SUB	PREM SINGH DHAMI	01-11-2005
1848	JC 751806P	SUB	PUNDALEEK YASHAVANTA NAIK	01-10-2005
1849	JC 752718L	SUB	RADHAKRISHNAN NAIR C	01-10-2005
1850	JC 749882H	SUB	RAJBIR GOPIRAM YADAV	01-09-2005
1851	JC 752979Y	SUB	RAJENDER PRASAD	01-12-2005
1852	JC 755046P	SUB	RAJENDRA SINGH YADAV	01-12-2005
1853	JC 750667K	SUB	RAJINDER SINGH	01-10-2005
1854	JC 749452Y	SUB	RAM BAHADUR	01-09-2005
1855	JC 751170Y	SUB	RAM BARAN SINGH	01-12-2005
1856	JC 752074W	SUB	RAM CHANDRA BHAGAWATI	01-10-2005
1857	JC 753409P	SUB	RAM CHANDRA MANDAL	01-12-2005
1858	JC 750038M	SUB	RAM KARAN	01-10-2005
1859	JC 748866Y	SUB	RAM KISHOR	01-10-2005
1860	JC 753408M	SUB	RAM KUMAR	01-09-2005
1861	JC 754131L	SUB	RAM KUNWAR BAWARIYA	01-01-2006
1862	JC 752742F	SUB	RAM NIWAS	01-11-2005
1863	JC 749490P	SUB	RAM PRASAD TIWARI	01-10-2005
1864	JC 755292A	SUB	RAM SARN	01-10-2005
1865	JC 751820F	SUB	RAMA DHIN NISHAD	01-12-2005
1866	JC 754806A	SUB	RAMASHRAY YADAVA	01-09-2005
1867	JC 752933W	SUB	RAMAVTAR SHARMA	01-12-2005
1868	JC 750218P	SUB	RAMCHANDRA	01-09-2005
1869	JC 749884N	SUB	RAMCHANDRAN NAIR T	01-09-2005
1870	JC 754802K	SUB	RAMESH CHANDRA	01-09-2005
1871	JC 751550X	SUB	RAMESH PANDURANG BORKAR	01-01-2006
1872	JC 747766F	SUB	RAMESHWAR SINGH	01-01-2006
1873	JC 750037K	SUB	RAMKISHOR MISHRA	01-10-2005
1874	JC 752997F	SUB	RAMPHAL SINGH	01-01-2006
1875	JC 755138F	SUB	RANJIT SINGH	01-12-2005
1876	JC 748379Y	SUB	ROOPLAL YADAV	01-10-2005
1877	JC 751821K	SUB	SAIBABA SHEIK	01-12-2005
1878	JC 752259X	SUB	SANKARSAN PANDA	01-01-2006
1879	JC 754931K	SUB	SANT KUMAR SHARMA	01-12-2005
1880	JC 749405F	SUB	SANTHA KUMAR B S	01-10-2005
1881	JC 747432M	SUB	SANTOSH KUMAR	01-09-2005
1882	JC 749963H	SUB	SASIDHARAN KUNNOTH	01-10-2005
1883	JC 748546K	SUB	SASIDHARAN P	01-12-2005
1884	JC 752792M	SUB	SASIDHAREN P K	01-01-2006
1885	JC 753428A	SUB	SATBIR SINGH	01-09-2005
1886	JC 752883W	SUB	SATHIYAN K S	01-12-2005
1887	JC 748987A	SUB	SATISH CHANDRA DHASMANA	01-10-2005
1888	JC 748204W	SUB	SATYA PRAKASH SRIVASTAVA	01-10-2005
1889	JC 751859N	SUB	SATYAPAL SINGH BHADORIA	01-10-2005

1890	JC 749635P	SUB	SAUMENDRA MALLICK	01-10-2005
1891	JC 750222X	SUB	SAYED ALAVI V K	01-10-2005
1892	JC 749419F	SUB	SHAIK DASTAGIRI	01-11-2005
1893	JC 753431A	SUB	SHAMU VITHAL SALUNKI	01-10-2005
1894	JC 752788K	SUB	SHEO RAM	01-09-2005
1895	JC 749895A	SUB	SHER SINGH VERMA	01-11-2005
1896	JC 748480Y	SUB	SHIV KUMAR SINGH	01-01-2006
1897	JC 752599A	SUB	SHREE KRISHNA CHOUBEY	01-10-2005
1898	JC 751007Y	SUB	SHREE NARAYAN MISHRA	01-01-2006
1899	JC 753059N	SUB	SHUBH KARAN	01-09-2005
1900	JC 750670K	SUB	SHYAM LAL	01-12-2005
1901	JC 754130H	SUB	SHYAM SUNDAR DASH	01-01-2006
1902	JC 754649Y	SUB	SITA RAM THAKUR	01-01-2006
1903	JC 225134N	SUB	SODHI SINGH LADHAR	01-12-2005
1904	JC 754014A	SUB	SUBASH CHAND RAI	01-09-2005
1905	JC 749837W	SUB	SUKUMARAN K	01-10-2005
1906	JC 750825N	SUB	SUKUMARAN P N	01-10-2005
1907	JC 748992L	SUB	SUNNY VARKEY	01-10-2005
1908	JC 750521W	SUB	SURATH MACHHUA	01-01-2006
1909	JC 752737W	SUB	SURENDRA KUMAR TIWARI	01-10-2005
1910	JC 752975H	SUB	SURENDRA PRASAD SINGH	01-12-2005
1911	JC 749618P	SUB	SURESH CHANDER VASHISTH	01-10-2005
1912	JC 748520P	SUB	SURESH LAL DEO	01-09-2005
1913	JC 749741N	SUB	SURESH NANDA SHARMA	01-10-2005
1914	JC 753138H	SUB	SURYAJI AKARAM NALAWADE	01-01-2006
1915	JC 752047M	SUB	TAPAN KUMAR MUKHERJEE	01-01-2006
1916	JC 747475F	SUB	TIWARI SHIVKUMAR CHANDRABHAN	01-12-2005
1917	JC 749289K	SUB	UDAYVIR SINGH CHAUHAN	01-01-2006
1918	JC 752125Y	SUB	UMRAO SINGH	01-12-2005
1919	JC 748238K	SUB	V KESAPPANATTI	01-09-2005
1920	JC 750041M	SUB	V MUTHAIAH	01-12-2005
1921	JC 751266Y	SUB	VED PRAKASH	01-10-2005
1922	JC 752769Y	SUB	VEDMANI	01-12-2005
1923	JC 748750H	SUB	venu GOPAL C B	01-12-2005
1924	JC 753055X	SUB	VIJAY SHANKER SINGH YADAV	01-01-2006
1925	JC 749867N	SUB	VIJAYAN NAIR M	01-12-2005
1926	JC 752734H	SUB	VINOD KUMAR	01-09-2005
1927	JC 747079L	SUB	VINOD KUMAR SINGH	01-11-2005
1928	JC 749584M	SUB	VISHWAMBHAR DAYAL SHARMA	01-01-2006
1929	JC 752132P	SUB	YOGENDRA SINGH	01-01-2006
1930	JC 750720K	SUB	YOGENDRALAL SRIVASTAVA	01-10-2005
1931	JC 752585A	SUB	YUDHVIR SINGH	01-10-2005

ARMY EDUCATION CORPS

1932	JC 218709P	SUB	BABU RAM DAHIYA	01-01-2006
1933	JC 223016F	SUB	BAHADUR SINGH BHANDARI	01-11-2005

1934	JC 802221M	SUB	BHARAT CHANDRA JENA	01-11-2005
1935	JC 216998W	SUB	BHIMSEN PATHY	01-09-2005
1936	JC 802140M	SUB	BHUPINDER SINGH	01-09-2005
1937	JC 216191N	SUB	BIKRAM SINGH POKHARIYA	01-10-2005
1938	JC 223761F	SUB	DEEP SINGH	01-01-2006
1939	JC 223752A	SUB	DHANANJAYA SAHOO	01-10-2005
1940	JC 802146N	SUB	LAXMAN SINGH RAUTELA	01-12-2005
1941	JC 223017K	SUB	MOHAN CHANDRA BAWARI	01-01-2006
1942	JC 217001H	SUB	PAT RAM SEYOKAND	01-10-2005
1943	JC 216218A	SUB	RAJENDRA SINGH RATHORE	01-10-2005
1944	JC 216202P	SUB	RAJVIR SINGH GOYET	01-01-2006
1945	JC 223750P	SUB	RAM KRISHAN	01-10-2005
1946	JC 802220K	SUB	RAM KUMAR SHARMA	01-09-2005
1947	JC 223014W	SUB	RAMA KANT SHUKLA	01-11-2005
1948	JC 223754L	SUB	S K ABDUL SATTAR	01-10-2005
1949	JC 802409F	SUB	SATISH KUMAR	01-10-2005
1950	JC 218708M	SUB	SHALIG RAM KHANKRIYAL	01-12-2005
1951	JC 558701K	SUB	SHIV SHEKHAR JHA	01-12-2005
1952	JC 802282K	SUB	SHYAM SUNDAR	01-10-2005
1953	JC 802266M	SUB	SRI BHAGWAN SINGH CHOUDHARY	01-10-2005
1954	JC 802024K	SUB	SURENDRA NATH SINGH	01-10-2005
1955	JC 216188N	SUB	UMMED RAM	01-10-2005
1956	JC 206845Y	SUB	VINAY PAL SINGH	01-01-2006

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

1957	JC 797157N	RIS	ASHOK KUMAR SRIVASTAVA	01-11-2005
1958	JC 797217X	RIS	BHURE SINGH SIWAL	01-09-2005
1959	JC 797088H	RIS	VIKRAM SINGH	01-11-2005

THE INTELLIGENCE CORPS

1960	JC 217185M	SUB	CHANDAN SINGH	01-12-2005
1961	JC 198169X	SUB	DATTATRY GANGARAM KAVHALE	01-01-2006
1962	JC 810101H	SUB	GIRDHARI LAL DYOUT	01-10-2005
1963	JC 218748N	SUB	GITAM SINGH	01-01-2006
1964	JC 810404X	SUB	JAGDISH PRASAD	01-12-2005
1965	JC 810350F	SUB	LAXMI SHANKAR TIWARI	01-01-2006
1966	JC 219826M	SUB	MANOHAR LAL	01-10-2005
1967	JC 218724K	SUB	NABIN CHANDRA PRADHAN	01-11-2005
1968	JC 198168P	SUB	RASH PAL CHAND KATOCH	01-01-2006
1969	JC 197781W	SUB	SOM DATT YADAV	01-10-2005

CORPS OF MILITARY POLICE

1970	JC 818520P	SUB	BHOPAL SINGH	01-01-2006
1971	JC 818309A	SUB	CHARAN SINGH	01-10-2005
1972	JC 818527Y	SUB	DALAVI SOPAN PANDHARINATH	01-01-2006
1973	JC 818485X	SUB	DEVENDER PAL SINGH	01-09-2005
1974	JC 818304F	SUB	DEWENDAR KUMAR PANDEY	01-10-2005
1975	JC 818518X	SUB	DHARAMBIR SINGH	01-12-2005

1976	JC 818349F	SUB	DURGA SINGH	01-12-2005
1977	JC 818507L	SUB	G CHANDRA PAUL	01-11-2005
1978	JC 818413N	SUB	KARNAIL SINGH	01-11-2005
1979	JC 818327H	SUB	KITAB SINGH	01-10-2005
1980	JC 818509W	SUB	LAXMI NARAYAN	01-12-2005
1981	JC 818412L	SUB	LAXMI SHANKAR	01-10-2005
1982	JC 818535X	SUB	MADAN LAL YADAV	01-12-2005
1983	JC 818429Y	SUB	MAHABIR PRASAD	01-12-2005
1984	JC 818306M	SUB	NIRMAL CHANDRA BALA	01-10-2005
1985	JC 818068L	SUB	RAJAN PODUVAL K	01-12-2005
1986	JC 818316W	SUB	RAM BINAY THAKUR	01-10-2005
1987	JC 818555L	SUB	RAM NIWAS	01-12-2005
1988	JC 818350W	SUB	ROOPA RAM	01-01-2006
1989	JC 818414W	SUB	SADAFAL RAM	01-11-2005
1990	JC 829032M	SUB	SHANKAR PANDEY	01-10-2005
1991	JC 198856N	SUB	STEPHN ANTHONY GEORGE	01-01-2006
1992	JC 818305K	SUB	SUBHASH CHANDRA	01-11-2005
1993	JC 818330H	SUB	SUTHAR POPAT LAL MAGJI BHAI	01-01-2006
1994	JC 818303Y	SUB	TARA DATT JOSHI	01-10-2005
1995	JC 818322K	SUB	TARSEM LAL	01-01-2006
1996	JC 818348Y	SUB	VIDYA LAL PRASAD	01-10-2005

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

1997	JC 826036X	SUB	DEVENDRA SINGH	01-09-2005
1998	JC 826050K	SUB	KALYAN SINGH	01-12-2005
1999	JC 826035P	SUB	KULDEEP SINGH	01-10-2005
2000	JC 826048M	SUB	RAJ KUMAR SHARDA	01-10-2005
2001	JC 826018P	SUB	SUKHWINDER SINGH SINGHA	01-10-2005
2002	JC 826044W	SUB	TUFAN SINGH	01-10-2005

THE PIONEER CORPS

2003	JC 829170N	SUB	ASA RAM NISHAD	01-01-2006
2004	JC 829052A	SUB	BALESHWAR DYAL	01-11-2005
2005	JC 829112K	SUB	BHANWAR LAL	01-12-2005
2006	JC 829168W	SUB	CHANDRA KANT SAVITA	01-12-2005
2007	JC 829029M	SUB	DINESH PRASAD	01-10-2005
2008	JC 829084H	SUB	UMED SINGH	01-10-2005

DEFENCE SECURITY CORPS

2009	JC 840707F	SUB	BABU M K	01.11.2005
2010	JC 840907X	SUB	KARAN SINGH	01.09.2005
2011	JC 840816N	SUB	K UNNIKRISHNAN	01.12.2005
2012	JC 840640N	SUB	MAG SINGH	01.09.2005

TERRITORIAL ARMY

2013	TJ 3404	SUB	T SAMBASIV RAO	01.07.2005
2014	TJ 3632	SUB	K V RAGHUNATH	01.07.2005

TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR**ARMoured CORPS**

1	JC 239758L	NB RIS	BUTA SINGH	01-02-0200
2	JC 240102H	NB RIS	MEHAL SINGH	01-09-2005
3	JC 240089K	NB RIS	PAWAN SINGH GULERIA	01-11-2005
4	JC 239720F	NB RIS	VJENDRA SINGH	01-11-2005

REGIMENT OF ARTILLERY

5	JC 264933A	NB SUB	APPAIAHGARI AMARNADH	01-12-2005
6	JC 267190N	NB SUB	BALWAN SINGH	01-01-2006
7	JC 265464P	NB SUB	BASANAGOUDA PATIL	01-12-2005
8	JC 265625M	NB SUB	BHAGAYWAN SINGH	01-10-2005
9	JC 266201H	NB SUB	BRAHMA DEV MISHRA	01-01-2006
10	JC 265027P	NB SUB	BRAHMA SINGH BHADORIA	01-11-2005
11	JC 263745M	NB SUB	BRIJ BHUSHAN SINGH	01-12-2005
12	JC 264501L	NB SUB	CHHABI LAL CHHETRI	01-12-2005
13	JC 266356X	NB SUB	CHHABINDRA KUMAR PRADHAN	01-01-2006
14	JC 264524M	NB SUB	CHHOTE LAL YADAV	01-01-2006
15	JC 265319X	NB SUB	CN MADHUSUDANAN NAIR	01-09-2005
16	JC 265173P	NB SUB	DALIP SHAND	01-09-2005
17	JC 264195F	NB SUB	DESH RAJ	01-09-2005
18	JC 265892N	NB SUB	DEVADAS KV	01-10-2005
19	JC 264220P	NB SUB	DINA NATH RAM	01-01-2006
20	JC 266298Y	NB SUB	GIRWAR SINGH	01-10-2005
21	JC 267028W	NB SUB	HARDIP SINGH	01-01-2006
22	JC 266834W	NB SUB	INDERAJ SINGH	01-01-2006
23	JC 264917H	NB SUB	JAGDISH PRASAD	01-11-2005
24	JC 264413P	NB SUB	JAGJIT PRASAD YADAV	01-11-2005
25	JC 265010F	NB SUB	JILEDAR SINGH	01-09-2005
26	JC 265116N	NB SUB	JOSE T J	01-11-2005
27	JC 266493W	NB SUB	K AMRUTA RAO	01-12-2005
28	JC 264652K	NB SUB	KAMTA PRASAD JAISWAL	01-01-2006
29	JC 265136F	NB SUB	KAPIL DEO SINGH	01-11-2005
30	JC 266634A	NB SUB	KS KARTHIKEYAN	01-12-2005
31	JC 260479N	NB SUB	KSHTRA DHARI SINGH	01-12-2005
32	JC 263995N	NB SUB	LALA RAM	01-12-2005
33	JC 263971K	NB SUB	MAN SINGH	01-11-2005
34	JC 265794N	NB SUB	MANGAL RAM YADAV	01-01-2006
35	JC 265175A	NB SUB	NIHAL SINGH	01-09-2005
36	JC 266310P	NB SUB	O M PARKASH	01-01-2006
37	JC 266023L	NB SUB	ONKAR SINGH	01-01-2006
38	JC 266358H	NB SUB	P M MACHAIAH	01-12-2005
39	JC 263088N	NB SUB	PAGI SHANABHAI KUMABHAI	01-01-2006
40	JC 266240F	NB SUB	PARKASH CHAND	01-09-2005
41	JC 264380P	NB SUB	PAWAN KUMAR DHIMAN	01-12-2005
42	JC 265486N	NB SUB	PRITAM LAL	01-09-2005
43	JC 266858A	NB SUB	RAGHUBIR SINGH	01-12-2005
44	JC 265154K	NB SUB	RAGHUNATH YADAV	01-01-2006
45	JC 264712N	NB SUB	RAJENDARAN	01-01-2006
46	JC 265226H	NB SUB	RAJENDRA KURUP TC	01-09-2005
47	JC 266105N	NB SUB	RAM NARAIN	01-09-2005
48	JC 265994K	NB SUB	RAMA KANT	01-11-2005
49	JC 264634F	NB SUB	S MUTHIAH	01-09-2005
50	JC 266172Y	NB SUB	S NAGARAJAN	01-09-2005
51	JC 266999P	NB SUB	SANTOKH SINGH	01-01-2006
52	JC 259947W	NB SUB	SANTOSH KUMAR PANDA	01-01-2006
53	JC 265274H	NB SUB	SATPAL VERMA	01-09-2005
54	JC 264341W	NB SUB	SHAMSHER SINGH	01-01-2006

55	JC 265753K	NB SUB	SHARMAN LAL	01-09-2005
56	JC 265882K	NB SUB	SHIB PADA BISWAS	01-12-2005
57	JC 266010N	NB SUB	SHIV KUMAR	01-01-2006
58	JC 264379A	NB SUB	SHUNIL DATT SHUKLA	01-11-2005
59	JC 264637P	NB SUB	SHYAM SINGH YADAV	01-01-2006
60	JC 265733W	NB SUB	SIDHESHWAR YADAV	01-09-2005
61	JC 262574Y	NB SUB	SOPHAN SINGH	01-12-2005
62	JC 265007F	NB SUB	SURESH SINGH	01-01-2006
63	JC 264381X	NB SUB	THULASEEDHARAN PILLAI	01-09-2005
64	JC 263511H	NB SUB	TRILOCHAN BHATT	01-01-2006
65	JC 264237H	NB SUB	VARGHESE KV	01-12-2005

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

66	JC 298250Y	NB SUB	BACHCHU SINGH	01-01-2006
67	JC 298187P	NB SUB	BALBIR SINGH	01-12-2005
68	JC 298099Y	NB SUB	BALI RAM	01-12-2005
69	JC 298218K	NB SUB	BHARAT SINGH YADAV	01-01-2006
70	JC 297874Y	NB SUB	DEO NARAYAN	01-01-2006
71	JC 298310H	NB SUB	PRADIP KUMAR SINGH	01-01-2006
72	JC 298825H	NB SUB	SYOTAJ SINGH	01-01-2006

MADRAS ENGINEER GROUP

73	JC 307587L	NB SUB	A ALIHULLA BEG	01-09-2005
74	JC 307629M	NB SUB	A GANESAN	01-12-2005
75	JC 307140N	NB SUB	AKBAR ALI NADAF	01-12-2005
76	JC 307586H	NB SUB	B BHASKARA RAO	01-10-2005
77	JC 307555H	NB SUB	B MUNISAMY	01-10-2005
78	JC 307290K	NB SUB	BHASKARA GOWDA B L	01-01-2006
79	JC 307322F	NB SUB	DEVALIAH DK	01-09-2005
80	JC 307741Y	NB SUB	MC THANKAVELU	01-12-2005
81	JC 307475L	NB SUB	N RAVI	01-09-2005
82	JC 307305F	NB SUB	NARASIMHAN K	01-01-2006
83	JC 307114M	NB SUB	P THANGA RAJU	01-12-2005
84	JC 307380L	NB SUB	R RAJU	01-01-2006
85	JC 307411A	NB SUB	VARUGHESE C K	01-09-2005
86	JC 307762P	NB SUB	VILAS KAMBLE	01-12-2005

BENGAL ENGINEER GROUP

87	JC 328831N	NB SUB	HUM BAHADUR THAPA	01-10-2005
88	JC 328905X	NB SUB	KESHAR SINGH	01-12-2005
89	JC 328233W	NB SUB	PRADIP DEY	01-12-2005
90	JC 328903M	NB SUB	RAM NATH SINGH	01-10-2005
91	JC 328883K	NB SUB	SATINDER SINGH	01-01-2006
92	JC 328227H	NB SUB	SURESH MISHRA	01-01-2006

BOMBAY ENGINEER GROUP

93	JC 348734X	NB SUB	DARLABH SINGH	01-09-2005
94	JC 349440W	NB SUB	KULDIP SINGH	01-01-2006
95	JC 349740X	NB SUB	MATU SINGH	01-09-2005
96	JC 349291N	NB SUB	SHANKAR TUKARAM SAWADE	01-12-2005

CORPS OF SIGNALS

97	JC 374858K	NB SUB	AMANJIT SINGH	01-01-2006
98	JC 374860F	NB SUB	AMER JEET	01-01-2006
99	JC 374695F	NB SUB	ASHOK KUMAR	01-01-2006
100	JC 374501N	NB SUB	ASHOK KUMAR PANDEY	01-12-2005

101	JC 373976L	NB SUB	ASHOKA KUMAR PATRA	01-01-2006
102	JC 374676W	NB SUB	DEBABRATA DEB	01-01-2006
103	JC 374512A	NB SUB	DEBI PRASAD DASH	01-12-2005
104	JC 375068F	NB SUB	DEVADASAN NAIR P	01-09-2005
105	JC 374345P	NB SUB	HARPAL SINGH SUHAG	01-10-2005
106	JC 373915N	NB SUB	HIRONYA KUMAR TRIPATHY	01-10-2005
107	JC 375109A	NB SUB	JADHAV SHAHAJI TUKARAM	01-12-2005
108	JC 374942K	NB SUB	JAI PRAKASH SINGH	01-12-2005
109	JC 374854N	NB SUB	KAMLESH PRASAD SINGH	01-01-2006
110	JC 374459A	NB SUB	KANHAIYA YADAV	01-12-2005
111	JC 375255A	NB SUB	MALKIT SINGH	01-01-2006
112	JC 374980A	NB SUB	MAMAN RAM	01-11-2005
113	JC 374288Y	NB SUB	MD AMINUL HOQUE	01-01-2006
114	JC 374274Y	NB SUB	MORE SUBHASH GANAPATI	01-12-2005
115	JC 374511X	NB SUB	MURARI UPADHYAY	01-12-2005
116	JC 375163N	NB SUB	P GOBI	01-12-2005
117	JC 372546P	NB SUB	PARAM HANS PANDEY	01-10-2005
118	JC 374859M	NB SUB	PARSA ALLURIAH	01-01-2006
119	JC 372530K	NB SUB	PRAMOD SHARMA	01-12-2005
120	JC 375110P	NB SUB	PUSHKAR SINGH	01-01-2006
121	JC 375108X	NB SUB	RABINDRA NATH PARUA	01-12-2005
122	JC 374853L	NB SUB	RAJ DEV SINGH	01-01-2006
123	JC 374857F	NB SUB	RAJENDRA SINGH	01-01-2006
124	JC 374851A	NB SUB	RAM DHARI	01-10-2005
125	JC 449463M	NB SUB	RAM SARAN	01-11-2005
126	JC 374168A	NB SUB	RANENDRA PRASAD	01-01-2006
127	JC 375230N	NB SUB	ROHITASWA PRASAD MISHRA	01-10-2005
128	JC 374877P	NB SUB	SALIL KUMAR SAMANTA	01-10-2005
129	JC 374964H	NB SUB	SHAM SHER SINGH	01-10-2005
130	JC 372547X	NB SUB	SHYAM NARAYAN TIWARI	01-11-2005
131	JC 374941F	NB SUB	SRIBATSA BALABANTARAY	01-11-2005
132	JC 373436M	NB SUB	SURINDER PAL	01-12-2005
133	JC 374886W	NB SUB	TENZING RANGKHAUR	01-10-2005
134	JC 374332X	NB SUB	THOMAS JOHN	01-12-2005
135	JC 375069K	NB SUB	VINAYAK RAGHUNATH DUBAL	01-01-2006
136	JC 372693X	NB SUB	YASHWANT SINGH	01-12-2005
137	JC 374219H	NB SUB	ZILE SINGH	01-10-2005

THE BRIGADE OF GUARDS

138	JC 403328A	NB SUB	GANESH SINGH	01-12-2005
139	JC 403324K	NB SUB	MOHAN SINGH	01-12-2005
140	JC 403344X	NB SUB	RAMESH SINGH	01-12-2005
141	JC 403112Y	NB SUB	XAVIER KUJUR	01-01-2006

THE PARACHUTE REGIMENT

142	JC 412750Y	NB SUB	HOSHIAR CHAND	01-01-2006
143	JC 412649Y	NB SUB	JAI VIJAY SINGH BHADAURIA	01-09-2005
144	JC 412534L	NB SUB	PURAN CHANDRA JOSHI	01-11-2005
145	JC 412732W	NB SUB	RACHHAPAL SINGH	01-10-2005

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

146	JC 418709Y	NB SUB	AMAR NATH	01-09-2005
147	JC 419087P	NB SUB	SAHIB SINGH	01-12-2005

THE GRENADIERS

148	JC 449260H	NB SUB	BALJIT SINGH	01-11-2005
149	JC 374954Y	NB SUB	NARINDER SINGH	01-11-2005

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

150	JC 458768N	NB SUB	SHINDE TANANI VASANT	01-10-2005
-----	------------	--------	----------------------	------------

THE RAJPUTANA RIFLES

151	JC 469406M	NB SUB	BAHADUR SINGH	21-12-2005
152	JC 469568X	NB SUB	KAN SINGH	01-11-2005
153	JC 469089W	NB SUB	PARIKSIT SINGH SHEKHAWAT	01-10-2005
154	JC 469690N	NB SUB	RAM SINGH	01-01-2006

THE RAJPUT REGIMENT

155	JC 479090Y	NB SUB	SATYAVIR SINGH CHAUHAN	01-01-2006
156	JC 479106Y	NB SUB	SHIV RATTAN SINGH	01-10-2005

THE JAT REGIMENT

157	JC 489235M	NB SUB	JAGDISH PRASAD VERMA	01-11-2005
-----	------------	--------	----------------------	------------

THE DOGRA REGIMENT

158	JC 519664L	NB SUB	KULDIP SINGH SALARIA	01-12-2005
159	JC 519646H	NB SUB	PARTHI SINGH RANA	01-10-2005
160	JC 519500P	NB SUB	SURESH KUMAR	01-12-2005

THE GARHWAL RIFLES

161	JC 529085M	NB SUB	MAHENDRA SINGH	01-09-2005
-----	------------	--------	----------------	------------

THE KUMAON REGIMENT

162	JC 538889H	NB SUB	KAILASH CHANDER	01-10-2005
163	JC 538936P	NB SUB	KAWER SINGH	01-09-2005
164	JC 539266L	NB SUB	LAL SINGH BHAWARIYAL	01-09-2005

THE ASSAM REGIMENT

165	JC 548683Y	NB SUB	DILIP KUMAR SAIKIA	01-12-2005
166	JC 548692A	NB SUB	KUNJAB BABU SINGHA	01-09-2005
167	JC 548902M	NB SUB	S PAUNEIHAU VAIPHEI	01-11-2005
168	JC 548915M	NB SUB	ZAMCHINLAM SIMTE	01-01-2006

THE BIHAR REGIMENT

169	JC 558881X	NB SUB	DILIP KUMAR SINGH	01-11-2005
170	JC 559159L	NB SUB	KISTO PRASAD YADAV	01-11-2005
171	JC 559086K	NB SUB	LALAN SINGH	01-12-2005
172	JC 559187X	NB SUB	RAJDHAR SINGH	01-11-2005
173	JC 559134Y	NB SUB	RAMASHISH THAKUR	01-11-2005

THE MAHAR REGIMENT

174	JC 569464L	NB SUB	HARISH CHANDRA	01-01-2006
175	JC 568940M	NB SUB	SURESH KUMAR KAKODHRIA	01-12-2005

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

176	JC 579438X	NB SUB	DESH RAJ	01-01-2006
-----	------------	--------	----------	------------

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

177	JC 593108K	NB SUB	GHULAM HASSAN	01-12-2005
178	JC 579682X	NB SUB	RAMESH CHAND SURIAL	01-11-2005

1 GORKHA RIFLES

179	JC 602376X	NB SUB	GIRDHAR THAPA	01-09-2005
-----	------------	--------	---------------	------------

8 GORKHA RIFLES

180	JC 623457L	NB SUB	INDRAJIT THAPA	01-09-2005
181	JC 633497M	NB SUB	KAMA RAJ GHALE	01-11-2005
182	JC 623504K	NB SUB	MAN BAHADUR THAPA	01-12-2005
183	JC 623417K	NB SUB	MANI RAJ GURUNG	01-11-2005
184	JC 623485K	NB SUB	PRITHA BAHADUR MAGAR, SC	01-09-2005
185	JC 623345L	NB SUB	RAM BAHADUR BHUJEL	01-12-2005

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

186	JC 642405K	NB SUB	A RADHAKRISHNAN	01-12-2005
187	JC 662581H	NB SUB	BABAN PRASAD TIWARI	01-12-2005
188	JC 642973P	NB SUB	BUDHI BALLABH	01-01-2006
189	JC 66210IN	NB SUB	JANARDAN SINGH	01-12-2005
190	JC 641913N	NB SUB	JITENDRA NAIK	01-09-2005
191	JC 622461H	NB SUB	KARAD CHANDDRAWADAN LAXMAN	01-09-2005
192	JC 641851Y	NB SUB	KATIPALLI YEDU KONDALU	01-09-2005
193	JC 662519W	NB SUB	KHOGRE ANANT BALBHIMRAO	01-01-2006
194	JC 641926L	NB SUB	KRISHNA PAL VERMA	01-10-2005
195	JC 662670F	NB SUB	MADHU MOHANAN T	01-11-2005
196	JC 642522P	NB SUB	MANOGOBINDA DAS	01-01-2006
197	JC 662755X	NB SUB	MOHAMAD ISHLAM	01-09-2005
198	JC 642966Y	NB SUB	MOHAN SINGH PATHANIA	01-10-2005
199	JC 662103Y	NB SUB	RAGHUBIR SINGH	01-12-2005
200	JC 662938N	NB SUB	RAM AVTAR	01-11-2005
201	JC 662630A	NB SUB	RAM KRISHNA DUVEDI	01-10-2005
202	JC 642970F	NB SUB	RAMESH CHAND	01-11-2005
203	JC 662663L	NB SUB	S JAMES	01-12-2005
204	JC 642490X	NB SUB	S SEENIVASAGAM	01-10-2005
205	JC 642431L	NB SUB	S THANGARAJ	01-11-2005
206	JC 642724W	NB SUB	SANTI PADA JAS	01-01-2006
207	JC 662683Y	NB SUB	SHAMBU DAYAL TRIPATHI	01-11-2005
208	JC 642453K	NB SUB	SHINDE SHAM RAO TUKARAM	01-11-2005
209	JC 662701W	NB SUB	SHYAM SUNDER PRASAD SHAH	01-11-2005
210	JC 662099F	NB SUB	SURENDRA KUMAR SHARMA	01-12-2005
211	JC 642343P	NB SUB	VIJAYA KUMAR V S	01-12-2005

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

212	JC 680637M	NB RIS	ABDHESH KUMAR SINGH	01-01-2006
213	JC 680495A	NB RIS	ALOK KUMAR CHAKRABARTY	01-10-2005
214	JC 680644H	NB RIS	BALA KRISHNAN KITUVOT	01-10-2005
215	JC 680607P	NB RIS	BS RAYALU	01-11-2005
216	JC 680556M	NB RIS	CHINNAIAH	01-10-2005
217	JC 680472Y	NB RIS	DHAN RAM	01-09-2005
218	JC 680589X	NB RIS	GUVA VEERAAIAH	01-11-2005
219	JC 680615N	NB RIS	JAGDISH PRASAD	01-09-2005
220	JC 680586K	NB RIS	NET RAM	01-10-2005
221	JC 680610P	NB RIS	RAM SAKHA SHARMA	01-10-2005
222	JC 680604F	NB RIS	SIYA RAM YADAV	01-11-2005
223	JC 680628K	NB RIS	SRI KRISHAN MISHRA	01-11-2005
224	JC 680636K	NB RIS	UTHAIAH M K	01-12-2005

ARMY MEDICAL CORPS

225	JC 693016M	NB SUB	ASHOK KUMAR SRIVASTVA	01-10-2005
226	JC 693015K	NB SUB	DHURENDER KUMAR	01-10-2005
227	JC 693994N	NB SUB	DINESH CHANDER	01-12-2005
228	JC 694402L	NB SUB	JAGANNATH SINGH	01-09-2005
229	JC 693761M	NB SUB	K RAMAMOORTHY	01-11-2005
230	JC 693339P	NB SUB	LAL CHAND MAURYA	01-12-2005
231	JC 693020P	NB SUB	MAHA SINGH	01-01-2006
232	JC 693303W	NB SUB	MEHAR SINGH KHOKHAR	01-10-2005
233	JC 694024X	NB SUB	RAJAN PG	01-12-2005
234	JC 693993L	NB SUB	RAJENDRA KUMAR UPADHAYA	01-01-2006

235	JC 693617X	NB SUB	RAM DAS MANDAL	01-08-2005
236	JC 694325F	NB SUB	RAM NARESH VERMA	01-10-2005
237	JC 693674Y	NB SUB	RISHIKANT UPADHYAY	01-10-2005
238	JC 694373F	NB SUB	SANKERSHAN SINGH	01-10-2005
239	JC 694081Y	NB SUB	SREE KUMARAN NAIR K	01-09-2005
240	JC 693616P	NB SUB	SUBHAS CHANDRA GIRI	01-09-2005
241	JC 694045N	NB SUB	TAMILARASAN R	01-10-2005
242	JC 693301L	NB SUB	TRILOK SINGH KATHAYAT	01-10-2005
243	JC 693044Y	NB SUB	VED RAM SHAKYA	01-10-2005
ARMY ORDNANCE CORPS				
244	JC 726247L	NB SUB	ASHOK KUMAR UPADHYAY	01-12-2005
245	JC 725114H	NB SUB	HUKAM SINGH	01-01-2006
246	JC 726143K	NB SUB	KUWAR RAO	01-12-2005
247	JC 725166Y	NB SUB	NETAI MONDAL	01-09-2005
248	JC 726105N	NB SUB	PREM CHAND	01-01-2006
249	JC 726153N	NB SUB	PURAN BAHADUR CHETRI	01-10-2005
250	JC 726144M	NB SUB	RAM PHAL KACHHI	01-12-2005
251	JC 725183Y	NB SUB	SHIVAJI RAM	01-12-2005
252	JC 726134H	NB SUB	VIJAY KUMAR	01-10-2005
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS				
253	JC 757943K	NB SUB	ASHIS KUMAR KUNDU	01-10-2005
254	JC 752962L	NB SUB	BARENDRA KUMAR NAYAK	01-10-2005
255	JC 757296P	NB SUB	C CHANDRA BALAN	01-11-2005
256	JC 756171L	NB SUB	DEO NANDAN MISHRA	01-09-2005
257	JC 758295Y	NB SUB	KISHORI MOHAN DASH	01-09-2005
258	JC 758293N	NB SUB	M NABA KISHORE SINGHA	01-12-2005
259	JC 756964N	NB SUB	PREM PAUL	01-10-2005
260	JC 754814Y	NB SUB	RAJEN KUMAR PRADHAN	01-10-2005
261	JC 756213M	NB SUB	RAM PRAKASH	01-10-2005
ARMY EDUCATION CORPS				
262	JC 802983A	NB SUB	BRAJA BEHARI SINGHA	01-10-2005
REMOUNT AND VETERINARY CORPS				
263	JC 797284H	NB RIS	BEHARI LAL	01-01-2006
CORPS OF MILITARY POLICE				
264	JC 818791M	NB SUB	SATYAVIR SINGH	01-11-2005
ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS				
265	JC 826117X	NB SUB	HEM BAHADUR RANA	01-11-2005
THE PIONEER CORPS				
266	JC 829263H	NB SUB	GULZARI LAL	01-09-2005
267	JC 829235W	NB SUB	RAKESH KUMAR DWIVEDI	01-09-2005
ARMY POSTAL SERVICE				
268	JC 834371W	NB SUB	RAJASEKHARAN K	01-09-2005
DEFENCE SECURITY CORPS				
269	JC 841280P	NB SUB	KUSHAL SINGH	01.01.2006
270	JC 841663F	NB SUB	MOHINDER SINGH	01.11.2005
271	JC 841415L	NB SUB	MAHABIR SINGH	01.11.2005
272	JC 841256Y	NB SUB	RATTAN CHAND	01.09.2005
273	JC 841123H	NB SUB	SOBHA SINGH	01.09.2005
274	JC 841193F	NB SUB	SULAKHAN RAM	01.09.2005
275	JC 841090H	NB SUB	ZALE SINGH	01.01.2006

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2006

सं. 3(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2006.— राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित एन सी ओज को उनकी सेवा पूरी होने पर उनके नामों के सामने दी हुई तिथि से सेना विनियामावली 1987 के पैरा 180 के अधीन उनको अवैतनिक नायब रिसलदार/नायब सुबेदार का पद प्रदान करते हैं :-

अवैतनिक नायब रिसलदार/नायब सुबेदार के रूप में16 केवेलरी

1	1068124के.	दफादार	वी रवि चंद्रन	01.10.2005
---	------------	--------	---------------	------------

7 केवेलरी

2	1069114एम	दफादार	हरजीत सिंह	01.01.2006
3	1069444एल	दफादार	कष्णन कुमार	01.01.2006
4	1069117ए	दफादार	सतनाम सिंह	01.01.2006

8 केवेलरी

5	1063499वाइ	दफादार	मोहन सिंह	01.11.2005
---	------------	--------	-----------	------------

17 होर्स

6	1067843डब्ल्यू	दफादार	हरबंस सिंह	01.09.2005
7	1067758एन	दफादार	सतबीर सिंह	01.09.2005
8	1067807एल	दफादार	तीर्थ राज सिंह	01.09.2005

14 होर्स

9	1063842डब्ल्यू	हवलदार	मदन लाल	01.01.2006
---	----------------	--------	---------	------------

केन्द्रीय भारत अश्व

10	1068472एल	दफादार	हरी सिंह	01.10.2005
11	1063286एल	दफादार	विजय प्रकाश वर्मा	01.10.2005

63 केवेलरी

12	1068265वाइ	दफादार	प्रेम वीर सिंह	01.10.2005
----	------------	--------	----------------	------------

45 केवेलरी

13	1068315वाइ	हवलदार	अरुण कुमार यादव	01.10.2005
14	1068317के.	हवलदार	विलसन बर्लजा	01.10.2005

68 आर्मड रेजीमेंट

15	1069008एन	दफादार	रनबीर सिंह	01.01.2006
----	-----------	--------	------------	------------

69 आर्मड रेजीमेंट

16	1069331एच	दफादार	अवधेश राम	01.01.2006
----	-----------	--------	-----------	------------

70 आर्मड रेजीमेंट

17	1069378एन	दफादार	राम किशोर	01.01.2006
----	-----------	--------	-----------	------------

71 आर्मड रेजीमेंट

18	1068697एन	दफादार	अनन्त एच	01.10.2005
----	-----------	--------	----------	------------

81 आर्मड रेजीमेंट

19	1068800एन	दफादार	एन टी रेडी	01.01.2006
20	1067773एच	दफादार	ओ नीलू सिंघा	01.09.2005
21	1068917एम	दफादार	पोतदार अविनाश दामोदर	01.01.2006
22	1069140एन	दफादार	राम ब्रिक्षा केवट	01.01.2006
23	1068989डब्ल्यू	दफादार	रमा शीश सिंह	01.01.2006
24	1069138डब्ल्यू	दफादार	रमाकांत सिंह	01.01.2006
25	1068749वाइ	दफादार	एस राय	01.10.2005
26	1068995के.	दफादार	शिवजी शाह	01.01.2006
27	1068983पी	दफादार	टी याद कांतिभाई माधा	01.01.2006

83 आर्मड रेजीमेंट

28	1068240एम	दफादार	भूषण प्रसाद सिंह	01.10.2005
29	1068959वाइ	दफादार	बिश्वनाथ राय	01.01.2006
30	1069436एम	दफादार	मनिन्द्र सिंह	01.01.2006
31	1068276एल	दफादार	नरेश पाल सिंह	01.10.2005
32	1068257ए	दफादार	आर मोहन	01.10.2005

84 आर्मड रेजीमेंट

33	1068911एल	दफादार	किरन कुमार अनुग्रह	01.01.2006
----	-----------	--------	--------------------	------------

85 आर्मड रेजीमेंट

34	1068482पी	दफादार	आरएस प्रसाद यादव	01.10.2005
----	-----------	--------	------------------	------------

86 आर्मड रेजीमेंट

35	1067842एन	दफादार	छवि राम सिंह	01.09.2005
36	1069417एफ	दफादार	किशोरी लाल	01.01.2006
37	1069382डब्ल्यू	दफादार	प्रमोद कुमार	01.01.2006
38	1068246एन	दफादार	विजय कुमार	01.10.2005

88 आर्मड रेजीमेंट

39	1067778एफ	दफादार	राम नंदन महतो	01.09.2005
40	1069259एक्स	दफादार	तरुण कुमार नाथ	01.01.2006

41 आर्मड रेजीमेंट

41	1068502एक्स	दफादार	कमलेश कुमार शर्मा	01.10.2005
42	1068362डब्ल्यू	दफादार	परमानंद	01.10.2005
43	1068603एल	दफादार	राजा राम	01.10.2005
44	1068093पी	दफादार	राम राज	01.10.2005
45	1067851पी	दफादार	शेफ ताजुद्दीन बाबा	01.09.2005
46	1067993एम	दफादार	शिव प्रसाद सिंह	01.09.2005

42 आर्मड रेजीमेंट

47	1069182ए	दफादार	कामेश्वर सिंह	01.01.2006
----	----------	--------	---------------	------------

43 आर्मड रेजीमेंट

48	1068506एन	दफादार	आइ टोपनो	01.10.2005
49	1068606वाइ	दफादार	राम कृष्णापाल	01.10.2005
50	1069238एफ	दफादार	राम कुमार साह	01.01.2006

44 आर्मड रेजीमेंट

51	1068152डब्ल्यू	दफादार	बी प्रसाद सिंह	01.10.2005
52	1068311एच	दफादार	हरीश चांद प्रसाद	01.10.2005
53	1067825एन	दफादार	करुणाकर मोहंती	01.09.2005
54	1068106एफ	दफादार	ममता च. कलिता	01 10 2005

46 आर्मड रेजीमेंट

55	1069338एम	दफादार	पूरन सिंह सोनी	01.01.2006
56	1067855एल	दफादार	शिव चांद राम	01.09.2005

47 आर्मड रेजीमेंट

57	1068403पी	दफादार	द्वारिका मुंडा	01.10.2005
----	-----------	--------	----------------	------------

48 आर्मड रेजीमेंट

58	1067876एफ	दफादार	देव नारायण झा	01.09.2005
----	-----------	--------	---------------	------------

49 आर्मड रेजीमेंट

59	1068305पी	दफादार	जय प्रकाश	01.10.2005
60	1063361के.	दफादार	एस सिंह	01.10.2005
61	1067785एक्स	दफादार	शिव प्रताप सिंह	01.09.2005

5 आर्मड रेजीमेंट

62	1068109पी	दफादार	राम नेवल	01.10.2005
----	-----------	--------	----------	------------

6 आर्मड रेजीमेंट

63	1069127के.	दफादार	जी. बी	01.01.2006
----	------------	--------	--------	------------

11 आर्मड रेजीमेंट

64	1068237एम	दफादार	बलराम सिंह	01.10.2005
----	-----------	--------	------------	------------

आर्मड कोर

65	1063908एफ	दफादार	अंचल सिंह	01.01.2006
66	1068755एम	दफादार	बाबू जान	01.09.2005
67	1069386एम	हवलदार	बाबू नादर के.	01.01.2006
68	1068571एन	दफादार	भीकम सिंह	01.10.2005
69	1068552एच	दफादार	दिनेश सिंह	01.10.2005
70	1069104एच	दफादार	ईके. राज कंडल	01.01.2006
71	1068562एम	दफादार	जी. बिस्वाल	01.10.2005
72	1068619डब्ल्यू	दफादार	जामनी लाल घोबी	01.10.2005
73	1068946एफ	दफादार	जीत राज	01.01.2006
74	1063840एल	दफादार	केशव चंद्रा स्वेन	01.01.2006
75	1063508पी	दफादार	कण्णन कुमार	01.11.2005
76	1069387पी	दफादार	लाल मान	01.01.2006
77	1063872एन	दफादार	मोहम्मद गफार अंसारी	01.01.2006
78	1063326एफ	दफादार	मोहम्मद सुमान	01.10.2005
79	1069317डब्ल्यू	दफादार	मुसाफिर गुप्ता	01.01.2006
80	1068456एन	दफादार	पी डी. दलवइ	01.10.2005
81	1068454एच	दफादार	परिमल मलिक	01.09.2005
82	1067982ए	दफादार	परमानंद सिंह	01.09.2005
83	1068170वाइ	हवलदार	राधे श्याम	01.10.2005
84	1068134एन	दफादार	राजेंद्र	01.10.2005
85	1063383एच	दफादार	राजेंद्र राम	01.10.2005
86	1069281एच	दफादार	राम भजन	01.01.2006
87	1068050ए	दफादार	सादिक अंसारी	01.10.2005
88	1068633एच	दफादार	श्रवण लाल नाई	01.10.2005
89	1068154एफ	दफादार	सुरेंद्र कुमार	01.10.2005
90	1068569डब्ल्यू	दफादार	सुरेश	01.10.2005
91	1068915एफ	दफादार	वी	01.01.2006

आर्टिलरी रेजीमेंट

92	14361634एफ	हवलदार	अजानी	01.01.2006
----	------------	--------	-------	------------

93	14370391एच	हवलदार	अजमेर सिंह	01.11.2005
94	14359787एम	हवलदार	अजमेर सिंह	01.10.2005
95	14462357एच	हवलदार	ए हुसैन सरवर	01.12.2005
96	14475730डब्ल्यू	हवलदार	अलखे माझी	01.01.2006
97	14360726एफ	हवलदार	अनोख सिंह	01.01.2006
98	14362086एफ	हवलदार	अनूप सिंह	01.01.2006
99	14475965एच	हवलदार	अशोक कुमार	01.01.2006
100	14475009ए	हवलदार	अशोक कुमार	01.10.2005
101	14361793वाइ	हवलदार	अशोक कुमार राजन्ना	01.01.2006
102	14476541वाइ	हवलदार	अतर सिंह यादव	01.01.2006
103	14359792एक्स	हवलदार	ए राम	01.10.2005
104	14462709पी	हवलदार	अवधेश प्रताप तिवारी	01.01.2006
105	14476654एफ	हवलदार	बाबू जेआइ राव	01.01.2006
106	14474866एन	हवलदार	बाबुल कुमार सिंघा	01.09.2005
107	14475183एम	हवलदार	बजरंग सिंह	01.10.2005
108	14359599एल	हवलदार	बाल राम	01.10.2005
109	14476182डब्ल्यू	हवलदार	बलबीर सिंह	01.01.2006
110	14476407एन	हवलदार	बलबीर सिंह	01.01.2006
111	14475767एक्स	हवलदार	बलदेव सिंह	01.01.2006
112	14462587डब्ल्यू	हवलदार	बलदेव सिंह	01.12.2005
113	14475597वाइ	हवलदार	बलेश्वर प्रसाद	01.10.2005
114	14462498एक्स	हवलदार	बलजीत सिंह	01.12.2005
115	14342204एच	हवलदार	बी गिरि	01.12.2005
116	14476563एक्स	हवलदार	बाम देव ओझा	01.01.2006
117	14475598एफ	हवलदार	बरुण कुमार झा	01.10.2005
118	14462354पी	हवलदार	बासुदेव शर्मा	01.12.2005
119	14360284एन	हवलदार	बेन्चे लाल शर्मा	01.10.2005
120	14359967पी	हवलदार	भज राम सिया	01.10.2005
121	14361471वाइ	हवलदार	भान सिंह	01.01.2006
122	14475321एच	हवलदार	भंवर नाथ	01.10.2005
123	14361637पी	हवलदार	भरत सिंह	01.01.2006
124	14475356वाइ	हवलदार	विभूति सिंह	01.10.2005
125	14360836डब्ल्यू	हवलदार	बिशम्बर नाथ के.	01.01.2006
126	14475580एल	हवलदार	बोरे संजीव जी.	01.10.2005
127	14476789एच	हवलदार	ब्रम सिंह	01.01.2006
128	14476509के.	हवलदार	ब्रम प्रकाश	01.01.2006
129	14475975एम	हवलदार	चंद्र भूसेन दुबे	01.01.2006
130	14340405एच	हवलदार	चंदेश्वर कुमार एस	01.09.2005
131	14476570एन	हवलदार	चंद्रन किदवे एम मेथल	01.01.2006
132	14476111पी	हवलदार	चितरन्जन घोष	01.01.2006
133	14474851एल	हवलदार	चितरन्जन सिल	01.09.2005
134	14474823वाइ	हवलदार	दामोदर कलिता	01.09.2005
135	14359446एफ	हवलदार	दीप चांद खेरवाल	01.10.2005
136	14475624एक्स	हवलदार	देव चंद्रा चेतरी	01.10.2005
137	14359284एफ	हवलदार	देस राज	01.10.2005
138	14361293एफ	हवलदार	देशराज राना	01.01.2006
139	14474513एन	हवलदार	देवादसन एम	01.09.2005
140	14475126एल	हवलदार	देवेन्द्र चौधरी	01.10.2005
141	14474586ए	हवलदार	देवेन्द्र कुमार	01.09.2005
142	41463061ए	हवलदार	देविन्द्र पाल	01.01.2006
143	14340784के.	हवलदार	धर्म देव सिंह	01.10.2005
144	14358698एफ	हवलदार	धर्मवीर	01.09.2005
145	14902165के.	हवलदार	धर्मेश्वर बसुमा	01.09.2005

146	14361627एल	हवलदार	दिनेश चंद्रा	01.01.2006
147	14343554एफ	हवलदार	दिनेश प्रसाद सिंह	01.01.2006
148	14474584पी	हवलदार	डी. कृष्णा	01.09.2005
149	14362089पी	हवलदार	फखिरुल्ला के.	01.01.2006
150	14475377पी	हवलदार	जी. विश्वनाथ	01.10.2005
151	14476813एन	हवलदार	गजेन्द्र पाल सिंह	01.01.2006
152	14462769के.	हवलदार	गणेशन रमा राव	01.01.2006
153	14474648पी	हवलदार	गंगू राम	01.09.2005
154	14360781एक्स	हवलदार	जी. शिवाजी	01.01.2006
155	14476762एल	हवलदार	गोपीनाथ सिंह	01.01.2006
156	14361825डब्ल्यू	हवलदार	गोरे लाल	01.01.2006
157	14342072ए	हवलदार	जी. पांडे	01.12.2005
158	14475988के.	हवलदार	गोरी लाल शर्मा	01.01.2006
159	14476347के.	हवलदार	गुरदेव सिंह	01.01.2006
160	14476487डब्ल्यू	हवलदार	गुरमीत सिंह	01.01.2006
161	14360759एम	हवलदार	जी. आनंदा राव	01.01.2006
162	14361994एक्स	हवलदार	हनुमान सिंह यादव	01.01.2006
163	14359928डब्ल्यू	हवलदार	हरभजन सिंह	01.10.2005
164	14475626एच	हवलदार	हरे राम सिंह	01.10.2005
165	14476416पी	हवलदार	हरी नारायण मिश्रा	01.01.2006
166	14463440एम	हवलदार	हरी राम	01.09.2005
167	14474829ए	हवलदार	एच दयाल	01.09.2005
168	14476658एक्स	हवलदार	हीर चांद	01.01.2006
169	14359854एम	हवलदार	हेम राज	01.10.2005
170	14359571एल	हवलदार	हेम राज	01.10.2005
171	14360416डब्ल्यू	हवलदार	इन्द्रा मोहन मिश्रा	01.01.2006
172	14358908डब्ल्यू	हवलदार	जगदीप सिंह	01.09.2005
173	14340872ए	हवलदार	जगदीश के. खिजाककेथिलयाथी वेतिल	01.10.2005
174	14359626के.	हवलदार	जय करन सिंह	01.10.2005
175	14353531एन	हवलदार	जयपाल	01.10.2005
176	14360865एल	हवलदार	जंग बहादुर सिंह	01.01.2006
177	14474477एन	हवलदार	जरनैल सिंह	01.09.2005
178	14359991एल	हवलदार	जसविन्द्र सिंह	01.10.2005
179	14476682एन	हवलदार	जसवीर सिंह	01.01.2006
180	14361792डब्ल्यू	हवलदार	जितेन्द्रा कुमार	01.01.2006
181	14360905एफ	हवलदार	जितेन्द्रा प्रताप सिंह	01.01.2006
182	14476155एम	हवलदार	जॉन के. आर	01.01.2006
183	14476720वाइ	हवलदार	जे सिंह	01.01.2006
184	14476240पी	हवलदार	के. एन	01.01.2006
185	14358826एन	हवलदार	के. सेकार	01.09.2005
186	14359216एन	हवलदार	काली चरण	01.10.2005
187	14476110एम	हवलदार	कमल कुमार	01.01.2006
188	14462966एम	हवलदार	के. बोराह	01.01.2006
189	14474590एच	हवलदार	कनक चंद्रा राय	01.09.2005
190	14361281एम	हवलदार	केसर सिंह	01.01.2006
191	14360095के.	हवलदार	केवल कण्ठन	01.10.2005
192	14359323पी	हवलदार	कृष्णा सिंह	01.10.2005
193	14360213एम	हवलदार	कुलबीर सिंह	01.10.2005
194	14341230एक्स	हवलदार	कुंज बिहारी पाठक	01.11.2005
195	14475834एक्स	हवलदार	कुशा लाल सिंघा	01.01.2006
196	14461995पी	हवलदार	लाल बाबू सिंह	01.11.2005
197	14359575एफ	हवलदार	लाल चांद	01.10.2005
198	14474694के.	हवलदार	एल राय	01.09.2005
199	14476114एच	हवलदार	लक्ष्मी नारायण	01.01.2006
200	14360723एन	हवलदार	एम ए	01.01.2006

201	14462104एन	हवलदार	एम इयाप्पन	01.12.2005
202	14359044के.	हवलदार	एम सुंदरराजन राजन	01.09.2005
203	14474984एफ	हवलदार	माम चांद	01.10.2005
204	14358864के.	हवलदार	मनजीत सिंह	01.09.2005
205	14343737एक्स	हवलदार	माया राम	01.01.2006
206	14466633एक्स	हवलदार	मेबा सिंह	01.11.2005
207	14358993के.	हवलदार	मेहर सिंह	01.09.2005
208	14360840वाइ	हवलदार	मेंगने अशोक पांडुरंग	01.01.2006
209	14341875ए	हवलदार	एम सी टी	01.12.2005
210	14475048वाइ	हवलदार	नायब सिंह	01.10.2005
211	14476708एक्स	हवलदार	नरिंदर कुमार शर्मा	01.01.2006
212	14341180एक्स	हवलदार	नवल किशोर शुक्ला	01.11.2005
213	14359951के.	हवलदार	ओम पाल	01.10.2005
214	14462684एन	हवलदार	ओम प्रकाश	01.01.2006
215	14359656एफ	हवलदार	ओम प्रकाश	01.10.2005
216	14359201एल	हवलदार	ओमकार सिंह	01.10.2005
217	14461864के.	हवलदार	पी महालिंगम	01.11.2005
218	14474749एच	हवलदार	पी रविन्द्रन	01.09.2005
219	14359630एम	हवलदार	पन्ना राम	01.10.2005
220	14475170पी	हवलदार	पापा सिंह	01.10.2005
221	14360861पी	हवलदार	पाटिल तानाजी दत्तात्रिया	01.01.2006
222	14476163एल	हवलदार	पौलोस सी पी	01.01.2006
223	14341149एल	हवलदार	पी सिंह	01.11.2005
224	14342906एफ	हवलदार	पूरन चांद	01.01.2006
225	14359974एल	हवलदार	प्रह्लादा महाराणा	01.10.2005
226	14361172ए	हवलदार	प्रमोद चंद्रा दास	01.01.2006
227	14475060ए	हवलदार	पी महतो	01.10.2005
228	14361572एम	हवलदार	प्रताप सिंह	01.01.2006
229	14474707डब्ल्यू	हवलदार	प्रताप सिंह शेखावत	01.09.2005
230	14361477ए	हवलदार	प्रेम सिंह	01.01.2006
231	14341086एन	हवलदार	प्रीतपाल सिंह	01.11.2005
232	14360773वाइ	हवलदार	आर पनीर सेलवम	01.01.2006
233	14475833पी	हवलदार	राधा किसुन राम	01.01.2006
234	14361446ए	हवलदार	राधाकृष्ण एके.	01.01.2006
235	14462085एन	हवलदार	राधे श्याम	01.11.2005
236	14475386डब्ल्यू	हवलदार	राधे श्याम मोन्डल	01.10.2005
237	14463019एक्स	हवलदार	रघुबीर सिंह	01.01.2006
238	14360401एन	हवलदार	राज कुमार	01.01.2006
239	14475477ए	हवलदार	राज कुमार	01.10.2005
240	14360903डब्ल्यू	हवलदार	राज कुमार सिंह टी	01.01.2006
241	14475451एल	हवलदार	राज मल	01.10.2005
242	14359359एन	हवलदार	राजबीर सिंह	01.10.2005
243	14474966वाइ	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	01.10.2005
244	14476118वाइ	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	01.01.2006
245	14462318के.	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद सेठ	01.12.2005
246	14361271एच	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.01.2006
247	14476391एन	हवलदार	राजेश कुमार मिश्रा	01.01.2006
248	14340735एफ	हवलदार	राजू ठाकुर	01.10.2005
249	14360197ए	हवलदार	राम अवतार यादव	01.10.2005
250	14902145डब्ल्यू	हवलदार	राम बहादुर थापा	01.09.2005
251	14476751वाइ	हवलदार	राम चंद्रा	01.01.2006
252	14475627एल	हवलदार	राम चंद्रा मेहता	01.10.2005
253	14361642ए	हवलदार	राम कृष्णापाल सिंह	01.01.2006
254	14360037ए	हवलदार	राम लखन	01.10.2005
255	14360853डब्ल्यू	हवलदार	राम नाथ	01.01.2006

256	14474968के.	हवलदार	राम निवास	01.10.2005
257	14475049एफ	हवलदार	राम निवास	01.10.2005
258	14474700एम	हवलदार	राम पोल	01.09.2005
259	14358782एफ	हवलदार	राम प्रकाश	01.09.2005
260	14359300एन	हवलदार	राम प्रवेश चौबे	01.10.2005
261	14476657पी	हवलदार	राम सेवक	01.01.2006
262	14360881एच	हवलदार	राम सिंह	01.01.2006
263	14476284एम	हवलदार	रमा शंकर सिंह यादव	01.01.2006
264	14359536एच	हवलदार	रामेश्वर दयाल	01.10.2005
265	14476179डब्ल्यू	हवलदार	रमणीक कुमार	01.01.2006
266	14358822एक्स	हवलदार	आर भोला	01.09.2005
267	14354709एल	हवलदार	रणधीर सिंह	01.12.2005
268	14474910एम	हवलदार	रंजीत सिंह	01.10.2005
269	14359856एक्स	हवलदार	रंजीत सिंह	01.10.2005
270	14475224एल	हवलदार	रत्ना राम	01.10.2005
271	14343385एल	हवलदार	रेहिताशवा लाल शर्मा	01.01.2006
272	14359177ए	हवलदार	रोशन लाल	01.10.2005
273	14462224एम	हवलदार	रोशन लाल	01.12.2005
274	14476122एफ	हवलदार	रोशन लाल	01.01.2006
275	14362028एक्स	हवलदार	रुदरप्पा मलप्पा बी	01.01.2006
276	14360868वाइ	हवलदार	एस ए	01.01.2006
277	14475749पी	हवलदार	एस एम	01.01.2006
278	14361537के.	हवलदार	एस राधा कृष्णन	01.01.2006
279	14342014डब्ल्यू	हवलदार	सदीयल भिमाया रेडी	01.12.2005
280	14359550पी	हवलदार	संतोख सिंह	01.10.2005
281	14474998एफ	हवलदार	संतोष कुमार	01.10.2005
282	14462643के.	हवलदार	सरतार कुमार साहू	01.01.2006
283	14476251एफ	हवलदार	सर्वजीत यादव	01.01.2006
284	14361118एम	हवलदार	सत पाल	01.01.2006
285	14475012ए	हवलदार	सतबीर सिंह	01.10.2005
286	14474762एम	हवलदार	सत्यवान	01.09.2005
287	14476534एच	हवलदार	सत्यवीर सिंह	01.01.2006
288	14340811एच	हवलदार	शंकर रजाक	01.10.2005
289	14361640पी	हवलदार	एस कोटगी	01.01.2006
290	14359559के.	हवलदार	एस सिंह	01.10.2005
291	14359057एफ	हवलदार	शीतला सिंह यादव	01.09.2005
292	14358835पी	हवलदार	शिवाजी पाटिल	01.09.2005
293	14476409वाइ	हवलदार	श्री राम यादव	01.01.2006
294	14361140एक्स	हवलदार	एस बेन सिंह	01.01.2006
295	14476367एक्स	हवलदार	सोहन सिंह	01.01.2006
296	14358818पी	हवलदार	सुभास चंद्र पुण्यानी	01.09.2005
297	14475410एफ	हवलदार	सुभाष चांद	01.10.2005
298	14361197एम	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.01.2006
299	14361402एच	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.01.2006
300	14359353एम	हवलदार	सुशील चंद्रा रौय	01.10.2005
301	14361234पी	हवलदार	टी गोविन्द सामी	01.01.2006
302	14476659ए	हवलदार	टी पोल राज	01.01.2006
303	14474696पी	हवलदार	टी वेंकट रत्नम	01.09.2005
304	14361183एम	हवलदार	टी कुमार	01.01.2006
305	14361237एच	हवलदार	टी धर	01.01.2006
306	14462972ए	हवलदार	तारा दत्त	01.01.2006
307	14475811डब्ल्यू	हवलदार	तेज सिंह	01.01.2006
308	14475516एन	हवलदार	टी शेरपा	01.10.2005
309	14476589एम	हवलदार	तीरथ	01.01.2006

310	14359032पी	हवलदार	यू यू	01.09.2005
311	14474631एफ	हवलदार	वी सुब्बू राम	01.09.2005
312	14475832एम	हवलदार	वीरेंद्र कुमार साहू	01.01.2006
313	14361992एम	हवलदार	विरूपाक्षप्पा एन	01.01.2006
314	14476681एल	हवलदार	विशम्बर दयाल	01.01.2006
315	14360824एफ	हवलदार	विवेका नन्द राय	01.01.2006
316	14360230एम	हवलदार	याम बहादुर थापा	01.10.2005
317	14361053के.	हवलदार	यश पोल	01.01.2006
318	14475443एम	हवलदार	यशवंत सिंह	01.10.2005
319	14461906एल	हवलदार	योगेश्वर नाथ शर्मा	01.11.2005
वायु सुरक्षा आर्टिलरी कोर				
320	14361217पी	हवलदार	अखिलेश राम	01.01.2006
321	14342286डब्ल्यू	हवलदार	अमर नाथ द्विवेदी	01.12.2005
322	14359598एच	हवलदार	अमर सिंह	01.10.2005
323	14359124एफ	हवलदार	अरुण कुमार	01.10.2005
324	14358978पी	हवलदार	अरुण कुमार शुक्ला	01.09.2005
325	14360992ए	हवलदार	अवतार सिंह	01.01.2006
326	14361244वाइ	हवलदार	अवधेश कुमार	01.01.2006
327	14360397डब्ल्यू	हवलदार	बचित्तर सिंह	01.01.2006
328	14359389एल	हवलदार	बलबीर सिंह	01.10.2005
329	14360424पी	हवलदार	बलबीर सिंह यादव	01.01.2006
330	14359794एच	हवलदार	बलवान सिंह	01.10.2005
331	14360554एक्स	हवलदार	बलवंत सिंह	01.01.2006
332	14361255एल	हवलदार	बी शेख	01.01.2006
333	14358854ए	हवलदार	भंवर लाल	01.09.2005
334	14462807पी	हवलदार	भरत ओझा	01.01.2006
335	14359480एफ	हवलदार	भूप सिंह	01.10.2005
336	14359000एम	हवलदार	बी मुलाजिम केशवन रेडी	01.09.2005
337	14358891एन	हवलदार	चरण दास	01.09.2005
338	14341859एच	हवलदार	डी. रामुलु	01.12.2005
339	14342414एच	हवलदार	दिनेश राय	01.12.2005
340	14361015एन	हवलदार	देव बहादुर थापा	01.01.2006
341	14475887डब्ल्यू	हवलदार	देवी प्रसाद	01.01.2006
342	14341987ए	हवलदार	धरेन्द्र राय	01.12.2005
343	14359668डब्ल्यू	हवलदार	दिल प्रकाश	01.10.2005
344	14359080पी	हवलदार	दुर्योधन साहू	01.10.2005
345	14360777पी	हवलदार	जी. श्रीधरन	01.01.2006
346	14358705एम	हवलदार	जी. चांद	01.09.2005
347	14360459एल	हवलदार	गुरु चरण बी	01.01.2006
348	14361211एन	हवलदार	हर सिंह मेहरा	01.01.2006
349	14360208एफ	हवलदार	हरी राम पाल	01.10.2005
350	14361149एम	हवलदार	हरिजन किसान पी	01.01.2006
351	14340835एम	हवलदार	हरीश चंद्र बैठा	01.10.2005
352	14361228एफ	हवलदार	हयात सिंह बिष्ट	01.01.2006
353	14360440एम	हवलदार	हुकम चांद	01.01.2006
354	14358602एन	हवलदार	जसवंत सिंह	01.09.2005
355	14342936वाइ	हवलदार	कपिल आइ	01.01.2006
356	14359266वाइ	हवलदार	कंदार प्रसाद	01.10.2005
357	14359311ए	हवलदार	कष्णन पाल शर्मा	01.10.2005
358	14358585वाइ	हवलदार	कष्णन पाल सिंह	01.09.2005
359	14360550एफ	हवलदार	कृष्णा मूर्ती वी	01.01.2006
360	14358926वाइ	हवलदार	ललन शर्मा	01.09.2005
361	14341087डब्ल्यू	हवलदार	लेख राम पटियाल	01.11.2005

362	14359171वाइ	हवलदार	लोखाण्डे ए रंगनाथ	01.10.2005
363	14360925पी	हवलदार	महीपाल सिंह	01.01.2006
364	14361200एफ	हवलदार	मान भरन सिंह यादव	01.01.2006
365	14359163ए	हवलदार	एम	01.10.2005
366	14360890के	हवलदार	मनजीत सिंह	01.01.2006
367	14475807एन	हवलदार	मानसी तुलसी राव	01.01.2006
368	14342510एक्स	हवलदार	मोहम्मद ए मोन्डल	01.01.2006
369	14359956एच	हवलदार	नानक सिंह	01.10.2005
370	14361247एम	हवलदार	नारायण सिंह	01.01.2006
371	14475616वाइ	हवलदार	नित्या नंदा साहू	01.10.2005
372	14362064एच	हवलदार	ओम प्रकाश सिंह यादव	01.01.2006
373	14358740पी	हवलदार	पी आर जी.	01.09.2005
374	14360552एम	हवलदार	पलानी एस	01.01.2006
375	14361600एन	हवलदार	पी	01.01.2006
376	14359871एम	हवलदार	प्रकाश चांद गुप्ता	01.10.2005
377	14359328एन	हवलदार	पी कुमार मंडल	01.10.2005
378	14359756एम	हवलदार	पूरन सिंह	01.10.2005
379	14360228पी	हवलदार	आर श्याम शर्मा	01.10.2005
380	14361518वाइ	हवलदार	राज विश्वास	01.01.2006
381	14359132ए	हवलदार	राजेंद्र कुमार पांडे	01.10.2005
382	14359195एच	हवलदार	राजेश कुमार सिंह यादव	01.10.2005
383	14358742ए	हवलदार	राजेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.09.2005
384	14343089ए	हवलदार	राम कैलाश एस	01.01.2006
385	14360951डब्ल्यू	हवलदार	राम कृष्णन	01.01.2006
386	14361658एल	हवलदार	राम लखन सिंह बघेल	01.01.2006
387	14359301डब्ल्यू	हवलदार	राम सुभाष यादव	01.10.2005
388	14361756एल	हवलदार	रमेश कुमार	01.01.2006
389	14360939पी	हवलदार	रामजीत ओरान	01.01.2006
390	14360254डब्ल्यू	हवलदार	रमणीक डेका	01.10.2005
391	14359150एच	हवलदार	रत्तन लाल यादव	01.10.2005
392	14359263एल	हवलदार	रत्तन सिंह	01.10.2005
393	14359700ए	हवलदार	रवीन्द्र कुमार	01.10.2005
394	14358961एफ	हवलदार	रेशम सिंह	01.09.2005
395	14359472एच	हवलदार	एस ए	01.10.2005
396	14360097पी	हवलदार	सरदार सिंह	01.10.2005
397	14359609के	हवलदार	श्रवण सिंह	01.10.2005
398	14359287पी	हवलदार	सतीश चंद्रा सिंह	01.10.2005
399	14342338एफ	हवलदार	सत्रार अली	01.12.2005
400	14359587डब्ल्यू	हवलदार	शमशेर सिंह	01.10.2005
401	14358795वाइ	हवलदार	शंकर प्रसाद	01.09.2005
402	14360086एच	हवलदार	शशि पाल	01.10.2005
403	14362128एच	हवलदार	शिव नायक सिंह	01.01.2006
404	14358577ए	हवलदार	शिव राज सिंह	01.09.2005
405	14341623एन	हवलदार	शिवनाथ राम	01.12.2005
406	14342103पी	हवलदार	श्रीपाल सिंह	01.12.2005
407	14359100एक्स	हवलदार	श्याम प्रीत यादव	01.10.2005
408	14359056वाइ	हवलदार	सिद्धनाथ सिंह यादव	01.09.2005
409	14341492एन	हवलदार	सुबाष चांद	01.11.2005
410	14361108एच	हवलदार	सुखेंद्र कुमार दत्ता	01.01.2006

411	14358955एन	हवलदार	सुखराम पाल	01.09.2005
412	14361013एच	हवलदार	सुरेन चंद्रा सेकिआ	01.01.2006
413	14358314एन	हवलदार	सुरेंद्र प्रसाद	01.10.2005
414	14474640एच	हवलदार	सुर्व एन तुकाराम	01.09.2005
415	14351376वाइ	हवलदार	एस शर्मा	01.10.2005
416	14361359एम	हवलदार	तेजवीर शर्मा	01.01.2006
417	14475033डब्ल्यू	हवलदार	उमेश कुमार	01.10.2005
418	14340459के.	हवलदार	उपेंद्र प्रसाद राय	01.09.2005
419	14359324एक्स	हवलदार	वेद राम	01.10.2005
420	14361137एक्स	हवलदार	विजय सिंह	01.01.2006
421	14361203पी	हवलदार	विजय पवन	01.01.2006

महाराष्ट्र इंजीनियर समूह

422	1374737वाइ	हवलदार	ए एस	01.10.2005
423	1369755एक्स	हवलदार	ए वी	01.11.2005
424	1374764एच	हवलदार	अनन्त	01.12.2005
425	1369557एम	हवलदार	बी गोपाल	01.09.2005
426	1370269एम	हवलदार	बी वैकट्या	01.01.2006
427	1370110एफ	हवलदार	चंद्रन एम के.	01.12.2005
428	1369861डब्ल्यू	हवलदार	जी. रामकृष्ण	01.12.2005
429	1370358एल	हवलदार	गोपी एम	01.01.2006
430	1373741पी	हवलदार	जयचन्द्रन पी	01.09.2005
431	1374694पी	हवलदार	के. बासकरन	01.09.2005
432	1369562एक्स	हवलदार	के. सिल्वाराज	01.09.2005
433	1370260एक्स	हवलदार	एम देवदास	01.01.2006
434	1369601एल	हवलदार	एम कृष्णा स्वामी	01.09.2005
435	1369753एम	हवलदार	नागाराजन एम	01.11.2005
436	1370337पी	हवलदार	पी	01.01.2006
437	1369631एच	हवलदार	राजन एम	01.09.2005
438	1372107ए	हवलदार	रामचन्द्रन नायर एस	01.09.2005
439	1369713एल	हवलदार	रामामूर्ति जी.	01.10.2005
440	1370268के.	हवलदार	एस एथोनी	01.01.2006
441	1370253एफ	हवलदार	एस सुब्रियह	01.01.2006
442	1370362एन	हवलदार	सजीवन एम ए	01.01.2006
443	1370352के.	हवलदार	शाजी वी चेरिअन	01.01.2006
444	1370090वाइ	हवलदार	टी समपंगी	01.12.2005
445	1369659एच	हवलदार	थुलासिधरन पिल्लई	01.10.2005
446	1374862एम	हवलदार	वी राजसेकरन	01.09.2005
447	1369998एच	हवलदार	विजयन पी	01.12.2005

बंगाल इंजीनियर समूह

448	1463604एक्स	हवलदार	अशोक कुमार दास	01.10.2005
449	1465024एफ	हवलदार	अशोक कुमार सिंह एस	01.09.2005
450	1464073एक्स	हवलदार	अतर सिंह	01.01.2006
451	1467995एल	हवलदार	अवधेश चंद्र एस	01.01.2006
452	1464020वाइ	हवलदार	बहादुर सिंह	01.01.2006
453	1468685एम	हवलदार	बलबीर सिंह	01.01.2006
454	1468543एल	हवलदार	बनवारी सिंह	01.09.2005
455	1463508एच	हवलदार	भगवान सिंह	01.09.2005

456	1463949वाइ	हवलदार	बी चंद्रा नय	01.01.2006
457	1464081डब्ल्यू	हवलदार	बिंदा दीन यादव	01.01.2006
458	1464028एल	हवलदार	बिरेन्द्र कुमार सिंह	01.01.2006
459	1463956पी	हवलदार	सी राम	01.01.2006
460	1463638एल	हवलदार	दया नन्द सिंह	01.10.2005
461	1463547एफ	हवलदार	धर्मवीर सिंह	01.09.2005
462	1468381पी	हवलदार	फकीर जोशी	01.10.2005
463	1463805ए	हवलदार	जी. दास	01.10.2005
464	1463471एम	हवलदार	गोपाल सिंह	01.09.2005
465	1463709एफ	हवलदार	गोविंद सिंह नायल	01.11.2005
466	1468620वाइ	हवलदार	गुरबचन सिंह	01.01.2006
467	1463799एन	हवलदार	हरी प्रसाद छत्री	01.12.2005
468	1463763पी	हवलदार	जगदीश चंद्र	01.12.2005
469	1463801ए	हवलदार	किशन सिंह	01.12.2005
470	1463667ए	हवलदार	लक्ष्मी शंकर सिंह	01.10.2005
471	1463550एफ	हवलदार	मदन लाल शर्मा	01.09.2005
472	1552818एच	हवलदार	मदन पाल सिंह	01.01.2006
473	1463767एल	हवलदार	महावीर सिंह	01.12.2005
474	1463843एम	हवलदार	मोहन राम	01.12.2005
475	1463858पी	हवलदार	निरंजन प्रधान	01.12.2005
476	1463762एम	हवलदार	ओम प्रकाश शरण	01.12.2005
477	1468698के.	हवलदार	परमजीत सिंह	01.01.2006
478	1467148पी	हवलदार	प्रकासन पिल्लई टी एन	01.11.2005
479	1464005के.	हवलदार	प्रेम प्रसाद राम	01.01.2006
480	1463832ए	हवलदार	पी सिंह	01.12.2005
481	1463780पी	हवलदार	राम किशन	01.12.2005
482	1463825के.	हवलदार	राम सेवक	01.12.2005
483	1463504एम	हवलदार	रामजीत यादव	01.09.2005
484	1468631एल	हवलदार	रणधीर सिंह	01.01.2006
485	1463513एन	हवलदार	रवीन्द्र चांद	01.09.2005
486	1463758के.	हवलदार	रोहताश कुमार	01.11.2005
487	1468680एन	हवलदार	सच्चिदा नन्द तिवारी	01.01.2006
488	1468327एफ	हवलदार	शिव प्रसाद गुप्ता	01.09.2005
489	1468623एम	हवलदार	शिव शंकर मिश्रा	01.01.2006
490	1463844पी	हवलदार	श्री निबास पाणिग्रही	01.12.2005
491	1468360वाइ	हवलदार	सुनील कुमार सिंह	01.09.2005
492	1463572ए	हवलदार	सुरिन्दर मोहन सिंह	01.09.2005
493	1468292डब्ल्यू	हवलदार	सूर्या बक्श	01.09.2005
494	1468517एन	हवलदार	सुशील कुमार शर्मा	01.11.2005
495	1554899एम	हवलदार	उपेन्द्र नाथ तिवारी	01.09.2005
496	1463757एफ	हवलदार	विनोद कुमार	01.11.2005
497	1464080एन	हवलदार	युगेश प्रसाद	01.01.2006

बोम्बे इंजीनियर समूह

498	1557778डब्ल्यू	हवलदार	अजिंदर सिंह	01.10.2005
499	1557761एच	हवलदार	अमरजीत सिंह	01.10.2005
500	1557824ए	हवलदार	अवतार सिंह	01.10.2005
501	1557818एम	हवलदार	भुपिन्द्र सिंह	01.10.2005
502	1557856एच	हवलदार	चंद्रा प्रकाश	01.10.2005

503	1557984ए	हवलदार	दीनानाथ	01.01.2006
504	1557654एफ	हवलदार	गुरमीत सिंह	01.09.2005
505	1557969एल	हवलदार	गुरनाम सिंह	01.01.2006
506	1552590एक्स	हवलदार	गुरनाम सिंह	01.12.2005
507	1557626पी	हवलदार	हीरा सिंह बिस्ट	01.09.2005
508	1557524वाइ	हवलदार	जगाधले अपासाहेब डी.	01.09.2005
509	1567793वाइ	हवलदार	जसवीर सिंह	01.10.2005
510	1557673एम	हवलदार	जसवंत सिंह	01.09.2005
511	1557688पी	हवलदार	जसवंत सिंह	01.09.2005
512	1557946के.	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.01.2006
513	1557610के.	हवलदार	कुमेर पाल सिंह	01.09.2005
514	1557861एन	हवलदार	मदन लाल	01.10.2005
515	1557867पी	हवलदार	मोहम्मद इशाक	01.10.2005
516	1552579वाइ	हवलदार	मोहन दास आर	01.12.2005
517	1557658एक्स	हवलदार	मोरे वी	01.09.2005
518	1552247पी	हवलदार	मुरलीधरन नायर डी.	01.09.2005
519	1557992वाइ	हवलदार	एन प्रसाद वर्मा	01.01.2006
520	1557989वाइ	हवलदार	ओमकार सिंह कुशवाहा	01.01.2006
521	1557569वाइ	हवलदार	पवार मधुकर लक्ष्मन	01.09.2005
522	1552712डब्ल्यू	हवलदार	प्रभुनाथ सिंह	01.12.2005
523	1552506एम	हवलदार	क्यू	01.10.2005
524	1557993एफ	हवलदार	रफी महम्मद	01.01.2006
525	1557629एच	हवलदार	रुदरप्पा शिवलिंग महाजन	01.09.2005
526	1557792एच	हवलदार	सत्य नारायण	01.10.2005
527	1557779वाइ	हवलदार	सोन पाल	01.10.2005
528	1557952एक्स	हवलदार	सुदामा सिंह	01.01.2006
529	1557858एन	हवलदार	एस सिंह	01.10.2005
530	1557747डब्ल्यू	हवलदार	सूरजमल सिंह	01.10.2005
531	1553058एक्स	हवलदार	स्यता अली	01.12.2005
532	1557595ए	हवलदार	तरसेम मसीह	01.09.2005
533	1557745एल	हवलदार	जैनुल ए	01.10.2005
सिमलस कोर				
534	14230704वाइ	हवलदार	अब्दुल अजीम अंसारी	01.10.2005
535	14231702ए	हवलदार	अभ्या कुमार नायक	01.12.2005
536	14243564डब्ल्यू	हवलदार	अम्बिका सिंह यादव	01.09.2005
537	14243715के.	हवलदार	आनंद पाल सिंह	01.01.2006
538	14231821डब्ल्यू	हवलदार	आनंदा लाल सेन	01.01.2006
539	14241583एच	हवलदार	अंग्रेज सिंह	01.10.2005
540	14231190वाइ	हवलदार	ए कुजू मा	01.11.2005
541	14232087ए	हवलदार	ए देहरी	01.01.2006
542	14232536के.	हवलदार	आशीर्वाद कुमार चक्रवर्ती	01.01.2006
543	14243763के.	हवलदार	अशोक कुमार	01.01.2006
544	14231996वाइ	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.01.2006
545	14243563एन	हवलदार	अशोक कुमार ठाकुर	01.09.2005
546	14243647एफ	हवलदार	बदारी नारायण राम	01.10.2005
547	14243404डब्ल्यू	हवलदार	बैजू पी	01.09.2005
548	14230937ए	हवलदार	बी बी पी	01.11.2005
549	14271125एफ	हवलदार	बलजीत सिंह	01.11.2005

550	14231012डब्ल्यू	हवलदार	बालाकृष्ण दत्त कोशिक	01.11.2005
551	14231050एम	हवलदार	बी पांडे	01.11.2005
552	14243759एफ	हवलदार	बासप्पा एन	01.01.2006
553	14231084ए	हवलदार	भरत प्रसाद सिंह	01.11.2005
554	14243071पी	हवलदार	बिनय कुमार सिंह	01.11.2005
555	14231994एन	हवलदार	बीर नारायण सिंह	01.01.2006
556	14231869के	हवलदार	बिरेन्द्रा प्रसाद	01.12.2005
557	14270785एम	हवलदार	बीशन दयाल	01.09.2005
558	14270800डब्ल्यू	हवलदार	चमन लाल	01.09.2005
559	14231819वाइ	हवलदार	चंद्र कुमार सिंह	01.01.2006
560	14231686एन	हवलदार	चंद्रा भूशन प्रसाद सिंह	01.12.2005
561	14232499एफ	हवलदार	चंद्रा मोहन शर्मा	01.01.2006
562	14232309के	हवलदार	चंद्रा प्रकाश	01.01.2006
563	14231810के	हवलदार	चंद्रा शेखर सिंह	01.12.2005
564	14271265एन	हवलदार	छोटे लाल केसरी	01.11.2005
565	14243747एम	हवलदार	डी. बाला स्वामी	01.01.2006
566	14231796एच	हवलदार	दल चांद शर्मा	01.12.2005
567	14231010एल	हवलदार	दया किशन	01.11.2005
568	14232529एन	हवलदार	देवेन्द्र कुमार	01.01.2006
569	14271375एच	हवलदार	देवी प्रसाद शुक्ला	01.11.2005
570	14271044एफ	हवलदार	धर्मपाल	01.10.2005
571	14232376पी	हवलदार	दिवाकर मंडल	01.01.2006
572	14232544एच	हवलदार	फेट सिंह नेगी	01.01.2006
573	14230551ए	हवलदार	गजराज सिंह	01.09.2005
574	14231122एल	हवलदार	गनेश रौय	01.11.2005
575	14270792एच	हवलदार	गया प्रसाद	01.09.2005
576	14232515एन	हवलदार	गेंदा लाल	01.01.2006
577	14232646वाइ	हवलदार	घना कांता गोगोई	01.01.2006
578	14231921एफ	हवलदार	गिरान्द सिंह शाक्य	01.12.2005
579	14231080के	हवलदार	गोकुल प्रसाद कुशवाहा	01.11.2005
580	14271331एल	हवलदार	गुगन राम	01.11.2005
581	3380548एक्स	हवलदार	गुरचरण सिंह	01.10.2005
582	14243649एम	हवलदार	हनुमंत कुमार	01.10.2005
583	14243731एफ	हवलदार	हरबंस लाल	01.01.2006
584	14232210एन	हवलदार	हरेन्द्र प्रसाद सिंह	01.01.2006
585	14231139वाइ	हवलदार	हरी प्रसाद सिंह	01.11.2005
586	14231933डब्ल्यू	हवलदार	हरिओम	01.01.2006
587	14231071एच	हवलदार	हवलदार सिंह	01.11.2005
588	14271263एच	हवलदार	जगदीश	01.11.2005
589	14271184एन	हवलदार	जगदीश चंद्र शर्मा	01.11.2005
590	14232343के	हवलदार	जगदीश चंद्रा बाला	01.01.2006
591	14271304एफ	हवलदार	जय बहादुर सिंह	01.11.2005
592	14270862डब्ल्यू	हवलदार	जय कुमार यादव	01.10.2005
593	14231809पी	हवलदार	जय पाल सिंह	01.12.2005
594	14232474पी	हवलदार	जयबीर सिंह	01.01.2006
595	14231512एन	हवलदार	जल सिंह	01.12.2005
596	14271004ए	हवलदार	जनक राज	01.10.2005
597	14231748एच	हवलदार	जनार्दन प्रसाद मिश्रा	01.12.2005
598	14243369वाइ	हवलदार	जय प्रकाश सिंह	01.09.2005

599	14230698डब्ल्यू हवलदार	कमल देव सिंह	01.10.2005
600	14270880वाइ हवलदार	कनाई चकबर्ती	01.10.2005
601	14271374ए हवलदार	कंवर सिंह	01.11.2005
602	14271402एफ हवलदार	खूमा बहादुर राना	01.11.2005
603	14243684पी हवलदार	कुजु कृष्णा पिल्लई के.	01.12.2005
604	14231566पी हवलदार	के. के.	01.12.2005
605	14231083एक्स हवलदार	एल प्रसाद सिंह	01.11.2005
606	14271007एन हवलदार	महादेव अंकुश धवल	01.10.2005
607	14231950डब्ल्यू हवलदार	महांगु राय	01.01.2006
608	14230976वाइ हवलदार	महेश शर्मा	01.11.2005
609	14230751डब्ल्यू हवलदार	महेश्वर नारायण सिंह	01.10.2005
610	14232051एफ हवलदार	महेश्वर मोहंता	01.01.2006
611	14231209एम हवलदार	महिंद्र पाल सिंह	01.11.2005
612	14231044वाइ हवलदार	मजीद खान	01.11.2005
613	14243617के. हवलदार	एम शशिकांत एकनाथ	01.10.2005
614	14232086एक्स हवलदार	मेघा नाथ सिंघा	01.01.2006
615	14231057डब्ल्यू हवलदार	मोहन लाल	01.11.2005
616	14231516के. हवलदार	मोहाना कुमार सी	01.12.2005
617	14270974डब्ल्यू हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.10.2005
618	14270812एल हवलदार	मोनीराम हजारीका	01.09.2005
619	14243650एफ हवलदार	मोती लाल कारपेंटर	01.10.2005
620	14243394एक्स हवलदार	एम बी	01.09.2005
621	14230703डब्ल्यू हवलदार	नगेन्द्रा पांडे	01.10.2005
622	14243638ए हवलदार	नगेन्द्रा ठाकुर	01.10.2005
623	14231857पी हवलदार	नैन सिंह	01.12.2005
624	14271315एन हवलदार	नायर डी. कुमार	01.11.2005
625	14230745एच हवलदार	नजमुल हक	01.10.2005
626	14270897एम हवलदार	नंदलाल उपाध्याय	01.10.2005
627	14232409पी हवलदार	नारायण चंद्रा नाम	01.01.2006
628	14235828एक्स हवलदार	ओम प्रकाश	01.12.2005
629	14231364एन हवलदार	पारेश चंद्रा कलिता	01.12.2005
630	14271063एम हवलदार	प्रकाश चांद	01.11.2005
631	14232300पी हवलदार	पी सोमनाथ यशवंत	01.01.2006
632	14271342एक्स हवलदार	प्रवीर दाना	01.11.2005
633	14230817एफ हवलदार	प्रदीप कुमार	01.10.2005
634	14230514एम हवलदार	प्रीतम चांद	01.09.2005
635	14232358एम हवलदार	पूरन चांद पांडे	01.01.2006
636	14243673एच हवलदार	पूर्णा चंद्रा सिंघा	01.11.2005
637	14271366एफ हवलदार	पुत्तु लाल सिंह	01.11.2005
638	14240693एल हवलदार	रबींद्र सिंह	01.12.2005
639	14230663ए हवलदार	रबीन्द्र नाथ सिंह	01.10.2005
640	14231773एफ हवलदार	रघुनाथ सिंह	01.12.2005
641	14237640एफ हवलदार	राजा राम	01.12.2005
642	14243589एच हवलदार	राजबीर मलिक	01.10.2005
643	14270869ए हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	01.10.2005
644	14232331पी हवलदार	राजेंद्र प्रसाद शर्मा	01.01.2006
645	14270826एल हवलदार	राजेंद्र राय	01.09.2005
646	14235053एक्स हवलदार	राजेन्द्रन नायर एन	01.11.2005
647	14231629एम हवलदार	राजेश कुमार	01.12.2005

648	14231240वाइ	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.11.2005
649	14271134एच	हवलदार	राम अवतार	01.11.2005
650	14231106एन	हवलदार	राम बहादुर	01.11.2005
651	14271313एच	हवलदार	राम दयाल सिंह	01.11.2005
652	14270858एन	हवलदार	राम देव	01.10.2005
653	14243557ए	हवलदार	राम कुमार	01.09.2005
654	14230822एम	हवलदार	राम नरेश सिंह	01.10.2005
655	14230873ए	हवलदार	रमा कांत तिवारी	01.10.2005
656	14232069एक्स	हवलदार	रमा शीश सिन्हा	01.01.2006
657	14230544के.	हवलदार	रामवतर यादव	01.09.2005
658	14271351वाइ	हवलदार	रामेश्वर पांडे	01.11.2005
659	14231865एन	हवलदार	रामेश्वर तिवारी	01.12.2005
660	14243533डब्ल्यू	हवलदार	आर	01.09.2005
661	14230692पी	हवलदार	रंजीत सिंह	01.10.2005
662	14243508एक्स	हवलदार	रंजीत सिंह	01.09.2005
663	14243643एल	हवलदार	रती राम गुर्जर	01.10.2005
664	14230918पी	हवलदार	रेमान्न वी	01.10.2005
665	14243453वाइ	हवलदार	एस के. मैनुल हक	01.09.2005
666	14243451एन	हवलदार	संजय कुमार अवस्थी	01.09.2005
667	14231579एम	हवलदार	सत पाल	01.12.2005
668	14232357के.	हवलदार	सतेन्द्र शर्मा	01.01.2006
669	14231705एन	हवलदार	सथैया पथी प्रधान	01.12.2005
670	14231092वाइ	हवलदार	सत्य देव महतो	01.11.2005
671	14243664एफ	हवलदार	सत्य पाल	01.10.2005
672	14230652एन	हवलदार	एस कान्ति राज कुमार	01.10.2005
673	14232025ए	हवलदार	शशि भूषण ओझा	01.01.2006
674	14243433एल	हवलदार	शशि कांत राय	01.09.2005
675	14230858एल	हवलदार	एस कांत सिंह	01.10.2005
676	14243561एच	हवलदार	शत्रुघ्न सिंह	01.09.2005
677	14230950के.	हवलदार	शिव बिलास सिंह कुशवाहा	01.11.2005
678	14243675एन	हवलदार	शिवाजी एम	01.11.2005
679	14232382एच	हवलदार	शोभ नाथ राम	01.01.2006
680	14271357ए	हवलदार	श्री भगवान	01.11.2005
681	14243714एफ	हवलदार	श्री कुमार बी	01.01.2006
682	14232621एम	हवलदार	श्याम कुमार	01.01.2006
683	14231888पी	हवलदार	श्यामलाल	01.12.2005
684	14231982वाइ	हवलदार	सिधेश्वर यादव	01.01.2006
685	14231892एक्स	हवलदार	शिवदासन के.	01.12.2005
686	14231484एम	हवलदार	सोमा ओरान	01.12.2005
687	14271316डब्ल्यू	हवलदार	श्री कुमार के.	01.11.2005
688	14243380एक्स	हवलदार	श्री रामुलु जे	01.11.2005
689	14241059पी	हवलदार	श्रीकांत राम	01.09.2005
690	14231477डब्ल्यू	हवलदार	एस सामल	01.12.2005
691	14231156वाइ	हवलदार	सुभ राम	01.11.2005
692	14232291वाइ	हवलदार	सुभास चंद्रा मंडल	01.01.2006
693	14230680ए	हवलदार	सुभाष चांद शर्मा	01.10.2005
694	14231037एच	हवलदार	सुभाष चंद्र	01.11.2005
695	14239876पी	हवलदार	सुभाष चंद्र	01.09.2005
696	14232758वाइ	हवलदार	सुधाकरन पिल्लई आर	01.01.2006

697	14270913वाइ	हवलदार	एस कुमार राय	01.10.2005
698	14231840एफ	हवलदार	सूरज भान	01.12.2005
699	14271180एक्स	हवलदार	सुरेश चांद	01.11.2005
700	14231147एक्स	हवलदार	सुरिन्दर कुमार	01.11.2005
701	14231741वाइ	हवलदार	सुरिन्दर पाल	01.12.2005
702	14271017एक्स	हवलदार	टी सिंह	01.10.2005
703	14243723एच	हवलदार	टी गोड़ा रंगना गोड़ा पाटिल	01.01.2006
704	14243570के.	हवलदार	तिका राम प्रधान	01.09.2005
705	14243656एच	हवलदार	तिमिर घोष	01.10.2005
706	14230812एच	हवलदार	उदय दास	01.10.2005
707	14232455के.	हवलदार	उमाकांत राय	01.01.2006
708	14231700पी	हवलदार	वी जगनाथन	01.12.2005
709	14230466एक्स	हवलदार	वी सुंदरराज	01.09.2005
710	14230991एन	हवलदार	वी लाल	01.11.2005
711	14243626एल	हवलदार	वीरा भद्रा	01.10.2005
712	14270829वाइ	हवलदार	विजय कुमार के.	01.09.2005
713	14271396वाइ	हवलदार	विजय राज सिंह जामवाल	01.11.2005
714	14230870एम	हवलदार	विजयन नायर एम टी	01.10.2005
715	14231087एन	हवलदार	विनोद कुमार सिंह	01.11.2005
716	14243420एन	हवलदार	विनोद सिंह	01.09.2005

गार्ड्स

717	13682892एक्स	हवलदार	अम्बा दत्त	01.10.2005
718	13682937एम	हवलदार	बाबू लाल जाट	01.10.2005
719	13682981डब्ल्यू	हवलदार	बाबू सिंह	01.01.2006
720	13682766एल	हवलदार	भवन सिंह	01.09.2005
721	13682761एम	हवलदार	बीन्दा सेकिआ	01.09.2005
722	5042422एफ	हवलदार	बुध्दा बहादुर सारकी	01.10.2005
723	13682906एम	हवलदार	दाना राम	01.10.2005
724	13682765एच	हवलदार	दिलीप चंद्रा बोराह	01.09.2005
725	13679306वाइ	हवलदार	दीपांकर दास	01.09.2005
726	13682855के.	हवलदार	एवर्ड तोप्पो	01.10.2005
727	13682806एफ	हवलदार	ईआर पांडि	01.09.2005
728	13682680एम	हवलदार	गोविंद लाल साह	01.09.2005
729	13682975एच	हवलदार	हर भजन सिंह	01.01.2006
730	13682912ए	हवलदार	हेम कांता गोगोई	01.10.2005
731	13682961एच	हवलदार	जयवीर सिंह	01.01.2006
732	13613145एफ	हवलदार	जसपाल सिंह	01.12.2005
733	13679398डब्ल्यू	हवलदार	कल्पकम नाथ सिंह	01.10.2005
734	13682979वाइ	हवलदार	कर्मवीर	01.01.2006
735	13682984के.	हवलदार	मोहन लाल	01.01.2006
736	13682920वाइ	हवलदार	नन्द किशोर ठाकुर	01.10.2005
737	13679300एक्स	हवलदार	पाल सिंह	01.09.2005
738	13682910पी	हवलदार	पवन कुमार	01.10.2005
739	13682998के.	हवलदार	प्रेम चांद शर्मा	01.01.2006
740	13682838के.	हवलदार	प्रीतम सिंह	01.09.2005
741	13682966एफ	हवलदार	पुतुल चंद्रा लहौं	01.01.2006
742	13682935एफ	हवलदार	राजा शेखरा नायर वी	01.10.2005
743	9084432एल	हवलदार	राम राखा	01.10.2005

744	13683002वाइ	हवलदार	रमा कृष्णन पी चलिल	01.01.2006
745	13682918एफ	हवलदार	रतनेश्वर सी	01.10.2005
746	13682899एफ	हवलदार	सुंदर सिंह	01.10.2005
747	13682785डब्ल्यू	हवलदार	उजागर सिंह	01.09.2005
748	13679520एफ	हवलदार	वी प्रसाद राय	01.01.2006

पैराशूट रेजीमेन्ट

749	13613031डब्ल्यू	हवलदार	अवद किशोर कुमार	01.11.2005
750	13614289डब्ल्यू	हवलदार	भगवान सिंह	01.01.2006
751	13614387डब्ल्यू	हवलदार	भरत सिंह	01.01.2006
752	13614288एन	हवलदार	देश राज	01.01.2006
753	13612998एम	हवलदार	देविन्द्र सिंह	01.11.2005
754	13612879डब्ल्यू	हवलदार	जी. गणेशन	01.09.2005
755	13614297पी	हवलदार	ग्रीस चंद्रा कला	01.01.2006
756	2776188एम	हवलदार	जय प्रकाश	01.09.2005
757	13613097एम	हवलदार	पी शेखर	01.12.2005
758	13614315एम	हवलदार	पाटिल पांडुरंग	01.01.2006
759	13614292डब्ल्यू	हवलदार	प्रीतम सिंह	01.01.2006
760	13613002एफ	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.11.2005
761	13614376के.	हवलदार	रमाकांत रावल	01.01.2006
762	13614474के.	हवलदार	रामगोपाल शर्मा	01.01.2006
763	13615199एफ	हवलदार	सलिक राम	01.11.2005
764	13613074एल	हवलदार	सेवा सिंह	01.11.2005
765	13614384एच	हवलदार	सुखेन्दु हाल्दार	01.01.2006
766	13614497एल	हवलदार	सुशील कुमार बिस्वाल	01.01.2006

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

767	14902294के.	हवलदार	अमर चांद	01.10.2005
768	14902481एच	हवलदार	अमरजीत सिंह	01.10.2005
769	14902847पी	हवलदार	अर्जुन बैठा	01.01.2006
770	2584213एल	हवलदार	बी जी.	01.01.2006
771	14903135वाइ	हवलदार	भूप राम	01.01.2006
772	14902886एन	हवलदार	बिहारी लाल	01.01.2006
773	14902905एन	हवलदार	बिमल सिंघा	01.01.2006
774	14903093एक्स	हवलदार	बिदेश्वरी	01.01.2006
775	14902227वाइ	हवलदार	बोमई बहादुर थापा	01.09.2005
776	14902456के.	हवलदार	ब्रज बंधु दलबहेरा	01.10.2005
777	14902935एल	हवलदार	बूटा राम	01.01.2006
778	14903183वाइ	हवलदार	सी बाला कृष्णन	01.01.2006
779	14903086एफ	हवलदार	चरण सिंह	01.01.2006
780	14902346पी	हवलदार	चेतन राम सरन	01.10.2005
781	14902234पी	हवलदार	डी. साह	01.09.2005
782	14902194वाइ	हवलदार	दल चांद	01.09.2005
783	14902377पी	हवलदार	देव सिंह	01.10.2005
784	14902381एक्स	हवलदार	देवी सहाय	01.10.2005
785	14902352एच	हवलदार	धर्म पाल	01.10.2005
786	14902560एक्स	हवलदार	द्रिष्येन्दु मुखर्जी	01.10.2005
787	14902179के.	हवलदार	दिल बहादुर रोका	01.09.2005
788	14902137एक्स	हवलदार	दिनेश चंद्रा वर्मा	01.09.2005

789	14902263के.	हवलदार	दीप सिंह परिहार	01.10.2005
790	14902963एक्स	हवलदार	दीपेन चंद्रा नाथ	01.01.2006
791	14900059एम	हवलदार	डोरा प्रसाद राना	01.01.2006
792	14902545एच	हवलदार	गंगा प्रसाद बाल्मीकि	01.10.2005
793	14902271एच	हवलदार	गन्नाधारप्पा एन एस	01.10.2005
794	14902983एल	हवलदार	घना कांता पाठक	01.01.2006
795	14902906डब्ल्यू	हवलदार	गोबिंदा सिंघा	01.01.2006
796	14902881पी	हवलदार	हरी दयाल	01.01.2006
797	14902865एक्स	हवलदार	हरी शंकर आर बेनू	01.01.2006
798	13747428के.	हवलदार	हवा सिंह	01.01.2006
799	2874699एम	हवलदार	हजारी राम नायक	01.09.2005
800	14902909के.	हवलदार	जगत सिंह	01.01.2006
801	14900212एक्स	हवलदार	जय चांद	01.01.2006
802	14902926के.	हवलदार	जय बहादुर सिंघा	01.01.2006
803	14902706ए	हवलदार	जितेन्द्रा प्रसाद	01.11.2005
804	9922573एन	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.10.2005
805	14902132वाइ	हवलदार	जोगिंदर सिंह राना	01.09.2005
806	14902321एच	हवलदार	के. डी.	01.10.2005
807	14902414एक्स	हवलदार	के. परसुराम पात्रा	01.10.2005
808	14902272एल	हवलदार	के. टी मंजू नाथा	01.10.2005
809	14903163एल	हवलदार	कबीर दशरथ	01.01.2006
810	14902259एफ	हवलदार	केबल सिंह	01.10.2005
811	14902842डब्ल्यू	हवलदार	कुष्णी चंद्रा पंडा	01.01.2006
812	14902335एच	हवलदार	लाल चांद नेहरा	01.10.2005
813	14902672एक्स	हवलदार	लल्लन भगत	01.10.2005
814	14902434एल	हवलदार	महावीर प्रसाद	01.10.2005
815	14902625ए	हवलदार	एम ओरान	01.10.2005
816	14902882एक्स	हवलदार	मोहम्मद हनीफ एस	01.01.2006
817	14902363पी	हवलदार	मीर सिंह जाट	01.10.2005
818	14902768ए	हवलदार	एम सीताराम रंभु	01.01.2006
819	14902987एफ	हवलदार	नंदाप्पा बी	01.01.2006
820	14902772एच	हवलदार	नंदी राम नाथ	01.01.2006
821	14902717एम	हवलदार	नार प्रसाद जे	01.12.2005
822	14902868एल	हवलदार	नरेंद्र सिंह राना	01.01.2006
823	14902418एन	हवलदार	एन भोमिक	01.10.2005
824	14902450एच	हवलदार	ओम प्रकाश	01.10.2005
825	14902562एच	हवलदार	ओम प्रकाश	01.10.2005
826	14902982एच	हवलदार	प्रवीन केआर दास	01.01.2006
827	14903132एल	हवलदार	प्रमोद सिंह	01.01.2006
828	14903196डब्ल्यू	हवलदार	पूर्णा प्रसाद जी.	01.01.2006
829	14902888वाइ	हवलदार	आर सिंह	01.01.2006
830	14903114एच	हवलदार	राम आशीश वर्मा	01.01.2006
831	14902582डब्ल्यू	हवलदार	राम चरण	01.10.2005
832	14902940डब्ल्यू	हवलदार	राम कमल पंडा	01.01.2006
833	14902506के.	हवलदार	रामानुज शर्मा	01.10.2005
834	13744302वाइ	हवलदार	रणधीर सिंह	01.01.2006
835	14902443एम	हवलदार	आर कुडलिक एम	01.10.2005
836	14902147एफ	हवलदार	रशद कृष्णन पी जी.	01.09.2005
837	14902487के.	हवलदार	रवीन्द्र प्रसाद	01.10.2005

838	14902977एक्स	हवलदार	रोमेश सिंह	01.01.2006
839	14902355डब्ल्यू	हवलदार	एस पंडया राजन	01.10.2005
840	14902579डब्ल्यू	हवलदार	सर्वांगी यादव	01.10.2005
841	14902160एल	हवलदार	सिल्वाराज के.	01.09.2005
842	14902330के.	हवलदार	शोभा राम के.	01.10.2005
843	14902809वाइ	हवलदार	श्री राम	01.01.2006
844	14902287एक्स	हवलदार	शिवनंदन ए	01.10.2005
845	14903169एम	हवलदार	सुरेंद्र राय	01.01.2006
846	14902208एन	हवलदार	सुरेश कुमार	01.09.2005
847	14902932एक्स	हवलदार	एस मंडल	01.01.2006
848	14902730डब्ल्यू	हवलदार	तनू बहादुर थापा	01.01.2006
849	14902438एफ	हवलदार	तरसेम लाल	01.10.2005
850	14902310डब्ल्यू	हवलदार	उदय थापा	01.10.2005
851	14902539पी	हवलदार	उमेश चंद्रा गुप्ता	01.10.2005
852	14902903एच	हवलदार	उम्मेद सिंह	01.01.2006
853	14903005डब्ल्यू	हवलदार	समराव सिंह	01.01.2006
854	14902341डब्ल्यू	हवलदार	वी महालिंगम	01.10.2005
855	14902283एक्स	हवलदार	वी अशोक किशन	01.10.2005
856	14902171एक्स	हवलदार	विनय कुमार लाल	01.09.2005
857	14902857एच	हवलदार	वीरेंद्र कुमार सिंह	01.10.2005
858	14903066एन	हवलदार	वामन सखाराम चौरे	01.01.2006

पंजाब रेजीमेंट

859	2474198वाइ	हवलदार	अशोक कुमार तिवारी	01.01.2006
860	2472506पी	हवलदार	बलबीर सिंह	01.12.2005
861	2472626एन	हवलदार	चमन लाल	01.01.2006
862	2472253एल	हवलदार	लेख राज शर्मा	01.11.2005
863	2472165पी	हवलदार	प्रकाश चांद शर्मा	01.11.2005
864	2474207पी	हवलदार	राजबीर सिंह	01.01.2006
865	2474188पी	हवलदार	रणधीर सिंह मान	01.01.2006
866	2472221एच	हवलदार	शेर सिंह	01.11.2005
867	2474166डब्ल्यू	हवलदार	श्यामबीर	01.10.2005
868	2472115के.	हवलदार	सुखदेव राज	01.09.2005

मद्रास रेजीमेंट

869	2584193एच	हवलदार	अनिलकुमार ओसी	01.01.2006
870	2584088एम	हवलदार	ए कुट्टप्पा पोवप्पा	01.09.2005
871	2580101एन	हवलदार	सी कानन्न	01.12.2005
872	2584224एक्स	हवलदार	सी नागराज	01.01.2006
873	2584077ए	हवलदार	सी परमेश्वरन	01.09.2005
874	2584102एन	हवलदार	सी एस	01.10.2005
875	2579678एफ	हवलदार	गणेशन आर	01.09.2005
876	2584304पी	हवलदार	एच	01.01.2006
877	2584277डब्ल्यू	हवलदार	जॉन ओजे	01.01.2006
878	2584080ए	हवलदार	के. पलानीसामी	01.09.2005
879	2584198एफ	हवलदार	के. प्रसाद कुमार	01.01.2006
880	2584079एल	हवलदार	के. मलप्पा एच	01.09.2005
881	2584169एम	हवलदार	एल श्रीनिवास रामानुजम	01.01.2006
882	2584076एक्स	हवलदार	लक्ष्मणन जी.	01.09.2005

883	2584222एम	हवलदार	एम बालाकृष्णन	01.01.2006
884	2579893एम	हवलदार	एम बी	01.11.2005
885	2584220एफ	हवलदार	एम मरिमुथु	01.01.2006
886	2584279एफ	हवलदार	मुरलीधरन नायर आर	01.01.2006
887	2584271पी	हवलदार	एन रविचंद्रन	01.01.2006
888	2584158ए	हवलदार	नागाराजन एम	01.10.2005
889	2580149एफ	हवलदार	पी ए	01.01.2006
890	2584253एम	हवलदार	पी धनबालन	01.01.2006
891	2584209एच	हवलदार	पी मोहन रेडी	01.01.2006
892	2584203एफ	हवलदार	पोट्टी पी ए	01.01.2006
893	2584170एफ	हवलदार	आर मोहन	01.01.2006
894	2584097एन	हवलदार	रमेश रामु के.	01.10.2005
895	2584119एफ	हवलदार	एस डेविड	01.10.2005
896	2584234एफ	हवलदार	एस एल	01.01.2006
897	2584214एन	हवलदार	एस एम सिल्वाराज	01.01.2006
898	2584118वाइ	हवलदार	एस सेकार	01.10.2005
899	2584247वाइ	हवलदार	संतो कुमार टींसी	01.01.2006
900	2584162एच	हवलदार	सेकार पी	01.01.2006
901	2584219एम	हवलदार	श्रीकांतन पिल्लई के.	01.01.2006
902	2579660एल	हवलदार	वेनुगोपाल पी	01.09.2005
ग्रेनेडियर्स				
903	2675778के.	हवलदार	अब्दुल अबासाहेब	01.10.2005
904	2675830एफ	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.01.2006
905	2675915एक्स	हवलदार	अवधेश सिंह	01.01.2006
906	2675943के.	हवलदार	बचितर सिंह	01.01.2006
907	2675701एफ	हवलदार	बहादुर सिंह	01.09.2005
908	2672315के.	हवलदार	बेनी प्रसाद	01.01.2006
909	2672033एल	हवलदार	छतर सिंह	01.11.2005
910	2675814के.	हवलदार	धर्मवीर सिंह	01.10.2005
911	2675769एच	हवलदार	आइ खान	01.10.2005
912	2675931पी	हवलदार	जे बिस्वाल	01.01.2006
913	2675820एक्स	हवलदार	जसवंत सिंह	01.01.2006
914	13614328के.	हवलदार	जेठा राम	01.01.2006
915	2675831के.	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.01.2006
916	2675754ए	हवलदार	जे खान	01.10.2005
917	2675945पी	हवलदार	कृष्णन चांद	01.01.2006
918	2675826वाइ	हवलदार	लाभ सिंह	01.01.2006
919	8028888एफ	हवलदार	मदन मोहन वर्मा	01.09.2005
920	13614351एक्स	हवलदार	माई राम	01.01.2006
921	2675888वाइ	हवलदार	मानवर सिंह	01.01.2006
922	2675760एन	हवलदार	मोहन लाल	01.10.2005
923	2675729एफ	हवलदार	मोहम्मद इरशाद	01.10.2005
924	2675740ए	हवलदार	मोहम्मद जहीर	01.10.2005
925	2675757एन	हवलदार	मोहम्मद उस्मान खान	01.10.2005
926	2675679एफ	हवलदार	नरेंद्रा सिंह	01.09.2005
927	2675893के.	हवलदार	ओमकार सिंह	01.01.2006
928	2671966एन	हवलदार	पृथ्वी चांद	01.11.2005
929	2676012एम	हवलदार	रघुनंदन सिंह	01.01.2006

930	2675892एफ	हवलदार	राजेंद्र कुमार	01.01.2006
931	2675892एम	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.01.2006
932	2675981ए	हवलदार	राम निवास पी	01.01.2006
933	2672035डब्ल्यू	हवलदार	रमन शंकर	01.11.2005
934	2675941वाइ	हवलदार	रमेश सिंह	01.01.2006
935	2675862के.	हवलदार	आर रहमान	01.01.2006
936	2675864पी	हवलदार	सब्बीर खान	01.01.2006
937	2675948एच	हवलदार	सम्पत लाल	01.01.2006
938	4426535एक्स	हवलदार	एस चौधरी	01.01.2006
939	2676045एक्स	हवलदार	श्री चंद्र बहादुर गिरि	01.01.2006
940	2675703एम	हवलदार	श्याम बाबू	01.09.2005
941	2675994एक्स	हवलदार	सुल्तान सिंह	01.01.2006
942	2671975पी	हवलदार	विजय सिंह	01.11.2005

मराठा लघु सेना

943	2776981एफ	हवलदार	अकील अली	01.01.2006
944	2772686एफ	हवलदार	ए हुकरी	01.12.2005
945	2776373ए	हवलदार	आनंदा दत्तू पाटिल	01.10.2005
946	2776575एफ	हवलदार	ए हनमंत वघेला	01.10.2005
947	2776189पी	हवलदार	बी एन गणपति	01.09.2005
948	2776753वाइ	हवलदार	बलसोव डी. देसे	01.01.2006
949	2776913एन	हवलदार	भगोरा एम के.	01.01.2006
950	2776444डब्ल्यू	हवलदार	भोसले दिनाकर ई	01.10.2005
951	2776765एन	हवलदार	गोकुल चांद	01.01.2006
952	2776976डब्ल्यू	हवलदार	हैदर अली हबीब शेख	01.01.2006
953	2776764एल	हवलदार	एच एच	01.01.2006
954	2776645पी	हवलदार	जे बी	01.01.2006
955	2776176एक्स	हवलदार	के. ए डी.	01.09.2005
956	2776947एफ	हवलदार	कल्याण सिंह	01.01.2006
957	2776779एन	हवलदार	के. एम पटल	01.01.2006
958	2776266वाइ	हवलदार	खेनत दिलीप भिवानी	01.10.2005
959	2776946वाइ	हवलदार	लाल बहादुर सिंह कुशवाह	01.01.2006
960	2776166एन	हवलदार	एम सुभाष रघुनाथ	01.09.2005
961	3983000पी	हवलदार	नागेश कुमार	01.01.2006
962	2776966एम	हवलदार	पी इश्वर यलप्पा	01.01.2006
963	2776771एफ	हवलदार	पाटिल दिलीप नरसुबियाम्मा	01.01.2006
964	2776933एफ	हवलदार	आर बी प्रेम सिंह	01.01.2006
965	14902250एम	हवलदार	रामचंद्रन सखाराम कोलकर	01.10.2005
966	2776522एच	हवलदार	आर वासुदेव साबा	01.10.2005
967	2776275ए	हवलदार	आर यशवंत वी	01.10.2005
968	2776934के.	हवलदार	समभाजी पी भोसले	01.01.2006
969	2772702एन	हवलदार	तमन्ना वी	01.12.2005
970	2776680एक्स	हवलदार	वसंत भौराव एम	01.01.2006
971	2776693पी	हवलदार	विजय गंगाराम देशमुख	01.01.2006

राजपूताना राईफल्स

972	2878845वाइ	हवलदार	आमी लाल	01.01.2006
973	2878819एक्स	हवलदार	ए सिंह तोमर	01.10.2005
974	2878833के.	हवलदार	अतर सिंह	01.01.2006

975	2875660एम	हवलदार	बीरबल राम	01.01.2006
976	2878831वाइ	हवलदार	बृज लाल	01.01.2006
977	2875083एल	हवलदार	दया राम	01.11.2005
978	2875203वाइ	हवलदार	ध्यान चांद	01.12.2005
979	2878824एच	हवलदार	गोपा राम	01.11.2005
980	2875555डब्ल्यू	हवलदार	गुलाब सिंह	01.01.2006
981	2878839एल	हवलदार	हरी सिंह	01.01.2006
982	2876505एक्स	हवलदार	कुंवर पाल सिंह	01.10.2005
983	2878851एम	हवलदार	मोहम्मद हाशिम	01.01.2006
984	2874820पी	हवलदार	राम स्वरूप	01.10.2005
985	2875547एक्स	हवलदार	रामजी लाल	01.01.2006
986	2874738ए	हवलदार	रत्तन लाल	01.09.2005
987	2878883पी	हवलदार	सर्वेश कुमार	01.01.2006
988	2878875डब्ल्यू	हवलदार	सतीश चंद्रा	01.01.2006
989	2875643एम	हवलदार	सायार सिंह	01.01.2006
990	2878829एफ	हवलदार	विक्रम सिंह	01.01.2006
991	2875063एक्स	हवलदार	यशवंत सिंह	01.11.2005
992	2874670के.	हवलदार	यशवंत सिंह राजपुर	01.09.2005
राजपूत रेजीमेन्ट				
993	2977128एन	हवलदार	अजय सिंह	01.12.2005
994	2981168एम	हवलदार	अख्तर अली	01.09.2005
995	2981769एक्स	हवलदार	अंगद लाल	01.01.2006
996	2981301के.	हवलदार	धर्म सिंह	01.01.2006
997	2976962ए	हवलदार	दीनानाथ सिंह	01.11.2005
998	2982389एल	हवलदार	गोपी श्याम	01.09.2005
999	2981163एन	हवलदार	गोधन	01.09.2005
1000	2977099के.	हवलदार	गोरे लाल	01.12.2005
1001	2981221एम	हवलदार	हरी ओम	01.01.2006
1002	2976940एफ	हवलदार	झंकार सिंह	01.11.2005
1003	2981262डब्ल्यू	हवलदार	कैलाश बाबू	01.01.2006
1004	2976597के.	हवलदार	ख्यात सिंह नेगी	01.09.2005
1005	2976766ए	हवलदार	महेश सिंह	01.10.2005
1006	2977154पी	हवलदार	मोहम्मद हनीफ	01.11.2005
1007	2981161एच	हवलदार	मीर जे अली	01.09.2005
1008	2976857के.	हवलदार	मुनिश्वर सिंह	01.10.2005
1009	2976647के.	हवलदार	नारायण गिरि	01.09.2005
1010	2981133डब्ल्यू	हवलदार	राम औतार सिंह	01.09.2005
1011	2981184के.	हवलदार	राम लोटन	01.10.2005
1012	2976988पी	हवलदार	राम सभा	01.11.2005
1013	2981179वाइ	हवलदार	सतीश चंद्रा मिश्रा	01.09.2005
जाट रेजीमेन्ट				
1014	3172000एन	हवलदार	ज्ञान सिंह	01.09.2005
1015	3175094एफ	हवलदार	हरनाम सिंह	01.01.2006
1016	3175052पी	हवलदार	झंकार मल यादव	01.01.2006
1017	3174973एच	हवलदार	जितेन्द्र सिंह	01.09.2005
1018	3175794पी	हवलदार	कैलाश चांद नाई	01.01.2006
1019	3175036एक्स	हवलदार	लाडु सिंह	01.01.2006

1020	3174987एच	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.09.2005
1021	3175117एक्स	हवलदार	राज नारायण राम	01.01.2006
1022	3171993एल	हवलदार	राजवीर सिंह	01.09.2005
1023	3174986ए	हवलदार	राम चंद्र	01.09.2005
1024	3175028वाइ	हवलदार	रामेश्वर सिंह	01.01.2006
1025	3175054ए	हवलदार	रामेश्वर दत्त बाली	01.01.2006
1026	3172456एम	हवलदार	सोदान सिंह	01.12.2005
1027	3175074एन	हवलदार	त्रिलोक चांद	01.01.2006
सिख रेजीमेन्ट				
1028	3380686वाइ	हवलदार	बलबीर सिंह	01.01.2006
1029	3380604एल	हवलदार	बी दत्ता	01.01.2006
1030	3380670एन	हवलदार	बी सिंह	01.01.2006
1031	3381097पी	हवलदार	चम्पत लाल	01.09.2005
1032	3380581पी	हवलदार	गुरबचन सिंह	01.10.2005
1033	3380536एच	हवलदार	हरजीत सिंह	01.09.2005
1034	3380699डब्ल्यू	हवलदार	जमील एम	01.01.2006
1035	3380746एच	हवलदार	करतार सिंह	01.09.2005
1036	3380668डब्ल्यू	हवलदार	मोहम्मद एस रहमान	01.01.2006
1037	3379599वाइ	हवलदार	मुन्नु लाल	01.12.2005
1038	3380694एक्स	हवलदार	प्रीतम सिंह	01.01.2006
1039	3380693पी	हवलदार	रशपाल सिंह	01.01.2006
1040	3381098एक्स	हवलदार	शशि कांत	01.01.2006
1041	3377795ए	हवलदार	शिवधर शर्मा	01.11.2005
1042	3377713एम	हवलदार	शोभन सिंह	01.09.2005
1043	3380606डब्ल्यू	हवलदार	सुखा सिंह	01.01.2006

सिख लघु पैदल सेना

1044	4461900एम	हवलदार	अवतार सिंह	01.10.2005
1045	4461848पी	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.10.2005
1046	4461742एच	हवलदार	चरण सिंह	01.09.2005
1047	4461852एक्स	हवलदार	दलबीर सिंह	01.10.2005
1048	4462157पी	हवलदार	डी. कुमार	01.01.2006
1049	4461838एल	हवलदार	धर्म सिंह	01.10.2005
1050	4458402पी	हवलदार	गिरीश चंद्रा	01.09.2005
1051	4462089एम	हवलदार	हिर्देश सिंह	01.01.2006
1052	4462060के.	हवलदार	जरनैल सिंह	01.01.2006
1053	4462000पी	हवलदार	जसबीर सिंह	01.11.2005
1054	4462005एन	हवलदार	जे सिंह	01.11.2005
1055	4462031पी	हवलदार	काली चरण	01.01.2006
1056	4461777वाइ	हवलदार	कर्मवीर सिंह	01.09.2005
1057	4462039एफ	हवलदार	केहर सिंह	01.01.2006
1058	4462142एम	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.01.2006
1059	4461982ए	हवलदार	मनजीत सिंह	01.11.2005
1060	4458529एक्स	हवलदार	मनोज कुमार पाल	01.10.2005
1061	4462059पी	हवलदार	मुख्त्यार सिंह	01.01.2006
1062	4458535एल	हवलदार	नानक चांद	01.10.2005
1063	4461794वाइ	हवलदार	ओम राज	01.09.2005
1064	4462047ए	हवलदार	परमजीत सिंह	01.01.2006

1065	4461836ए	हवलदार	प्रेम सिंह	01.10.2005
1066	4461791एल	हवलदार	प्रीतम सिंह	01.09.2005
1067	4461781एफ	हवलदार	राधा नाथ नायक	01.09.2005
1068	4461753पी	हवलदार	रमेश चांद	01.09.2005
1069	4481804एक्स	हवलदार	रामेश्वर दास	01.10.2005
1070	4461988एफ	हवलदार	रावत सिंह	01.11.2005
1071	4462099डब्ल्यू	हवलदार	एस सिंह	01.01.2006
1072	4462045पी	हवलदार	सतनाम सिंह	01.01.2006
1073	4461802एम	हवलदार	शिंंगारा सिंह	01.10.2005
1074	4462111एम	हवलदार	शिव चरण	01.01.2006
1075	4461994पी	हवलदार	टेक सिंह	01.11.2005

डोगरा रेजीमेन्ट

1076	3979505एन	हवलदार	बचन सिंह	01.11.2005
1077	3979520एच	हवलदार	भीम सिंह	01.12.2005
1078	3979360एन	हवलदार	बिश्नु चरण खटुआ	01.11.2005
1079	3979830एन	हवलदार	चेत राम	01.01.2006
1080	3982872एल	हवलदार	देलर चांद	01.09.2005
1081	3982977पी	हवलदार	देस राज	01.01.2006
1082	3979855ए	हवलदार	जी. राज	01.01.2006
1083	3982895एम	हवलदार	गुरदीप सिंह	01.10.2005
1084	3982875वाइ	हवलदार	जगदेव सिंह	01.10.2005
1085	3979821एम	हवलदार	जगदीश प्रसाद	01.01.2006
1086	3979825एच	हवलदार	जसवंत सिंह	01.01.2006
1087	3979672के.	हवलदार	कमलजीत सिंह	01.12.2005
1088	3983002ए	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.01.2006
1089	3983017एच	हवलदार	लक्ष्मी सिंह	01.01.2006
1090	3982886एल	हवलदार	महावीर सिंह	01.10.2005
1091	3982976एम	हवलदार	एम सिंह	01.01.2006
1092	3983018एल	हवलदार	एन राम	01.01.2006
1093	3979217एफ	हवलदार	ओम प्रकाश	01.09.2005
1094	3979680एच	हवलदार	पवन कुमार धड़वाल	01.12.2005
1095	3979428के.	हवलदार	प्रेम सिंह	01.11.2005
1096	3979873एच	हवलदार	प्रेम सिंह वर्मा	01.01.2006
1097	3979515एक्स	हवलदार	राज कुमार सिंह	01.11.2005
1098	3980013एफ	हवलदार	राजिन्दर कुमार	01.01.2006
1099	3982984एल	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.01.2006
1100	3983014पी	हवलदार	राम चांद	01.01.2006
1101	3982870ए	हवलदार	रूप लाल	01.09.2005
1102	3979288एच	हवलदार	शमशेर सिंह	01.09.2005
1103	3979356एल	हवलदार	सोहन लाल	01.11.2005
1104	3979708एक्स	हवलदार	सोहन लाल वर्मा	01.01.2006
1105	3979452ए	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.11.2005
1106	3979243एच	हवलदार	तिलकेश्वर राज	01.09.2005
1107	3979321पी	हवलदार	उजागर सिंह	01.10.2005

गढ़वाल राईफल्स

1108	4063882ए	हवलदार	आलम सिंह	01.09.2005
1109	4064251के.	हवलदार	अमरेन्द्रा शर्मा	01.10.2005

1110	4063934एल	हवलदार	अवतार सिंह	01.09.2005
1111	4064006एफ	हवलदार	बचन सिंह	01.09.2005
1112	4060605के.	हवलदार	भगत सिंह	01.12.2005
1113	4063977ए	हवलदार	भगत सिंह	01.09.2005
1114	4064189एच	हवलदार	भगत सिंह	01.10.2005
1115	4064192एच	हवलदार	भगत सिंह	01.10.2005
1116	4063968वाइ	हवलदार	भरत सिंह	01.09.2005
1117	4064263वाइ	हवलदार	भरत सिंह	01.01.2006
1118	4064384ए	हवलदार	भीकम सिंह	01.01.2006
1119	4064374डब्ल्यू	हवलदार	भीम सिंह	01.01.2006
1120	4064375वाइ	हवलदार	बिजय सिंह	01.01.2006
1121	4064305ए	हवलदार	बिक्रम सिंह	01.01.2006
1122	4064389वाइ	हवलदार	बिरेन्द्र राम	01.01.2006
1123	4064227एन	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह	01.10.2005
1124	4064485एन	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह	01.01.2006
1125	4060482एच	हवलदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.10.2005
1126	4064190एक्स	हवलदार	चंद्र सिंह	01.10.2005
1127	4064289एन	हवलदार	चंद्रा मोहन	01.01.2006
1128	4060545ए	हवलदार	दलबीर सिंह	01.11.2005
1129	4064215वाइ	हवलदार	दलीप सिंह	01.10.2005
1130	4060725एच	हवलदार	दरवान सिंह	01.12.2005
1131	4060815के.	हवलदार	दरवान सिंह	01.01.2006
1132	4064141पी	हवलदार	धन सिंह	01.10.2005
1133	4064390एन	हवलदार	धर्म पाल	01.01.2006
1134	4064502एच	हवलदार	धीरेंद्र सिंह	01.01.2006
1135	4064298पी	हवलदार	दिलवर सिंह	01.01.2006
1136	4064231डब्ल्यू	हवलदार	गाबार सिंह	01.10.2005
1137	4064271एक्स	हवलदार	गाबार सिंह	01.01.2006
1138	4063959एक्स	हवलदार	गम्भीर सिंह	01.09.2005
1139	4060514ए	हवलदार	गंगा सिंह	01.11.2005
1140	4064310एल	हवलदार	गिरीश चंद्रा	01.01.2006
1141	4060768एक्स	हवलदार	गोपाल दत्त	01.01.2006
1142	4064456वाइ	हवलदार	हंसा सिंह	01.01.2006
1143	4063897एच	हवलदार	एच सिंह	01.09.2005
1144	4063904एन	हवलदार	हरचरण	01.09.2005
1145	4064419एल	हवलदार	हरमेश लाल	01.01.2006
1146	4064036वाइ	हवलदार	हयात सिंह	01.10.2005
1147	4064069के.	हवलदार	हयात सिंह	01.10.2005
1148	4064269ए	हवलदार	जगमोहन सिंह	01.01.2006
1149	4063875के.	हवलदार	जगमोहन सिंह	01.09.2005
1150	4064306एच	हवलदार	जगमोहन सिंह	01.01.2006
1151	4064468एन	हवलदार	जयपाल सिंह	01.01.2006
1152	4064119के.	हवलदार	जयवीर सिंह	01.10.2005
1153	4064230एन	हवलदार	कल्याण सिंह	01.10.2005
1154	4064132एन	हवलदार	कमल सिंह	01.10.2005
1155	4064438डब्ल्यू	हवलदार	कप्तान सिंह	01.01.2006
1156	4064252एम	हवलदार	केदार दत्त	01.10.2005
1157	4064505डब्ल्यू	हवलदार	केशर सिंह	01.01.2006
1158	4064404एच	हवलदार	केशवन नन्द बदोनी	01.01.2006

1159	4060444एम	हवलदार	कुलवंत सिंह	01.10.2005
1160	4064371एच	हवलदार	कुवर सिंह	01.01.2006
1161	4064484एल	हवलदार	कुवर सिंह	01.01.2006
1162	4064077एच	हवलदार	ललिता प्रसाद	01.10.2005
1163	4064433एक्स	हवलदार	मदन सिंह	01.01.2006
1164	4064071एफ	हवलदार	मदन सिंह	01.10.2005
1165	4064495एक्स	हवलदार	मधु सूदन	01.01.2006
1166	4063898एल	हवलदार	मगन सिंह	01.09.2005
1167	4063869डब्ल्यू	हवलदार	महाबीर सिंह	01.09.2005
1168	4064302एम	हवलदार	महाराज सिंह	01.01.2006
1169	4063933एच	हवलदार	माया राम	01.09.2005
1170	4064380के.	हवलदार	मेवा राम	01.01.2006
1171	4060622के.	हवलदार	मोहन सिंह	01.12.2005
1172	4064448ए	हवलदार	मोहन सिंह	01.01.2006
1173	4064093ए	हवलदार	मोहन सिंह	01.10.2005
1174	4064264एफ	हवलदार	मोहन सिंह	01.01.2006
1175	4064301के.	हवलदार	नंदन सिंह	01.01.2006
1176	4064277वाइ	हवलदार	नारायण सिंह	01.01.2006
1177	4064276डब्ल्यू	हवलदार	पान सिंह	01.01.2006
1178	4064240एक्स	हवलदार	प्रताप सिंह	01.10.2005
1179	4064414एम	हवलदार	प्रेम चंद्रा	01.01.2006
1180	4064544पी	हवलदार	रघुनाथ प्रसाद	01.01.2006
1181	4064051एन	हवलदार	राजे सिंह	01.10.2005
1182	4064079एन	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.10.2005
1183	4064040एफ	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.10.2005
1184	4064430के.	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.01.2006
1185	4064275एन	हवलदार	राजेंद्र सिंह नेगी	01.01.2006
1186	4064437एन	हवलदार	राम पत बैठा	01.01.2006
1187	4064297एम	हवलदार	राम सिंह	01.01.2006
1188	4064185एम	हवलदार	रमेश पाल रावत	01.10.2005
1189	4064148वाइ	हवलदार	रमेश सिंह बिस्ट	01.10.2005
1190	4064335एक्स	हवलदार	रामेश्वर प्रसाद	01.01.2006
1191	4064176एल	हवलदार	रंजीत सिंह	01.10.2005
1192	4064125एक्स	हवलदार	रेवा धर प्रसाद	01.10.2005
1193	4064497एच	हवलदार	सचिदा नन्द	01.01.2006
1194	4064157ए	हवलदार	सतीश चंद्र	01.10.2005
1195	4064063एच	हवलदार	शिव मंगल	01.10.2005
1196	4064022वाइ	हवलदार	शिव रतन सिंह	01.10.2005
1197	4060844वाइ	हवलदार	शूर सिंह	01.01.2006
1198	4064122के.	हवलदार	श्री राम	01.10.2005
1199	4064165वाइ	हवलदार	सोबन सिंह	01.10.2005
1200	4064489के.	हवलदार	सोहन सिंह	01.01.2006
1201	4064413के.	हवलदार	सुल्तान सिंह	01.01.2006
1202	4064151वाइ	हवलदार	सुंदर सिंह	01.10.2005
1203	4064072के.	हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	01.10.2005
1204	4064120वाइ	हवलदार	सुरेश पाल	01.10.2005
1205	4060585एफ	हवलदार	तिलक मोहन	01.12.2005
1206	4064043पी	हवलदार	तीरथ सिंह	01.10.2005
1207	4064303पी	हवलदार	त्रिलोक सिंह	01.01.2006

1208	4063956के.	हवलदार	विजय पाल	01.09.2005
1209	4064482ए	हवलदार	वीर सिंह	01.01.2006
1210	4064105के.	हवलदार	विरेन्द्र सिंह	01.10.2005
कूर्मोत्त रेजीमेन्ट				
1211	4173704ए	हवलदार	अली अख्तर	01.12.2005
1212	4173548डब्ल्यू	हवलदार	आनंद सिंह	01.11.2005
1213	4176847एल	हवलदार	अक्केश सिंह	01.09.2005
1214	4173640ए	हवलदार	बी एस यादव	01.11.2005
1215	4176841के.	हवलदार	बदारी सिंह फरतयाल	01.09.2005
1216	4173310एफ	हवलदार	बहादुर सिंह	01.09.2005
1217	4177169एच	हवलदार	बहादुर चांद	01.01.2006
1218	4174053एफ	हवलदार	बस्ती राम	01.01.2006
1219	4177130डब्ल्यू	हवलदार	भुवन चंद्रा	01.01.2006
1220	4173559एन	हवलदार	चंद्रपाल सिंह	01.11.2005
1221	4176946एन	हवलदार	दलीप सिंह	01.10.2005
1222	4173808एफ	हवलदार	गोपाल सिंह	01.12.2005
1223	4177263एम	हवलदार	गोविंद सिंह	01.01.2006
1224	4176888पी	हवलदार	गोविंद सिंह रावत	01.09.2005
1225	4173431एच	हवलदार	गुमान सिंह धपोला	01.10.2005
1226	4173371वाइ	हवलदार	एच सी उप्रेती	01.09.2005
1227	4173432एल	हवलदार	हीरा सिंह	01.10.2005
1228	4176836वाइ	हवलदार	होशियार सिंह	01.09.2005
1229	4173658डब्ल्यू	हवलदार	जागर नाथ ठाकुर	01.11.2005
1230	4177067एम	हवलदार	जगत सिंह	01.01.2006
1231	4176936के.	हवलदार	जगदीश चंद्र पांडे	01.09.2005
1232	4177215एम	हवलदार	जय सिंह	01.01.2006
1233	4174948ए	हवलदार	जे	01.10.2005
1234	4176933डब्ल्यू	हवलदार	जीवन कुमार	01.09.2005
1235	4173571पी	हवलदार	जे सिंह	01.11.2005
1236	4177236एच	हवलदार	करन सिंह	01.01.2006
1237	4173411पी	हवलदार	काशी राम	01.09.2005
1238	4176883डब्ल्यू	हवलदार	केदार सिंह	01.09.2005
1239	4177125एल	हवलदार	खिम सिंह	01.01.2006
1240	4173381एच	हवलदार	कुंवर पाल	01.09.2005
1241	4173356के.	हवलदार	लिला धर	01.09.2005
1242	4173694एफ	हवलदार	महावीर	01.12.2005
1243	4173527एल	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.10.2005
1244	4173717एक्स	हवलदार	महेश चंद्रा	01.12.2005
1245	4177053एम	हवलदार	नारायण सिंह	01.01.2006
1246	4177072एक्स	हवलदार	नेत्रा सिंह	01.01.2006
1247	4177071पी	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.01.2006
1248	4173537पी	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.11.2005
1249	4060695डब्ल्यू	हवलदार	राम बहादुर थापा	01.01.2006
1250	4177218ए	हवलदार	राम फल	01.01.2006
1251	4177015डब्ल्यू	हवलदार	राम स्वरूप	01.10.2005
1252	4173309एम	हवलदार	रमा कांत	01.09.2005
1253	4173820एच	हवलदार	रामओतार सिंह	01.12.2005
1254	4177127डब्ल्यू	हवलदार	रमेश चंद्रा	01.01.2006

1255	4173847ए	हवलदार	सुरेश चंद्रा	01.12.2005
1256	4177124एच	हवलदार	तारा सिंह	01.01.2006
1257	4177188एन	हवलदार	दिनोद चंद्रा जोशी	01.01.2006
आसाम रेजीमेन्ट				
1258	4426525एन	हवलदार	भास्कर गोछायत	01.09.2005
1259	4355070डब्ल्यू	हवलदार	देश राज	01.01.2006
1260	4354895पी	हवलदार	द्रोणा बहादुर थापा	01.09.2005
1261	4426527वाइ	हवलदार	दुलाल च. दास	01.09.2005
1262	4355055एफ	हवलदार	के.	01.01.2006
1263	4352221वाइ	हवलदार	मंगल सिंह	01.12.2005
1264	4426405पी	हवलदार	मोहम्मद निजामुरदीन	01.12.2005
1265	4426534पी	हवलदार	मोहन कर्माकर	01.01.2006
1266	4352072डब्ल्यू	हवलदार	मोहेन्द्रा कुमार सिन्हा	01.10.2005
1267	4355077ए	हवलदार	नारायण चंद्रा डेका	01.01.2006
1268	4355019डब्ल्यू	हवलदार	नारायण थापा	01.01.2006
1269	4355008के.	हवलदार	नेत्रा बहादुर जायशी	01.01.2006
1270	4426531एफ	हवलदार	रमेश चंद्रा	01.10.2005
1271	4355009एम	हवलदार	एस सिंघा	01.01.2006
1272	4355001ए	हवलदार	तिल बहादुर पुन	01.01.2006
1273	4355043एम	हवलदार	उदयन पी	01.01.2006
1274	4354979एच	हवलदार	जलम	01.01.2006
बिहार रेजीमेन्ट				

1275	4261266एल	हवलदार	अजीत कुमार प्रसाद	01.10.2005
1276	4258769एल	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.09.2005
1277	4261259पी	हवलदार	बासुकी नाथ चौबे	01.10.2005
1278	4259305ए	हवलदार	बिजय पाल बाल्मीकि	01.01.2006
1279	4261327एक्स	हवलदार	बिपिन कुमार	01.01.2006
1280	4261339एम	हवलदार	विश्वम्भर नाथ सिंह	01.01.2006
1281	4261500डब्ल्यू	हवलदार	बिस्वदीप नाथ बिस्वाल	01.01.2006
1282	4261278ए	हवलदार	चंद्रा भूषण प्रसाद सिंह	01.09.2005
1283	4261343पी	हवलदार	चेतक बख्खा	01.01.2006
1284	4261458एच	हवलदार	दामोदर राय	01.01.2006
1285	4258958पी	हवलदार	गणेश कुमार सिंह	01.12.2005
1286	4261197ए	हवलदार	जीतू राम	01.09.2005
1287	4261198एच	हवलदार	जे यादव	01.09.2005
1288	4261202ए	हवलदार	कामेश्वर प्रसाद	01.09.2005
1289	4259023एफ	हवलदार	कामेश्वर सिंह	01.11.2005
1290	4261296एच	हवलदार	काशी नाथ सिंह	01.10.2005
1291	4261227एम	हवलदार	किशोर प्रसाद साह	01.09.2005
1292	4261395एल	हवलदार	लक्ष्मन मंदार	01.01.2006
1293	4261302एल	हवलदार	महेश यादव	01.01.2006
1294	4261517के.	हवलदार	मानो करन	01.01.2006
1295	4261265एच	हवलदार	नगेन्द्रा एच	01.10.2005
1296	4261518एम	हवलदार	नागिया राजन	01.01.2006
1297	4261492एच	हवलदार	नरयाणी नायक	01.01.2006
1298	4261367वाइ	हवलदार	ओम प्रकाश सिंह	01.01.2006
1299	4261515वाइ	हवलदार	आर सी	01.01.2006

1300	4261443ए	हवलदार	राजेंद्र पांडे	01.01.2006
1301	4259148वाइ	हवलदार	राजेंद्र राय	01.12.2005
1302	4258858के.	हवलदार	राम दयाल पासवान	01.10.2005
1303	4261453के.	हवलदार	रामजीत यादव	01.01.2006
1304	4261519पी	हवलदार	एस एम	01.01.2006
1305	4261372के.	हवलदार	सत्य नारायण सिंह	01.01.2006
1306	4259369एल	हवलदार	शम्भू सरन वर्मा	01.01.2006
1307	4261459एल	हवलदार	शियो नारायन सिंह	01.01.2006
1308	4261471एम	हवलदार	शिव कुमार साह	01.01.2006
1309	4259169पी	हवलदार	श्री कांत राय	01.12.2005
1310	4258645डब्ल्यू	हवलदार	श्याम नंदन प्रसाद चौरसिया	01.09.2005
1311	4261222एन	हवलदार	सीता राम कुमार	01.09.2005
1312	4259323एच	हवलदार	सुदामा राम	01.01.2006
1313	4261288के.	हवलदार	एस कुमार शीतल	01.10.2005
1314	4261287एफ	हवलदार	टी सिंह	01.10.2005
1315	4261282एच	हवलदार	टी के.	01.10.2005
1316	4259055के.	हवलदार	उपेंद्र शर्मा	01.12.2005
महार रेजीमेन्ट				
1317	4553177डब्ल्यू	हवलदार	बी भीम राव आइ	01.01.2006
1318	4553287एल	हवलदार	छज्जू राम	01.01.2006
1319	4549698एम	हवलदार	दर्शन सिंह	01.11.2005
1320	4553210एच	हवलदार	दीपक कुमार	01.01.2006
1321	4553178वाइ	हवलदार	धर्म दत्ता भट्ट	01.01.2006
1322	4553133वाइ	हवलदार	जगन नाथ जोशी	01.10.2005
1323	4553113एल	हवलदार	जगत सिंह	01.10.2005
1324	4553326वाइ	हवलदार	जय गोपाल	01.12.2005
1325	4553222एक्स	हवलदार	जयवन्ता सिंह	01.01.2006
1326	4553165एफ	हवलदार	जसमेर सिंह	01.01.2006
1327	4553069एम	हवलदार	करतार सिंह	01.09.2005
1328	4553302पी	हवलदार	काशी राम	01.01.2006
1329	4553208एल	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.01.2006
1330	4553051डब्ल्यू	हवलदार	महेंद्र प्रसाद	01.09.2005
1331	2472530एल	हवलदार	मोहर सिंह ढका	01.12.2005
1332	4553119एम	हवलदार	फूल कुमार	01.10.2005
1333	4553253एक्स	हवलदार	प्रहलाद	01.01.2006
1334	4553234एम	हवलदार	प्रमोद कुमार स्वेन	01.01.2006
1335	4553262वाइ	हवलदार	राकेश सिंह कुशवाह	01.01.2006
1336	4553279एम	हवलदार	राम भाज	01.01.2006
1337	4553096डब्ल्यू	हवलदार	राम चांद	01.09.2005
1338	4553047एन	हवलदार	राम एल सिंह	01.09.2005
1339	4553240ए	हवलदार	रमैया प्रसाद	01.01.2006
1340	4553147वाइ	हवलदार	रेलु राम	01.01.2006
1341	4553171पी	हवलदार	शेर सिंह	01.01.2006
1342	4553061ए	हवलदार	शिंदे गुलाब नारायण	01.09.2005
1343	4553213डब्ल्यू	हवलदार	उत्तातम विष्णु मोहित	01.01.2006
1344	4553068के.	हवलदार	वी सिंह	01.09.2005
1345	4553072एम	हवलदार	विजय सिंह चौहान	01.09.2005
1346	4553104के.	हवलदार	यशपाल सिंह	01.10.2005

जम्मू एवं कश्मीर राईफलस

1347	13747386एच	हवलदार	भुपेन्द्र कुमार पांडे	01.10.2005
1348	13743331एफ	हवलदार	दलीप चांद	01.09.2005
1349	13747454एल	हवलदार	जीतेन चेट्टरी	01.01.2006
1350	13747449ए	हवलदार	काली प्रसाद राय	01.01.2006
1351	13747437एल	हवलदार	कमल सिंह	01.01.2006
1352	13743511के.	हवलदार	के. लाल	01.10.2005
1353	13743720एफ	हवलदार	कृष्णन चांद	01.12.2005
1354	13743450एक्स	हवलदार	मोहन सिंह	01.10.2005
1355	13747611एम	हवलदार	नेत्र पोल	01.10.2005
1356	13743813डब्ल्यू	हवलदार	ओम प्रकाश ठाकुर	01.12.2005
1357	13743418एच	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	01.09.2005

लद्दाख स्काउट

1358	9922559एफ	हवलदार	अब्दुल रहीम	01.10.2005
1359	9922568एच	हवलदार	बशीर अहमद	01.10.2005
1360	9922066ए	हवलदार	फुनचोक सेरिंग	01.09.2005

नागा रेजीमेंट

1361	4176956एक्स	हवलदार	देवी दत्त	01.10.2005
1362	4173656एल	हवलदार	के. पी पांडे	01.11.2005

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल

1363	9084383एन	हवलदार	अब्दुल मजीद खान	01.09.2005
1364	9084591एच	हवलदार	ए चांद	01.01.2006
1365	9084507एक्स	हवलदार	अजीत कुमार	01.10.2005
1366	9084547वाइ	हवलदार	बंसी लाल	01.01.2006
1367	9084358पी	हवलदार	बी प्रकाश	01.09.2005
1368	9084473पी	हवलदार	देस राज	01.10.2005
1369	9084520एफ	हवलदार	फकीर अली	01.10.2005
1370	9084500एन	हवलदार	गुलाम अब्बासाहेब	01.10.2005
1371	9083218डब्ल्यू	हवलदार	जी. अहमद	01.10.2005
1372	9084477एल	हवलदार	गिरधारी लाल	01.10.2005
1373	9084566के.	हवलदार	गुलबदन सिंह	01.01.2006
1374	9084601एफ	हवलदार	हरबंस लाल	01.01.2006
1375	9084340वाइ	हवलदार	जगनारायण शाहू	01.09.2005
1376	9083361एच	हवलदार	कृष्णापाल सिंह	01.01.2006
1377	9084584एम	हवलदार	कुशल कुमार	01.01.2006
1378	9084617एम	हवलदार	मिलाप चांद	01.01.2006
1379	9084354वाइ	हवलदार	मोहम्मद असलम खान	01.09.2005
1380	9084413ए	हवलदार	मोहम्मद आजम	01.09.2005
1381	9084404वाइ	हवलदार	मोहम्मद रफीक	01.09.2005
1382	9084521के.	हवलदार	मोहम्मद सादिक	01.10.2005
1383	9084372एफ	हवलदार	नसीब हुसैन शाह	01.10.2005
1384	9084555एक्स	हवलदार	नाथा राम	01.01.2006
1385	9084465डब्ल्यू	हवलदार	पोल सिंह	01.10.2005
1386	9084355एफ	हवलदार	पी वी	01.09.2005
1387	9084618पी	हवलदार	पी चांद	01.01.2006

1388	9084557एच	हवलदार	प्रीतम राम	01.01.2006
1389	9084329ए	हवलदार	रफीक अहमद	01.07.2005
1390	9084417डब्ल्यू	हवलदार	राज कुमार	01.09.2005
1391	9084352एन	हवलदार	राम दास	01.09.2005
1392	9084534एफ	हवलदार	रूप लाल	01.10.2005
1393	9084578वाइ	हवलदार	शाह मोहम्मद मीर	01.01.2006
1394	9084468के.	हवलदार	शाम लाल	01.10.2005
1395	9084131एफ	हवलदार	वकील राज	01.04.2005
1396	9084550वाइ	हवलदार	यश पाल	01.01.2006

1 गोरखा राईफल्स

1397	5042491एक्स	हवलदार	दल बहादुर अले	01.12.2005
1398	5042472एम	हवलदार	गिरि मान घरती मगर	01.11.2005
1399	5042446एल	हवलदार	केसर सिंह	01.11.2005
1400	9084078एफ	हवलदार	केवल कृष्णन सन्थालिया	01.02.2005
1401	5042546डब्ल्यू	हवलदार	नारायण सिंह थापा	01.12.2005
1402	9084373के.	हवलदार	ओम प्रकाश	01.08.2005
1403	5042566के.	हवलदार	ओम प्रकाश थापा	01.01.2006
1404	5042541एक्स	हवलदार	शेर बहादुर गुरंग	01.08.2005
1405	5042445एच	हवलदार	विक्रम सिंह गुरंग	01.11.2005

3 गोरखा राईफल्स

1406	5244381एल	हवलदार	जय बहादुर थापा	01.01.2006
1407	5243965के.	हवलदार	कृष्णा बहादुर थापा	01.12.2005
1408	5244388पी	हवलदार	एन बहादुर थापा	01.01.2006
1409	5244399एफ	हवलदार	तिका राम पुन	01.01.2006

4 गोरखा राईफल्स

1410	5344886डब्ल्यू	हवलदार	बिशु बहादुर गुरंग	01.01.2006
1411	5344882ए	हवलदार	दम बहादुर पुन	01.01.2006
1412	5344249ए	हवलदार	डाम्मर बहादुर थापा	01.09.2005
1413	5344371डब्ल्यू	हवलदार	गम बहादुर	01.01.2006
1414	5344274वाइ	हवलदार	हरी लाल	01.10.2005
1415	5344381ए	हवलदार	जया प्रसाद गुरंग	01.01.2006
1416	5344352एल	हवलदार	महेश कुमार	01.12.2005
1417	5344861के.	हवलदार	मान बहादुर गुरंग	01.09.2005
1418	5344907एफ	हवलदार	ओम बहादुर थापा	01.01.2006
1419	5344848ए	हवलदार	पूर्णा बहादुर गुरंग	01.09.2005
1420	5344901ए	हवलदार	राम लाल गुरंग	01.01.2006
1421	5344878एक्स	हवलदार	तोला बहादुर अले	01.01.2006
1422	5344866एच	हवलदार	योग बहादुर गुरंग	01.11.2005

5 गोरखा राईफल्स

1423	5448238ए	हवलदार	ए मिआ	01.01.2006
1424	5448730एल	हवलदार	भीम बहादुर गुरंग	01.09.2005
1425	5448840ए	हवलदार	दल बहादुर पुन	01.01.2006
1426	5448190एक्स	हवलदार	धन प्रसाद गुरंग	01.01.2006
1427	5448694एल	हवलदार	गजेन्द्र सिंह थापा	01.09.2005
1428	5448841एच	हवलदार	हरका बहादुर गुरंग	01.01.2006

1429	5448698एफ	हवलदार	जीत बहादुर अले	01.09.2005
1430	5448707एक्स	हवलदार	राम बिशाल	01.10.2005
1431	5448726एच	हवलदार	रुकम बहादुर गुरंग	01.11.2005
1432	5448785पी	हवलदार	याम बहादुर पुन	01.01.2006
8 गोरखा राईफल्स				
1433	5750358डब्ल्यू	हवलदार	डी. बी गुरंग	01.09.2005
1434	5750385ए	हवलदार	दिल बहादुर गुरंग	01.09.2005
1435	5750374एन	हवलदार	इन्द्रा बहादुर गुरंग	01.10.2005
1436	5750357एन	हवलदार	के. बी घले	01.09.2005
1437	5749765एम	हवलदार	मोती लाल नेपाली	01.01.2006
1438	5750417एक्स	हवलदार	नन्द किशोर	01.01.2006
1439	5749556पी	हवलदार	पी एन थापा	01.10.2005
1440	5749723ए	हवलदार	राम दत्त	01.01.2006
1441	5749721पी	हवलदार	रिशि राम थापा	01.12.2005
1442	5750414के.	हवलदार	रुद्रा सिंह गुरंग	01.01.2006
1443	5750410एन	हवलदार	रूप चांद	01.01.2006
1444	5750389डब्ल्यू	हवलदार	एस बी छेर्ते	01.12.2005
1445	5750423एल	हवलदार	सूर्या बहादुर गुरंग	01.01.2006
1446	5750372एच	हवलदार	टी बी श्रेष्ठ	01.10.2005
1447	5749621के.	हवलदार	तेज बहादुर थापा	01.11.2005
9 गोरखा राईफल्स				
1448	5844800पी	हवलदार	दिलीप ठाकुर	01.01.2006
11 गोरखा राईफल्स				
1449	9416495एच	हवलदार	विशू कुमार लिम्बू	01.01.2006
1450	9417128एच	हवलदार	दिलीप कुमार राय	01.11.2005
1451	9417102एन	हवलदार	गोपाल प्रधान	01.09.2005
1452	9417177एल	हवलदार	हरी लाल तमंग	01.12.2005
1453	9417141एम	हवलदार	झालाक बहादुर लिम्बू	01.11.2005
1454	9417209एच	हवलदार	केश बहादुर राय	01.01.2006
1455	9416501एल	हवलदार	एल राय	01.01.2006
1456	9417207एक्स	हवलदार	मनी कुमार राय	01.01.2006
1457	9417249के.	हवलदार	मनी राम राय	01.01.2006
1458	9417202वाइ	हवलदार	रमा चंद्रन डी.	01.01.2006
1459	9417161ए	हवलदार	रमेशन पिल्लई एस	01.01.2006
1460	9417127ए	हवलदार	सांता कुमार राय	01.11.2005
1461	9417204के.	हवलदार	शिव पूजन चौधरी	01.01.2006
1462	9417281वाइ	हवलदार	सिंग बहादुर गुरंग	01.01.2006
1463	9417208ए	हवलदार	उमेश	01.01.2006
1464	9417166वाइ	हवलदार	उत्तातम चांद	01.01.2006
सेना सेवा कोर दक्षिण				
1465	13881090एल	हवलदार	अजय कुमार	01.12.2005
1466	13880733एल	हवलदार	अनूप सिंह	01.10.2005
1467	6375174एल	हवलदार	ए प्रसाद त्रिपाठी	01.01.2006
1468	6375074ए	हवलदार	अटल बिहार सिंह	01.11.2005
1469	13880938ए	हवलदार	बलदेव सिंह	01.11.2005

1470	13888980एन	हवलदार	भूषण लकरा	01.01.2006
1471	13877346एल	हवलदार	बी नंदा राय	01.01.2006
1472	13876928वाइ	हवलदार	बीरेश प्रसाद	01.11.2005
1473	6375063एन	हवलदार	बृजेन्द्र नाथ शुक्ला	01.11.2005
1474	13881140एल	हवलदार	बुधी बहादुर थापा	01.01.2006
1475	6375173एच	हवलदार	चंद्रा भूषण सिंह	01.01.2006
1478	13876765डब्ल्यू	हवलदार	चंद्रमा यादव	01.10.2005
1477	13876942एल	हवलदार	चारु चंद्रा दीप	01.11.2005
1476	13877229ए	हवलदार	दादन गिरि	01.12.2005
1479	13876645एक्स	हवलदार	दशरथ लाल	01.09.2005
1480	13877061वाइ	हवलदार	धनेश्वर साह	01.12.2005
1481	6376277डब्ल्यू	हवलदार	ध्रुव नारायण शर्मा	01.01.2006
1482	6375112एल	हवलदार	जी. एम	01.12.2005
1483	13877193एम	हवलदार	जी. विस्वनाथन रेडी	01.12.2005
1484	13880679एच	हवलदार	जी. सिंह	01.09.2005
1485	13880632एन	हवलदार	गुरु प्रसाद	01.10.2005
1486	13881253एफ	हवलदार	गमछो प्रसाद डी.	01.01.2006
1487	6376107एम	हवलदार	हरी किशन	01.09.2005
1488	13881035पी	हवलदार	हीरालाल उपाध्याय	01.12.2005
1489	13880769कै.	हवलदार	हरवर दयाल	01.10.2005
1490	13877086डब्ल्यू	हवलदार	जगदीश प्रसाद	01.12.2005
1491	6375008एक्स	हवलदार	जनार्दनन एम	01.10.2005
1492	13876648एल	हवलदार	जे. कै.	01.09.2005
1493	13876908एल	हवलदार	जितेन्द्र सिंह	01.11.2005
1494	13877301एल	हवलदार	जितेन्द्रा राय	01.01.2006
1495	13877247एच	हवलदार	काशी नाथ चौधरी	01.12.2005
1496	6375119पी	हवलदार	कै. मल्लेश्वर राव राय	01.12.2005
1497	6376267ए	हवलदार	कै. सिंह	01.01.2006
1498	13881097पी	हवलदार	कीरत प्रसाद	01.12.2005
1499	13881160वाइ	हवलदार	किशन सिंह	01.01.2006
1500	6376043एम	हवलदार	किशोर चंद्रा पेटरो	01.09.2005
1501	13877059एफ	हवलदार	कै. तरफदार	01.11.2005
1502	13886759पी	हवलदार	लक्ष्मी किशोर	01.09.2005
1503	13880645पी	हवलदार	ललित कै.	01.09.2005
1504	13880634एच	हवलदार	लालजी यादव	01.09.2005
1505	13876869एफ	हवलदार	मराठे आर वनमानु	01.09.2005
1506	13876866डब्ल्यू	हवलदार	मोहम्मद लतिफुर खान	01.10.2005
1507	13877220एफ	हवलदार	मोहम्मद अब्दुल मतीन	01.12.2005
1508	13860589एम	हवलदार	मोहन सिंह	01.09.2005
1509	6649889एच	हवलदार	मुकुंदन पी	01.09.2005
1510	13877188कै.	हवलदार	मुन्ना लाल	01.12.2005
1511	13876717डब्ल्यू	हवलदार	मलिनी कुमार बी	01.09.2005
1512	13880958एम	हवलदार	नरेंद्रा कुमार द्विवेदी	01.11.2005
1513	6375163वाइ	हवलदार	परमानंद झा	01.01.2006
1514	6376085एम	हवलदार	फूल सिंह	01.12.2005
1515	13860674ए	हवलदार	प्रभु नाथ साह	01.11.2005
1516	6375068एम	हवलदार	प्रभु नाथ शुक्ला	01.11.2005
1517	6375175ए	हवलदार	प्रसन्न कै.	01.11.2005
1518	13880685डब्ल्यू	हवलदार	प्रेम नाथ सिंह	01.09.2005

1519	13877124डब्ल्यू हवलदार	राधा कृष्णा के.	01.12.2005
1520	13877001के. हवलदार	राधा कृष्णा पिल्लई	01.11.2005
1521	6374995एन हवलदार	राजा	01.10.2005
1522	13881103एक्स हवलदार	राजे. .ह	01.12.2005
1523	13877305एफ हवलदार	राजेश्वर प्रसाद सिन्हा	01.01.2006
1524	13877203एल हवलदार	राम बाबू सोनी	01.12.2005
1525	13880834वाइ हवलदार	राम बदन पांडे	01.10.2005
1526	13881027डब्ल्यू हवलदार	राम दर्शन शर्मा	01.12.2005
1527	13880683एल हवलदार	राम दुलार राम गोतम	01.09.2005
1528	4259276डब्ल्यू हवलदार	राम इश्वर सिंह	01.01.2006
1529	13876927डब्ल्यू हवलदार	राम करन सिंह	01.11.2005
1530	13888386एम हवलदार	राम कृष्णा	01.11.2005
1531	13880890एक्स हवलदार	राम नरेश प्रसाद चाउरासिआ	01.11.2005
1532	13880636एन हवलदार	राम सागर	01.09.2005
1533	13881207वाइ हवलदार	राम विलास	01.01.2006
1534	13881017एम हवलदार	रामादशन एम	01.12.2005
1535	13878708के. हवलदार	रामचंद्र एम	01.09.2005
1536	6376276एन हवलदार	रमेश लाल	01.01.2006
1537	13880847डब्ल्यू हवलदार	रनवीर सिंह जाटव	01.10.2005
1538	6375126एल हवलदार	रनवीर कुमार	01.12.2005
1539	6375017वाइ हवलदार	रनवीर सिंह	01.10.2005
1540	6375186ए हवलदार	आर सी जी.	01.01.2006
1541	14270690एम हवलदार	रायिदानंदन साहू	01.09.2005
1542	13881085ए हवलदार	सलिक राम	01.12.2005
1543	13876654पी हवलदार	सर्बदीन नन्द सिंह	01.10.2005
1544	13880639एफ हवलदार	सत्य नारायण	01.09.2005
1545	13881205एन हवलदार	सत्य प्रकाश सिंह	01.01.2006
1546	6850081डब्ल्यू हवलदार	सत्येन्द्र कुमार सिंह	01.01.2006
1547	13881176एफ हवलदार	शंकरा चार्या दास	01.01.2006
1548	13876991एन हवलदार	शत्रुघन प्रसाद	01.11.2005
1549	13876825वाइ हवलदार	एस मिश्रा	01.10.2005
1550	13880849एफ हवलदार	श्री राम उपाध्याय	01.10.2005
1551	13879824एम हवलदार	सीता राम	01.09.2005
1552	13876934एम हवलदार	सोमराजन पी	01.11.2005
1553	13877123एम हवलदार	एस	01.12.2005
1554	13860895डब्ल्यू हवलदार	सूरज भान	01.11.2005
1555	13877394एल हवलदार	सूरज प्रसाद	01.01.2006
1556	13877192के. हवलदार	टी वी मूर्ती	01.12.2005
1557	13880941ए हवलदार	तरुण वंद्रा पाठक	01.11.2005
1558	14360358वाइ हवलदार	थामस बी जे	01.01.2006
1559	13885419एफ हवलदार	त्रिलोकी नाथ गिरि	01.01.2006
1560	13881143वाइ हवलदार	उदय नारायण तिवारी	01.01.2006
1561	13878772एम हवलदार	उत्तातम कुमार हाजरा	01.10.2005
1562	13881004पी हवलदार	वीरेंद्र कुमार सिंह	01.11.2005
1563	13870558एन हवलदार	डब्ल्यू पण्डित जगन नाथ	01.09.2005
1564	13860797डब्ल्यू हवलदार	वाइ एच	01.10.2005

सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

1565	6471004वाइ दफादार	आत्मा राम	01.10.2005
------	-------------------	-----------	------------

1566	6374959एच	हवलदार	बहादुर सिंह	01.09.2005
1567	64711441ए	हवलदार	बलबीर सिंह	01.11.2005
1568	13880757पी	हवलदार	बी हाल्दार	01.10.2005
1569	6470932एच	हवलदार	ब्रजेश कुमार	01.10.2005
1570	6375071एम	हवलदार	भगवान राम	01.11.2005
1571	6470974पी	हवलदार	भरत सिंह	01.10.2005
1572	6471199पी	हवलदार	बी प्रसाद सिंह	01.11.2005
1573	6374954के.	हवलदार	बिश्वनाथ मोन्डल	01.09.2005
1574	6470956एम	हवलदार	बोयीरी सोमैया	01.10.2005
1575	6374974एक्स	हवलदार	डी. पी	01.10.2005
1576	6471097वाइ	दफादार	दामोदर जैना	01.10.2005
1577	13880706एफ	हवलदार	दाता राम	01.09.2005
1578	6470868डब्ल्यू	दफादार	दिलावर सिंह	01.09.2005
1579	13880628पी	हवलदार	गनेश बहादुर गुरंग	01.09.2005
1580	6375185एक्स	हवलदार	गनेश प्रसाद ठाकुर	01.01.2006
1581	6470879एच	हवलदार	हरी नाथ	01.09.2005
1582	6470921डब्ल्यू	दफादार	हरीश चांद राम	01.09.2005
1583	6471201एफ	दफादार	जगदीश कुमार	01.11.2005
1584	6470995एल	हवलदार	के. सेट्टू	01.10.2005
1585	6471282एम	दफादार	कैलाश पाती मिश्रा	01.01.2006
1586	13888960ए	हवलदार	कान्ति बल्लभ	01.09.2005
1587	13881116पी	हवलदार	एम जी.	01.01.2006
1588	6374960एक्स	हवलदार	मोहानन एस	01.09.2005
1589	6471125ए	दफादार	एम रमजान अल्लिमरन	01.11.2005
1590	6374997वाइ	दफादार	नगेन्द्र ओझा	01.10.2005
1591	6375004एफ	हवलदार	नारायण स्वेन	01.10.2005
1592	6374956पी	हवलदार	निरंजन देबनाथ	01.09.2005
1593	13885362एक्स	हवलदार	पी पलानी	01.09.2005
1594	6375139एच	हवलदार	प्रेम सिंह	01.01.2006
1595	6375084के.	हवलदार	प्यारे लाल	01.12.2005
1596	6471213डब्ल्यू	हवलदार	प्यारे लाल सिंह	01.11.2005
1597	6376037वाइ	हवलदार	राम बहादुर छेती	01.09.2005
1598	13888935एफ	हवलदार	राम बहादुर किरकिरे	01.09.2005
1599	13888949एफ	हवलदार	राम किशन	01.09.2005
1600	6471049वाइ	दफादार	राम लाल	01.10.2005
1601	6471156ए	हवलदार	रमेश चंद्रा सिंह	01.11.2005
1602	6471171पी	हवलदार	शिव शंकर	01.11.2005
1603	6471267एक्स	हवलदार	सोमा नाथ सेठी	01.12.2005
1604	6471053एफ	हवलदार	एस जी. मोमिन	01.10.2005
1605	13876647एच	हवलदार	टी डाक शिना मूर्ती	01.09.2005
1606	6375083एफ	हवलदार	थामपन के.	01.12.2005
1607	13880524एन	हवलदार	वी प्रसाद शाह	01.09.2005
1608	6471070एफ	हवलदार	वाइ सिंह	01.10.2005
सेना चिकित्सा कोर				
1609	13949510एफ	हवलदार	अब्दुल कादिर	01.12.2005
1610	13951915एल	हवलदार	ए मांझी	01.11.2005
1611	13949273एच	हवलदार	अजमेर सिंह दहिया	01.10.2005
1612	13949241ए	हवलदार	अमर नाथ शर्मा	01.09.2005

1613	13949144एच	हवलदार	अनिल कुमार	01.09.2005
1614	13949322ए	हवलदार	अशोक कुमार	01.10.2005
1615	13949354एच	हवलदार	अतर सिंह नैन	01.10.2005
1616	13953040वाइ	हवलदार	बलवंत सिंह	01.10.2005
1617	13953182डब्ल्यू	हवलदार	बसिष्ठ राम	01.01.2006
1618	13949459एम	हवलदार	भगवान राम	01.11.2005
1619	13953018एन	हवलदार	बी शिवप्पा आर	01.10.2005
1620	13949160ए	हवलदार	भूपाल सिंह करकोटि	01.09.2005
1621	13953162एच	हवलदार	बी	01.01.2006
1622	13953011के.	हवलदार	चान्दन सिंह	01.10.2005
1623	13952975एम	हवलदार	चंदेश्वर प्रसाद सिंह	01.09.2005
1624	13949549एन	हवलदार	चंद्रा देव पाल	01.01.2006
1625	13949382पी	हवलदार	चिमन लाल रणवाल	01.10.2005
1626	13949531एक्स	हवलदार	दया शंकर	01.12.2005
1627	13953103डब्ल्यू	हवलदार	देव दत्त शर्मा	01.12.2005
1628	13949387एन	हवलदार	धर्म सिंह	01.10.2005
1629	13949487वाइ	हवलदार	धर्मवीर सिंह	01.12.2005
1630	13949507एफ	हवलदार	दीना नाथ मिश्रा	01.12.2005
1631	13953006वाइ	हवलदार	डुक्का सिंह	01.10.2005
1632	13949177एन	हवलदार	फरीद खान	01.09.2005
1633	13949465ए	हवलदार	गजराज सिंह	01.11.2005
1634	13949607एम	हवलदार	गोरी शंकर सिंह	01.01.2006
1635	13949162एल	हवलदार	हरी कण्ठन	01.09.2005
1636	13949524एफ	हवलदार	हरीश चांद सिंह	01.12.2005
1637	13949458के.	हवलदार	हीरा बल्लभ	01.11.2005
1638	13953078एच	हवलदार	जे पी एन	01.11.2005
1639	13949573के.	हवलदार	जगबीर सिंह पुनिया	01.01.2006
1640	13953065एल	हवलदार	जगदीश प्रसाद सिंह	01.10.2005
1641	13949356एन	हवलदार	जंग बहादुर	01.10.2005
1642	13949207ए	हवलदार	जोगी राम	01.09.2005
1643	13949390एन	हवलदार	के. गोपी नाथन	01.10.2005
1644	13949579एल	हवलदार	के. पेरिया सामी	01.01.2006
1645	13949584डब्ल्यू	हवलदार	के. राव के.	01.01.2006
1646	13949428एम	हवलदार	करतार सिंह	01.11.2005
1647	13953059एक्स	हवलदार	कार्तिकेश्वर पाधी	01.10.2005
1648	13952714वाइ	हवलदार	के. चिन्ना बाबू	01.11.2005
1649	13953199के.	हवलदार	खेम बहादुर थापा	01.01.2006
1650	13953131एच	हवलदार	किशन सिंह रावत	01.01.2006
1651	13949544पी	हवलदार	कण्ठन	01.01.2006
1652	13953022डब्ल्यू	हवलदार	कुमार प्रसाद गुरंग	01.09.2005
1653	13953130ए	हवलदार	कुंवर सिंह	01.01.2006
1654	13949585वाइ	हवलदार	एल जेम्स	01.01.2006
1655	13953056के.	हवलदार	ललन प्रसाद	01.10.2005
1656	13949609एक्स	हवलदार	लल्लन राय	01.01.2006
1657	13953014एक्स	हवलदार	लोखाण्डे पोथुरेन्नी राजू	01.10.2005
1658	13953190पी	हवलदार	मदन लाल	01.01.2006
1659	13952978ए	हवलदार	महेश कुमार	01.09.2005
1660	13952987एफ	हवलदार	मंगला प्रसाद	01.09.2005
1661	13949225एच	हवलदार	मोहम्मद अल्लाउद्दीन	01.09.2005

1662	13953079एल	हवलदार	नगेन्द्रा टी	01.11.2005
1663	13953094ए	हवलदार	नरेंद्रा पाल	01.12.2005
1664	13949234के.	हवलदार	ओम प्रकाश तिवारी	01.09.2005
1665	13953080ए	हवलदार	ओसफ न	01.12.2005
1666	13952999डब्ल्यू	हवलदार	पी पी	01.09.2005
1667	13949554वाइ	हवलदार	पी सांसद	01.01.2006
1668	13953045एक्स	हवलदार	पारेश नाथ बागड़ी	01.10.2005
1669	13949202एफ	हवलदार	प्रताप सिंह	01.09.2005
1670	13949213एन	हवलदार	प्रभु नारायण यू	01.09.2005
1671	13949252एम	हवलदार	प्रहलाद	01.10.2005
1672	13953167एफ	हवलदार	प्रताप सिंह	01.01.2006
1673	13949147डब्ल्यू	हवलदार	प्रेम बहादुर	01.09.2005
1674	13953084डब्ल्यू	हवलदार	रघुनंदन प्रसाद	01.12.2005
1675	13949360डब्ल्यू	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.10.2005
1676	13949174ए	हवलदार	राजेंद्र सिंह खत्री	01.09.2005
1677	13949594ए	हवलदार	राजिन्दर कुमार	01.01.2006
1678	13953201डब्ल्यू	हवलदार	राकेश कुमार	01.01.2006
1679	13953214एन	हवलदार	राम गोविंद	01.01.2006
1680	13949254एक्स	हवलदार	राम प्रकाश सिंह	01.10.2005
1681	13949212एल	हवलदार	रमेश बाबू	01.09.2005
1682	13949100एल	हवलदार	रमेश चंद्र	01.09.2005
1683	13952989एम	हवलदार	रमेश सिंह	01.09.2005
1684	13953039के.	हवलदार	रण विजय बहादुर सिंह	01.10.2005
1685	13949546ए	हवलदार	आर कुमार नाथ	01.01.2006
1686	13949281एफ	हवलदार	सचिदानंदन सामल	01.10.2005
1687	13949425वाइ	हवलदार	संकरन के.	01.11.2005
1688	13953191एक्स	हवलदार	संकरन टी	01.01.2006
1689	13949113एच	हवलदार	सरतार चंद्रा त्रिपाठी	01.09.2005
1690	13953082एल	हवलदार	शशि धरन नायर के.	01.12.2005
1691	13953134डब्ल्यू	हवलदार	सत पाल	01.01.2006
1692	13949570डब्ल्यू	हवलदार	सतबीर सिंह शर्मा	01.01.2006
1693	13949567डब्ल्यू	हवलदार	शंकर दत्त	01.01.2006
1694	13953180एल	हवलदार	शिव भानु सिंह	01.01.2006
1695	13949583एन	हवलदार	सोमा शेखरन बी	01.01.2006
1696	13953062एक्स	हवलदार	सुदर्शन दाश	01.10.2005
1697	13952995ए	हवलदार	सुदर्शन सिंह	01.09.2005
1698	13949605एफ	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.01.2006
1699	13949106एम	हवलदार	सुकुमारन के. सी	01.09.2005
1700	13949157ए	हवलदार	सुरेंद्र नाथ गोड़ा	01.09.2005
1701	13949248के.	हवलदार	टी वी जेड	01.09.2005
1702	13952971डब्ल्यू	हवलदार	त्रिलोकी यादव	01.09.2005
1703	13952996एच	हवलदार	यू प्रामा सिवान	01.09.2005
1704	13953228एन	हवलदार	विजय कुमार	01.01.2006
1705	13949453एल	हवलदार	वी पाल सिंह	01.11.2005

सेना आयुध कोर

1706	6917598एन	हवलदार	अईयाप्पन वी	01.01.2006
1707	6917359वाइ	हवलदार	भीखा लाल	01.09.2005
1708	6915364एल	हवलदार	बिरजान राम	01.09.2005

1709	6917458एफ	हवलदार	दालू राम सैनी	01.10.2005
1710	6915124एन	हवलदार	दुर्गा दास	01.10.2005
1711	6917379एम	हवलदार	हरीश चंद्रा	01.10.2005
1712	6915221एल	हवलदार	जादाब च. दास	01.11.2005
1713	6915308एम	हवलदार	जीवन राम	01.12.2005
1714	6915362ए	हवलदार	कमल सिंह	01.01.2006
1715	6917378के.	हवलदार	काम्बले एस परसुराम	01.10.2005
1716	6917399ए	हवलदार	कामता प्रसाद	01.10.2005
1717	6915404एफ	हवलदार	खिमनन्द	01.01.2006
1718	6917366पी	हवलदार	कुदटी कृष्णन के.	01.12.2005
1719	6917620एन	हवलदार	माने मारुति शिवाजी	01.01.2006
1720	6917573एक्स	हवलदार	मातादीन सिंह राजपूत	01.01.2006
1721	6917630के.	हवलदार	मिथलेश कुमार	01.01.2006
1722	6915025एल	हवलदार	नन्द किशोर	01.09.2005
1723	6915344एक्स	हवलदार	नरेश शर्मा	01.12.2005
1724	6917463एम	हवलदार	ओम दत्ता	01.10.2005
1725	6915206डब्ल्यू	हवलदार	पण्डित राम राव जे	01.11.2005
1726	6917415एम	हवलदार	प्रकाश चांद चंदेल	01.10.2005
1727	6917571डब्ल्यू	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.01.2006
1728	6917493के.	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.10.2005
1729	6915319वाइ	हवलदार	राजेश्वर दयाल त्यागी	01.12.2005
1730	6915122एच	हवलदार	राम आसरे	01.10.2005
1731	6916563एल	हवलदार	राम आसरे पाल	01.11.2005
1732	6917594एम	हवलदार	राम अवतार	01.01.2006
1733	6917361डब्ल्यू	हवलदार	राम भरोसे महतो	01.09.2005
1734	6915100के.	हवलदार	राम स्नेही	01.09.2005
1735	6915161एफ	हवलदार	एस आचार्य एम ए	01.10.2005
1736	69173569एल	हवलदार	शोभी महतो	01.09.2005
1737	6915159के.	हवलदार	सुभाष मोहन देब बर्मा	01.10.2005
1738	6915123एल	हवलदार	सूरत राम	01.10.2005
1739	6917574ए	हवलदार	टी	01.01.2006
1740	6917355एच	हवलदार	त्रिभुवन पांडे	01.09.2005
1741	6915426ए	हवलदार	उदय शंकर तिवारी	01.01.2006

इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

1742	14535345वाइ	हवलदार	ए अरोचकिम सामी	01.09.2005
1743	41535426एच	हवलदार	अभे कुमार तिवारी	01.09.2005
1744	14542768पी	हवलदार	ए मिज	01.09.2005
1745	14543288एक्स	हवलदार	अम्रेन्द्रा कुमार	01.10.2005
1746	14542959के.	हवलदार	आनंद सिंह रावत	01.09.2005
1747	14535720वाइ	हवलदार	अनिल चंद्रा सेकिआ	01.10.2005
1748	14535718एफ	हवलदार	अरुण कुमार सिंह	01.10.2005
1749	14543733एल	हवलदार	ए प्रसाद	01.01.2006
1750	14543253एफ	हवलदार	अशोक कुमार	01.09.2005
1751	14535419एच	हवलदार	अशोक कुमार	01.09.2005
1752	14535279एफ	हवलदार	अशोक कुमार डबराल	01.09.2005
1753	14543867के.	हवलदार	अटवाल तिग्गा	01.01.2006
1754	14535294डब्ल्यू	हवलदार	बी महालिंगम	01.09.2005
1755	14542963एम	हवलदार	बाबन सिंह	01.09.2005

1756	14535560के.	हवलदार	बाबर लहु नंदराव	01.10.2005
1757	14536207के.	हवलदार	बाबू बी	01.12.2005
1758	14536300एल	हवलदार	बलबीर चांद	01.12.2005
1759	14535740एम	हवलदार	बलबीर सिंह	01.10.2005
1760	14536290एम	हवलदार	बालकर सिंह	01.12.2005
1761	14536010एन	हवलदार	बसवराज डी.	01.10.2005
1762	14543138एफ	हवलदार	भागीरथ सिंह	01.09.2005
1763	14535799एम	हवलदार	भगवान सिंह	01.10.2005
1764	14543815एन	हवलदार	भंडारे कृष्णा भैरू	01.01.2006
1765	14536908एन	हवलदार	भानु	01.10.2005
1766	14536012वाइ	हवलदार	भैरों सिंह	01.10.2005
1767	14543480एफ	हवलदार	बी विट्टल बी	01.10.2005
1768	14543393एन	हवलदार	भीशम सिंह	01.10.2005
1769	14543540एल	हवलदार	भुवनेश्वर सेकिआ	01.10.2005
1770	14536049ए	हवलदार	भूपाल सिंह	01.08.2005
1771	14543883एन	हवलदार	भूषण ओरान	01.01.2006
1772	14541500एल	हवलदार	बिजय कुमार मैती	01.08.2005
1773	14536435ए	हवलदार	बी राम कृष्णा कुमार	01.09.2005
1774	14536416पी	हवलदार	बिनोद कुमार सिंह	01.09.2005
1775	14535227एल	हवलदार	बी भजन देव	01.09.2005
1776	14535377एफ	हवलदार	विश्वू बरुह	01.09.2005
1777	14543433के.	हवलदार	बुद्धदेव भगवान	01.10.2005
1778	14535260एच	हवलदार	बुल बुल बोरुह	01.09.2005
1779	14676228एक्स	हवलदार	सी सिंह सैंगर	01.04.2005
1780	14543583एम	हवलदार	सी वी वी	01.11.2005
1781	14543259एच	हवलदार	छोटे लाल मिश्रा	01.09.2005
1782	14536459डब्ल्यू	हवलदार	डी. चिन्ना ओबुलेसु	01.01.2006
1783	14902191एल	हवलदार	डी. के.	01.09.2005
1784	14543791पी	हवलदार	दर्पण सिंह	01.01.2006
1785	14535338एच	हवलदार	डी. सिंह	01.09.2005
1786	14543287पी	हवलदार	देव नारायण यादव	01.10.2005
1787	14535616एल	हवलदार	देवी सिंह वर्मा	01.10.2005
1788	14543622एन	हवलदार	धन बहादुर थापा	01.10.2005
1789	14543388एक्स	हवलदार	डी. सिंह	01.10.2005
1790	14676139वाइ	हवलदार	दिलबाग सिंह	01.10.2005
1791	15535263एम	हवलदार	दिनेश कुमार छत्री	01.09.2005
1792	14676187वाइ	हवलदार	दिनेश कुमार शर्मा	01.10.2005
1793	14543003ए	हवलदार	ई अप्पा राव	01.09.2005
1794	14535417एक्स	हवलदार	फूल देव यादव	01.09.2005
1795	14543043एफ	हवलदार	जी. दिलीप कुमार	01.09.2005
1796	14535724पी	हवलदार	जी. सुब्रमणि	01.10.2005
1797	14535956एन	हवलदार	गजाधर सिंह	01.10.2005
1798	14543660ए	हवलदार	गण एच राजू	01.01.2006
1799	14543512वाइ	हवलदार	जी. सिंघा	01.10.2005
1800	14543263एल	हवलदार	गोपाल दत्त	01.09.2005
1801	14676547के.	हवलदार	गोपाल कृष्ण एन	01.12.2005
1802	14536281एल	हवलदार	जी. सिंह	01.12.2005
1803	14536470पी	हवलदार	जी. हरिगंगे के.	01.01.2006
1804	14535363पी	हवलदार	जी. प्रसाद शर्मा	01.09.2005

1805	14543312एच	हवलदार	हनीफ मियां	01.10.2005
1806	14541224एन	हवलदार	हरी ओम	01.10.2005
1807	14543027के.	हवलदार	हरी शंकर शर्मा	01.09.2005
1808	14536121एल	हवलदार	हयात सिंह	01.11.2005
1809	14543698एन	हवलदार	हीरा लाल	01.12.2005
1810	14676555एच	हवलदार	होरी लाल	01.10.2005
1811	14535429एम	हवलदार	इन्द्रा बाबू सिंघा	01.09.2005
1812	14543827एच	हवलदार	जे करुणा	01.12.2005
1813	14543134एल	हवलदार	जागर नाथ ठाकुर	01.09.2005
1814	14543625एफ	हवलदार	जगत नारायण सिंह	01.11.2005
1815	14542971एल	हवलदार	जगदीर	01.09.2005
1816	14536036एच	हवलदार	जगलाल राम	01.11.2005
1817	14543097एच	हवलदार	जय प्रकाश सिंह	01.10.2005
1818	14543875एच	हवलदार	जय सिंह	01.01.2006
1819	14543094पी	हवलदार	जयवीर सिंह	01.10.2005
1820	14535883एम	हवलदार	जनक राज वी	01.10.2005
1821	14538080एम	हवलदार	जनार्दन सिंह	01.11.2005
1822	14543588ए	हवलदार	जरनैल सिंह	01.11.2005
1823	14543841पी	हवलदार	जवाहर साहू	01.01.2006
1824	14535814डब्ल्यू	हवलदार	जयचन्द्रन पी	01.10.2005
1825	14535348एम	हवलदार	जयप्रकाश राम	01.09.2005
1826	14535848के.	हवलदार	जितेन्द्रा कुमार	01.10.2005
1827	14543351एफ	हवलदार	जोगा सिंह	01.10.2005
1828	14543509वाइ	हवलदार	जॉन पी	01.10.2005
1829	14543662एच	हवलदार	जोसेफ के. वी	01.12.2005
1830	14543910ए	हवलदार	के. मलिन सिंह	01.01.2006
1831	14543717एन	हवलदार	के. रमा चंद्रन	01.01.2006
1832	14542973डब्ल्यू	हवलदार	के. राजानन के.	01.09.2005
1833	14538469ए	हवलदार	कमलेश चंद्रा पाठक	01.01.2006
1834	14538431डब्ल्यू	हवलदार	कमलेश कुमार सिंह	01.09.2005
1835	14535789एच	हवलदार	के. लाल प्रसाद	01.10.2005
1836	14543658एम	हवलदार	कानू प्रिया री	01.12.2005
1837	14543928एल	हवलदार	कपिल देव राम	01.01.2006
1838	14543700ए	हवलदार	काशी नाथा के. एस	01.12.2005
1839	14543196एल	हवलदार	केदार साहू	01.09.2005
1840	14535746वाइ	हवलदार	के. रंगनाथ रमा	01.10.2005
1841	14542996एच	हवलदार	खिरोदा कुमार समालिया	01.09.2005
1842	14543714ए	हवलदार	खूमा बहादुर अले	01.01.2006
1843	14543699डब्ल्यू	हवलदार	खुशी राम	01.12.2005
1844	14536160के.	हवलदार	फिराग विष्णु काम्बले	01.11.2005
1845	14543441एच	हवलदार	फिशन सिंह	01.10.2005
1846	14543586एम	हवलदार	कोमल सिंह एस	01.11.2005
1847	14536275एक्स	हवलदार	कुष्मा चंद्रा पाधी	01.12.2006
1848	14535368एम	हवलदार	क्षेत्रिय सत्य प्रताप सिंह राम आरप	01.09.2005
1849	14539474डब्ल्यू	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.08.2005
1850	14538023एल	हवलदार	कुभारे भगवान दनयानु	01.11.2005
1851	14676550एन	हवलदार	के. सिंह	01.10.2005
1852	14543932वाइ	हवलदार	कुन्ही कानन के.	01.01.2006
1853	14535802एल	हवलदार	के. पाल सिंह	01.10.2005

1854	14543805के.	हवलदार	महावीर	01.01.2006
1855	14544019एक्स	हवलदार	महेंद्र प्रसाद	01.01.2006
1856	14543069डब्ल्यू	हवलदार	महेंद्र कुमार तिवारी	01.10.2005
1857	14535492एफ	हवलदार	महेश नारायण सिंह	01.09.2005
1858	14543790एम	हवलदार	महेश एस	01.01.2006
1859	14536163एक्स	हवलदार	मल्खान सिंह	01.11.2005
1860	14543068एन	हवलदार	मंगल बर्लजा	01.09.2005
1861	14543086डब्ल्यू	हवलदार	मानिक लाल दत्ता	01.10.2005
1862	14536171डब्ल्यू	हवलदार	एम बी	01.11.2005
1863	14543131एक्स	हवलदार	मनोज कुमार	01.09.2005
1864	14543235वाइ	हवलदार	मनोज कुमार दास	01.09.2005
1865	14536005एच	हवलदार	मारुति अप्पा साहेब जाधव	01.10.2005
1866	14543363डब्ल्यू	हवलदार	एम के.	01.10.2005
1867	14543369एक्स	हवलदार	मथुरा प्रसाद	01.10.2005
1868	14536439एच	हवलदार	एम रहमान	01.01.2006
1869	14535612पी	हवलदार	मोहम्मद मानन हुसैन	01.10.2005
1870	14543575एफ	हवलदार	मोहम्मद एम अली	01.10.2005
1871	14543089के.	हवलदार	एम घोष	01.10.2005
1872	14535309एन	हवलदार	मोहम्मद जेड	01.09.2005
1873	14543046एम	हवलदार	मोहन दास आंर	01.09.2005
1874	14536302डब्ल्यू	हवलदार	मोहन राम	01.12.2005
1875	14543475डब्ल्यू	हवलदार	मोहानन के.	01.10.2005
1876	14676598एक्स	हवलदार	मुकुल कुमार जोशी	01.10.2005
1877	14536038एन	हवलदार	नरेंद्र मधुकर भिवानी	01.11.2005
1878	14543966एम	हवलदार	नरेंद्र कुमार तोंगर	01.01.2005
1879	14535669के.	हवलदार	नरेंद्र कुमार	01.10.2005
1880	14542981पी	हवलदार	एन बसुमातारी	01.09.2005
1881	14535439डब्ल्यू	हवलदार	नाथू लाल मीना	01.09.2005
1882	14543009एफ	हवलदार	निर्मल प्रसाद यादव	01.09.2005
1883	14543589एफ	हवलदार	नृपेन्द्रा चंद्रा सेन	01.10.2005
1884	14543074एफ	हवलदार	ओम नारायण शर्मा	01.10.2005
1885	14543132ए	हवलदार	ओम प्रकाश	01.09.2005
1886	14535829वाइ	हवलदार	पी रामचन्द्रन	01.10.2005
1887	14543581पी	हवलदार	पनीर सेलवम एन एस	01.10.2005
1888	14543814एल	हवलदार	पाटिल राजन कमल	01.01.2006
1889	14543737एफ	हवलदार	प्रागदा नागेश्वरा राव	01.01.2006
1890	14535421ए	हवलदार	प्रकाश यादव	01.09.2005
1891	14536027एफ	हवलदार	प्रमोद कुमार	01.11.2005
1892	14536331एल	हवलदार	प्रमोद कुमार कोटनाला	01.12.2005
1893	14543894एन	हवलदार	प्रमोद शर्मा	01.01.2006
1894	14535700एल	हवलदार	प्रीतम सिंह राना	01.10.2005
1895	14536144एम	हवलदार	पूरन सिंह	01.11.2005
1896	14543934के.	हवलदार	पुरुषाथम	01.01.2006
1897	14543113पी	हवलदार	आर सी पांडे	01.09.2005
1898	14543851वाइ	हवलदार	आर रामास्वामी	01.01.2006
1899	14535371ए	हवलदार	आर	01.09.2005
1900	15535483डब्ल्यू	हवलदार	राज कवर सैनी	01.09.2005
1901	14543973एच	हवलदार	राज कुमार	01.01.2006
1902	14536179एच	हवलदार	राज सिंह	01.12.2005

1903	14535849एम	हवलदार	राजवीर सिंह	01.10.2005
1904	14543674के.	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.01.2006
1905	14543036एल	हवलदार	राजेंद्र कुमार मिश्रा	01.09.2005
1906	14543095एक्स	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	01.10.2005
1907	14676495वाइ	हवलदार	राजेश बी	01.09.2005
1908	14535590एफ	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.10.2005
1909	14542852पी	हवलदार	राजू वरधेसे	01.09.2005
1910	14543994वाइ	हवलदार	राम आधार	01.01.2006
1911	14535597एल	हवलदार	राम अर्ध राम	01.10.2005
1912	14543608डब्ल्यू	हवलदार	राम बाली सिंह	01.12.2005
1913	14535892एन	हवलदार	राम के. राम	01.10.2005
1914	14543928डब्ल्यू	हवलदार	राम महेश शर्मा	01.01.2006
1915	14543736वाइ	हवलदार	राम नरेश कुशवाहा	01.01.2006
1916	14543461डब्ल्यू	हवलदार	राम एस गुप्ता	01.10.2005
1917	14535509के.	हवलदार	राम सिंह शर्मा	01.09.2005
1918	14543130पी	हवलदार	राम दाराणसी सिंह	01.09.2005
1919	14543070एल	हवलदार	रामचन्द विश्वाकर्मा	01.10.2005
1920	14543514के.	हवलदार	रमेश कुमार	01.10.2005
1921	14543352के.	हवलदार	आर नाग	01.10.2005
1922	14543756एम	हवलदार	आर सुन्दर बाबू	01.01.2006
1923	14535876डब्ल्यू	हवलदार	रनवीर सिंह	01.10.2005
1924	14543649एल	हवलदार	रूप चाद	01.12.2005
1925	14536209पी	हवलदार	एस अरुल	01.12.2005
1926	14542989एफ	हवलदार	एस एस	01.09.2005
1927	14536401वाइ	हवलदार	एस कुमार दास	01.01.2006
1928	14543772के.	हवलदार	सत राज	01.01.2006
1929	14543936पी	हवलदार	सतोष कुमार	01.01.2006
1930	14539647एच	हवलदार	सतीश कुमार	01.09.2005
1931	14536161एम	हवलदार	रावाई सिंह	01.11.2005
1932	14535395के.	हवलदार	शरद मोहन अगाशे	01.09.2005
1933	14542943वाइ	हवलदार	शिव शंकर सिंह	01.09.2005
1934	14536395डब्ल्यू	हवलदार	शेर बहादुर पांडे	01.01.2006
1935	14543836के.	हवलदार	शेर बहादुर थापा	01.01.2006
1936	14543430डब्ल्यू	हवलदार	शेर सिंह दिअम्पा	01.10.2005
1937	14543895डब्ल्यू	हवलदार	एस मांझी	01.01.2006
1938	14543528के.	हवलदार	शिवा गौडा एच	01.10.2005
1939	14542944एफ	हवलदार	शिव कुमार	01.09.2005
1940	14536124वाइ	हवलदार	शिवजी शर्मा	01.11.2005
1941	14543752डब्ल्यू	हवलदार	श्री भगवान शर्मा	01.01.2006
1942	14536103एच	हवलदार	श्री कृष्णा राम	01.11.2005
1943	14543610वाइ	हवलदार	श्री निवास पाठक	01.12.2005
1944	14543487एल	हवलदार	श्री प्रकाश	01.10.2005
1945	14535340ए	हवलदार	श्याम विहारी शर्मा	01.09.2005
1946	14543792एक्स	हवलदार	श्याम सिंह	01.01.2006
1947	14537389पी	हवलदार	सोमन पिल्लई के. एस	01.06.2005
1948	14543348एफ	हवलदार	एस चंद्रा ठाकुर	01.10.2005
1949	14536096एक्स	हवलदार	सुभाष चंद्रा	01.11.2005
1950	14543799एफ	हवलदार	सुधीर दत्ता	01.01.2006
1951	14543450के.	हवलदार	सुधीर कुमार	01.10.2005

1952	14543846एन	हवलदार	सुंदर लाल तिबारी	01.01.2006
1953	14535354ए	हवलदार	सुरेंद्र दत्ता	01.09.2005
1954	14543229एल	हवलदार	सुरेश हीरामठ वाइ	01.09.2005
1955	14543295एन	हवलदार	सुरेश कुमार	01.10.2005
1956	14676546एफ	हवलदार	सुरेश कुमार टी आर	01.09.2005
1957	14543840एम	हवलदार	सुरेश राम	01.01.2006
1958	14542984एच	हवलदार	सुरिन्दर सिंह	01.09.2005
1959	14535596एच	हवलदार	तारा चांद	01.10.2005
1960	14535968एच	हवलदार	तारा सिंह	01.10.2005
1961	14543837एम	हवलदार	टेक बहादुर थापा	01.01.2006
1962	14535508एफ	हवलदार	था ब्रजेन्द्र सिंघा	01.09.2005
1963	14543268के.	हवलदार	तिलक राज	01.09.2005
1964	14542982एक्स	हवलदार	उमेश मंडल	01.09.2005
1965	14543703एन	हवलदार	उन्नीर्वशन्न नायर वी आर	01.12.2005
1966	14543133एच	हवलदार	उपेन च. कलिता	01.09.2005
1967	14535666डब्ल्यू	हवलदार	उपेंद्र कुमार मिश्रा	01.10.2005
1968	14543418पी	हवलदार	वी सी	01.10.2005
1969	14543324एक्स	हवलदार	विजय कुमार यादव	01.10.2005
1970	14542584डब्ल्यू	हवलदार	विजया कुमारन के.	01.07.2005
1971	14536487एच	हवलदार	विजयन के.	01.01.2006
1972	14543200एच	हवलदार	विनय शंकर राय	01.09.2005
1973	14543147एच	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.09.2005
1974	14543545के.	हवलदार	विष्णु नाइक	01.10.2005
1975	14536227एक्स	हवलदार	विश्वनाथ बालकृष्ण जाधव	01.12.2005
1976	14535944वाइ	हवलदार	यादव विजय नामदेव	01.10.2005
1977	14543868एम	हवलदार	वाइ लकरा	01.01.2006
1978	14542996एक्स	हवलदार	योगेन्द्र प्रसाद यादव	01.09.2005

रिगलुन्ट एवं वेटनरी कोर

1979	7238314डब्ल्यू	दफादार	भोला महतो	01.11.2005
1980	7238803एफ	दफादार	देबा नंदा मोन्डल	01.10.2005
1981	7238281डब्ल्यू	दफादार	गंगा राम शुक्ल	01.09.2005
1982	7238807एक्स	दफादार	गीता चरण	01.01.2006
1983	7238801डब्ल्यू	हवलदार	के. मुनियांदी	01.09.2005
1984	7238295डब्ल्यू	हवलदार	कृष्णा चंद्रा ठाकुर	01.10.2005
1985	7238358एन	दफादार	राजेंद्र ठाकुर	01.12.2005

सेना पुलिस कोर

1986	7771817के.	हवलदार	अजय पाल	01.11.2005
1987	7771714एल	हवलदार	ए नाथ मिश्रा	01.10.2005
1988	7771733डब्ल्यू	हवलदार	एरिया मारदान सिंह	01.11.2005
1989	7771858एन	हवलदार	अर्जुन प्रसाद सिंह	01.01.2006
1990	7771790एक्स	हवलदार	बिरेन्द्र चांद	01.12.2005
1991	7771763एन	हवलदार	विशन सिंह	01.11.2005
1992	7773168एच	हवलदार	सी यलप्पा एस	01.09.2005
1993	7771871एक्स	हवलदार	चांद दीप राय	01.01.2006
1994	7773167ए	हवलदार	हरी बाबू	01.09.2005
1995	7771758एच	हवलदार	खिरोदा कुमार प्रधान	01.11.2005
1996	7771793एल	हवलदार	कुमोद कुमार झा	01.12.2005

1997	7773174डब्ल्यू	हवलदार	एम पी रेडी	01.10.2005
1998	7773175वाइ	हवलदार	रमा शंकर	01.10.2005
1999	7771845डब्ल्यू	हवलदार	रनबीर एम	01.12.2005
2000	7771692एक्स	हवलदार	सतीश चंद्रा	01.09.2005
2001	7771840एक्स	हवलदार	यू सिंह	01.12.2005
सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर				
2002	14341301एन	हवलदार	डी. लाल पटेल	01.11.2005
2003	5448767एम	हवलदार	गम बहादुर सरु	01.12.2005
2004	2579990के.	हवलदार	के. राजा रमन	01.12.2005
पायोनियर कोर				
2005	8026631एक्स	हवलदार	डी. अन्ना मसालावाला	01.09.2005
2006	8028909एम	हवलदार	हेम राज	01.09.2005
2007	8028896ए	हवलदार	कनक चंद्रा दास	01.09.2005
2008	8026778एन	हवलदार	कटारा रत्ना भाई कुरा भाई	01.12.2005
2009	8026793एच	हवलदार	कुमा सिंह सुनार	01.09.2005
2010	8026587वाइ	हवलदार	नारायण सिंह	01.09.2005
2011	8026869एक्स	हवलदार	राम चरण	01.12.2005
2012	8028931एक्स	हवलदार	रामप्पा एराप्पा एच	01.10.2005
2013	8026669एफ	हवलदार	सुरेंद्र कुमार	01.10.2005
सेना बैंड				
2014	4553058ए	हवलदार	विजयन के.	01.09.2005
सेना डाक सेवा				
2015	8026996एम	हवलदार	गुरमीत सिंह चावला	01.01.2006
रक्षा सुरक्षा कोर				
2016	3966307के	हवलदार	अमर सिंह	01.12.2005
2017	10388043एल	हवलदार	अकुश पघारे	01.09.2005
2018	8015790पी	हवलदार	ओम प्रकाश शर्मा	01.10.2005
2019	8016175के	हवलदार	पररश नाथ सिंह	01.10.2005
2020	8016788के	हवलदार	राम फल सिंह	01.11.2005
2021	10388231एम	हवलदार	श्री कांत तिवारी	01.11.2005
2022	14515030एन	हवलदार	सरेंद्रा कुमार टम्टा	01.12.2005
2023	10450272एफ	हवलदार	वी एम सुब्बाईहा	01.12.2005
प्रदेशिक सेना				
2024	10181971पी	हवलदार	भवानी चंद	01.01.2006
2025	10244734	हवलदार	काजल सिन्हा	01.04.2005
2026	10479516	हवलदार	मोहन सिंह	01.02.2005
2027	10146394	हवलदार	माने जी रामा	01.05.2005
2028	10227294के	हवलदार	नथ्यू बराई	01.08.2005
2029	10404140पी	हवलदार	पाला राम	01.03.2005
2030	10452205पी	हवलदार	पी लोगनाथन	01.02.2005
2031	10134848एल	हवलदार	रनधीर सिंह	01.12.2005
2032	10197785	हवलदार	श्री नाथ पाल	01.09.2005
2033	10212318एल	हवलदार	सुभाश चन्द्रा राय	01.04.2005
2034	10273863एल	हवलदार	सुजय कुमार मंडल	01.04.2005
2035	10358824के	हवलदार	वरगीस टी	01.04.2005

[सं. बी/43432/आर डी-06/एजी/सीडब्ल्यू-2]

अनूप एम जामवाल, पी. जनरल, एडजुटेंट जनरल

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2006

3(E) dated 26 January, 2006.—[The President is pleased to grant honorary rank of Naib Risaldar/Naib Subedar to the undermentioned NCOs on retirement on the eve of Republic Day 2006 under para 180 of Regulations for the Army 1987, with effect from the dates shown against their names :-

TO BE HONORARY NAIB RISALDARS**16 CAVALRY**

1	1068124K	DFR	V RAVI CHANDRAN	01-10-2005
---	----------	-----	-----------------	------------

7 CAVALRY

2	1069114M	DFR	HARJIT SINGH	01-01-2006
3	1069444L	DFR	KRISHAN KUMAR	01-01-2006
4	1069117A	DFR	SATNAM SINGH	01-01-2006

8 CAVALRY

5	1063499Y	DFR	MOHAN SINGH	01-11-2005
---	----------	-----	-------------	------------

17 HORSE

6	1067843W	DFR	HARBANS SINGH	01-09-2005
7	1067758N	DFR	SATBIR SINGH	01-09-2005
8	1067807L	DFR	TIRTHA RAJ SINGH	01-09-2005

14 HORSE

9	1063842W	HAV	MADAN LAL	01-01-2006
---	----------	-----	-----------	------------

CENTRAL INDIA HORSE

10	1068472L	DFR	HARI SINGH	01-10-2005
11	1063286L	DFR	VIJAY PARKASH VERMA	01-10-2005

63 CAVALRY

12	1068265Y	DFR	PREM VIR SINGH	01-10-2005
----	----------	-----	----------------	------------

45 CAVALRY

13	1068315Y	HAV	ARUN KUMAR YADAV	01-10-2005
14	1068317K	HAV	WILSON BARLA	01-10-2005

68 ARMoured REGIMENT

15	1069008N	DFR	RANBIR SINGH	01-01-2006
----	----------	-----	--------------	------------

69 ARMoured REGIMENT

16	1069331H	DFR	AWDHESH RAM	01-01-2006
----	----------	-----	-------------	------------

70 ARMoured REGIMENT

17	1069378N	DFR	RAM KISHOR	01-01-2006
----	----------	-----	------------	------------

71 ARMoured REGIMENT

18	1068697N	DFR	ANANT HOSKATTA	01-10-2005
----	----------	-----	----------------	------------

81 ARMoured REGIMENT

19	1068800N	DFR	N TRIPUPATEA REDDY	01-01-2006
20	1067773H	DFR	O NILU SINGHA	01-09-2005
21	1068917M	DFR	POTADAR AVINASH DAMODAR	01-01-2006
22	1069140N	DFR	RAM BRIKSHA KEWAT	01-01-2006
23	1068989W	DFR	RAMA SHISH SINGH	01-01-2006
24	1069138W	DFR	RAMAKANT SINGH	01-01-2006
25	1068749Y	DFR	SHATINDRA RAI	01-10-2005
26	1068995K	DFR	SHIVJI SHAH	01-01-2006
27	1068983P	DFR	TABI YAD KANTIBHAI MADH	01-01-2006

83 ARMoured REGIMENT

28	1068240M	DFR	BHUSHAN PRASAD SINGH	01-10-2005
29	1068959Y	DFR	BISHWANATH RAI	01-01-2006
30	1069436M	DFR	MANINDRA SINGH	01-01-2006
31	1068276L	DFR	NARESH PAL SINGH	01-10-2005
32	1068257A	DFR	R MOHAN	01-10-2005

84 ARMoured REGIMENT

33	1068911L	DFR	KIRAN KUMAR ANUGRAH	01-01-2006
----	----------	-----	---------------------	------------

85 ARMoured REGIMENT

34	1068482P	DFR	RS PRASAD YADAV	01-10-2005
----	----------	-----	-----------------	------------

86 ARMoured REGIMENT

35	1067842N	DFR	CHHABI RAM SINGH	01-09-2005
36	1069417F	DFR	KISHORI LAL	01-01-2006
37	1069382W	DFR	PRAMODH KUMAR	01-01-2006
38	1068246N	DFR	VIJAY KUMAR	01-10-2005

88 ARMoured REGIMENT

39	1067778F	DFR	RAM NANDAN MAHTO	01-09-2005
40	1069259X	DFR	TARUN KUMAR NATII	01-01-2006

41 ARMoured REGIMENT

41	1068502X	DFR	KAMLESH KUMAR SHARMA	01-10-2005
42	1068362W	DFR	PARMANAND	01-10-2005
43	1068603L	DFR	RAJA RAM	01-10-2005
44	1068093P	DFR	RAM RAJ	01-10-2005
45	1067851P	DFR	SHAIK TAJUDDIN BABA	01-09-2005
46	1067993M	DFR	SHEO PRASAD SINGH	01-09-2005

42 ARMoured REGIMENT

47	1069182A	DFR	KAMESHWAR SINGH	01-01-2006
----	----------	-----	-----------------	------------

43 ARMoured REGIMENT

48	1068506N	DFR	ISSAK TOPNO	01-10-2005
----	----------	-----	-------------	------------

49	1068606Y	DFR	RAM KIRPAL	01-10-2005
50	1069238F	DFR	RAM KUMAR SAH	01-01-2006
<u>44 ARMoured REGIMENT</u>				
51	1068152W	DFR	B PRASAD SINGH	01-10-2005
52	1068311H	DFR	HARISH CHAND PRASAD	01-10-2005
53	1067825N	DFR	KARUNAKAR MOHANTY	01-09-2005
54	1068106F	DFR	MAMAT CH KALITA	01-10-2005
<u>46 ARMoured REGIMENT</u>				
55	1069338M	DFR	PURAN SINGH SONI	01-01-2006
56	1067855L	DFR	SHIV CHAND RAM	01-09-2005
<u>47 ARMoured REGIMENT</u>				
57	1068403P	DFR	DWARIKA MUNDA	01-10-2005
<u>48 ARMoured REGIMENT</u>				
58	1067876F	DFR	DEO NARAYAN JHA	01-09-2005
<u>49 ARMoured REGIMENT</u>				
59	1068305P	DFR	JAI PRAKASH	01-10-2005
60	1063361K	DFR	SHATRUGHANA SINGH	01-10-2005
61	1067785X	DFR	SHIV PRATAP SINGH	01-09-2005
<u>5 ARMoured REGIMENT</u>				
62	1068109P	DFR	RAM NEWAL	01-10-2005
<u>6 ARMoured REGIMENT</u>				
63	1069127K	DFR	GAGARIN B	01-01-2006
<u>11 ARMoured REGIMENT</u>				
64	1068237M	DFR	BALRAM SINGH	01-10-2005
<u>ARMoured CORPS</u>				
65	1063908F	DFR	ANCHAL SINGH	01-01-2006
66	1068755M	DFR	BABU JAN	01-09-2005
67	1069386M	HAV	BABU NADAR K	01-01-2006
68	1068571N	DFR	BHIKAM SINGH	01-10-2005
69	1068552H	DFR	DINESH SINGH	01-10-2005
70	1069104H	DFR	EK RAJ KANDAL	01-01-2006
71	1068562M	DFR	GUNANIDHI BISWAL	01-10-2005
72	1068619W	DFR	JAMANI LAL DHOB	01-10-2005
73	1068946F	DFR	JEET RAJ	01-01-2006
74	1063840L	DFR	KESHAB CHANDRA SWAIN	01-01-2006
75	1063508P	DFR	KRISHAN KUMAR	01-11-2005
76	1069387P	DFR	LAL MAN	01-01-2006
77	1063872N	DFR	MOHAMAD GAFAR ANSARI	01-01-2006
78	1063326F	DFR	MOHMED SUBHAN	01-10-2005
79	1069317W	DFR	MUSAFIR GUPTA	01-01-2006
80	1068456N	DFR	P D DALAWAI	01-10-2005
81	1068454H	DFR	PARIMAL MALLIK	01-09-2005

82	1067982A	DFR	PARMANAND SINGH	01-09-2005
83	1068170Y	HAV	RADHEY SHYAM	01-10-2005
84	1068134N	DFR	RAJENDRA	01-10-2005
85	1063383H	DFR	RAJENDRA RAM	01-10-2005
86	1069281H	DFR	RAM BHAJAN	01-01-2006
87	1068050A	DFR	SADIK ANSARI	01-10-2005
88	1068633H	DFR	SHRAWAN LAL NAI	01-10-2005
89	1068154F	DFR	SURENDER KUMAR	01-10-2005
90	1068569W	DFR	SURESH	01-10-2005
91	1068915F	DFR	VEERAPAN	01-01-2006

REGIMENT OF ARTILLERY

92	14361634F	HAV	AJAN	01-01-2006
93	14370391H	HAV	AJMER SINGH	01-11-2005
94	14359787M	HAV	AJMER SINGH	01-10-2005
95	14462357H	HAV	AKMAL HUSSAIN SARWAR	01-12-2005
96	14475730W	HAV	ALEKH MAJHI	01-01-2006
97	14360726F	HAV	ANOKH SINGH	01-01-2006
98	14362086F	HAV	ANOOP SINGH	01-01-2006
99	14475965H	HAV	ASHOK KUMAR	01-01-2006
100	14475009A	HAV	ASHOK KUMAR	01-10-2005
101	14361793Y	HAV	ASHOK KUMAR RAJANNA	01-01-2006
102	14476541Y	HAV	ATTAR SINGH YADAV	01-01-2006
103	14359792X	HAV	ATTMA RAM	01-10-2005
104	14462709P	HAV	AWDESH PARTAP TIWARI	01-01-2006
105	14476654F	HAV	BABU JI RAO	01-01-2006
106	14474866N	HAV	BABUL KUMAR SINGHA	01-09-2005
107	14475183M	HAV	BAJRANG SINGH	01-10-2005
108	14359599L	HAV	BAL RAM	01-10-2005
109	14476182W	HAV	BALBIR SINGH	01-01-2006
110	14476407N	HAV	BALBIR SINGH	01-01-2006
111	14475767X	HAV	BALDEV SINGH	01-01-2006
112	14462587W	HAV	BALDEV SINGH	01-12-2005
113	14475597Y	HAV	BALESHWAR PRASAD	01-10-2005
114	14462498X	HAV	BALJIT SINGH	01-12-2005
115	14342204H	HAV	BALMUKAND GIRI	01-12-2005
116	14476563X	HAV	BAM DEO OJHA	01-01-2006
117	14475598F	HAV	BARUN KUMAR JHA	01-10-2005
118	14462354P	HAV	BASUDEV SHARMA	01-12-2005
119	14360284N	HAV	BENCHEY LAL SHARMA	01-10-2005
120	14359967P	HAV	BHAJA RAM SIYA	01-10-2005
121	14361471Y	HAV	BHAN SINGH	01-01-2006
122	14475321H	HAV	BHANWAR NATH	01-10-2005
123	14361637P	HAV	BHARAT SINGH	01-01-2006
124	14475356Y	HAV	BIBHUTI SINGH	01-10-2005
125	14360836W	HAV	BISHAMBHAR NATH KUSHIK	01-01-2006
126	14475580L	HAV	BORE SANJEEV GIANOBA	01-10-2005
127	14476789H	HAV	BRAHAM SINGH	01-01-2006
128	14476509K	HAV	BRHAM PRAKASH	01-01-2006
129	14475975M	HAV	CHANDER BHUSAN DUBEY	01-01-2006

130	14340405H	HAV	CHANDESHWAR KUMAR SHNHA	01-09-2005
131	14476570N	HAV	CHANDRAN KIDAVE MANIKOTH MEETHAL	01-01-2006
132	14476111P	HAV	CHITTARANJAN GHOSH	01-01-2006
133	14474851L	HAV	CHITTARANJAN SIL	01-09-2005
134	14474823Y	HAV	DAMODAR KALITA	01-09-2005
135	14359446F	HAV	DEEP CHAND KHERWA	01-10-2005
136	14475624X	HAV	DEO CHANDRA CHETRI	01-10-2005
137	14359284F	HAV	DES RAJ	01-10-2005
138	14361293F	HAV	DESHRAJ RANA	01-01-2006
139	14474513N	HAV	DEVADASAN M	01-09-2005
140	14475126L	HAV	DEVENDRA CHAUDHARY	01-10-2005
141	14474586A	HAV	DEVENDRA KUMAR	01-09-2005
142	41463061A	HAV	DEVINDER PAL	01-01-2006
143	14340784K	HAV	DHARAM DEO SINGH	01-10-2005
144	14358698F	HAV	DHARAMVIR	01-09-2005
145	14902165K	HAV	DHARMESWAR BASUMATARY	01-09-2005
146	14361627L	HAV	DINESH CHANDRA	01-01-2006
147	14343554F	HAV	DINESH PRASAD SINGH	01-01-2006
148	14474584P	HAV	DONTHA KRISHNAIAH	01-09-2005
149	14362089P	HAV	FAKEERAPPA KESARUR	01-01-2006
150	14475377P	HAV	G VISHWANTH	01-10-2005
151	14476813N	HAV	GAJENDRA PAL SINGH	01-01-2006
152	14462769K	HAV	GANE RAMA RAO	01-01-2006
153	14474648P	HAV	GANGU RAM	01-09-2005
154	14360781X	HAV	GAVARA SIVAJI	01-01-2006
155	14476762L	HAV	GOPINATH SINGH	01-01-2006
156	14361825W	HAV	GORE LAL	01-01-2006
157	14342072A	HAV	GOUKARAN PANDEY	01-12-2005
158	14475988K	HAV	GOURI LAL SHARMA	01-01-2006
159	14476347K	HAV	GURDEV SINGH	01-01-2006
160	14476487W	HAV	GURMIT SINGH	01-01-2006
161	14360759M	HAV	GURUVU ANANDA RAO	01-01-2006
162	14361994X	HAV	HANUMAN SINGH YADAV	01-01-2006
163	14359928W	HAV	HARBHAJAN SINGH	01-10-2005
164	14475626H	HAV	HARE RAM SINGH	01-10-2005
165	14476416P	HAV	HARI NARAIN MISHRA	01-01-2006
166	14463440M	HAV	HARI RAM	01-09-2005
167	14474829A	HAV	HARIDESHWAR DAYAL	01-09-2005
168	14476658X	HAV	HEER CHAND	01-01-2006
169	14359854M	HAV	HEM RAJ	01-10-2005
170	14359571L	HAV	HEM RAJ	01-10-2005
171	14360416W	HAV	INDRA MOHAN MISHRA	01-01-2006
172	14358908W	HAV	JAGDEEP SINGH	01-09-2005
173	14340872A	HAV	JAGDIS KATTILA KIZHAKKE VEETIL	01-10-2005
174	14359626K	HAV	JAI KARAN SINGH	01-10-2005
175	14353531N	HAV	JAIPAL	01-10-2005
176	14360865L	HAV	JANG BAHADUR SINGH	01-01-2006
177	14474477N	HAV	JARNAIL SINGH	01-09-2005
178	14359991L	HAV	JASVINDER SINGH	01-10-2005
179	14476682N	HAV	JASVIR SINGH	01-01-2006

180	14361792W	HAV	JITENDRA KUMAR	01-01-2006
181	14360905F	HAV	JITENDRA PRATAP SINGH	01-01-2006
182	14476155M	HAV	JOHN KENNADY R	01-01-2006
183	14476720Y	HAV	JSPAL SINGH	01-01-2006
184	14476240P	HAV	K NARASINGAM	01-01-2006
185	14358826N	HAV	K SEKAR	01-09-2005
186	14359216N	HAV	KALI CHARAN	01-10-2005
187	14476110M	HAV	KAMAL KUMAR	01-01-2006
188	14462966M	HAV	KAMLESWAR BORAH	01-01-2006
189	14474590H	HAV	KANAK CHANDRA RAY	01-09-2005
190	14361281M	HAV	KESAR SINGH	01-01-2006
191	14360095K	HAV	KEWAL KRISHAN	01-10-2005
192	14359323P	HAV	KRISHNA SINGH	01-10-2005
193	14360213M	HAV	KULBIR SINGH	01-10-2005
194	14341230X	HAV	KUNJ BIHARI PATHAK	01-11-2005
195	14475834X	HAV	KUSHA LAL SINGHA	01-01-2006
196	14461995P	HAV	LAL BABU SINGH	01-11-2005
197	14359575F	HAV	LAL CHAND	01-10-2005
198	14474694K	HAV	LALDEV RAI	01-09-2005
199	14476114H	HAV	LAXMI NARAIN	01-01-2006
200	14360723N	HAV	M ABRAGHAM	01-01-2006
201	14462104N	HAV	M IYAPPAN	01-12-2005
202	14359044K	HAV	M SUNDARA RAJAN	01-09-2005
203	14474984F	HAV	MAM CHAND	01-10-2005
204	14358864K	HAV	MANJEET SINGH	01-09-2005
205	14343737X	HAV	MAYA RAM	01-01-2006
206	14466633X	HAV	MEB SINGH	01-11-2005
207	14358993K	HAV	MEHAR SINGH	01-09-2005
208	14360840Y	HAV	MENGANE ASHOK PANDURANG	01-01-2006
209	14341875A	HAV	MODIVALARA C THAMAI AH	01-12-2005
210	14475048Y	HAV	NAIB SINGH	01-10-2005
211	14476708X	HAV	NARINDER KUMAR SHARMA	01-01-2006
212	14341180X	HAV	NAWAL KISHORE SHUKLA	01-11-2005
213	14359951K	HAV	OM PAL	01-10-2005
214	14462684N	HAV	OM PRAKASH	01-01-2006
215	14359656F	HAV	OM PRAKASH	01-10-2005
216	14359201L	HAV	OMKAR SINGH	01-10-2005
217	14461864K	HAV	P MAHALINGAM	01-11-2005
218	14474749H	HAV	P RAVINDRAN	01-09-2005
219	14359630M	HAV	PANNA RAM	01-10-2005
220	14475170P	HAV	PAP SINGH	01-10-2005
221	14360861P	HAV	PATIL TANAJI DATTATRAYA	01-01-2006
222	14476163L	HAV	PAULOSE C P	01-01-2006
223	14341149L	HAV	PITRAM SINGH	01-11-2005
224	14342906F	HAV	POORAN CHAND	01-01-2006
225	14359974L	HAV	PRAHALLADA MAHARANA	01-10-2005
226	14361172A	HAV	PRAMOD CHANDRA DAS	01-01-2006
227	14475060A	HAV	PRASADI MAHTO	01-10-2005
228	14361572M	HAV	PRATAP SINGH	01-01-2006
229	14474707W	HAV	PRATAP SINGH SHEKHAWAT	01-09-2005
230	14361477A	HAV	PREM SINGH	01-01-2006

231	14341086N	HAV	PRITPAL SINGH	01-11-2005
232	14360773Y	HAV	R PANNEER SELVAM	01-01-2006
233	14475833P	HAV	RADHA KISUN RAM	01-01-2006
234	14361446A	HAV	RADHAKRISHNAN AK	01-01-2006
235	14462085N	HAV	RADHEY SHYAM	01-11-2005
236	14475386W	HAV	RADHEY SHYAM MONDAL	01-10-2005
237	14463019X	HAV	RAGHUBIR SINGH	01-01-2006
238	14360401N	HAV	RAJ KUMAR	01-01-2006
239	14475477A	HAV	RAJ KUMAR	01-10-2005
240	14360903W	HAV	RAJ KUMAR SINGH TAVE	01-01-2006
241	14475451L	HAV	RAJ MAL	01-10-2005
242	14359359N	HAV	RAJBIR SINGH	01-10-2005
243	14474966Y	HAV	RAJENDER PRASAD	01-10-2005
244	14476118Y	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-01-2006
245	14462318K	HAV	RAJENDRA PRASAD SETH	01-12-2005
246	14361271H	HAV	RAJENDRA SINGH	01-01-2006
247	14476391N	HAV	RAJESH KUMAR MISHRA	01-01-2006
248	14340735F	HAV	RAJU THAKUR	01-10-2005
249	14360197A	HAV	RAM AVTAR YADAV	01-10-2005
250	14902145W	HAV	RAM BAHADUR THAPA	01-09-2005
251	14476751Y	HAV	RAM CHANDRA	01-01-2006
252	14475627L	HAV	RAM CHANDRA MEHTA	01-10-2005
253	14361642A	HAV	RAM KRIPAL SINGH	01-01-2006
254	14360037A	HAV	RAM LAKHAN	01-10-2005
255	14360853W	HAV	RAM NATH	01-01-2006
256	14474968K	HAV	RAM NIWAS	01-10-2005
257	14475049F	HAV	RAM NIWAS	01-10-2005
258	14474700M	HAV	RAM PAUL	01-09-2005
259	14358782F	HAV	RAM PRAKASH	01-09-2005
260	14359300N	HAV	RAM PRAVESH CHOUBEY	01-10-2005
261	14476657P	HAV	RAM SEWAK	01-01-2006
262	14360881H	HAV	RAM SINGH	01-01-2006
263	14476284M	HAV	RAMA SHANKAR SINGH YADAV	01-01-2006
264	14359536H	HAV	RAMESHWAR DAYAL	01-10-2005
265	14476179W	HAV	RAMNIK KUMAR	01-01-2006
266	14358822X	HAV	RAMUDDESHYA BHOLA	01-09-2005
267	14354709L	HAV	RANDHIR SINGH	01-12-2005
268	14474910M	HAV	RANJIT SINGH	01-10-2005
269	14359856X	HAV	RANJIT SINGH	01-10-2005
270	14475224L	HAV	RATNA RAM	01-10-2005
271	14343385L	HAV	ROHITASWA LAL SHARMA	01-01-2006
272	14359177A	HAV	ROSHAN LAL	01-10-2005
273	14462224M	HAV	ROSHAN LAL	01-12-2005
274	14476122F	HAV	ROSHAN LAL	01-01-2006
275	14362028X	HAV	RUDRAPPA MALLAPPA BARAGALI	01-01-2006
276	14360868Y	HAV	S ATHINARAYANAN	01-01-2006
277	14475749P	HAV	S MOHANATHAN	01-01-2006
278	14361537K	HAV	S RADHA KRISHNAN	01-01-2006
279	14342014W	HAV	SADI BHIMAYA REDDY	01-12-2005
280	14359550P	HAV	SANTOKH SINGH	01-10-2005
281	14474998F	HAV	SANTOSH KUMAR	01-10-2005

282	14462643K	HAV	SARATA KUMAR SAHOO	01-01-2006
283	14476251F	HAV	SARAVJIT YADAV	01-01-2006
284	14361118M	HAV	SAT PAL	01-01-2006
285	14475012A	HAV	SATBIR SINGH	01-10-2005
286	14474762M	HAV	SATYAVAN	01-09-2005
287	14476534H	HAV	SATYAVIR SINGH	01-01-2006
288	14340811H	HAV	SHANKER RAJAK	01-10-2005
289	14361640P	HAV	SHIDARAYAPPA KOTAGI	01-01-2006
290	14359559K	HAV	SHINDPAL SINGH	01-10-2005
291	14359057F	HAV	SHITLA SINGH YADAV	01-09-2005
292	14358835P	HAV	SHIVAJI PATIL	01-09-2005
293	14476409Y	HAV	SHRI RAM YADAV	01-01-2006
294	14361140X	HAV	SINGRAY BAN SINGH	01-01-2006
295	14476367X	HAV	SOHAN SINGH	01-01-2006
296	14358818P	HAV	SUBHAS CHANDER PUNIYA	01-09-2005
297	14475410F	HAV	SUBHASH CHAND	01-10-2005
298	14361197M	HAV	SURENDRA SINGH	01-01-2006
299	14361402H	HAV	SURJIT SINGH	01-01-2006
300	14359353M	HAV	SUSHIL CHANDRA ROY	01-10-2005
301	14361234P	HAV	T GOVINDA SAMY	01-01-2006
302	14476659A	HAV	T PAUL RAJ	01-01-2006
303	14474696P	HAV	T VENKATA RATNAM	01-09-2005
304	14361183M	HAV	TADISIVA KUMAR	01-01-2006
305	14361237H	HAV	TAIHSEEL DAR	01-01-2006
306	14462972A	HAV	TARA DATT	01-01-2006
307	14475811W	HAV	TEJ SINGH	01-01-2006
308	14475516N	HAV	THILE SHERPA	01-10-2005
309	14476589M	HAV	TIRATH	01-01-2006
310	14359032P	HAV	UPORAM UCHOI	01-09-2005
311	14474631F	HAV	V SUBBU RAM	01-09-2005
312	14475832M	HAV	VIRENDRA KUMAR SAHU	01-01-2006
313	14361992M	HAV	VIRUPAXAPPA NILANGE	01-01-2006
314	14476681L	HAV	VISHAMBAR DAYAL	01-01-2006
315	14360824F	HAV	VIVEKA NAND RAI	01-01-2006
316	14360230M	HAV	YAM BAHADUR THAPA	01-10-2005
317	14361053K	HAV	YASHI PAUL	01-01-2006
318	14475443M	HAV	YESWANT SINGH	01-10-2005
319	14461906L	HAV	YOGESHWAR NATH SHARMA	01-11-2005

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

320	14361217P	HAV	AKHILESH RAM	01-01-2006
321	14342286W	HAV	AMAR NATH DWIVEDI	01-12-2005
322	14359598H	HAV	AMAR SINGH	01-10-2005
323	14359124F	HAV	ARUN KUMAR	01-10-2005
324	14358978P	HAV	ARUN KUMAR SHUKLA	01-09-2005
325	14360992A	HAV	AVTAR SINGH	01-01-2006
326	14361244Y	HAV	AWADIHESH KUMAR	01-01-2006
327	14360397W	HAV	BACHITTAR SINGH	01-01-2006
328	14359389L	HAV	BALBIR SINGH	01-10-2005
329	14360424P	HAV	BALBIR SINGH YADAV	01-01-2006
330	14359794H	HAV	BALWAN SINGH	01-10-2005

331	14360554X	HAV	BALWANT SINGH	01-01-2006
332	14361255L	HAV	BELLAL SHEIKH	01-01-2006
333	14358854A	HAV	BHANWAR LAL	01-09-2005
334	14462807P	HAV	BHARAT OJHA	01-01-2006
335	14359480F	HAV	BHOOP SINGH	01-10-2005
336	14359000M	HAV	BUJIVE MULA KESAVA REDDY	01-09-2005
337	14358891N	HAV	CHARAN DASS	01-09-2005
338	14341859H	HAV	D RAMULU	01-12-2005
339	14342414H	HAV	DENESH RAI	01-12-2005
340	14361015N	HAV	DEV BAHADUR THAPA	01-01-2006
341	14475887W	HAV	DEVI PRASAD	01-01-2006
342	14341987A	HAV	DHARANIDHAR RAY	01-12-2005
343	14359668W	HAV	DIL PRAKASH	01-10-2005
344	14359080P	HAV	DURYODHAN SAHU	01-10-2005
345	14360777P	HAV	G SRIDHARAN	01-01-2006
346	14358705M	HAV	GRESH CHAND	01-09-2005
347	14360459L	HAV	GURU CHARAN BARMON	01-01-2006
348	14361211N	HAV	HAR SINGH MEHRA	01-01-2006
349	14360208F	HAV	HARI RAM PAL	01-10-2005
350	14361149M	HAV	HARIJAN KISAN POTAPPA	01-01-2006
351	14340835M	HAV	HARISH CHANDER BAITHA	01-10-2005
352	14361228F	HAV	HAYAT SINGH BISHT	01-01-2006
353	14360440M	HAV	HUKAM CHAND	01-01-2006
354	14358602N	HAV	JASWANT SINGH	01-09-2005
355	14342936Y	HAV	KARL INDWAR	01-01-2006
356	14359266Y	HAV	KEDAR PRASAD	01-10-2005
357	14359311A	HAV	KRISHAN PAL SHARMA	01-10-2005
358	14358585Y	HAV	KRISHAN PAL SINGH	01-09-2005
359	14360550F	HAV	KRISHNA MURTHI V	01-01-2006
360	14358926Y	HAV	LALAN SHARMA	01-09-2005
361	14341087W	HAV	LEKH RAM PATIAL	01-11-2005
362	14359171Y	HAV	LOKHANDE ANURATH RANGANATH	01-10-2005
363	14360925P	HAV	MAHIPAL SINGH	01-01-2006
364	14361200F	HAV	MAN BHARAN SINGH YADAV	01-01-2006
365	14359163A	HAV	MANIKAPPA	01-10-2005
366	14360890K	HAV	MANJIT SINGH	01-01-2006
367	14475807N	HAV	MANSI TULASI RAO	01-01-2006
368	14342510X	HAV	MD ALHASSEN MONDAL	01-01-2006
369	14359956H	HAV	NANAK SINGH	01-10-2005
370	14361247M	HAV	NARAYAN SINGH	01-01-2006
371	14475616Y	HAV	NITYA NANDA SAHOO	01-10-2005
372	14362064H	HAV	OM PRAKASH SINGH YADAV	01-01-2006
373	14358740P	HAV	P R GOVEKAR	01-09-2005
374	14360552M	HAV	PALANI S	01-01-2006
375	14361600N	HAV	PARMESHWARI	01-01-2006
376	14359871M	HAV	PRAKASH CHAND GUPTA	01-10-2005
377	14359328N	HAV	PRAPHULLA KUMAR MANDAL	01-10-2005
378	14359756M	HAV	PURAN SINGH	01-10-2005
379	14360228P	HAV	RADHY SHYAM SHARMA	01-10-2005
380	14361518Y	HAV	RAJ BISWAS	01-01-2006
381	14359132A	HAV	RAJENDRA KUMAR PANDEY	01-10-2005

382	14359195H	HAV	RAJESH KUMAR SINGH YADAV	01-10-2005
383	14358742A	HAV	RAJINDRA PARSAD SINGH	01-09-2005
384	14343089A	HAV	RAM KAILASH SHUKULA	01-01-2006
385	14360951W	HAV	RAM KRISHAN	01-01-2006
386	14361658L	HAV	RAM LAKHAN SINGH BAGHEL	01-01-2006
387	14359301W	HAV	RAM SUBHAG YADAV	01-10-2005
388	14361756L	HAV	RAMESH KUMAR	01-01-2006
389	14360939P	HAV	RAMJEET ORAON	01-01-2006
390	14360254W	HAV	RAMNI DEKA	01-10-2005
391	14359150H	HAV	RATTAN LAL YADAV	01-10-2005
392	14359263L	HAV	RATTAN SINGH	01-10-2005
393	14359700A	HAV	RAVINDER KUMAR	01-10-2005
394	14358961F	HAV	RESHAM SINGH	01-09-2005
395	14359472H	HAV	SAKEEVAM A	01-10-2005
396	14360097P	HAV	SARDAR SINGH	01-10-2005
397	14359609K	HAV	SARWAN SINGH	01-10-2005
398	14359287P	HAV	SATISH CHANDRA SINGH	01-10-2005
399	14342338F	HAV	SATTAR ALI	01-12-2005
400	14359587W	HAV	SHAMSHER SINGH	01-10-2005
401	14358795Y	HAV	SHANKAR PRASAD	01-09-2005
402	14360086H	HAV	SHASHI PAL	01-10-2005
403	14362128H	HAV	SHEO NAYAK SINGH	01-01-2006
404	14358577A	HAV	SHIV RAJ SINGH	01-09-2005
405	14341623N	HAV	SHIVNATH RAM	01-12-2005
406	14342103P	HAV	SHRIPAL SINGH	01-12-2005
407	14359100X	HAV	SHYAM PRIT YADAV	01-10-2005
408	14359056Y	HAV	SIDHANATH SINGH YADAV	01-09-2005
409	14341492N	HAV	SUBASH CHAND	01-11-2005
410	14361108H	HAV	SUKHEN KUMAR DUTTA	01-01-2006
411	14358955N	HAV	SUKHRAM PAL	01-09-2005
412	14361013H	HAV	SUREN CHANDRA SAIKIA	01-01-2006
413	14359314N	HAV	SURENDRA PRASAD	01-10-2005
414	14474640H	HAV	SURVE NAMBEV TUKARAM	01-09-2005
415	14351376Y	HAV	SUSHESHWAR SHARMA	01-10-2005
416	14361359M	HAV	TEJVEER SHARMA	01-01-2006
417	14475033W	HAV	UMESH KUMAR	01-10-2005
418	14340459K	HAV	UPENDRA PRASAD RAI	01-09-2005
419	14359324X	HAV	VED RAM	01-10-2005
420	14361137X	HAV	VIJAI SINGH	01-01-2006
421	14361203P	HAV	VIJAY PAWAN	01-01-2006

MADRAS ENGINEER GROUP

422	1374737Y	HAV	A SATHIYAVEL	01-10-2005
423	1369755X	HAV	A VANAKRISHNAN	01-11-2005
424	1374764H	HAV	ANANT	01-12-2005
425	1369557M	HAV	B GOPAL	01-09-2005

426	1370269M	HAV	BAILLA VENKATAIAH	01-01-2006
427	1370110F	HAV	CHANDRAN M K	01-12-2005
428	1369861W	HAV	G RAMAKRISHNAN	01-12-2005
429	1370358L	HAV	GOPH M	01-01-2006
430	1373741P	HAV	JAYACHANDRAN P	01-09-2005
431	1374694P	HAV	K BASKARAN	01-09-2005
432	1369562X	HAV	K SELVARAJ	01-09-2005
433	1370260X	HAV	M DEVADASS	01-01-2006
434	1369601L	HAV	M KRISHNA SWAMY	01-09-2005
435	1369753M	HAV	NAGARAJAN M	01-11-2005
436	1370337P	HAV	PERIANAYAGAM	01-01-2006
437	1369631H	HAV	RAJAN M	01-09-2005
438	1372107A	HAV	RAMACHANDRAN NAIR S	01-09-2005
439	1369713L	HAV	RAMAMOORTHY G	01-10-2005
440	1370268K	HAV	S ANTHONY	01-01-2006
441	1370253F	HAV	S SUBBIAH	01-01-2006
442	1370362N	HAV	SAJEEV MA	01-01-2006
443	1370352K	HAV	SHAJI V CHERIAN	01-01-2006
444	1370090Y	HAV	T SAMPANGI	01-12-2005
445	1369659H	HAV	THULASEEDHARAN PILLAI	01-10-2005
446	1374662M	HAV	V RAJASEKARAN	01-09-2005
447	1369998H	HAV	VIJAYAN P	01-12-2005

BENGAL ENGINEER GROUP

448	1463604X	HAV	ASHOK KUMAR DAS	01-10-2005
449	1465024F	HAV	ASHOK KUMAR SINGH SOMBANSI	01-09-2005
450	1464073X	HAV	ATAR SINGH	01-01-2006
451	1467995L	HAV	AWADESH CHANDER SINCH	01-01-2006
452	1464020Y	HAV	BAHADUR SINGH	01-01-2006
453	1468685M	HAV	BALBIR SINGH	01-01-2006
454	1463543L	HAV	BANWARI SINGH	01-09-2005
455	1463508H	HAV	BHAGWAN SINGH	01-09-2005
456	1463949Y	HAV	BIGYAN CHANDRA NAYA	01-01-2006
457	1464081W	HAV	BINDA DIN YADAV	01-01-2006
458	1464028L	HAV	BIRENDER KUMAR SINGH	01-01-2006
459	1463956P	HAV	CHHETANU RAM	01-01-2006
460	1463638L	HAV	DAYA NAND SINGH	01-10-2005
461	1463547F	HAV	DHARAMVIR SINGH	01-09-2005
462	1468381P	HAV	FAQUIR JOSHI	01-10-2005
463	1463605A	HAV	GARAJU DAS	01-10-2005
464	1463471M	HAV	GOPAL SINGH	01-09-2005
465	1463709F	HAV	GOVIND SINGH NAYAL	01-11-2005
466	1468620Y	HAV	GURBACHAN SINGH	01-01-2006
467	1463799N	HAV	HARI PRASAD CHHETRI	01-12-2005
468	1463763P	HAV	JAGDISH CHANDER	01-12-2005
469	1463801A	HAV	KISHAN SINGH	01-12-2005

470	1463667A	HAV	LAXMI SHANKAR SINGH	01-10-2005
471	1463550F	HAV	MADAN LAL SHARMA	01-09-2005
472	1552818H	HAV	MADAN PAL SINGH	01-01-2006
473	1463767L	HAV	MAHABIR SINGH	01-12-2005
474	1463843M	HAV	MOHAN RAM	01-12-2005
475	1463858P	HAV	NIRANJAN PRADHAN	01-12-2005
476	1463762M	HAV	OM PARKASH SHARAN	01-12-2005
477	1468698K	HAV	PARMJEET SINGH	01-01-2006
478	1467148P	HAV	PRAKASAN PILLAI T N	01-11-2005
479	1464005K	HAV	PREM PRASAD RAM	01-01-2006
480	1463832A	HAV	PRITHIPAL SINGH	01-12-2005
481	1463780P	HAV	RAM KISHAN	01-12-2005
482	1463825K	HAV	RAM SEWAK	01-12-2005
483	1463504M	HAV	RAMJIT YADAV	01-09-2005
484	1468631L	HAV	RANDHIR SINGH	01-01-2006
485	1463513N	HAV	RAVINDER CHAND	01-09-2005
486	1463758K	HAV	ROHTASH KUMAR	01-11-2005
487	1468680N	HAV	SACHCHIDA NAND TIWARI	01-01-2006
488	1468327F	HAV	SHIV PRASAD GUPTA	01-09-2005
489	1468623M	HAV	SHIV SHANKAR MISHRA	01-01-2006
490	1463844P	HAV	SRI NIBAS PANIGRAHI	01-12-2005
491	1468360Y	HAV	SUNIL KUMAR SINGH	01-09-2005
492	1463572A	HAV	SURINDER MOHAN SINGH	01-09-2005
493	1468292W	HAV	SURYA BAKSH	01-09-2005
494	1468517N	HAV	SUSHIL KUMAR SHARMA	01-11-2005
495	1554899M	HAV	UPENDRA NATH TIWARI	01-09-2005
496	1463757F	HAV	VINOD KUMAR	01-11-2005
497	1464080N	HAV	YUGESH PRASAD	01-01-2006

BOMBAY ENGINEER GROUP

498	1557778W	HAV	AJINDER SINGH	01-10-2005
499	1557761H	HAV	AMARJIT SINGH	01-10-2005
500	1557824A	HAV	AVTAR SINGH	01-10-2005
501	1557818M	HAV	BHUPINDER SINGH	01-10-2005
502	1557856H	HAV	CHANDRA PRAKASH	01-10-2005
503	1557984A	HAV	DINANATH	01-01-2006
504	1557654F	HAV	GURMEET SINGH	01-09-2005
505	1557969L	HAV	GURNAM SINGH	01-01-2006
506	1552590X	HAV	GURNAM SINGH	01-12-2005
507	1557626P	HAV	HIRA SINGH BIST	01-09-2005
508	1557524Y	HAV	JAGADALE APPASAHEB DATTOBA	01-09-2005
509	1567793Y	HAV	JASVIR SINGH	01-10-2005
510	1557673M	HAV	JASWANT SINGH	01-09-2005
511	1557688P	HAV	JASWANT SINGH	01-09-2005
512	1557946K	HAV	JOGINDER SINGH	01-01-2006
513	1557610K	HAV	KUMER PAL SINGH	01-09-2005

514	1557861N	HAV	MADAN LAL	01-10-2005
515	1557867P	HAV	MOHAMMAD ISHAQ	01-10-2005
516	1552579Y	HAV	MOHAN DASS R	01-12-2005
517	1557658X	HAV	MORE VINAYAKBHIKAJIRAO	01-09-2005
518	1552247P	HAV	MURALIDHARAN NAIR D	01-09-2005
519	1557992Y	HAV	NAGENDERA PRASAD VERMA	01-01-2006
520	1557989Y	HAV	OMKAR SINGH KUSHWAHA	01-01-2006
521	1557569Y	HAV	PAWAR MADHUKAR LAXMAN	01-09-2005
522	1552712W	HAV	PRABHUNATH SINGH	01-12-2005
523	1552506M	HAV	QUDDUS	01-10-2005
524	1557993F	HAV	RAFI MAHAMMAD	01-01-2006
525	1557629H	HAV	RUDRAPPA SHIVALING MAHAJAN	01-09-2005
526	1557792H	HAV	SATYA NARAYAN	01-10-2005
527	1557779Y	HAV	SON PAL	01-10-2005
528	1557952X	HAV	SUDAMA SINGH	01-01-2006
529	1557858N	HAV	SUKHCHAN SINGH	01-10-2005
530	1557747W	HAV	SURAJMAL SINGH	01-10-2005
531	1553058X	HAV	SYAT ALI	01-12-2005
532	1557595A	HAV	TARSEM MASIH	01-09-2005
533	1557745L	HAV	ZAINUL ABDIN	01-10-2005

CORPS OF SIGNALS

534	14230704Y	HAV	ABDUL AZIM ANSARI	01-10-2005
535	14231702A	HAV	ABHAYA KUMAR NAYAK	01-12-2005
536	14243564W	HAV	AMBIKA SINGH YADAV	01-09-2005
537	14243715K	HAV	ANAND PAL SINGH	01-01-2006
538	14231821W	HAV	ANANDA LAL SEN	01-01-2006
539	14241583H	HAV	ANGREZ SINGH	01-10-2005
540	14231190Y	HAV	ANIYAN KUNJU MA	01-11-2005
541	14232087A	HAV	ARTATRANA DEHURY	01-01-2006
542	14232536K	HAV	ASHIR KUMAR CHAKRABORTY	01-01-2006
543	14243763K	HAV	ASHOK KUMAR	01-01-2006
544	14231996Y	HAV	ASHOK KUMAR SINGH	01-01-2006
545	14243563N	HAV	ASHOK KUMAR THAKUR	01-09-2005
546	14243647F	HAV	BADRI NARAIN RAM	01-10-2005
547	14243404W	HAV	BAIJU P	01-09-2005
548	14230937A	HAV	BALAKARISHNAN V P	01-11-2005
549	14271125F	HAV	BALJIT SINGH	01-11-2005
550	14231012W	HAV	BALKRISHAN DATT KAUSHIK	01-11-2005
551	14231050M	HAV	BARNESHWAR PANDEY	01-11-2005
552	14243759F	HAV	BASAPPA NIMBALKAR	01-01-2006
553	14231084A	HAV	BHARAT PRASAD SINGH	01-11-2005
554	14243071P	HAV	BINAY KUMAR SINGH	01-11-2005
555	14231994N	HAV	BIR NARAYAN SINGH	01-01-2006
556	14231869K	HAV	BIRENDRA PRASAD	01-12-2005
557	14270785M	HAV	BISHUN DAYAL	01-09-2005

558	14270800W	HAV	CHAMAN LAL	01-09-2005
559	14231819Y	HAV	CHANDER KUMAR SINGH	01-01-2006
560	14231686N	HAV	CHANDRA BUSHAN PRASAD SINGH	01-12-2005
561	14232499F	HAV	CHANDRA MOHAN SHARMA	01-01-2006
562	14232309K	HAV	CHANDRA PRAKASH	01-01-2006
563	14231810K	HAV	CHANDRA SEKHAR SINGH	01-12-2005
564	14271265N	HAV	CHHOTE LAL KESHRI	01-11-2005
565	14243747M	HAV	D BALA SWAMY	01-01-2006
566	14231796H	HAV	DAL CHAND SHARMA	01-12-2005
567	14231010L	HAV	DAYA KISHAN	01-11-2005
568	14232529N	HAV	DEVENDRA KUMAR	01-01-2006
569	14271375H	HAV	DEVI PRASAD SHUKLA	01-11-2005
570	14271044F	HAV	DHARAMPAL	01-10-2005
571	14232376P	HAV	DIWAKAR MANDAL	01-01-2006
572	14232544H	HAV	FATE SINGH NEGI	01-01-2006
573	14230551A	HAV	GAJRAJ SINGH	01-09-2005
574	14231122L	HAV	GANESH ROY	01-11-2005
575	14270792H	HAV	GAYA PRASAD	01-09-2005
576	14232515N	HAV	GENDA LAL	01-01-2006
577	14232646Y	HAV	GHANA KANTA GOGOI	01-01-2006
578	14231921F	HAV	GIRAND SINGH SHAKYA	01-12-2005
579	14231080K	HAV	GOKUL PRASAD KUSHWAHA	01-11-2005
580	14271331L	HAV	GUGAN RAM	01-11-2005
581	1380548X	HAV	GURCHARAN SINGH	01-10-2005
582	14243649M	HAV	HANUMANT KUMAR	01-10-2005
583	14243731F	HAV	HARBANS LAL	01-01-2006
584	14232210N	HAV	HARENDRA PRASAD SINGH	01-01-2006
585	14231139Y	HAV	HARI PRASAD SINGH	01-11-2005
586	14231933W	HAV	HARIOM	01-01-2006
587	14231071H	HAV	HAVA SINGH	01-11-2005
588	14271263H	HAV	JAGDISH	01-11-2005
589	14271184N	HAV	JAGDISH CHANDER SHARMA	01-11-2005
590	14232343K	HAV	JAGDISH CHANDRA BALA	01-01-2006
591	14271304F	HAV	JAI BAHADUR SINGH	01-11-2005
592	14270862W	HAV	JAI KUMAR YADAV	01-10-2005
593	14231809P	HAV	JAI PAL SINGH	01-12-2005
594	14232474P	HAV	JAIBIR SINGH	01-01-2006
595	14231512N	HAV	JAL SINGH	01-12-2005
596	14271004A	HAV	JANAK RAJ	01-10-2005
597	14231748H	HAV	JANARDHAN PRASAD MISHRA	01-12-2005
598	14243369Y	HAV	JAY PRAKASH SINGH	01-09-2005
599	14230698W	HAV	KAMAL DEO SINGH	01-10-2005
600	14270880Y	HAV	KANAI CHAKRABORTY	01-10-2005
601	14271374A	HAV	KANWAR SINGH	01-11-2005
602	14271402F	HAV	KHUM BHADUR RANA	01-11-2005
603	14243684P	HAV	KUNJU KRISHNA PILLAI K	01-12-2005

604	14231566P	HAV	KUNJUNNY K	01-12-2005
605	14231083X	HAV	LAXMESHWAR PRASAD SINGH	01-11-2005
606	14271007N	HAV	MAHADEO ANKUSH DHAWLE	01-10-2005
607	14231950W	HAV	MAHANGU RAI	01-01-2006
608	14230976Y	HAV	MAHESH SHARMA	01-11-2005
609	14230751W	HAV	MAHESHWAR NARAYAN SINGH	01-10-2005
610	14232051F	HAV	MAHESWAR MOHANTA	01-01-2006
611	14231209M	HAV	MAHINDER PAL SINGH	01-11-2005
612	14231044Y	HAV	MAJID KHAN	01-11-2005
613	14243617K	HAV	MAYEKAR SHASHIKANT EKNATH	01-10-2005
614	14232086X	HAV	MEGHA NATH SINGHA	01-01-2006
615	14231057W	HAV	MOHAN LAL	01-11-2005
616	14231516K	HAV	MOHANA KUMAR C	01-12-2005
617	14270974W	HAV	MOHINDER SINGH	01-10-2005
618	14270812L	HAV	MONIRAM HAZARIKA	01-09-2005
619	14243650F	HAV	MOTI LAL CARPENTER	01-10-2005
620	14243394X	HAV	MUSUNURU BHASKARAIHA	01-09-2005
621	14230703W	HAV	NAGENDRA PANDEY	01-10-2005
622	14243638A	HAV	NAGENDRA THAKUR	01-10-2005
623	14231857P	HAV	NAIN SINGH	01-12-2005
624	14271315N	HAV	NAIR D KUMAR	01-11-2005
625	14230745H	HAV	NAJMUL HAQUE	01-10-2005
626	14270897M	HAV	NANDLAL UPADHYAY	01-10-2005
627	14232409P	HAV	NARAYAN CHANDRA NAG	01-01-2006
628	14235828X	HAV	OM PRAKASH	01-12-2005
629	14231364N	HAV	PARESH CHANDRA KALITA	01-12-2005
630	14271063M	HAV	PARKASH CHAND	01-11-2005
631	14232300P	HAV	PAWADE SOMNATH YESHWANT	01-01-2006
632	14271342X	HAV	PRABIR DANA	01-11-2005
633	14230817F	HAV	PRADIP KUMAR	01-10-2005
634	14230514M	HAV	PRITAM CHAND	01-09-2005
635	14232358M	HAV	PURAN CHAND PANDEY	01-01-2006
636	14243673H	HAV	PURNA CHANDRA SINGHA	01-11-2005
637	14271366F	HAV	PUTTU LAL SINGH	01-11-2005
638	14240693L	HAV	RABINDER SINGH	01-12-2005
639	14230663A	HAV	RABINDRA NATH SINGH	01-10-2005
640	14231773F	HAV	RAGHUNATH SINGH	01-12-2005
641	14237640F	HAV	RAJA RAM	01-12-2005
642	14243589H	HAV	RAJBIR MALIK	01-10-2005
643	14270869A	HAV	RAJENDER PARSHAD	01-10-2005
644	14232331P	HAV	RAJENDRA PRASAD SHARMA	01-01-2006
645	14270826L	HAV	RAJENDRA RAY	01-09-2005
646	14235053X	HAV	RAJENDRAN NAIR N	01-11-2005
647	14231629M	HAV	RAJESH KUMAR	01-12-2005
648	14231240Y	HAV	RAJINDER SINGH	01-11-2005
649	14271134H	HAV	RAM AVTAR	01-11-2005

650	14231106N	HAV	RAM BAHADUR	01-11-2005
651	14271313H	HAV	RAM DAYAL SINGH	01-11-2005
652	14270858N	HAV	RAM DEO	01-10-2005
653	14243557A	HAV	RAM KUMAR	01-09-2005
654	14230822M	HAV	RAM NARESH SINGH	01-10-2005
655	14230873A	HAV	RAMA KANT TIWARI	01-10-2005
656	14232069X	HAV	RAMA SHISH SINHA	01-01-2006
657	14230544K	HAV	RAMAWTAR YADAV	01-09-2005
658	14271351Y	HAV	RAMESHWAR PANDEY	01-11-2005
659	14231865N	HAV	RAMESHWAR TIWARI	01-12-2005
660	14243533W	HAV	RAMYATAN	01-09-2005
661	14230692P	HAV	RANJEET SINGH	01-10-2005
662	14243508X	HAV	RANJIT SINGH	01-09-2005
663	14243643L	HAV	RATTI RAM GURJAR	01-10-2005
664	14230918P	HAV	REMANAN V	01-10-2005
665	14243453Y	HAV	S K MAINUL HAQUE	01-09-2005
666	14243451N	HAV	SANJAY KUMAR AWASTHI	01-09-2005
667	14231579M	HAV	SAT PAL	01-12-2005
668	14232357K	HAV	SATENDRA SHARMA	01-01-2006
669	14231705N	HAV	SATHA PATHI PRADHAN	01-12-2005
670	14231092Y	HAV	SATYA DEV MAHTO	01-11-2005
671	14243664F	HAV	SATYA PAL	01-10-2005
672	14230652N	HAV	SHAMAL KANTI RAJ KUMAR	01-10-2005
673	14232025A	HAV	SHASHI BHUSHAN OJHA	01-01-2006
674	14243433L	HAV	SHASHI KANT RAI	01-09-2005
675	14230858L	HAV	SHASI KANT SINGH	01-10-2005
676	14243561H	HAV	SHATRUGHAN SINGH	01-09-2005
677	14230950K	HAV	SHIV BILASH SINGH KUSHWAHA	01-11-2005
678	14243675N	HAV	SHIVAJI MUTNALE	01-11-2005
679	14232382H	HAV	SHOBH NATH RAM	01-01-2006
680	14271357A	HAV	SHRI BHAGWAN	01-11-2005
681	14243714F	HAV	SHRI KUMAR BICHOLE	01-01-2006
682	14232621M	HAV	SHYAM KUMAR	01-01-2006
683	14231888P	HAV	SHYAMLAL	01-12-2005
684	14231982Y	HAV	SIDHESHWAR YADAV	01-01-2006
685	14231892X	HAV	SIVADASAN K	01-12-2005
686	14231484M	HAV	SOMA ORAON	01-12-2005
687	14271316W	HAV	SREE KUMAR K	01-11-2005
688	14243380X	HAV	SRI RAMULU JANDHYALA	01-11-2005
689	14241059P	HAV	SRIKANT RAM	01-09-2005
690	14231477W	HAV	SRINIBASH SAMAL	01-12-2005
691	14231156Y	HAV	SUBH RAM	01-11-2005
692	14232291Y	HAV	SUBHAS CHANDRA MANDAL	01-01-2006
693	14230680A	HAV	SUBHASH CHAND SHARMA	01-10-2005
694	14231037H	HAV	SUBHASH CHANDER	01-11-2005
695	14239876P	HAV	SUBHASH CHANDER	01-09-2005

696	14232758Y	HAV	SUDHAKARAN PILLAI R	01-01-2006
697	14270913Y	HAV	SUNITY KUMAR RAY	01-10-2005
698	14231840F	HAV	SURAJ BHAN	01-12-2005
699	14271180X	HAV	SURESH CHAND	01-11-2005
700	14231147X	HAV	SURINDER KUMAR	01-11-2005
701	14231741Y	HAV	SURINDER PAL	01-12-2005
702	14271017X	HAV	TAHAR SINGH	01-10-2005
703	14243723H	HAV	TAMMANA GOUDA RANGANA GOUDA PATIL	01-01-2006
704	14243570K	HAV	TIKA RAM PRADHAN	01-09-2005
705	14243656H	HAV	TIMIR GHOSH	01-10-2005
706	14230812H	HAV	UDAY DAS	01-10-2005
707	14232455K	HAV	UMAKANT RAI	01-01-2006
708	14231700P	HAV	V JAGANATHAN	01-12-2005
709	14230466X	HAV	V SUNDARARAJ	01-09-2005
710	14230991N	HAV	VARE LAL	01-11-2005
711	14243626L	HAV	VEERA BHADRA	01-10-2005
712	14270829Y	HAV	VIJAY KUMAR K	01-09-2005
713	14271396Y	HAV	VIJAY RAJ SINGH JAMWAL	01-11-2005
714	14230870M	HAV	VIJAYAN NAIR M T	01-10-2005
715	14231087N	HAV	VINOD KUMAR SINGH	01-11-2005
716	14243420N	HAV	VINOD SINGH	01-09-2005

THE BRIGADE OF GUARDS

717	13682892X	HAV	AMBA DATT	01-10-2005
718	13682937M	HAV	BABU LAL JAT	01-10-2005
719	13682981W	HAV	BABU SINGH	01-01-2006
720	13682766L	HAV	BHAWAN SINGH	01-09-2005
721	13682761M	HAV	BINANDA SAIKIA	01-09-2005
722	5042422F	HAV	BUDHA BAHADUR SARKI	01-10-2005
723	13682906M	HAV	DANA RAM	01-10-2005
724	13682765H	HAV	DILIP CHANDRA BORAH	01-09-2005
725	13679306Y	HAV	DIPANKAR DAS	01-09-2005
726	13682855K	HAV	EDWARD TOPPO	01-10-2005
727	13682806F	HAV	ER PANDI	01-09-2005
728	13682680M	HAV	GOVIND LAL SAH	01-09-2005
729	13682975H	HAV	HAR BHAJAN SINGH	01-01-2006
730	13682912A	HAV	HEM KANTA GOGOI	01-10-2005
731	13682961H	HAV	JAIVIR SINGH	01-01-2006
732	13613145F	HAV	JASPAL SINGH	01-12-2005
733	13679398W	HAV	KALP NATH SINGH	01-10-2005
734	13682979Y	HAV	KARMBIR	01-01-2006
735	13682984K	HAV	MOHAN LAL	01-01-2006
736	13682920Y	HAV	NAND KISHOR THAKUR	01-10-2005
737	13679300X	HAV	PAL SINGH	01-09-2005
738	13682910P	HAV	PAWAN KUMAR	01-10-2005

739	13682998K	HAV	PREM CHAND SHARMA	01-01-2006
740	13682838K	HAV	PRITAM SINGH	01-09-2005
741	13682966F	HAV	PUTUL CHANDRA LAHON	01-01-2006
742	13682935F	HAV	RAJA SEKHARA NAIR V	01-10-2005
743	9084432L	HAV	RAM RAKHA	01-10-2005
744	13683002Y	HAV	RAMA KRISHNAN PARETH CHALIL	01-01-2006
745	13682918F	HAV	RATNESWAR CHUTIA	01-10-2005
746	13682899F	HAV	SUNDER SINGH	01-10-2005
747	13682785W	HAV	UJJAGAR SINGH	01-09-2005
748	13679520F	HAV	VIKARMA PRASAD RAI	01-01-2006

THE PARACHUTE REGIMENT

749	13613031W	HAV	AWAD KISHOR KUMAR	01-11-2005
750	13614289W	HAV	BHAGWAN SINGH	01-01-2006
751	13614387W	HAV	BHARAT SINGH	01-01-2006
752	13614288N	HAV	DESH RAJ	01-01-2006
753	13612998M	HAV	DEVINDER SINGH	01-11-2005
754	13612879W	HAV	G GANESAN	01-09-2005
755	13614297P	HAV	GRISH CHANDRA KALA	01-01-2006
756	2776188M	HAV	JAI PRAKASH	01-09-2005
757	13613097M	HAV	P SEKHAR	01-12-2005
758	13614315M	HAV	PATIL PANDURANG	01-01-2006
759	13614292W	HAV	PRITAM SINGH	01-01-2006
760	13613002F	HAV	RAJINDER SINGH	01-11-2005
761	13614376K	HAV	RAMAKANTA RAVA	01-01-2006
762	13614474K	HAV	RAMGOPAL SARMA	01-01-2006
763	13615199F	HAV	SALIK RAM	01-11-2005
764	13613074L	HAV	SEWA SINGH	01-11-2005
765	13614384H	HAV	SUKHENDU HALDER	01-01-2006
766	13614497L	HAV	SUSHIL KUMAR BISWAL	01-01-2006

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

767	14902294K	HAV	AMAR CHAND	01-10-2005
768	14902481H	HAV	AMARJIT SINGH	01-10-2005
769	14902847P	HAV	ARJUN BAITHA	01-01-2006
770	2584213L	HAV	BHABULA GAUDO	01-01-2006
771	14903135Y	HAV	BHUP RAM	01-01-2006
772	14902886N	HAV	BIHARI LAL	01-01-2006
773	14902905N	HAV	BIMAL SINGHA	01-01-2006
774	14903093X	HAV	BINDESHWARI	01-01-2006
775	14902227Y	HAV	BOM BAHADUR THAPA	01-09-2005
776	14902456K	HAV	BRAJA BANDHU DALABEHERA	01-10-2005
777	14902935L	HAV	BUTA RAM	01-01-2006
778	14903183Y	HAV	C BALA KRISHNAN	01-01-2006
779	14903086F	HAV	CHARAN SINGH	01-01-2006
780	14902346P	HAV	CHETAN RAM SARAN	01-10-2005

781	14902234P	HAV	DAYALI SAH	01-09-2005
782	14902194Y	HAV	DEL CHAND	01-09-2005
783	14902377P	HAV	DEV SINGH	01-10-2005
784	14902381X	HAV	DEVI SAHAI	01-10-2005
785	14902352H	HAV	DHARAM PAL	01-10-2005
786	14902560X	HAV	DIBYENDU MUKHERJEE	01-10-2005
787	14902179K	HAV	DIL BAHADUR ROKA	01-09-2005
788	14902137X	HAV	DINESH CHANDRA VERMA	01-09-2005
789	14902263K	HAV	DIP SINGH PARIHAR	01-10-2005
790	14902963X	HAV	DIPEN CHANDRA NATH	01-01-2006
791	14900059M	HAV	DOR PRASAD RANA	01-01-2006
792	14902545H	HAV	GANGA PRASAD BALMIKI	01-10-2005
793	14902271H	HAV	GANGADHARAPPA N S	01-10-2005
794	14902983L	HAV	GHANA KANTA PATHAK	01-01-2006
795	14902906W	HAV	GOBINDA SINGHA	01-01-2006
796	14902881P	HAV	HARI DAYAL	01-01-2006
797	14902865X	HAV	HARI SHANKAR RAMSUMER BENU	01-01-2006
798	13747428K	HAV	HAWA SINGH	01-01-2006
799	2874699M	HAV	HAZARI RAM NAYAK	01-09-2005
800	14902909K	HAV	JAGAT SINGH	01-01-2006
801	14900212X	HAV	JAI CHAND	01-01-2006
802	14902926K	HAV	JAY BAHADUR SINGHA	01-01-2006
803	14902706A	HAV	JITENDRA PRASAD	01-11-2005
804	9922573N	HAV	JOGINDER SINGH	01-10-2005
805	14902132Y	HAV	JOGINDER SINGH RANA	01-09-2005
806	14902321H	HAV	K DEENADAYALAN	01-10-2005
807	14902414X	HAV	K PARSURAM PATRA	01-10-2005
808	14902272L	HAV	K T MANJU NATHA	01-10-2005
809	14903163L	HAV	KABEER DASAR	01-01-2006
810	14902259F	HAV	KEBAL SINGH	01-10-2005
811	14902842W	HAV	KRUSHNA CHANDRA PANDA	01-01-2006
812	14902335H	HAV	LAL CHAND NEHARA	01-10-2005
813	14902672X	HAV	LALLAN BHAGAT	01-10-2005
814	14902434L	HAV	MAHABIR PRASAD	01-10-2005
815	14902625A	HAV	MANGLESHWAR ORAON	01-10-2005
816	14902882X	HAV	MD HANIF SALMANI	01-01-2006
817	14902363P	HAV	MEER SINGH JAT	01-10-2005
818	14902768A	HAV	MHADE SITARAM RAMBHAU	01-01-2006
819	14902987F	HAV	NANDAPPA BHADRASHETTI	01-01-2006
820	14902772H	HAV	NANDI RAM NATH	01-01-2006
821	14902717M	HAV	NAR PRASAD JUGJALI	01-12-2005
822	14902868L	HAV	NARENDER SINGH RANA	01-01-2006
823	14902418N	HAV	NILENDU BHOWMIK	01-10-2005
824	14902450H	HAV	OM PRAKASH	01-10-2005
825	14902562H	HAV	OM PRAKASH	01-10-2005
826	14902982H	HAV	PRABIN KR DAS	01-01-2006

827	14903132L	HAV	PRAMOD SINGH	01-01-2006
828	14903196W	HAV	PURNA PRASAD GAUCHAN	01-01-2006
829	14902888Y	HAV	RAKAM SINGH	01-01-2006
830	14903114H	HAV	RAM ASHISH VERMA	01-01-2006
831	14902582W	HAV	RAM CHARAN	01-10-2005
832	14902940W	HAV	RAM KAMAL PANDA	01-01-2006
833	14902506K	HAV	RAMANUJ SHARMA	01-10-2005
834	13744302Y	HAV	RANDHIR SINGH	01-01-2006
835	14902443M	HAV	RANJAK KUNDLIK MILKHE	01-10-2005
836	14902147F	HAV	RASHA KRISHNAN P G	01-09-2005
837	14902487K	HAV	RAVINDRA PRASAD	01-10-2005
838	14902977X	HAV	ROMESH SINGH	01-01-2006
839	14902355W	HAV	S PANDIYA RAJAN	01-10-2005
840	14902579W	HAV	SARWA YADAV	01-10-2005
841	14902160L	HAV	SELVARAJ K	01-09-2005
842	14902330K	HAV	SHOBHA RAM KARWASHDA	01-10-2005
843	14902809Y	HAV	SHRI RAM	01-01-2006
844	14902297X	HAV	SIVANANDAN A	01-10-2005
845	14903169M	HAV	SURENDRA RAI	01-01-2006
846	14902208N	HAV	SURESH KUMAR	01-09-2005
847	14902932X	HAV	SURJDEO MANDAL	01-01-2006
848	14902730W	HAV	TAN BAHADUR THAPA	01-01-2006
849	14902438F	HAV	TARSEM LAL	01-10-2005
850	14902310W	HAV	UDAI THAPA	01-10-2005
851	14902539P	HAV	UMESH CHANDRA GUPTA	01-10-2005
852	14902903H	HAV	UMMED SINGH	01-01-2006
853	14903005W	HAV	UMRAO SINGH	01-01-2006
854	14902341W	HAV	V MAHALINGAM	01-10-2005
855	14902283X	HAV	VARPE ASHOK KISHAN	01-10-2005
856	14902171X	HAV	VINAY KUMAR LAL	01-09-2005
857	14902657H	HAV	VIRENDRA KUMAR SINGH	01-10-2005
858	14903066N	HAV	WAMAN SAKHARAM CHOURE	01-01-2006

THE PUNJAB REGIMENT

859	2474198Y	HAV	ASHOK KUMAR TIWARI	01-01-2006
860	2472506P	HAV	BALBIR SINGH	01-12-2005
861	2472626N	HAV	CHAMAN LAL	01-01-2006
862	2472253L	HAV	LEKH RAJ SHARMA	01-11-2005
863	2472165P	HAV	PARKASH CHAND SHARMA	01-11-2005
864	2474207P	HAV	RAJBIR SINGH	01-01-2006
865	2474188P	HAV	RANDHIR SINGH MAN	01-01-2006
866	2472221H	HAV	SHER SINGH	01-11-2005
867	2474166W	HAV	SHYAMBIR	01-10-2005
868	2472115K	HAV	SUKHDEV RAJ	01-09-2005

THE MADRAS REGIMENT

869	2584193H	HAV	ANILKUMAR OC	01-01-2006
870	2584088M	HAV	APPACHIRA KUTTAPPA POOVAPPA	01-09-2005
871	2580101N	HAV	C KANNAN	01-12-2005
872	2584224X	HAV	C NAGARAJ	01-01-2006
873	2584077A	HAV	C PARAMESWARAN	01-09-2005
874	2584102N	HAV	CHANDRAMAPP SATIHAL	01-10-2005
875	2579678F	HAV	GANESHAN R	01-09-2005
876	2584304P	HAV	HARIKISHOR	01-01-2006
877	2584277W	HAV	JOHN OJ	01-01-2006
878	2584080A	HAV	K PALANISAMY	01-09-2005
879	2584198F	HAV	K PRASAD KUMAR	01-01-2006
880	2584079L	HAV	KUBENDRA MALLAPPA HOSUR	01-09-2005
881	2584169M	HAV	L SRINIVASA RAMANUJAM	01-01-2006
882	2584076X	HAV	LAKSHMANAN GANAPATHIYADAN	01-09-2005
883	2584222M	HAV	M BALAKRISHNAN	01-01-2006
884	2579893M	HAV	M BOOPATHY	01-11-2005
885	2584220F	HAV	M MARIMUTHU	01-01-2006
886	2584279F	HAV	MURALEEDHARAN NAIR R	01-01-2006
887	2584271P	HAV	N RAVICHANDRAN	01-01-2006
888	2584158A	HAV	NAGARAJAN M	01-10-2005
889	2580149F	HAV	P AMBROSE	01-01-2006
890	2584253M	HAV	P DHANABALAN	01-01-2006
891	2584209H	HAV	P MOHAN REDDY	01-01-2006
892	2584203F	HAV	POTTI PALLCH ANKAIAH	01-01-2006
893	2584170F	HAV	R MOHAN	01-01-2006
894	2584097N	HAV	RAMESH RAMU KESARKAR	01-10-2005
895	2584119F	HAV	S DAVID	01-10-2005
896	2584234F	HAV	S LOHIDAS	01-01-2006
897	2584214N	HAV	S M SELVARAJ	01-01-2006
898	2584118Y	HAV	S SEKAR	01-10-2005
899	2584247Y	HAV	SANTHOSH KUMAR TC	01-01-2006
900	2584162H	HAV	SEKAR P	01-01-2006
901	2584219M	HAV	SREEKANTAN PILLAI K	01-01-2006
902	2579660L	HAV	VENUGOPAL P	01-09-2005

THE GRENADIERS

903	2675778K	HAV	ABDUL ABAS	01-10-2005
904	2675830F	HAV	ASHOK KUMAR SINGH	01-01-2006
905	2675915X	HAV	AWDESH SINGH	01-01-2006
906	2675943K	HAV	BACHITAR SINGH	01-01-2006
907	2675701F	HAV	BAHADUR SINGH	01-09-2005
908	2672315K	HAV	BENI PRASAD	01-01-2006
909	2672033L	HAV	CHHATAR SINGH	01-11-2005
910	2675814K	HAV	DHARAMBIR SINGH	01-10-2005
911	2675769H	HAV	IMAMUDDIN KHAN	01-10-2005
912	2675931P	HAV	JAHAANGIR BISWAL	01-01-2006

913	2675820X	HAV	JASWANT SINGH	01-01-2006
914	13614328K	HAV	JETHA RAM	01-01-2006
915	2675831K	HAV	JOGINDER SINGH	01-01-2006
916	2675754A	HAV	JORAVAR KHAN	01-10-2005
917	2675945P	HAV	KRISHAN CHAND	01-01-2006
918	2675826Y	HAV	LABH SINGH	01-01-2006
919	8028888F	HAV	MADAN MOHAN VERMA	01-09-2005
920	13614351X	HAV	MAI RAM	01-01-2006
921	2675888Y	HAV	MANWAR SINGH	01-01-2006
922	2675760N	HAV	MOHAN LAL	01-10-2005
923	2675729F	HAV	MOHD IRSHAD	01-10-2005
924	2675740A	HAV	MOHD JAHIR	01-10-2005
925	2675757N	HAV	MOHD USMAN KHAN	01-10-2005
926	2675679F	HAV	NARENDRA SINGH	01-09-2005
927	2675893K	HAV	OMKAR SINGH	01-01-2006
928	2671966N	HAV	PRITHVI CHAND	01-11-2005
929	2676012M	HAV	RAGHUNANDAN SINGH	01-01-2006
930	2675892F	HAV	RAJENDRA KUMAR	01-01-2006
931	2675992M	HAV	RAJINDER SINGH	01-01-2006
932	2675981A	HAV	RAM NIWAS PURNIA	01-01-2006
933	2672035W	HAV	RAMA SHANKAR	01-11-2005
934	2675941Y	HAV	RAMESH SINGH	01-01-2006
935	2675862K	HAV	RAZAUZ RAHMAN	01-01-2006
936	2675864P	HAV	SABBIR KHAN	01-01-2006
937	2675948H	HAV	SAMPAT LAL	01-01-2006
938	4426535X	HAV	SAMSURUDDIN CHOUDHURY	01-01-2006
939	2676045X	HAV	SHREE CHANDER BHADUR GIRI	01-01-2006
940	2675703M	HAV	SHYAM BABU	01-09-2005
941	2675994X	HAV	SULTAN SINGH	01-01-2006
942	2671975P	HAV	VIJAY SINGH	01-11-2005

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

943	2776981F	HAV	AKEEL ALI	01-01-2006
944	2772686F	HAV	ALLISAHEE HUKKERI	01-12-2005
945	2776373A	HAV	ANANDA DATTU PATIL	01-10-2005
946	2776575F	HAV	ASHOKARAO HANMANT VAGH	01-10-2005
947	2776189P	HAV	BAJABALE NAMADEO GANAPATI	01-09-2005
948	2776753Y	HAV	BALASO DADASO DESAI	01-01-2006
949	2776913N	HAV	BHAGORA MUKESHBHAI KALABHAI	01-01-2006
950	2776444W	HAV	BIJOSALE DINAKAR EKANATHI	01-10-2005
951	2776765N	HAV	GOKUL CHAND	01-01-2006
952	2776976W	HAV	HAIDAR ALI HABIB SHEKH	01-01-2006
953	2776764L	HAV	HERU HAGGAM	01-01-2006
954	2776645P	HAV	JILAKARA BOYAJU	01-01-2006
955	2776176X	HAV	K A DHARAMSHIBHAI	01-09-2005
956	2776947F	HAV	KALYAN SINGH	01-01-2006

957	2776779N	HAV	KANJIBHAI MALABHAI PATAL	01-01-2006
958	2776266Y	HAV	KHENAT DILIP BHIVA	01-10-2005
959	2776946Y	HAV	LAL BAHADUR SINGH KUSHWAH	01-01-2006
960	2776166N	HAV	MAHAKAL SUBHASH RAGHUNATH	01-09-2005
961	3983000P	HAV	NAGESH KUMAR	01-01-2006
962	2776966M	HAV	PATATNAVAR ISHWAR YALLAPPA	01-01-2006
963	2776771F	HAV	PATIL DEELIP NARASU	01-01-2006
964	2776933F	HAV	R B PREM SINGH	01-01-2006
965	14902250M	HAV	RAMCHANDERA SAKHARAM KOLEKAR	01-10-2005
966	2776522H	HAV	RAWOOL VASUDEO SABA	01-10-2005
967	2776275A	HAV	RAWOOL YASHWANT VITHALRAO	01-10-2005
968	2776934K	HAV	SAMBHAJI PRASHRAM BHOSLE	01-01-2006
969	2772702N	HAV	TAMMANNA VADDAR	01-12-2005
970	2776680X	HAV	VASANT BHAURAO MHAMUNAKAR	01-01-2006
971	2776693P	HAV	VIJAY GANGARAM DESHMUKH	01-01-2006

THE RAJPUTANA RIFLES

972	2878845Y	HAV	AMI LAL	01-01-2006
973	2878819X	HAV	ATIBAL SINGH TOMAR	01-10-2005
974	2878833K	HAV	ATTAR SINGH	01-01-2006
975	2875660M	HAV	BIRBAL RAM	01-01-2006
976	2878831Y	HAV	BRIJ LAL	01-01-2006
977	2875083L	HAV	DAYA RAM	01-11-2005
978	2875203Y	HAV	DHIAN CHAND	01-12-2005
979	2878824H	HAV	GOPA RAM	01-11-2005
980	2875555W	HAV	GULAB SINGH	01-01-2006
981	2878839L	HAV	HARI SINGH	01-01-2006
982	2876505X	HAV	KUNWAR PAL SINGH	01-10-2005
983	2878851M	HAV	MOHD HASHIM	01-01-2006
984	2874820P	HAV	RAM SWARUP	01-10-2005
985	2875547X	HAV	RAMJI LAL	01-01-2006
986	2874738A	HAV	RATTAN LAL	01-09-2005
987	2878883P	HAV	SARVESH KUMAR	01-01-2006
988	2878875W	HAV	SATISH CHANDRA	01-01-2006
989	2875643M	HAV	SAYAR SINGH	01-01-2006
990	2878829F	HAV	VIKRAM SINGH	01-01-2006
991	2875063X	HAV	YASHWANT SINGH	01-11-2005
992	2874670K	HAV	YASHWANT SINGH RAJPUR	01-09-2005

THE RAJPUT REGIMENT

993	2977128N	HAV	AJAI SINGH	01-12-2005
994	2981168M	HAV	AKHTAR ALI	01-09-2005
995	2981769X	HAV	ANGAD LAL	01-01-2006
996	2981301K	HAV	DHARAM SINGH	01-01-2006
997	2976962A	HAV	DINANATH SINGH	01-11-2005
998	2982389L	HAV	GOPI SHAYA	01-09-2005

999	2981163N	HAV	GORDHAN	01-09-2005
1000	2977099K	HAV	GORE LAL	01-12-2005
1001	2981221M	HAV	HARI OM	01-01-2006
1002	2976940F	HAV	JHABAR SINGH	01-11-2005
1003	2981262W	HAV	KAILASH BABU	01-01-2006
1004	2976597K	HAV	KHYAT SINGH NEGI	01-09-2005
1005	2976766A	HAV	MAHESH SINGH	01-10-2005
1006	2977154P	HAV	MD HANIF	01-11-2005
1007	2981161H	HAV	MIR JOHAD ALI	01-09-2005
1008	2976857K	HAV	MUNISHWAR SINGH	01-10-2005
1009	2976647K	HAV	NARAYAN GIRI	01-09-2005
1010	2981133W	HAV	RAM AUTAR SINGH	01-09-2005
1011	2981184K	HAV	RAM LOTAN	01-10-2005
1012	2976988P	HAV	RAM SABHA	01-11-2005
1013	2981179Y	HAV	SATISH CHANDRA MISHRA	01-09-2005

THE JAT REGIMENT

1014	3172000N	HAV	GYAN SINGH	01-09-2005
1015	3175094F	HAV	HARNAM SINGH	01-01-2006
1016	3175052P	HAV	JHABAR MAL YADAV	01-01-2006
1017	3174973H	HAV	JITENDER SINGH	01-09-2005
1018	3175794P	HAV	KAILASH CHAND NAI	01-01-2006
1019	3175036X	HAV	LADU SINGH	01-01-2006
1020	3174987H	HAV	MAHENDER SINGH	01-09-2005
1021	3175117X	HAV	RAJ NARAIN RAM	01-01-2006
1022	3171993L	HAV	RAJVIR SINGH	01-09-2005
1023	3174986A	HAV	RAM CHANDER	01-09-2005
1024	3175028Y	HAV	RAMESHWAR SINGH	01-01-2006
1025	3175054A	HAV	RAMESHWER DATT BALI	01-01-2006
1026	3172456M	HAV	SAUDAN SINGH	01-12-2005
1027	3175074N	HAV	TRILOK CHAND	01-01-2006

THE SIKH REGIMENT

1028	3380686Y	HAV	BALBIR SINGH	01-01-2006
1029	3380604L	HAV	BESHAMBER DUTT	01-01-2006
1030	3380670N	HAV	BISHI SINGH	01-01-2006
1031	3381097P	HAV	CHAMPAT LAL	01-09-2005
1032	3380581P	HAV	GURBACHAN SINGH	01-10-2005
1033	3380536H	HAV	HARJIT SINGH	01-09-2005
1034	3380699W	HAV	JAMIL MESIAH	01-01-2006
1035	3380746H	HAV	KARTAR SINGH	01-09-2005
1036	3380668W	HAV	MD SAIDUR RAHAMAN	01-01-2006
1037	3379599Y	HAV	MUNNU LAL	01-12-2005
1038	3380694X	HAV	PRITAM SINGH	01-01-2006
1039	3380693P	HAV	RASHPAL SINGH	01-01-2006
1040	3381098X	HAV	SHASHI KANT	01-01-2006

1041	3377795A	HAV	SHIVDHAR SHARMA	01-11-2005
1042	3377713M	HAV	SOBHAN SINGH	01-09-2005
1043	3380606W	HAV	SUKHA SINGH	01-01-2006

THE SIKH LIGHT INFANTRY

1044	4461900M	HAV	AVTAR SINGH	01-10-2005
1045	4461848P	HAV	BALWINDER SINGH	01-10-2005
1046	4461742H	HAV	CHARAN SINGH	01-09-2005
1047	4461852X	HAV	DALBIR SINGH	01-10-2005
1048	4462157P	HAV	DESHWAR KUMAR	01-01-2006
1049	4461838L	HAV	DHARAM SINGH	01-10-2005
1050	4458402P	HAV	GIRISH CHANDRA	01-09-2005
1051	4462089M	HAV	HIRDE SINGH	01-01-2006
1052	4462060K	HAV	JARNAIL SINGH	01-01-2006
1053	4462000P	HAV	JASBIR SINGH	01-11-2005
1054	4462005N	HAV	JOGINDERPAL SINGH	01-11-2005
1055	4462031P	HAV	KALI CHARAN	01-01-2006
1056	4461777Y	HAV	KARAMVIR SINGH	01-09-2005
1057	4462039F	HAV	KEHAR SINGH	01-01-2006
1058	4462142M	HAV	LACHMAN SINGH	01-01-2006
1059	4461982A	HAV	MANJIT SINGH	01-11-2005
1060	4458529X	HAV	MANOJ KUMAR PAL	01-10-2005
1061	4462059P	HAV	MUKHTIAR SINGH	01-01-2006
1062	4458535L	HAV	NANAK CHAND	01-10-2005
1063	4461794Y	HAV	OM RAJ	01-09-2005
1064	4462047A	HAV	PARAMJIT SINGH	01-01-2006
1065	4461836A	HAV	PREM SINGH	01-10-2005
1066	4461791L	HAV	PRITAM SINGH	01-09-2005
1067	4461781F	HAV	RADHA NATH NAYAK	01-09-2005
1068	4461753P	HAV	RAMESH CHAND	01-09-2005
1069	4461804X	HAV	RAMESHWAR DASS	01-10-2005
1070	4461988F	HAV	RAWAT SINGH	01-11-2005
1071	4462099W	HAV	SABINDER SINGH	01-01-2006
1072	4462045P	HAV	SATNAM SINGH	01-01-2006
1073	4461802M	HAV	SHINGARA SINGH	01-10-2005
1074	4462111M	HAV	SHIV CHARAN	01-01-2006
1075	4461994P	HAV	TEK SINGH	01-11-2005

THE DOGRA REGIMENT

1076	3979505N	HAV	BACHAN SINGH	01-11-2005
1077	3979520H	HAV	BHIM SINGH	01-12-2005
1078	3979360N	HAV	BISHNU CHARAN KHATUA	01-11-2005
1079	3979830N	HAV	CHET RAM	01-01-2006
1080	3982872L	HAV	DELAR CHAND	01-09-2005
1081	3982977P	HAV	DES RAJ	01-01-2006
1082	3979855A	HAV	GULDEV RAJ	01-01-2006

1083	3982895M	HAV	GURDEEP SINGH	01-10-2005
1084	3982875Y	HAV	JAGDEV SINGH	01-10-2005
1085	3979821M	HAV	JAGDISH PARSAD	01-01-2006
1086	3979825H	HAV	JASWANT SINGH	01-01-2006
1087	3979672K	HAV	KAMALJIT SINGH	01-12-2005
1088	3983002A	HAV	KULDEEP SINGH	01-01-2006
1089	3983017H	HAV	LAXMI SINGH	01-01-2006
1090	3982886L	HAV	MAHAVIR SINGH	01-10-2005
1091	3982976M	HAV	MALKEET SINGH	01-01-2006
1092	3983018L	HAV	NIKKAR RAM	01-01-2006
1093	3979217F	HAV	OM PARKASH	01-09-2005
1094	3979680H	HAV	PAWAN KUMAR DHADWAL	01-12-2005
1095	3979428K	HAV	PREM SINGH	01-11-2005
1096	3979873H	HAV	PREM SINGH VERMA	01-01-2006
1097	3979515X	HAV	RAJ KUMAR SINGH	01-11-2005
1098	3980013F	HAV	RAJINDER KUMAR	01-01-2006
1099	3982984L	HAV	RAJINDER SINGH	01-01-2006
1100	3983014P	HAV	RAM CHAND	01-01-2006
1101	3982870A	HAV	RUP LAL	01-09-2005
1102	3979288H	HAV	SHAMSHER SINGH	01-09-2005
1103	3979356L	HAV	SOHAN LAL	01-11-2005
1104	3979708X	HAV	SOHAN LAL VERMA	01-01-2006
1105	3979452A	HAV	SURENDER SINGH	01-11-2005
1106	3979243H	HAV	TILK RAJ	01-09-2005
1107	3979321P	HAV	UJAGAR SINGH	01-10-2005

THE GARHWAL RIFLES

1108	4063882A	HAV	ALAM SINGH	01-09-2005
1109	4064251K	HAV	AMARENDRA SHARMA	01-10-2005
1110	4063934L	HAV	AVTAR SINGH	01-09-2005
1111	4064006F	HAV	BACHAN SINGH	01-09-2005
1112	4060605K	HAV	BHAGAT SINGH	01-12-2005
1113	4063977A	HAV	BHAGAT SINGH	01-09-2005
1114	4064189H	HAV	BHAGAT SINGH	01-10-2005
1115	4064192H	HAV	BHAGAT SINGH	01-10-2005
1116	4063968Y	HAV	BHARAT SINGH	01-09-2005
1117	4064263Y	HAV	BHARAT SINGH	01-01-2006
1118	4064384A	HAV	BHIKAM SINGH	01-01-2006
1119	4064374W	HAV	BHIM SINGH	01-01-2006
1120	4064375Y	HAV	BIJAY SINGH	01-01-2006
1121	4064305A	HAV	BIKRAM SINGH	01-01-2006
1122	4064389Y	HAV	BIRENDAR RAM	01-01-2006
1123	4064227N	HAV	BIRENDER SINGH	01-10-2005
1124	4064485N	HAV	BIRENDER SINGH	01-01-2006
1125	4060482H	HAV	BIRENDRA SINGH	01-10-2005
1126	4064190X	HAV	CHANDER SINGH	01-10-2005

1127	4064289N	HAV	CHANDRA MOHAN	01-01-2006
1128	4060545A	HAV	DALBIR SINGH	01-11-2005
1129	4064215Y	HAV	DALIP SINGH	01-10-2005
1130	4060725H	HAV	DARWAN SINGH	01-12-2005
1131	4060815K	HAV	DARWAN SINGH	01-01-2006
1132	4064141P	HAV	DHAN SINGH	01-10-2005
1133	4064390N	HAV	DHARAM PAL	01-01-2006
1134	4064502H	HAV	DHIRENDER SINGH	01-01-2006
1135	4064298P	HAV	DILWAR SINGH	01-01-2006
1136	4064231W	HAV	GABAR SINGH	01-10-2005
1137	4064271X	HAV	GABAR SINGH	01-01-2006
1138	4063959X	HAV	GAMBHIR SINGH	01-09-2005
1139	4060514A	HAV	GANGA SINGH	01-11-2005
1140	4064310L	HAV	GIRISH CHANDRA	01-01-2006
1141	4060768X	HAV	GOPAL DATT	01-01-2006
1142	4064456Y	HAV	HANSA SINGH	01-01-2006
1143	4063897H	HAV	HARASHWARDHAN SINGH	01-09-2005
1144	4063904N	HAV	HARCHARAN	01-09-2005
1145	4064419L	HAV	HARMESH LAL	01-01-2006
1146	4064036Y	HAV	HAYAT SINGH	01-10-2005
1147	4064069K	HAV	HAYAT SINGH	01-10-2005
1148	4064269A	HAV	JAGMOHAN SINGH	01-01-2006
1149	4063875K	HAV	JAGMOHAN SINGH	01-09-2005
1150	4064306H	HAV	JAGMOHAN SINGH	01-01-2006
1151	4064468N	HAV	JAIPAL SINGH	01-01-2006
1152	4064119K	HAV	JAIVIR SINGH	01-10-2005
1153	4064230N	HAV	KALYAN SINGH	01-10-2005
1154	4064132N	HAV	KAMAL SINGH	01-10-2005
1155	4064438W	HAV	KAPTAN SINGH	01-01-2006
1156	4064252M	HAV	KEDAR DATT	01-10-2005
1157	4064505W	HAV	KESHAR SINGH	01-01-2006
1158	4064404H	HAV	KESHWANAND/BADONI	01-01-2006
1159	4060444M	HAV	KULWANT SINGH	01-10-2005
1160	4064371H	HAV	KUNWAR SINGH	01-01-2006
1161	4064484L	HAV	KUNWAR SINGH	01-01-2006
1162	4064077H	HAV	LALITA PRASAD	01-10-2005
1163	4064433X	HAV	MADAN SINGH	01-01-2006
1164	4064071F	HAV	MADAN SINGH	01-10-2005
1165	4064495X	HAV	MADHU SUDAN	01-01-2006
1166	4063898L	HAV	MAGAN SINGH	01-09-2005
1167	4063869W	HAV	MAHABIR SINGH	01-09-2005
1168	4064302M	HAV	MAHARAJ SINGH	01-01-2006
1169	4063933H	HAV	MAYA RAM	01-09-2005
1170	4064380K	HAV	MEWA RAM	01-01-2006
1171	4060622K	HAV	MOHAN SINGH	01-12-2005
1172	4064448A	HAV	MOHAN SINGH	01-01-2006

1173	4064093A	HAV	MOHAN SINGH	01-10-2005
1174	4064264F	HAV	MOHAN SINGH	01-01-2006
1175	4064301K	HAV	NANDAN SINGH	01-01-2006
1176	4064277Y	HAV	NARAYAN SINGH	01-01-2006
1177	4064276W	HAV	PAN SINGH	01-01-2006
1178	4064240X	HAV	PARTAP SINGH	01-10-2005
1179	4064414M	HAV	PREM CHANDRA	01-01-2006
1180	4064544P	HAV	RAGHUNATH PRASAD	01-01-2006
1181	4064051N	HAV	RAJE SINGH	01-10-2005
1182	4064079N	HAV	RAJENDER SINGH	01-10-2005
1183	4064040F	HAV	RAJENDER SINGH	01-10-2005
1184	4064430K	HAV	RAJENDER SINGH	01-01-2006
1185	4064275N	HAV	RAJENDRA SINGH NEGI	01-01-2006
1186	4064437N	HAV	RAM PAT BAITHA	01-01-2006
1187	4064297M	HAV	RAM SINGH	01-01-2006
1188	4064185M	HAV	RAMESH PAL RAWAT	01-10-2005
1189	4064148Y	HAV	RAMESH SINGH BIST	01-10-2005
1190	4064335X	HAV	RAMESHWAR PRASHAD	01-01-2006
1191	4064176L	HAV	RANJIT SINGH	01-10-2005
1192	4064125X	HAV	REWA DHAR PARSAD	01-10-2005
1193	4064497H	HAV	SACHIDA NAND	01-01-2006
1194	4064157A	HAV	SATISH CHANDER	01-10-2005
1195	4064063H	HAV	SHIV MANGAL	01-10-2005
1196	4064022Y	HAV	SHIV RATAN SINGH	01-10-2005
1197	4060844Y	HAV	SHOOR SINGH	01-01-2006
1198	4064122K	HAV	SHRI RAM	01-10-2005
1199	4064165Y	HAV	SOBAN SINGH	01-10-2005
1200	4064489K	HAV	SOHAN SINGH	01-01-2006
1201	4064413K	HAV	SULTAN SINGH	01-01-2006
1202	4064151Y	HAV	SUNDER SINGH	01-10-2005
1203	4064072K	HAV	SURENDAR SINGH	01-10-2005
1204	4064120Y	HAV	SURESH PAL	01-10-2005
1205	4060585F	HAV	TILAK MOHAN	01-12-2005
1206	4064043P	HAV	TIRATH SINGH	01-10-2005
1207	4064303P	HAV	TRILOK SINGH	01-01-2006
1208	4063956K	HAV	VIJAY PAL	01-09-2005
1209	4064482A	HAV	VIR SINGH	01-01-2006
1210	4064105K	HAV	VIRENDER SINGH	01-10-2005

THE KUMAON REGIMENT

1211	4173704A	HAV	ALI AKHTAR	01-12-2005
1212	4173546W	HAV	ANAND SINGH	01-11-2005
1213	4176847L	HAV	AWDESH SINGH	01-09-2005
1214	4173640A	HAV	B S YADAV	01-11-2005
1215	4176841K	HAV	BADRI SINGH FARTYAL	01-09-2005
1216	4173310F	HAV	BAHADUR SINGH	01-09-2005

1217	4177169H	HAV	BAHDUR CHAND	01-01-2006
1218	4174053F	HAV	BASTI RAM	01-01-2006
1219	4177130W	HAV	BHUWAN CHANDRA	01-01-2006
1220	4173559N	HAV	CHANDRAPAL SINGH	01-11-2005
1221	4176946N	HAV	DALEEP SINGH	01-10-2005
1222	4173808F	HAV	GOPAL SINGH	01-12-2005
1223	4177263M	HAV	GOVIND SINGH	01-01-2006
1224	4176888P	HAV	GOVIND SINGH RAWAT	01-09-2005
1225	4173431H	HAV	GUMAN SINGH DHAPOLA	01-10-2005
1226	4173371Y	HAV	H C UPRETI	01-09-2005
1227	4173432L	HAV	HEERA SINGH	01-10-2005
1228	4176836Y	HAV	HOSHIYAR SINGH	01-09-2005
1229	4173658W	HAV	JAGAR NATH THAKUR	01-11-2005
1230	4177067M	HAV	JAGAT SINGH	01-01-2006
1231	4176936K	HAV	JAGDISH CHANDER PANDEY	01-09-2005
1232	4177215M	HAV	JAI SINGH	01-01-2006
1233	4174948A	HAV	JASHRATH	01-10-2005
1234	4176933W	HAV	JEEWAN KUMAR	01-09-2005
1235	4173571P	HAV	JITWANDHAN SINGH	01-11-2005
1236	4177236H	HAV	KARAN SINGH	01-01-2006
1237	4173411P	HAV	KASHI RAM	01-09-2005
1238	4176883W	HAV	KEDAR SINGH	01-09-2005
1239	4177125L	HAV	KHIM SINGH	01-01-2006
1240	4173381H	HAV	KUWAR PAL	01-09-2005
1241	4173356K	HAV	LILA DHAR	01-09-2005
1242	4173694F	HAV	MAHAVIR	01-12-2005
1243	4173527L	HAV	MAHENDER SINGH	01-10-2005
1244	4173717X	HAV	MAHESH CHANDRA	01-12-2005
1245	4177053M	HAV	NARAYAN SINGH	01-01-2006
1246	4177072X	HAV	NETRA SINGH	01-01-2006
1247	4177071P	HAV	RAJENDER SINGH	01-01-2006
1248	4173537P	HAV	RAJENDRA SINGH	01-11-2005
1249	4060695W	HAV	RAM BAHADUR THAPA	01-01-2006
1250	4177218A	HAV	RAM PHAL	01-01-2006
1251	4177015W	HAV	RAM SWARUP	01-10-2005
1252	4173309M	HAV	RAMA KANT	01-09-2005
1253	4173820H	HAV	RAMAUTAR SINGH	01-12-2005
1254	4177127W	HAV	RAMESH CHANDRA	01-01-2006
1255	4173847A	HAV	SURESH CHANDERA	01-12-2005
1256	4177124H	HAV	TARA SINGH	01-01-2006
1257	4177188N	HAV	VINOD CHANDRA JOSHI	01-01-2006

THE ASSAM REGIMENT

1258	4426525N	HAV	BHASKAR GOCHHAIT	01-09-2005
1259	4355070W	HAV	DESH RAJ	01-01-2006
1260	4354895P	HAV	DRONA BAHADUR THAPA	01-09-2005

1261	4426527Y	HAV	DULAL CH DAS	01-09-2005
1262	4355055F	HAV	KAPLIANTHANGA	01-01-2006
1263	4352221Y	HAV	MANGAL SINGH	01-12-2005
1264	4426405P	HAV	MD NIZAMUDDIN	01-12-2005
1265	4426534P	HAV	MOHAN KARMAKAR	01-01-2006
1266	4352072W	HAV	MOHENDRA KUMAR SINHA	01-10-2005
1267	4355077A	HAV	NARAYAN CHANDRA DEKA	01-01-2006
1268	4355019W	HAV	NARAYAN THAPA	01-01-2006
1269	4355008K	HAV	NETRA BAHADUR JAISHI	01-01-2006
1270	4426531F	HAV	RAMESH CHANDRA	01-10-2005
1271	4355009M	HAV	SUBASHITON SINGHA	01-01-2006
1272	4355001A	HAV	TIL BAHADUR PUN	01-01-2006
1273	4355043M	HAV	UDAYAN P	01-01-2006
1274	4354979H	HAV	ZALAM	01-01-2006

THE BIHAR REGIMENT

1275	4261266L	HAV	AJIT KUMAR PRASAD	01-10-2005
1276	4258769L	HAV	ASHOK KUMAR SINGH	01-09-2005
1277	4261259P	HAV	BASUKI NATH CHOUBEY	01-10-2005
1278	4259305A	HAV	BIJAY PAL BALMIKI	01-01-2006
1279	4261327X	HAV	BIPIN KUMAR	01-01-2006
1280	4261339M	HAV	BISHAW NATH SINGH	01-01-2006
1281	4261500W	HAV	BISWA NATH BISWAL	01-01-2006
1282	4261278A	HAV	CHANDRA BHUSHAN PRASAD SINGH	01-09-2005
1283	4261343P	HAV	CHETA BAKHLA	01-01-2006
1284	4261458H	HAV	DAMODAR RAI	01-01-2006
1285	4258958P	HAV	GANESH KUMAR SINGH	01-12-2005
1286	4261197A	HAV	JITU RAM	01-09-2005
1287	4261198H	HAV	JIWACHH YADAV	01-09-2005
1288	4261202A	HAV	KAMESHWAR PRASAD	01-09-2005
1289	4259023F	HAV	KAMESHWAR SINGH	01-11-2005
1290	4261296H	HAV	KASHI NATH SINGH	01-10-2005
1291	4261227M	HAV	KISHOR PRASAD SAH	01-09-2005
1292	4261395L	HAV	LAXMAN MANDAR	01-01-2006
1293	4261302L	HAV	MAHESH YADAV	01-01-2006
1294	4261517K	HAV	MANO KARAN	01-01-2006
1295	4261265H	HAV	NAGENDRA HAJAM	01-10-2005
1296	4261518M	HAV	NAGIA RAJAN	01-01-2006
1297	4261492H	HAV	NARYAN NAYAK	01-01-2006
1298	4261367Y	HAV	OM PRAKASH SINGH	01-01-2006
1299	4261515Y	HAV	R CHITHRAVELU	01-01-2006
1300	4261443A	HAV	RAJENDRA PANDEY	01-01-2006
1301	4259148Y	HAV	RAJENDRA RAI	01-12-2005
1302	4258858K	HAV	RAM DAYAL PASWAN	01-10-2005
1303	4261453K	HAV	RAMJEET YADAV	01-01-2006
1304	4261519P	HAV	S MUNIYANDY	01-01-2006

1305	4261372K	HAV	SATYA NARAYAN SINGH	01-01-2006
1306	4259369L	HAV	SHAMBHU SARAN VERMA	01-01-2006
1307	4261459L	HAV	SHIO NARAIN SINGH	01-01-2006
1308	4261471M	HAV	SHIV KUMAR SAH	01-01-2006
1309	4259169P	HAV	SHRI KANT RAY	01-12-2005
1310	4258645W	HAV	SHYAM NANDAN PRASAD CHAURASIYA	01-09-2005
1311	4261222N	HAV	SITA RAM KUMAR	01-09-2005
1312	4259323H	HAV	SUDAMA RAM	01-01-2006
1313	4261288K	HAV	SWARPAN KUMAR SHEET	01-10-2005
1314	4261287F	HAV	TRELOKE SINGH	01-10-2005
1315	4261282H	HAV	TSIDOR KHARIA	01-10-2005
1316	4259055K	HAV	UPENDRA SHARMA	01-12-2005

THE MAHAR REGIMENT

1317	4553177W	HAV	BORADE BHIM RAO ISHRAM	01-01-2006
1318	4553287L	HAV	CHHAJU RAM	01-01-2006
1319	4549698M	HAV	DARSHAN SINGH	01-11-2005
1320	4553210H	HAV	DEEPAK KUMAR	01-01-2006
1321	4553178Y	HAV	DHARAM DUTT BHATT	01-01-2006
1322	4553133Y	HAV	JAGAN NATH JOSHI	01-10-2005
1323	4553113L	HAV	JAGAT SINGH	01-10-2005
1324	4553326Y	HAV	JAI GOPAL	01-12-2005
1325	4553222X	HAV	JAIWAN SINGH	01-01-2006
1326	4553165F	HAV	JASMER SINGH	01-01-2006
1327	4553069M	HAV	KARTAR SINGH	01-09-2005
1328	4553302P	HAV	KASHI RAM	01-01-2006
1329	4553208L	HAV	KULDIP SINGH	01-01-2006
1330	4553051W	HAV	MAHENDRA PRASAD	01-09-2005
1331	2472530L	HAV	MOHAR SINGH DHAKA	01-12-2005
1332	4553119M	HAV	PHOOL KUMAR	01-10-2005
1333	4553253X	HAV	PRAHALAD	01-01-2006
1334	4553234M	HAV	PRAMOD KUMAR SWAIN	01-01-2006
1335	4553262Y	HAV	RAKESH SINGH KUSHWAH	01-01-2006
1336	4553279M	HAV	RAM BHAI	01-01-2006
1337	4553096W	HAV	RAM CHAND	01-09-2005
1338	4553047N	HAV	RAM LACHHAN SINGH	01-09-2005
1339	4553240A	HAV	RAMAIYA PRASAD	01-01-2006
1340	4553147Y	HAV	RELU RAM	01-01-2006
1341	4553171P	HAV	SHER SINGH	01-01-2006
1342	4553061A	HAV	SHINDE GULAB NARAYAN	01-09-2005
1343	4553213W	HAV	UTTAM VISHNU MOHITE	01-01-2006
1344	4553068K	HAV	VALMIKI SINGH	01-09-2005
1345	4553072M	HAV	VIJAY SINGH CHAUHAN	01-09-2005
1346	4553104K	HAV	YASHPAL SINGH	01-10-2005

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

1347	13747386H	HAV	BHUPENDRA KUMAR PANDEY	01-10-2005
1348	13743331F	HAV	DALIP CHAND	01-09-2005
1349	13747454L	HAV	JITEN CHETTRI	01-01-2006
1350	13747449A	HAV	KALI PRASAD RAI	01-01-2006
1351	13747437L	HAV	KAMAL SINGH	01-01-2006
1352	13743511K	HAV	KIRSHORI LAL	01-10-2005
1353	13743720F	HAV	KRISHAN CHAND	01-12-2005
1354	13743450X	HAV	MOHAN SINGH	01-10-2005
1355	13747611M	HAV	NETAR PAUL	01-10-2005
1356	13743813W	HAV	OM PRAKASH THAKUR	01-12-2005
1357	13743418H	HAV	RAVINDER SINGH	01-09-2005

THE LADAKH SCOUTS

1358	9922559F	HAV	ABDUL RAHIM	01-10-2005
1359	9922568H	HAV	BASHIR AHMED	01-10-2005
1360	9922066A	HAV	PHUNCHOK TSERING	01-09-2005

THE NAGA REGIMENT

1361	4176956X	HAV	DEVI DATT	01-10-2005
1362	4173656L	HAV	K P PANDEY	01-11-2005

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

1363	9084383N	HAV	ABDUL MAJID KHAN	01-09-2005
1364	9084591H	HAV	ABLKAR CHAND	01-01-2006
1365	9084507X	HAV	AJIT KUMAR	01-10-2005
1366	9084547Y	HAV	BANSI LAL	01-01-2006
1367	9084358P	HAV	BIKARAM PRAKASH	01-09-2005
1368	9084473P	HAV	DES RAJ	01-10-2005
1369	9084520F	HAV	FAQUIR ALI	01-10-2005
1370	9084500N	HAV	GHULAM ABAS	01-10-2005
1371	9083218W	HAV	GHULZAR AHMED	01-10-2005
1372	9084477L	HAV	GIRDHARI LAL	01-10-2005
1373	9084566K	HAV	GULBADAN SINGH	01-01-2006
1374	9084601F	HAV	HARBANS LAL	01-01-2006
1375	9084340Y	HAV	JAGNARAIN SHAHU	01-09-2005
1376	9083361H	HAV	KIRPAL SINGH	01-01-2006
1377	9084584M	HAV	KUSHAL KUMAR	01-01-2006
1378	9084617M	HAV	MILAP CHAND	01-01-2006
1379	9084354Y	HAV	MOHD ASLAM KHAN	01-09-2005
1380	9084413A	HAV	MOHD AZAM	01-09-2005
1381	9084404Y	HAV	MOHD RAFIQ	01-09-2005
1382	9084521K	HAV	MOHD SADIQ	01-10-2005
1383	9084372F	HAV	NASIB HUSSAIN SHAH	01-10-2005
1384	9084555X	HAV	NATHA RAM	01-01-2006
1385	9084465W	HAV	POL SINGH	01-10-2005
1386	9084355F	HAV	PONNUSWAMY V	01-09-2005

1387	9084618P	HAV	PRAKAM CHAND	01-01-2006
1388	9084557H	HAV	PRITAM RAM	01-01-2006
1389	9084329A	HAV	RAFIQ AHMED	01-07-2005
1390	9084417W	HAV	RAJ KUMAR	01-09-2005
1391	9084352N	HAV	RAM DASS	01-09-2005
1392	9084534F	HAV	ROOP LAL	01-10-2005
1393	9084578Y	HAV	SHAH MOHD MIR	01-01-2006
1394	9084468K	HAV	SHAM LAL	01-10-2005
1395	9084131F	HAV	VAKEEL RAJ	01-04-2005
1396	9084550Y	HAV	YASH PAL	01-01-2006

1 GORKHA RIFLES

1397	5042491X	HAV	DAL BAHADUR ALE	01-12-2005
1398	5042472M	HAV	GIRI MAN GHARTI MAGAR	01-11-2005
1399	5042446L	HAV	KESAR SINGH	01-11-2005
1400	9084078F	HAV	KEWAL KRISHAN SANTHALIA	01-02-2005
1401	5042546W	HAV	NARAYAN SINGH THAPA	01-12-2005
1402	9084373K	HAV	OM PARKASH	01-08-2005
1403	5042566K	HAV	OM PRAKASH THAPA	01-01-2006
1404	5042541X	HAV	SHER BAHADUR GURUNG	01-08-2005
1405	5042445H	HAV	VIKRAM SINGH GURUNG	01-11-2005

2 GORKHA RIFLES

1406	5244381L	HAV	JAI BAHADUR THAPA	01-01-2006
1407	5243965K	HAV	KRISHNA BAHADUR THAPA	01-12-2005
1408	5244388P	HAV	NOINDRA BAHADUR THAPA	01-01-2006
1409	5244399F	HAV	TIKA RAM PUN	01-01-2006

4 GORKHA RIFLES

1410	5344886W	HAV	BISHNU BAHADUR GURUNG	01-01-2006
1411	5344882A	HAV	DAM BAHADUR PUN	01-01-2006
1412	5344249A	HAV	DAMMAR BAHADUR THAPA	01-09-2005
1413	5344371W	HAV	GAM BAHADUR	01-01-2006
1414	5344274Y	HAV	HARI LAL	01-10-2005
1415	5344381A	HAV	JAYA PRASAD GURUNG	01-01-2006
1416	5344352L	HAV	MAHESH KUMAR	01-12-2005
1417	5344861K	HAV	MAN BAHADUR GURUNG	01-09-2005
1418	5344907F	HAV	OM BAHADUR THAPA	01-01-2006
1419	5344848A	HAV	PURNA BAHADUR GURUNG	01-09-2005
1420	5344901A	HAV	RAM LAL GURUNG	01-01-2006
1421	5344878X	HAV	TOL BAHADUR ALE	01-01-2006
1422	5344866H	HAV	YOG BAHADUR GURUNG	01-11-2005

5 GORKHA RIFLES

1423	5448238A	HAV	AMRULLAH MIA	01-01-2006
1424	5448730L	HAV	BHIM BAHADUR GURUNG	01-09-2005

1425	5448840A	HAV	DAL BAHADUR PUN	01-01-2006
1426	5448190X	HAV	DHAN PRASAD GURUNG	01-01-2006
1427	5448694L	HAV	GAJENDRA SINGH THAPA	01-09-2005
1428	5448841H	HAV	HARKA BAHADUR GURUNG	01-01-2006
1429	5448698F	HAV	JIT BAHADUR ALE	01-09-2005
1430	5448707X	HAV	RAM BISHAL	01-10-2005
1431	5448726H	HAV	RUK BAHADUR GURUNG	01-11-2005
1432	5448785P	HAV	YAM BAHADUR PUN	01-01-2006

8 GORKHA RIFLES

1433	5750358W	HAV	D B GURUNG	01-09-2005
1434	5750385A	HAV	DIL BAHADUR GURUNG	01-09-2005
1435	5750374N	HAV	INDRA BAHADUR GURUNG	01-10-2005
1436	5750357N	HAV	K B GHAE	01-09-2005
1437	5749765M	HAV	MOTI LAL NEPALI	01-01-2006
1438	5750417X	HAV	NAND KISHORE	01-01-2006
1439	5749556P	HAV	P N THAPA	01-10-2005
1440	5749723A	HAV	RAM DATT	01-01-2006
1441	5749721P	HAV	RISHI RAM THAPA	01-12-2005
1442	5750414K	HAV	RUDRA SINGH GURUNG	01-01-2006
1443	5750410N	HAV	RUP CHAND	01-01-2006
1444	5750389W	HAV	S B CHETRY	01-12-2005
1445	5750423L	HAV	SURYA BAHADUR GURUNG	01-01-2006
1446	5750372H	HAV	T B SHRESTHA	01-10-2005
1447	5749621K	HAV	TEJ BAHADUR THAPA	01-11-2005

9 GORKHA RIFLES

1448	5844800P	HAV	DILIP THAKUR	01-01-2006
------	----------	-----	--------------	------------

11 GORKHA RIFLES

1449	9416495H	HAV	BISHNU KUMAR LIMBU	01-01-2006
1450	9417128H	HAV	DILIP KUMAR RAI	01-11-2005
1451	9417102N	HAV	GOPAL PRADHAN	01-09-2005
1452	9417177L	HAV	HARI LAL TAMANG	01-12-2005
1453	9417141M	HAV	JHALAK BAHADUR LIMBU	01-11-2005
1454	9417209H	HAV	KESH BAHADUR RAI	01-01-2006
1455	9416501L	HAV	LAWRENCE RAI	01-01-2006
1456	9417207X	HAV	MANI KUMAR RAI	01-01-2006
1457	9417249K	HAV	MANI RAM RAI	01-01-2006
1458	9417202Y	HAV	RAMA CHANDRAN D	01-01-2006
1459	9417161A	HAV	RAMESAN PILLAI S	01-01-2006
1460	9417127A	HAV	SANTA KUMAR RAI	01-11-2005
1461	9417204K	HAV	SHIV PUJAN CHAUDHARY	01-01-2006
1462	9417281Y	HAV	SING BAHADUR GURUNG	01-01-2006
1463	9417208A	HAV	UMESH	01-01-2006
1464	9417166Y	HAV	UTTAM CHAND	01-01-2006

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

1465	13881090L	HAV	AJAY KUMAR	01-12-2005
1466	13880733L	HAV	ANUP SINGH	01-10-2005
1467	6375174L	HAV	ANURUDDHA PRASAD TRIPATHI	01-01-2006
1468	6375074A	HAV	ATAL BIHAR SINGH	01-11-2005
1469	13880938A	HAV	BALDEV SINGH	01-11-2005
1470	13888980N	HAV	BHUSHAN LAKRA	01-01-2006
1471	13877346L	HAV	BIBEKA NANDA RAY	01-01-2006
1472	13876928Y	HAV	BIRESH PRASAD	01-11-2005
1473	6375063N	HAV	BRIJENDRA NATH SHUKLA	01-11-2005
1474	13881140L	HAV	BUDHI BAHADUR THAPA	01-01-2006
1475	6375173H	HAV	CHANDRA BHUSHAN SINGH	01-01-2006
1476	13876765W	HAV	CHANDRAMA YADAV	01-10-2005
1477	13876942L	HAV	CHARU CHANDRA DIP	01-11-2005
1478	13877229A	HAV	DADAN GIRI	01-12-2005
1479	13876645X	HAV	DASHRATH LAL	01-09-2005
1480	13877061Y	HAV	DHANESHWAR SAH	01-12-2005
1481	6376277W	HAV	DHRUV NARAYAN SHARMA	01-01-2006
1482	6375112L	HAV	G MANOHARN	01-12-2005
1483	13877193M	HAV	G VISWANATHAN REDDY	01-12-2005
1484	13880679H	HAV	GANSHAM SINGH	01-09-2005
1485	13880832N	HAV	GURU PRASAD	01-10-2005
1486	13881253F	HAV	GYA PRASAD DAHRE	01-01-2006
1487	6376107M	HAV	HARI KISHAN	01-09-2005
1488	13881035P	HAV	HIRALAL UPADHYAY	01-12-2005
1489	13880769K	HAV	ISHWAR DAYAL	01-10-2005
1490	13877088W	HAV	JAGDISH PRASAD	01-12-2005
1491	6375008X	HAV	JANARDANAN M	01-10-2005
1492	13876648L	HAV	JAYANDIRAN K	01-09-2005
1493	13876908L	HAV	JITENDER SINGH	01-11-2005
1494	13877301L	HAV	JITENDRA RAI	01-01-2006
1495	13877247H	HAV	KASHI NATH CHOUDHARY	01-12-2005
1496	6375119P	HAV	KETI MALLESWAR RAO	01-12-2005
1497	6376287A	HAV	KHUSHMIT SINGH	01-01-2006
1498	13881097P	HAV	KIRAT PRASHAD	01-12-2005
1499	13881160Y	HAV	KISHAN SINGH	01-01-2006
1500	6376043M	HAV	KISHORE CHANDRA PATRO	01-09-2005
1501	13877059F	HAV	KOLIPADA TARAFDAR	01-11-2005
1502	13888759P	HAV	LAKSHMI KISHORE	01-09-2005
1503	13880645P	HAV	LALIT KHAKHLARI	01-09-2005
1504	13880634H	HAV	LALJI YADAV	01-09-2005
1505	13876669F	HAV	MARATHE ROHINDAS DNYANU	01-09-2005
1506	13876866W	HAV	MOHAMAD LATIF KHAN	01-10-2005
1507	13877220F	HAV	MOHAMMAD ABDUL MATIN	01-12-2005
1508	13880569N	HAV	MOHAN SINGH	01-09-2005

1509	6649889H	HAV	MUKUNDAN P	01-09-2005
1510	13877188K	HAV	MUNNA LAL	01-12-2005
1511	13876717W	HAV	NALINI KUMAR BAISHYA	01-09-2005
1512	13880958N	HAV	NARENDRA KUMAR DWIVEDI	01-11-2005
1513	6375163Y	HAV	PARMANAND JHA	01-01-2006
1514	6375085M	HAV	PHOOL SINGH	01-12-2005
1515	13880874A	HAV	PRABHU NATH SAH	01-11-2005
1516	6375068M	HAV	PRABHU NATH SHUKLA	01-11-2005
1517	6376175A	HAV	PRASANNAN K	01-11-2005
1518	13880685W	HAV	PREM NATH SINGH	01-09-2005
1519	13877124W	HAV	RADHA KRISHNA KURUPON	01-12-2005
1520	13877001K	HAV	RADHA KRISHNA PILLAI	01-11-2005
1521	6374995N	HAV	RAJAN P	01-10-2005
1522	13881103X	HAV	RAJENDRA SINGH	01-12-2005
1523	13877305F	HAV	RAJESHWAR PRASAD SINHA	01-01-2006
1524	13877203L	HAV	RAM BABU SONI	01-12-2005
1525	13880834Y	HAV	RAM BADAN PANDEY	01-10-2005
1526	13881027W	HAV	RAM DARSHAN SHARMA	01-12-2005
1527	13880683L	HAV	RAM DULAR RAM GAUTAM	01-09-2005
1528	4259276W	HAV	RAM ISHWAR SINGH	01-01-2006
1529	13876927W	HAV	RAM KARAN SINGH	01-11-2005
1530	13888386M	HAV	RAM KRISHNA	01-11-2005
1531	13880890X	HAV	RAM NARESH PRASAD CHAURASIA	01-11-2005
1532	13880636N	HAV	RAM SAGAR	01-09-2005
1533	13881207Y	HAV	RAM VILAS	01-01-2006
1534	13881017M	HAV	RAMADASAN M	01-12-2005
1535	13876706K	HAV	RAMCHANDRA MALHRI	01-09-2005
1536	6376276N	HAV	RAMESH LAL	01-01-2006
1537	13880847W	HAV	RANBIR SINGH JATAV	01-10-2005
1538	6375126L	HAV	RANVIR KUMAR	01-12-2005
1539	6375017Y	HAV	RANVIR SINGH	01-10-2005
1540	6375186A	HAV	RENGAMAN C G	01-01-2006
1541	14270690M	HAV	SACHIDANANDA SAHOO	01-09-2005
1542	13881085A	HAV	SALIK RAM	01-12-2005
1543	13876854P	HAV	SARBA NAND SINGH	01-10-2005
1544	13880639F	HAV	SATYA NARAYAN	01-09-2005
1545	13881205N	HAV	SATYA PRAKASH SINGH	01-01-2006
1546	6650061W	HAV	SATYENDRA KUMAR SINGH	01-01-2006
1547	13881176F	HAV	SHANKARA CHARYA DAS	01-01-2006
1548	13876991N	HAV	SHATRUGHAN PRASAD	01-11-2005
1549	13876825Y	HAV	SHATRUJIT MISHRA	01-10-2005
1550	13880849F	HAV	SIRI RAM UPADHAYAY	01-10-2005
1551	13879624M	HAV	SITA RAM	01-09-2005
1552	13876934M	HAV	SOMARAJAN P	01-11-2005
1553	13877123M	HAV	SOMBIR	01-12-2005
1554	13880895W	HAV	SURAJ BHAN	01-11-2005

1555	13877394L	HAV	SURAJ PRASAD	01-01-2006
1556	13877192K	HAV	T V MOORTHY	01-12-2005
1557	13880941A	HAV	TARUN CHANDRA PATHAK	01-11-2005
1558	14360358Y	HAV	THOMAS V J	01-01-2006
1559	13885419F	HAV	TRILOKI NATH GIRI	01-01-2006
1560	13881143Y	HAV	UDAI NARAIN TIWARI	01-01-2006
1561	13876772M	HAV	UTTAM KUMAR HAZRA	01-10-2005
1562	13881004P	HAV	VIRENDRA KUMAR SINGH	01-11-2005
1563	13870558N	HAV	WADEKAR PANDIT JAGAN NATH	01-09-2005
1564	13880797W	HAV	YAMANAPPA HIREKUMBI	01-10-2005

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

1565	6471004Y	DFR	ATMA RAM	01-10-2005
1566	6374959H	HAV	BAHADUR SINGH	01-09-2005
1567	64711441A	HAV	BALBIR SINGH	01-11-2005
1568	13880757P	HAV	BANAWALI HALDER	01-10-2005
1569	6470932H	HAV	BARJESH KUMAR	01-10-2005
1570	6375071M	HAV	BHAGWAN RAM	01-11-2005
1571	6470974P	HAV	BHARAT SINGH	01-10-2005
1572	6471199P	HAV	BINDESHAI PRASAD SINGH	01-11-2005
1573	6374954K	HAV	BISWANATH MONDAL	01-09-2005
1574	6470956M	HAV	BOYIRI SOMAYYA	01-10-2005
1575	6374974X	HAV	D PEERAYAH	01-10-2005
1576	6471097Y	DFR	DAMODAR JENA	01-10-2005
1577	13880706F	HAV	DATA RAM	01-09-2005
1578	6470868W	DFR	DILAWAR SINGH	01-09-2005
1579	13880628P	HAV	GANESH BAHADUR GURUNG	01-09-2005
1580	6375185X	HAV	GANESH PRASAD THAKUR	01-01-2006
1581	6470879H	HAV	HARI NATH	01-09-2005
1582	6470921W	DFR	HARISH CHAND RAM	01-09-2005
1583	6471201F	DFR	JAGDISH KUMAR	01-11-2005
1584	6470995L	HAV	K SETTU	01-10-2005
1585	6471282M	DFR	KAILASH PATI MISHRA	01-01-2006
1586	13888260A	HAV	KANTI BALLAB	01-09-2005
1587	13881116P	HAV	MOHAMMD GALAB	01-01-2006
1588	6374960X	HAV	MOHANAN S	01-09-2005
1589	6471125A	DFR	MULLIA RAMJAN ALLI	01-11-2005
1590	6374997Y	DFR	NAGENDER OJHA	01-10-2005
1591	6375004F	HAV	NARAYAN SWAIN	01-10-2005
1592	6374956P	HAV	NIRANJAN DEBNATH	01-09-2005
1593	13885362X	HAV	P PALANI	01-09-2005
1594	6375139H	HAV	PREM SINGH	01-01-2006
1595	6375084K	HAV	PYARE LAL	01-12-2005
1596	6471213W	HAV	PYARE LAL SINGH	01-11-2005
1597	6376037Y	HAV	RAM BAHADUR CHETRY	01-09-2005
1598	13888935F	HAV	RAM BAHADUR KIRKI	01-09-2005

1599	13888949F	HAV	RAM KISHAN	01-09-2005
1600	6471049Y	DFR	RAM LAL	01-10-2005
1601	6471156A	HAV	RAMESH CHANDRA SINGH	01-11-2005
1602	6471171P	HAV	SHIV SHANKAR	01-11-2005
1603	6471267X	HAV	SOMA NATH SETHI	01-12-2005
1604	6471053F	HAV	SUGRISH G MOMIN	01-10-2005
1605	13876647H	HAV	T DAK SHINA MOORTHY	01-09-2005
1606	6375083F	HAV	THAMPAN K	01-12-2005
1607	13880524N	HAV	VISHESWAR PRASAD SHAW	01-09-2005
1608	6471070F	HAV	YOGANDAR SINGH	01-10-2005

ARMY MEDICAL CORPS

1609	13949510F	HAV	ABDUL KADER	01-12-2005
1610	13951915L	HAV	AJADI MANJHI	01-11-2005
1611	13949273H	HAV	AJMER SINGH DAHIA	01-10-2005
1612	13949241A	HAV	AMAR NATH SHARMA	01-09-2005
1613	13949144H	HAV	ANIL KUMAR	01-09-2005
1614	13949322A	HAV	ASHOK KUMAR	01-10-2005
1615	13949354H	HAV	ATTAR SINGH NAIN	01-10-2005
1616	13953040Y	HAV	BALWANT SINGH	01-10-2005
1617	13953182W	HAV	BASHIST RAM	01-01-2006
1618	13949459M	HAV	BHAGWAN RAM	01-11-2005
1619	13953018N	HAV	BHIMU SHIVAPPA RUPNAVAR	01-10-2005
1620	13949160A	HAV	BHUPAL SINGH KARAKOTI	01-09-2005
1621	13953162H	HAV	BYNAGARY	01-01-2006
1622	13953011K	HAV	CHANDAN SINGH	01-10-2005
1623	13952975M	HAV	CHANDESHWAR PRASAD SINGH	01-09-2005
1624	13949549N	HAV	CHANDRA DEV PAL	01-01-2006
1625	13949382P	HAV	CHIMAN LAL RANWA	01-10-2005
1626	13949531X	HAV	DAYA SHANKER	01-12-2005
1627	13953103W	HAV	DEV DATT SHARMA	01-12-2005
1628	13949387N	HAV	DHARAM SINGH	01-10-2005
1629	13949487Y	HAV	DHARAMVEER SINGH	01-12-2005
1630	13949507F	HAV	DINA NATH MISHRA	01-12-2005
1631	13953006Y	HAV	DUD SINGH	01-10-2005
1632	13949177N	HAV	FARID KHAN	01-09-2005
1633	13949465A	HAV	GAJRAJ SINGH	01-11-2005
1634	13949607M	HAV	GOURI SHANKAR SINGH	01-01-2006
1635	13949162L	HAV	HARI KRISHAN	01-09-2005
1636	13949524F	HAV	HARISH CHAND SINGH	01-12-2005
1637	13949458K	HAV	HIRA BALLABH	01-11-2005
1638	13953078H	HAV	JAGADEESH P N	01-11-2005
1639	13949573K	HAV	JAGBIR SINGH PUNIA	01-01-2006
1640	13953065L	HAV	JAGDISH PRASAD SINGH	01-10-2005
1641	13949356N	HAV	JANG BAHADUR	01-10-2005
1642	13949207A	HAV	JOGI RAM	01-09-2005

1643	13949390N	HAV	K GOPI NATHAN	01-10-2005
1644	13949579L	HAV	K PERIYA SAMY	01-01-2006
1645	13949584W	HAV	KALESWARA RAO KOMMINENI	01-01-2006
1646	13949428M	HAV	KARTAR SINGH	01-11-2005
1647	13953059X	HAV	KARTIKESWAR PADHI	01-10-2005
1648	13952714Y	HAV	KATAKAM CHINNA BABU	01-11-2005
1649	13953199K	HAV	KHEM BAHADUR THAPA	01-01-2006
1650	13953131H	HAV	KISHAN SINGH RAWAT	01-01-2006
1651	13949544P	HAV	KRISHAN	01-01-2006
1652	13953022W	HAV	KUMAR PRASAD GURUNG	01-09-2005
1653	13953130A	HAV	KUNWAR SINGH	01-01-2006
1654	13949585Y	HAV	L JAMES	01-01-2006
1655	13953056K	HAV	LALAN PRASAD	01-10-2005
1656	13949609X	HAV	LALLAN RAI	01-01-2006
1657	13953014X	HAV	LOKHA POTHU RAJU	01-10-2005
1658	13953190P	HAV	MADAN LAL	01-01-2006
1659	13952978A	HAV	MAHESH KUMAR	01-09-2005
1660	13952987F	HAV	MANGLA PRASAD	01-09-2005
1661	13949225H	HAV	MD ALLAUDDIN	01-09-2005
1662	13953079L	HAV	NAGENDRA TOTAGI	01-11-2005
1663	13953094A	HAV	NARENDRA PAL	01-12-2005
1664	13949234K	HAV	OM PARKASH TIWARI	01-09-2005
1665	13953080A	HAV	OUSEPH NA	01-12-2005
1666	13952999W	HAV	P PALRAMAR	01-09-2005
1667	13949554Y	HAV	PALANGAPPA MP	01-01-2006
1668	13953045X	HAV	PARESH NATH BAGDI	01-10-2005
1669	13949202F	HAV	PARTAP SINGH	01-09-2005
1670	13949213N	HAV	PRABHU NARAYAN UPADHAYE	01-09-2005
1671	13949252M	HAV	PRAHLAD	01-10-2005
1672	13953167F	HAV	PRATAP SINGH	01-01-2006
1673	13949147W	HAV	PREM BAHADUR	01-09-2005
1674	13953084W	HAV	RAGHUNANDAN PRASAD	01-12-2005
1675	13949360W	HAV	RAJENDER SINGH	01-10-2005
1676	13949174A	HAV	RAJENDER SINGH KHATRI	01-09-2005
1677	13949594A	HAV	RAJINDER KUMAR	01-01-2006
1678	13953201W	HAV	RAKESH KUMAR	01-01-2006
1679	13953214N	HAV	RAM GOVIND	01-01-2006
1680	13949254X	HAV	RAM PRAKASH SINGH	01-10-2005
1681	13949212L	HAV	RAMESH BABU	01-09-2005
1682	13949100L	HAV	RAMESH CHANDER	01-09-2005
1683	13952989M	HAV	RAMESH SINGH	01-09-2005
1684	13953039K	HAV	RAN VIJAI BAHADUR SINGH	01-10-2005
1685	13949546A	HAV	RASHAN KUMAR NATH	01-01-2006
1686	13949281F	HAV	SACHIDANANDA SAMAL	01-10-2005
1687	13949425Y	HAV	SANKARAN K	01-11-2005
1688	13953191X	HAV	SANKARAN T	01-01-2006

1689	13949113H	HAV	SARATA CHANDRA TRIPATHY	01-09-2005
1690	13953082L	HAV	SASI DHARAN NAIR K	01-12-2005
1691	13953134W	HAV	SAT PAL	01-01-2006
1692	13949570W	HAV	SATBIR SINGH SHARMA	01-01-2006
1693	13949567W	HAV	SHANKAR DATT	01-01-2006
1694	13953180L	HAV	SHIV BHANU SINGH	01-01-2006
1695	13949583N	HAV	SOMA SEKHARAN B	01-01-2006
1696	13953062X	HAV	SUDARSHAN DASH	01-10-2005
1697	13952995A	HAV	SUDARSHAN SINGH	01-09-2005
1698	13949605F	HAV	SUKHDEV SINGH	01-01-2006
1699	13949106M	HAV	SUKUMARAN K C	01-09-2005
1700	13949157A	HAV	SURENDRA NATH GOUDA	01-09-2005
1701	13949248K	HAV	TARMUDE VENKET ZETINGA	01-09-2005
1702	13952971W	HAV	TRILOKI YADAV	01-09-2005
1703	13952996H	HAV	U PARAMA SIVAN	01-09-2005
1704	13953228N	HAV	VIJAY KUMAR	01-01-2006
1705	13949453L	HAV	VIRESH PAL SINGH	01-11-2005

ARMY ORDNANCE CORPS

1706	6917598N	HAV	AYYAPPAN V	01-01-2006
1707	6917359Y	HAV	BHIKHA LAL	01-09-2005
1708	6915364L	HAV	BIRJA RAM	01-09-2005
1709	6917458F	HAV	DALU RAM SAINI	01-10-2005
1710	6915124N	HAV	DURGA DASS	01-10-2005
1711	6917379M	HAV	HARISH CHANDRA	01-10-2005
1712	6915221L	HAV	JADAB CH DAS	01-11-2005
1713	6915308M	HAV	JIWAN RAM	01-12-2005
1714	6915362A	HAV	KAMAL SINGH	01-01-2006
1715	6917378K	HAV	KAMBLE SHIDANAND PARASU	01-10-2005
1716	6917399A	HAV	KAMTA PRASAD	01-10-2005
1717	6915404F	HAV	KHIMANAND	01-01-2006
1718	6917366P	HAV	KUTTI KRISHNAN K	01-12-2005
1719	6917620N	HAV	MANE MARUTI SHIVAJI	01-01-2006
1720	6917573X	HAV	MATADIN SINGH RAJPUT	01-01-2006
1721	6917630K	HAV	MITHLESH KUMAR	01-01-2006
1722	6915025L	HAV	NAND KISHOR	01-09-2005
1723	6915344X	HAV	NARESH SHARMA	01-12-2005
1724	6917463M	HAV	OM DUTT	01-10-2005
1725	6915206W	HAV	PANDIT RAM RAO JALKOTE	01-11-2005
1726	6917415M	HAV	PRAKASH CHAND CHANDEL	01-10-2005
1727	6917571W	HAV	RAJENDER SINGH	01-01-2006
1728	6917493K	HAV	RAJENDRA SINGH	01-10-2005
1729	6915319Y	HAV	RAJESHWAR DAYAL TYAGI	01-12-2005
1730	6915122H	HAV	RAM ASARE	01-10-2005
1731	6916563L	HAV	RAM ASREY PAL	01-11-2005
1732	6917594M	HAV	RAM AWTAR	01-01-2006

1733	6917361W	HAV	RAM BHAROSH MAHATO	01-09-2005
1734	6915100K	HAV	RAM SANEHI	01-09-2005
1735	6915161F	HAV	SAHADAVAN ACHARYA M A	01-10-2005
1736	69173569L	HAV	SHOBHI MAHTO	01-09-2005
1737	6915159K	HAV	SUBHASH MOHAN DEB BARMA	01-10-2005
1738	6915123L	HAV	SURAT RAM	01-10-2005
1739	6917574A	HAV	TEHSILDAR	01-01-2006
1740	6917355H	HAV	TRIBHUWAN PANDEY	01-09-2005
1741	6915426A	HAV	UDAY SHANKAR TIWARI	01-01-2006

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

1742	14535345Y	HAV	A AROCKIA SAMY	01-09-2005
1743	41535426H	HAV	ABHAY KUMAR TIWARY	01-09-2005
1744	14542768P	HAV	ADRIAN MINJ	01-09-2005
1745	14543288X	HAV	AMRENDRA KUMAR	01-10-2005
1746	14542959K	HAV	ANAND SINGH RAWAT	01-09-2005
1747	14535720Y	HAV	ANIL CHANDRA SAIKIA	01-10-2005
1748	14535718F	HAV	ARUN KUMAR SINGH	01-10-2005
1749	14543733L	HAV	ASHDEO PRASAD	01-01-2006
1750	14543253F	HAV	ASHOK KUMAR	01-09-2005
1751	14535419H	HAV	ASHOK KUMAR	01-09-2005
1752	14535279F	HAV	ASHOK KUMAR DABRAL	01-09-2005
1753	14543867K	HAV	ATWA TIGGA	01-01-2006
1754	14535294W	HAV	B MAHALINGAM	01-09-2005
1755	14542963M	HAV	BABAN SINGH	01-09-2005
1756	14535560K	HAV	BABAR LAHU ANANDRAO	01-10-2005
1757	14536207K	HAV	BABU B	01-12-2005
1758	14536300L	HAV	BALBIR CHAND	01-12-2005
1759	14535740M	HAV	BALBIR SINGH	01-10-2005
1760	14536290M	HAV	BALKAR SINGH	01-12-2005
1761	14536010N	HAV	BASAVARAJ DANAPPANAVAR	01-10-2005
1762	14543138F	HAV	BHAGIRATH SINGH	01-09-2005
1763	14535799M	HAV	BHAGWAN SINGH	01-10-2005
1764	14543815N	HAV	BHANDARE KRISHNA BHAIRU	01-01-2006
1765	14535908N	HAV	BHANU	01-10-2005
1766	14536012Y	HAV	BHERON SINGH	01-10-2005
1767	14543480F	HAV	BHIMGONDA VITTAL BIRAJDAR	01-10-2005
1768	14543393N	HAV	BHISHAM SINGH	01-10-2005
1769	14543540L	HAV	BHUBANESWAR SAIKIA	01-10-2005
1770	14536049A	HAV	BHUPAL SINGH	01-08-2005
1771	14543863N	HAV	BHUSHAN ORAON	01-01-2006
1772	14541500L	HAV	BIJAY KUMAR MAITY	01-08-2005
1773	14535435A	HAV	BIJETA RAM KRISHNA KUMAR	01-09-2005
1774	14535416P	HAV	BINOD KUMAR SINGH	01-09-2005
1775	14535227L	HAV	BIPAD BHANJAN DEV	01-09-2005
1776	14535377F	HAV	BISHNU BARUAH	01-09-2005

1777	14543433K	HAV	BUDDHA BHAGWAN	01-10-2005
1778	14535260H	HAV	BUL BUL BORUA	01-09-2005
1779	14676228X	HAV	CHATARPAL SINGH SENGAR	01-04-2005
1780	14543563M	HAV	CHENNUPATI VENKATESWARI V	01-11-2005
1781	14543259H	HAV	CHHOTE LAL MISHRA	01-09-2005
1782	14536459W	HAV	D CHINNA OBULESU	01-01-2006
1783	14902191L	HAV	DALING KHONGSTEAD	01-09-2005
1784	14543791P	HAV	DARPAN SINGH	01-01-2006
1785	14535338H	HAV	DEOMANGAL SINGH	01-09-2005
1786	14543287P	HAV	DEV NARAYAN YADAV	01-10-2005
1787	14535616L	HAV	DEVI SINGH VERMA	01-10-2005
1788	14543622N	HAV	DHAN BAHADUR THAPA	01-10-2005
1789	14543386X	HAV	DHANVIR SINGH	01-10-2005
1790	14676139Y	HAV	DILBAG SINGH	01-10-2005
1791	15535263M	HAV	DINESH KUMAR CHHETRI	01-09-2005
1792	14676187Y	HAV	DINESH KUMAR SHARMA	01-10-2005
1793	14543003A	HAV	EPILI APPA-RAO	01-09-2005
1794	14535417X	HAV	FUL DEO YADAV	01-09-2005
1795	14543043F	HAV	G DILIP KUMAR	01-09-2005
1796	14535724P	HAV	G SUBRAMANI	01-10-2005
1797	14535956N	HAV	GAJADHAR SINGH	01-10-2005
1798	14543860A	HAV	GAN HETHE RAJU	01-01-2006
1799	14543512Y	HAV	GOMBHIR SINGHA	01-10-2005
1800	14543263L	HAV	GOPAL DATT	01-09-2005
1801	14676547K	HAV	GOPALA KRISHNAN N	01-12-2005
1802	14536281L	HAV	GURSRAN SINGH	01-12-2005
1803	14536470P	HAV	GURUPADAPPA HIRE KUMBI	01-01-2006
1804	14535383P	HAV	GYEN PRASAD SARMA	01-09-2005
1805	14543312H	HAV	HANEEF MIAN	01-10-2005
1806	14541224N	HAV	HARI OM	01-10-2005
1807	14543027K	HAV	HARI SHANKAR SHARMA	01-09-2005
1808	14536121L	HAV	HAYAT SINGH	01-11-2005
1809	14543698N	HAV	HIRA LAL	01-12-2005
1810	14676555H	HAV	HORI LAL	01-10-2005
1811	14535429M	HAV	INDRA BABU SINGHA	01-09-2005
1812	14543827H	HAV	J KARUNA	01-12-2005
1813	14543134L	HAV	JAGAR NATH THAKUR	01-09-2005
1814	14543625F	HAV	JAGAT NARAYAN SINGH	01-11-2005
1815	14542971L	HAV	JAGBIR	01-09-2005
1816	14536036H	HAV	JAGLAL RAM	01-11-2005
1817	14543097H	HAV	JAI PRAKASH SINGH	01-10-2005
1818	14543875H	HAV	JAI SINGH	01-01-2006
1819	14543094P	HAV	JAIVIR SINGH	01-10-2005
1820	14535883M	HAV	JANAK RAJ VERDIA	01-10-2005
1821	14536080M	HAV	JANARDAN SINGH	01-11-2005
1822	14543566A	HAV	JARNAIL SINGH	01-11-2005

1823	14543841P	HAV	JAWAHAR SAHU	01-01-2006
1824	14535814W	HAV	JAYACHANDRAN P	01-10-2005
1825	14535348M	HAV	JAYAPRAKASH RAM	01-09-2005
1826	14535848K	HAV	JITENDRA KUMAR	01-10-2005
1827	14543351F	HAV	JOGA SINGH	01-10-2005
1828	14543509Y	HAV	JOHN P	01-10-2005
1829	14543682H	HAV	JOSEPH K V	01-12-2005
1830	14543910A	HAV	K MALIN SINGH	01-01-2006
1831	14543717N	HAV	K RAMA CHANDRAN	01-01-2006
1832	14542973W	HAV	KAMANWAR GAJANAN KISTANNA	01-09-2005
1833	14536469A	HAV	KAMLESH CHANDRA PATHAK	01-01-2006
1834	14536431W	HAV	KAMLESH KUMAR SINGH	01-09-2005
1835	14535789H	HAV	KANHAIA LAL PRASAD	01-10-2005
1836	14543658M	HAV	KANU PRIYA CHAKRAVORTHY	01-12-2005
1837	14543926L	HAV	KAPIL DEO RAM	01-01-2006
1838	14543700A	HAV	KASHI NATHA K S	01-12-2005
1839	14543196L	HAV	KEDAR SAH	01-09-2005
1840	14535748Y	HAV	KHARKALE RANGNATH RAMA	01-10-2005
1841	14542998H	HAV	KHIRODA KUMAR SAMALI	01-09-2005
1842	14543714A	HAV	KHUM BAHADUR ALE	01-01-2006
1843	14543699W	HAV	KHUSHI RAM	01-12-2005
1844	14536160K	HAV	KISAN VISHNU KAMBLE	01-11-2005
1845	14543441H	HAV	KISHAN SINGH	01-10-2005
1846	14543586N	HAV	KOMAL SINGH SHYOROTRA	01-11-2005
1847	14536275X	HAV	KRUSHNA CHANDRA PADHI	01-12-2005
1848	14535388N	HAV	KSHATRIYA SATYA PRATAP SINGH	01-09-2005
			RAM RAJ SINGH	
1849	14539474W	HAV	KULDIP SINGH	01-08-2005
1850	14536023L	HAV	KUMBHAR BHAGAWAN DNYANU	01-11-2005
1851	14676560N	HAV	KUNDEL SINGH	01-10-2005
1852	14543932Y	HAV	KUNHI KANNAN K	01-01-2006
1853	14535602L	HAV	KUNVAR PAL SINGH	01-10-2005
1854	14543805K	HAV	MAHABIR	01-01-2006
1855	14544019X	HAV	MAHENDER PRASAD	01-01-2006
1856	14543069W	HAV	MAHENDRA KUMAR TIWARI	01-10-2005
1857	14535492F	HAV	MAHESH NARAYAN SINGH	01-09-2005
1858	14543790M	HAV	MAHESH S	01-01-2006
1859	14536163X	HAV	MALKHAN SINGH	01-11-2005
1860	14543068N	HAV	MANGAL BARLA	01-09-2005
1861	14543086W	HAV	MANIK LAL DUTTA	01-10-2005
1862	14536171W	HAV	MANIKDODDA BONNDARA WAR	01-11-2005
1863	14543131X	HAV	MANOJ KUMAR	01-09-2005
1864	14543235Y	HAV	MANOJ KUMAR DAS	01-09-2005
1865	14536005H	HAV	MARUTI APPA SAHEB JADHAV	01-10-2005
1866	14543363W	HAV	MASIHIDAS KACHCHHAP	01-10-2005
1867	14543369X	HAV	MATHURA PRASAD	01-10-2005

1868	14536439H	HAV	MATIUR RAHAMAN	01-01-2006
1869	14535612P	HAV	MD MANNAN HOSSAIN	01-10-2005
1870	14543575F	HAV	MD MUDASSLR ALI	01-10-2005
1871	14543089K	HAV	MOHADEV GHOSH	01-10-2005
1872	14535309N	HAV	MOHAMMED ZAHURUDDIN	01-09-2005
1873	14543046M	HAV	MOHAN DAS R	01-09-2005
1874	14536302W	HAV	MOHAN RAM	01-12-2005
1875	14543475W	HAV	MOHANAN K	01-10-2005
1876	14676598X	HAV	MUKUL KUMAR JOSHI	01-10-2005
1877	14536038N	HAV	NARE MADHUKAR BHIVA	01-11-2005
1878	14543966M	HAV	NARENDER KUMAR TONGAR	01-01-2006
1879	14535669K	HAV	NARENDRA KUMAR	01-10-2005
1880	14542981P	HAV	NASHEN BASUMATA	01-09-2005
1881	14535439W	HAV	NATHU LAL MEENA	01-09-2005
1882	14543009F	HAV	NIRMAL PRASAD YADAV	01-09-2005
1883	14543589F	HAV	NRIPENDRA CHANDRA SEN	01-10-2005
1884	14543074F	HAV	OM NARAYAN SHARMA	01-10-2005
1885	14543132A	HAV	OM PRAKASH	01-09-2005
1886	14535829Y	HAV	P RAMACHANDRAN	01-10-2005
1887	14543581P	HAV	PANNEER SELVAM N S	01-10-2005
1888	14543814L	HAV	PATIL RAJAN KAMAL	01-01-2006
1889	14543737F	HAV	PRAGADA NAGESHWARA RAO	01-01-2006
1890	14535421A	HAV	PRAKASH YADAV	01-09-2005
1891	14536027F	HAV	PRAMOD KUMAR	01-11-2005
1892	14536331L	HAV	PRAMOD KUMAR KOTNALA	01-12-2005
1893	14543894N	HAV	PRAMOD SHARMA	01-01-2006
1894	14535700L	HAV	PRITAM SINGH RANA	01-10-2005
1895	14536144M	HAV	PURAN SINGH	01-11-2005
1896	14543934K	HAV	PURUSHOTTAM	01-01-2006
1897	14543113P	HAV	R C PANDEY	01-09-2005
1898	14543851Y	HAV	R RAMASAMY	01-01-2006
1899	14535371A	HAV	RAGHA WO	01-09-2005
1900	15535483W	HAV	RAJ KAWAR SAINI	01-09-2005
1901	14543973H	HAV	RAJ KUMAR	01-01-2006
1902	14536179H	HAV	RAJ SINGH	01-12-2005
1903	14535849M	HAV	RAJBIR SINGH	01-10-2005
1904	14543674K	HAV	RAJENDER SINGH	01-01-2006
1905	14543036L	HAV	RAJENDRA KUMAR MISHRA	01-09-2005
1906	14543095X	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-10-2005
1907	14676495Y	HAV	RAJESH BACHHATY	01-09-2005
1908	14535590F	HAV	RAJINDER SINGH	01-10-2005
1909	14542852P	HAV	RAJU VARGHESE	01-09-2005
1910	14543994Y	HAV	RAM ADHAR	01-01-2006
1911	14535597L	HAV	RAM AWADH RAM	01-10-2005
1912	14543606W	HAV	RAM BALI SINGH	01-12-2005
1913	14535892N	HAV	RAM KHRAN RAM	01-10-2005

1914	14543928W	HAV	RAM MAHESH SHARMA	01-01-2006
1915	14543736Y	HAV	RAM NARESH KUSHAWAHA	01-01-2006
1916	14543461W	HAV	RAM SAHODER GUPTA	01-10-2005
1917	14535509K	HAV	RAM SINGH SARMA	01-09-2005
1918	14543130P	HAV	RAM VARAN SINGH	01-09-2005
1919	14543070L	HAV	RAMBACHAN VISHWAKARMA	01-10-2005
1920	14543514K	HAV	RAMESH KUMAR	01-10-2005
1921	14543352K	HAV	RAMSEWAK NAG	01-10-2005
1922	14543756M	HAV	RANGALA SUNDER BABU	01-01-2006
1923	14535876W	HAV	RANVIR SINGH	01-10-2005
1924	14543649L	HAV	ROOP CHAND	01-12-2005
1925	14536209P	HAV	S ARUL	01-12-2005
1926	14542989F	HAV	S SELPATHY	01-09-2005
1927	14536401Y	HAV	SAJAL KUMAR DAS	01-01-2006
1928	14543772K	HAV	SANT RAJ	01-01-2006
1929	14543936P	HAV	SANTOSH KUMAR	01-01-2006
1930	14539647H	HAV	SATINDER KUMAR	01-09-2005
1931	14536161M	HAV	SAWAI SINGH	01-11-2005
1932	14535395K	HAV	SHARAD MOHAN AGASHE	01-09-2005
1933	14542943Y	HAV	SHEO SHANKAR SINGH	01-09-2005
1934	14536395W	HAV	SHER BAHADUR PANDEY	01-01-2006
1935	14543836K	HAV	SHER BAHADUR THAPA	01-01-2006
1936	14543430W	HAV	SHER SINGH DEOPA	01-10-2005
1937	14543895W	HAV	SHILANATH MANJHI	01-01-2006
1938	14543528K	HAV	SHIVA GONDA HARANALE	01-10-2005
1939	14542944F	HAV	SHIVE KUMAR	01-09-2005
1940	14536124Y	HAV	SHIVJI SHARMA	01-11-2005
1941	14543752W	HAV	SHRI BHAGWAN SHARMA	01-01-2006
1942	14536103H	HAV	SHRI KRISHNA RAM	01-11-2005
1943	14543610Y	HAV	SHRI NIVAS PATHAK	01-12-2005
1944	14543487L	HAV	SHRI PRAKASH	01-10-2005
1945	14535340A	HAV	SHYAM BIHARI SHARMA	01-09-2005
1946	14543792X	HAV	SHYAM SINGH	01-01-2006
1947	14537389P	HAV	SOMAN PILLAI K S	01-06-2005
1948	14543348F	HAV	SUBESH CHANDRA THAKUR	01-10-2005
1949	14536096X	HAV	SUBHASH CHANDRA	01-11-2005
1950	14543799F	HAV	SUBODH DUTTA	01-01-2006
1951	14543450K	HAV	SUDHIR KUMAR	01-10-2005
1952	14543846N	HAV	SUNDER LAL TIWARI	01-01-2006
1953	14535354A	HAV	SURENDRA DUTT	01-09-2005
1954	14543229L	HAV	SURESH HIEMATH Y	01-09-2005
1955	14543295N	HAV	SURESH KUMAR	01-10-2005
1956	14676546F	HAV	SURESH KUMAR T R	01-09-2005
1957	14543840M	HAV	SURESH RAM	01-01-2006
1958	14542984H	HAV	SURINDER SINGH	01-09-2005
1959	14535596H	HAV	TARA CHAND	01-10-2005

1960	14535968H	HAV	TARA SINGH	01-10-2005
1961	14543837M	HAV	TEK BAHADUR THAPA	01-01-2006
1962	14535508F	HAV	TH BROJENDRA SINGHA	01-09-2005
1963	14543268K	HAV	TILAK RAJ	01-09-2005
1964	14542982X	HAV	UMESH MANDAL	01-09-2005
1965	14543703N	HAV	UNNIKRISHNAN NAIR V R	01-12-2005
1966	14543133H	HAV	UPEN CH KALITA	01-09-2005
1967	14535666W	HAV	UPENDRA KUMAR MISHRA	01-10-2005
1968	14543418P	HAV	VICHITHRAN CHIRUKANDOTH	01-10-2005
1969	14543324X	HAV	VIJAY KUMAR YADAV	01-10-2005
1970	14542584W	HAV	VIJAYA KUMARAN K	01-07-2005
1971	14536487H	HAV	VIJAYAN K	01-01-2006
1972	14543200H	HAV	VINAY SHANKAR RAI	01-09-2005
1973	14543147H	HAV	VIRENDRA SINGH	01-09-2005
1974	14543545K	HAV	VISHNU NAIK	01-10-2005
1975	14536227X	HAV	VISHWANATH BALKRISHAN JADHAV	01-12-2005
1976	14535944Y	HAV	YADAV VIJAY NAMDEO	01-10-2005
1977	14543868M	HAV	YARNIAS LAKRA	01-01-2006
1978	14542996X	HAV	YOGENDRA PRASAD YADAV	01-09-2005

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

1979	7238314W	DFR	BHOLA MAHATO	01-11-2005
1980	7238803F	DFR	DEBA NANDA MONDAL	01-10-2005
1981	7238281W	DFR	GANGA RAM SHUKAL	01-09-2005
1982	7238807X	DFR	GEETA CHARAN	01-01-2006
1983	7238801W	HAV	K MUNIYAND	01-09-2005
1984	7238295W	HAV	KRISHNA CHANDRA THAKUR	01-10-2005
1985	7238358N	DFR	RAJENDRA THAKUR	01-12-2005

CORPS OF MILITARY POLICE

1986	7771817K	HAV	AJAI PAL	01-11-2005
1987	7771714L	HAV	AKSHAYBAT NATH MISRA	01-10-2005
1988	7771733W	HAV	ARI MARDAN SINGH	01-11-2005
1989	7771858N	HAV	ARJUN PRASAD SINGH	01-01-2006
1990	7771790X	HAV	BIRENDER CHAND	01-12-2005
1991	7771763N	HAV	BISAN SINGH	01-11-2005
1992	7773168H	HAV	C YALLAPPA SUKDEKAR	01-09-2005
1993	7771871X	HAV	CHAND DIP RAI	01-01-2006
1994	7773167A	HAV	HARI BABU	01-09-2005
1995	7771758H	HAV	KHIRODA KUMAR PRADHAN	01-11-2005
1996	7771793L	HAV	KUMOD KUMAR JHA	01-12-2005
1997	7773174W	HAV	MERAM PITCHI REDDY	01-10-2005
1998	7773175Y	HAV	RAMA SHANKAR	01-10-2005
1999	7771845W	HAV	RANBIR MUDGAL	01-12-2005
2000	7771692X	HAV	SATISH CHANDRA	01-09-2005
2001	7771840X	HAV	UDHAIVIR SINGH	01-12-2005

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

2002	14341301N	HAV	DADDI LAL PATEL	01-11-2005
2003	5448767M	HAV	GUM BAHADUR SARU	01-12-2005
2004	2579990K	HAV	K RAJA RAMAN	01-12-2005

THE PIONEER CORPS

2005	8026631X	HAV	DADASO ANNA MASAI.	01-09-2005
2006	8028909M	HAV	HEM RAJ	01-09-2005
2007	8028896A	HAV	KANAK CHANDRA DAS	01-09-2005
2008	8026778N	HAV	KATARA RATNA BHAI KURA BHAI	01-12-2005
2009	8026793H	HAV	KUMA SINGH SUNAR	01-09-2005
2010	8026587Y	HAV	NARAYAN SINGH	01-09-2005
2011	8026869X	HAV	RAM CHARAN	01-12-2005
2012	8028931X	HAV	RAMAPPA ERAPPA HAGARTHI	01-10-2005
2013	8026669F	HAV	SURENDER KUMAR	01-10-2005

BAND MASTERS

2014	4553058A	HAV	VIJAYAN K	01-09-2005
------	----------	-----	-----------	------------

ARMY POSTAL SERVICE

2015	8026996M	HAV	GURMIT SINGH CHAWLA	01-01-2006
------	----------	-----	---------------------	------------

DEFENCE SECURITY CORPS

2016	3966307K	HAV	AMAR SINGH	30-11-2005
2017	10388043L	HAV	ANKUSH PADHARE	31-08-2005
2018	8015790P	HAV	OM PARKASH SHARMA	30-09-2005
2019	8016175K	HAV	PARASH NATH SINGH	30-09-2005
2021	8016788K	HAV	RAM PHAL SINGH	31-10-2005
2022	10388231M	HAV	SHRI KANT TIWARI	31-10-2005
2023	14515030N	HAV	SURENDRA LAL TAMTA	30-11-2005
2024	10450272F	HAV	V M SUBBAIAH	30-11-2005

TERRITORIAL ARMY

2025	10181971P	HAV	BHAWANI CHAND	01-01-2006
2026	10244734	HAV	KAJAL SINHA	01-04-2005
2027	10479516	HAV	MOHAN SINGH	01-02-2005
2028	10146394	HAV	MANE GANAPATI RAMA	05-04-2005
2029	10227294K	HAV	NATTU BARAI	01-08-2005
2030	10404140P	HAV	PALA RAM	01-03-2005
2031	10452205P	HAV	P LOGANTHAN	01-03-2005
2032	10134848L	HAV	RANDHIR SINGH	01-12-2005
2033	10197785	HAV	SHRI NATH PAL	01-09-2005
2034	10212318L	HAV	SUBASH CHANDRA ROY	01-04-2005
2035	10273863L	HAV	SUJAY KUMAR MONDAL	01-04-2005
2036	10358824K	HAV	VARGHESE TTUKULLAM	01-04-2005

[No. B/43432/RD-06/AG/CW-2]

ANUP S JAMWAL, Lt Gen, Adjutant General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2006

सं. 4(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2006.—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

भारतीय नौसेना

स्थायी काडर

विशेष ड्यूटी सूची

निम्नलिखित मास्टर चीफ पेटी अफसरों को विशेष ड्यूटी सूची पर 26 जनवरी 2006 से अवैतनिक कमिशन प्रदान किया जाता है।

अवैतनिक लेफ्टिनेंट (विशेष ड्यूटी) के पद पर

क्रमांक	नाम	रैंक	नम्बर
01.	गोपालसामी राजेन्द्रन	एम सी पी ओ 1 आर पी 1	096322-आर
02.	परमजीत	एम सी पी ओ 1 आर सी 1	096457-वाई
03.	राजकुमार सुरेन्द्र सिंह	एम सी पी ओ 1 क्यू ए 1	096452-के
04.	ए ओ जॉर्ज	एम सी पी ओ 1 यू सी 1	104397-टी
05.	कुन्हामन नायर एम	एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर 1	140260-जेड
06.	बृज नाथ राम	एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर 1	140108-बी
07.	विजय कुमार	एम सी पी ओ टॉप 1	055881-वी
08.	उमा शंकर सिंह	एम सी पी ओ ए एफ 1	202165-टी
09.	सुमेर सिंह	एम सी ए ए एच 1	096494-एफ
10.	निरंजन लाल	एम सी ए एस ई 1	097269-टी
11.	गोम सिंह	एम सी ए ए एच 1	096763-टी
12.	पाथिसेरिल एस शिवपालन	एम सी ए ए एच 1	202699-एफ
13.	कुल भूषण	एम सी पी ओ आर टेल 1	096269-डब्ल्यू
14.	पोन्नुस्वामी दुराईराजू	एम सी पी ओ आर टेल 1	096796-टी
15.	सिया राम सिंह	एम सी एम ई 1	095718-टी

16.	जनार्दन सिंह	एम सी एम ई 1	097167-के
17.	बाल कृष्ण पी सिंह	एम सी मैक 1	096287-के
18.	गोविन्द सिंह	एम सी मैक 1	095733-ए
19.	कुलानन्द भारद्वाज	एम सी एम ई 1	103991-डब्ल्यू
20.	पुच्चा पापय्या	एम सी मैक 1	200605-वाई
21.	मोहन लाल वर्मा	एम सी एम ई 1	103351-आर
22.	हरि शंकर सिंह	एम सी एम ई 1	097511-टी
23.	बीर सिंह	एम सी एम ई 1	103472-आर
24.	सुल्तान सिंह परिहार	एम सी मैक पी 1	096755-जेड
25.	बलदेव सिंह	एम सी ई एल पी 1	096158-टी
26.	गुम्माडि बोस बाबू	एम सी डब्ल्यू एम 1	095757-एफ
27.	अमर पाल सिंह	एम सी ई एल आर 1	096198-एच
28.	निरंजन सिंह, वि से मे	एम सी ई ए आर 1	190453-जेड
29.	बृज बिहारी दुबे	एम सी ई एल आर 1	096282-जेड
30.	राम औतार कुशवाहा	एम सी ई ए पी 1	097638-एफ
31.	भागीरथ प्रसाद	एम सी पी ओ एम ए 1, एम एस 1	140378-टी
32.	परषोत्तम कुमार	एम-सी-एट-आर्म्स 1	096157-आर

अवैतनिक सब लेफ्टिनेंट (विशेष ड्यूटी) के पद पर

01.	फेलिक्स थॉमस	एम सी पी ओ 1 यू सी 1	201136-बी
02.	रामेन्द्र कालोनीआ	एम सी पी ओ 1 आर पी 1	096807-टी
03.	गुलाब चन्द	एम सी पी ओ 1 क्यू ए 1	097287-एच
04.	रमेश चन्द्र खन्डपाल	एम सी पी ओ 1 यू डब्ल्यू 1	103671-टी
05.	रुमी सिंह	एम सी पी ओ 1 क्यू ए 1	096552-एन
06.	पालतेरु सुधाकर	एम सी पी ओ 1 आर पी 1	202292-एफ
07.	तेहल सिंह	एम सी पी ओ 1 पी टी 1	096690-ए

08.	पांजा सिंह	एम सी पी ओ 1 आर सी 1	096691-बी
09.	देवेन्द्र सिंह	एम सी पी ओ 1 आर सी 1	103654-बी
10.	करण सिंह राना	एम सी पी ओ 1 पी टी 1	103717-वाई
11.	औंकार चन्द शर्मा	एम सी पी ओ 1 पी टी 1	104234-वाई
12.	बी चितामब्रेश्वर राव	एम सी पी ओ 2 क्यू ए1	200812-टी
13.	विश्विजय नारायण सिंह	एम सी पी ओ 2 आर सी 1	200674-बी
14.	यासीन खान	एम सी पी ओ 2 आर पी 1	201325-एच
15.	शिव राज सिंह	एम सी पी ओ 2 आर पी 1	201319-डब्ल्यू
16.	रमेश सिंह	एम सी पी ओ 2 आर पी 1	200036-बी
17.	आर एम नरसु पाल्लि	एम सी पी ओ 2 आर सी 1	201174-आर
18.	एस नारायण चौधरी	एम सी पी ओ 2 आर पी 1	204246-वाई
19.	राम अवध पाल	एम सी पी ओ 2 आर पी 1	204098-के
20.	नेमी चन्द	एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर 1	140265-के
21.	प्यारे लाल खट्टा	एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर 1	106620-डब्ल्यू
22.	गोपा श्री कुमारन नायर	एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर 1	107063-ए
23.	अमर सिंह	एम एस सी पी ओ 2	106417-एच
24.	रबिन्द्र पाल सिंह	एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर 2	106869-के
25.	अब्दुल सत्तार	एम सी पी ओ एस टी डी 1	140507-के
26.	ई जोसेफ सेन्टियागो	एम सी पी ओ एस टी डी 1	104692-एन
27.	एम कुन्हाम्बु शशिधरन	एम सी पी ओ टॉप 1	055950-के
28.	के पीटर क्लीट्स	एम सी पी ओ टॉप 1	055954-डब्ल्यू
29.	सोक्कर करुप्पडूआ	एम सी पी ओ टॉप 1	055939-के
30.	दर्शन कुमार	एम सी पी ओ सी के एस 2	140304-जेड
31.	नरेश नारायण	एम सी पी ओ सी के एस 2	140219-एफ

32.	उन्नी कृष्णन वी	एम सी पी ओ एस टी डी 2	140154-एच
33.	आर कृष्णा मूर्ती	एम सी पी ओ टॉप 2	055988-वाई
34.	मोसेस मरिअप्पा	एम सी पी ओ टॉप 2	103086-एन
35.	केवल सिंह	एम सी पी ओ एस टी डी 2	107181-डब्ल्यू
36.	गोपाल चन्द्र मंडल	एम सी पी ओ सी के एस 2	140294-ए
37.	बिपिन बिहारी राणा	एम सी पी ओ सी के एस 2	105164-के
38.	जिया राम	एम सी पी ओ टॉप 2	103171-एफ
39.	वी मुरलीधरन असारी	एम सी पी ओ सी के एस 2	140369-वाई
40.	राजेन्द्र कुमार	एम सी मैक ए एल 1	096889-बी
41.	करम चन्द	एम सी ए एम डब्ल्यू 1	096555-डब्ल्यू
42.	नन्द किशोर, वि से मे	एम सी मैक ए एल 1	096721-वाई
43.	विजय पाल सिंह	एम सी ई एल ए 1	096659-एफ
44.	होती लाल	एम सी ए एम डब्ल्यू 1	204361-एच
45.	एम के सुरेश कुमार	एम सी इ एल ए आर 1	202401-बी
46.	मैथ्यू टी	एम सी मैक ए आर	107073-जड
47.	मीचारू सिंह यादव	एम सी पी ओ ए ओ एफ 2	203809-बी
48.	तरसेम सिंह	एम सी ए एस ई 1	097845-ए
49.	ओम प्रकाश	एम सी ए ए एच 1	096627-एच
50.	गोवर्धन के लोहाकरे	एम सी ए ए एच 1	097149-डब्ल्यू
51.	तखत सिंह	एम सी ए ए एच 1	202152-एन
52.	विराद सिंह चौहान	एम सी पी ओ आर टेल 1	097090-के
53.	कश्मीर सिंह	एम सी पी ओ आर टेक 1	105888-एफ
54.	वी एन शशीधरन पिल्लै	एम सी पी ओ आर टेल 1	202611-एफ
55.	के के उन्निकृष्णन	एम सी पी ओ आर टेक 2	103936-डब्ल्यू

56.	आर रामाकृष्ण के नायर	एम सी पी ओ आर टेल 2	097948-के
57.	रोहतास दहिया	एम सी पी ओ आर टेल 2	201676-एफ
58.	अशोक कुमार कोहली	एम सी एम ई 1	097252-बी
59.	मस्त राम	एम सी मैक 1	097035-के
60.	सुन्दर लाल द्विवेदी	एम सी एम ई 1	097411-आर
61.	दीपक कुमार छेत्री	एम सी एम ई 2	200271-एन
62.	अक्षय कुमार राय	एम सी मैक 2	200577-एच
63.	रमेश दास	एम सी मैक पी 1	096471-बी
64.	राज धनी सिंह	एम सी डब्ल्यू एम 2	200303-के
65.	नन्द कुमार अम्भोरे	एम सी ई एल आर 2	104616-आर
66.	धर्मेन्द्र नाथ तिवारी	एम सी ई एल पी 2	200670-डब्ल्यू
67.	मोहिन्द्र सिंह दलाल	एम सी पी ओ एम ए 2 पोटा 1	107825-एच
68.	राज कुमार शर्मा	एम सी पी ओ एम यू एस 1	042966-ए
69.	हिकिम राम	एम-सी-एट-आर्म्स 1	096680-बी
70.	भगवान मोहनकुडो	एम-सी-एट-आर्म्स 2	200005-एच
71.	रणबीर सिंह दलाल	एम-सी-एट-आर्म्स 2	103519-वाई
72.	अन्जांगी कृष्णा	एम-सी-एट-आर्म्स 2	103969-डब्ल्यू

[फा. एच ए/2504/जनवरी 2006-आनरेरी कमीशन-जनवरी 2006]

निर्मल वर्मा, वाईस एडमिरल, कार्मिक अध्यक्ष

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2006

No. 4(E) dated 26 January, 2006.—The President is pleased to make the following appointments :—

INDIAN NAVY PERMANENT CADRE SPECIAL DUTIES LIST

The following Master Chief Petty Officers are granted Honorary Commission on the Special Duties List on 26 Jan 2006 :—

TO BE HONORARY LIEUTENANTS (SPECIAL DUTIES)

<u>SER</u>	<u>NAME</u>	<u>RANK</u>	<u>P. NO</u>
01.	GOPALSAMY RAJENDRAN	MCPO I RP I	096322 R
02.	PARAMJIT	MCPO I RC I	096457 Y

03.	R SURENDER SINGH	MCPO I QA1	096452 K
04.	AO GEORGE	MCPO I UC1	104397 T
05.	KUNHAMAN NAIR M	MCPO WTR I	140260 Z
06.	BRIJ NATH RAM	MCPO WTR I	140108 B
07.	VIJAY KUMAR	MCPO TOP I	055881 B
08.	UMA SHANKAR SINGH	MCPO AF I	202165 T
09.	SUMER SINGH	MCA(AH) I	096494 F
10.	NIRANJAN LAL	MCA(SE) I	097269 T
11.	GOM SINGH	MCA(AH) I	096763 T
12.	PATHISERIL S SIVAPALAN	MCA(AH) I	202699F
13.	KUL BHUSHAN	MCPO TEL I	096269W
14.	PONNUSAMY DURAIRAJU	MCPO TEL I	096796 T
15.	SIYA RAM SINGH	MC ME I	095718 T
16.	JANARDHAN SINGH	MC ME I	097167 K
17.	BAL KRISHNA P SINGH	MC MECH I	096287 K
18.	GOVIND SINGH	MC MECH I	095733 A
19.	KULANAND BHARDWAJ	MC ME I	103991 W
20.	PUTCHA PAPAIAH	MC MECH I	200605 Y
21.	MOHAN LAL VERMA	MC ME I	103351 R
22.	HARI SHANKAR SINGH	MC ME I	097511 T
23.	BIR SINGH	MC ME I	103472 R
24.	SULTAN SINGH PARIHAR	MC MECH P I	096755 Z
25.	BALDEV SINGH	MC ELP I	096158 T
26.	GUMMADI BOSE BABU	MC WM I	095757 F
27.	AMAR PAL SINGH	MC ELR I	096198 H
28.	NIRANJAN SINGH VSM	MCEAR I	190453 Z
29.	BRIJ BIHARI DUBEY	MC ELR I	096282 Z
30.	RAM AVTAR KUSHWAHA	MC EAP I	097638 F
31.	BHAGIRATH PRASAD	MCPO MA I	140378 T
32.	PARSHOTAM KUMAR	MC AT ARMS I	096157 R

TO BE HONORARY SUB LIEUTENANTS (SPECIAL DUTIES)

<u>SER</u>	<u>NAME</u>	<u>RANK</u>	<u>P.NO.</u>
1.	FELIX THOMAS	MCPO I UC1	201136 B
2.	RAMENDER KALONIA	MCPO I RP1	096807 T

3.	GULAB CHAND	MCPO I QA1	097287 H
4.	RAMESH CHANDRA KHANDPAL	MCPO I UW1	103671 T
5.	RUMI SINGH	MCPO I QA1	096552 N
6.	PALTERU SUDHAKAR	MCPO I RP1	202292 F
7.	TEHAL SINGH	MCPO I PT1	096690 A
8.	PANJA SINGH	MCPO I RC1	096691 B
9.	DEVENDER SINGH	MCPO I RC1	103654 B
10.	KARAN SINGH RANA	MCPO I PT1	103717 Y
11.	ONKAR CHAND SHARMA	MCPO I PT1	104234 Y
12.	B CHITAMBARESWAR RAO	MCPO II QA1	200812 T
13.	DIGVIJAI NARAYAN SINGH	MCPO II RC I	200674 B
14.	YASIN KHAN	MCPO II RP1	201325 H
15.	SHIV RAJ SINGH	MCPO II RP1	201319 W
16.	RAMESH SINGH	MCPO II RP1	200036 B
17.	RM NARASU PALLI	MCPO II RC1	201174 R
18.	S NARAYAN CHOUDHARY	MCPO II RP1	204246 Y
19.	RAM AWADH PAL	MCPO II RP1	204098 K
20.	NEMI CHAND	MCPO WTR I	140265 K
21.	PIARE LAL KHATTA	MCPO WTR I	106620 W
22.	GOPA SREE KUMARAN NAIR	MCPO WTR I	107063 A
23.	AMAR SINGH	MSCPO II	106417 H
24.	RAVINDRA PAL SINGH	MCPO WTR II	106869 K
25.	ABDUL SATTAR	MCPO STD I	140507 K
26.	E JOSEPH SANTIAGO	MCPO STD I	104692 N
27.	M KUNHAMBU SASIDHARAN	MCPO TOP I	055950 K
28.	K PETER CLEETUS	MCPO TOP I	055954 W
29.	SOKKARA KARUPPIAH	MCPO TOP I	055939 K
30.	DARSHAN KUMAR	MCPO CK(S) II	140304 Z
31.	NARESH NARAIN	MCPO CK(S) II	140219 F
32.	UNNI KRISHNAN V	MCPO STD II	140154 H
33.	R KRISHNA MOORTHY	MCPO TOP II	055988 Y
34.	MOSES MARIAPPA	MCPO TOP II	103086 N
35.	KEVAL SINGH	MCPO STD II	107181 W
36.	GOPAL CHANDRA MANDAL	MCPO CK(S) II	140294 A

37.	BIPIN BIHARI RANA	MCPO CK(S) II	105164 K
38.	JIAH RAM	MCPO TOP II	103171 F
39.	V MURALEEDHARAN ASARI	MCPO CK(S) II	140369 Y
40.	RAJINDER KUMAR	MC MECH(AL) I	096889 B
41.	KARAM CHAND	MC AM(W) I	096555 W
42.	NAND KISHORE, VSM	MC MECH(AL) I	096721 Y
43.	VIJAY PAL SINGH	MC ELA I	096659 F
44.	HOTI LAL	MC AM(W) I	204361 H
45.	MK SURESH KUMAR	MC ELAR I	202401 B
46.	MATHEW T	MC MECH(AR)	107073 Z
47.	MICHAROO SINGH YADAV	MCPO AOF II	203809 B
48.	TARSEM SINGH	MCA(SE) I	097845 A
49.	OM PRAKASH	MCA(AH) I	096627 H
50.	GOVERDHAN K LOHAKARE	MCA(AH) I	097149 W
51.	TAKHAT SINGH	MCA(AH) I	202152 N
52.	VIRAD SINGH CHOUHAN	MCPO TEL I	097090 K
53.	KASHMIR SINGH	MCPO TEL I	105888 F
54.	VN SASIDHARAN PILLAI	MCPO TEL I	202611 F
55.	KK UNNIKRISHNAN	MCPO TEL II	103936 W
56.	R RAMAKRISHNAN K NAIR	MCPO TEL II	097948 K
57.	ROHTASH DAHIYA	MCPO TEL II	201676 F
58.	ASHOK KUMAR KOHLI	MC ME I	097252 B
59.	MAST RAM	MC MECH I	097035 K
60.	SUNDER LAL DWIWEDI	MC ME I	097411 R
61.	DIPAK KUMAR CHHETRI	MC ME II	200271 N
62.	ASKHYA KUMAR ROY	MC MECH II	200577 H
63.	RAMESH DAS	MC MECH P I	096471 B
64.	RAJ DHANI SINGH	MC WM II	200303 K
65.	NAND KUMAR AMBHORE	MC ELR II	104616 R
66.	DHARMENDRA NATH TIWARY	MC ELP II	200670 W
67.	MOHINDER SINGH DALAL	MCPO MA II POTA1	107825 H
68.	RAJ KUMAR SHARMA	MCPO MUS I	042966 A
69.	HIKIM RAM	MC AT ARMS I	096680 B
70.	BHAGABAN MOHANKUDO	MC AT ARMS II	200005 H

71.	RANBIR SINGH DALAL	MC AT ARMS II	103519 Y
72.	ANJANGI KRISHNA	MC AT ARMS II	103969 W

[F. No. HA/2504/January 2006-Hony Commission-January, 2006]

NIRMAL VERMA, Vice Admiral, Chief of Personnel

(वायु शाखा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2006

सं. 5(अ).— गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वायुसेना विनियमावली के पैरा 344 के अंतर्गत निम्नलिखित फ्लाईंग अफसरों को 26 जनवरी 2006 से फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक में पदोन्नत किया जाता है :-

1	297734के	वा अ(आ फ अ)	राम प्रसाद राम, शौर्य चक्र	ए सी एच जी डी
2	296108एफ	मा वा अ(आ फ अ)	ब्रज बिहारी सिंह	ए सी एच जी डी
3	295028के	मा वा अ(आ फ अ)	नारायण चन्द्र साहा	ए सी एच जी डी
4	286183के	मा वा अ(आ फ अ)	राम लखन	ए एफ फिटर
5	291428एस	मा वा अ(आ फ अ)	जसमेल सिंह	ए एफ फिटर
6	289934एच	मा वा अ(आ फ अ)	नरदेश्वर पाण्डेय	ए एफ एस ओ
7	299005आर	मा वा अ(आ फ अ)	राज, नाथ सिंह	कैट सहायक
8	298842आर	मा वा अ(आ फ अ)	राम किशोर चतुर्वेदी	कैट सहायक
9	298584एच	मा वा अ(आ फ अ)	जोगेश चन्द्र कलिता	क्लर्क अकाउंट
10	297916टी	मा वा अ(आ फ अ)	नारायण कुमार	क्लर्क अकाउंट
11	296723एच	मा वा अ(आ फ अ)	लाल चन्द यादव	क्लर्क अकाउंट
12	295159बी	मा वा अ(आ फ अ)	मुक्कामला नटराजा राव	क्लर्क जी डी
13	294645आर	मा वा अ(आ फ अ)	मलकीत सिंह	क्लर्क जी डी
14	296428एल	मा वा अ(आ फ अ)	अम्बिका ठाकुर	क्लर्क जी डी
15	612219ए	मा वा अ(आ फ अ)	मुस्तकीम अहमद खान	शिक्षा अनुदेशक
16	605551के	मा वा अ(आ फ अ)	रामाकृष्णन नायर के वी	इलेक्ट फिटर
17	606550एफ	मा वा अ(आ फ अ)	चन्द्रप्रकाश यादव	इलेक्ट फिटर
18	605006आर	मा वा अ(आ फ अ)	करीप्पापुरत गोपीनाथन	इलेक्ट फिटर
19	295896ए	मा वा अ(आ फ अ)	पिल्लै राधाकृष्णन गोपालन	इंजन फिटर
20	291386टी	मा वा अ(आ फ अ)	श्याम मनोहर शुक्ला	इंजन फिटर
21	298724जी	मा वा अ(आ फ अ)	कश्मीरा सिंह	उपस्कर सहायक
22	283461एन	मा वा अ(आ फ अ)	चन्द्रशेखरन नायर टी वी	उपस्कर सहायक
23	297500आर	मा वा अ(आ फ अ)	शिवतोष मजुमदार	उपस्कर सहायक
24	294242आर	मा वा अ(आ फ अ)	अल्फ्रेड लाजर	जी टी आई
25	296221एल	मा वा अ(आ फ अ)	सिया राम सिंह	जी टी आई
26	286058आर	मा वा अ(आ फ अ)	स्वर्ण सिंह	आई ए एफ पी
27	286491के	मा वा अ(आ फ अ)	हरभजन सिंह	आई ए एफ पी
28	286173आर	मा वा अ(आ फ अ)	कोडकल थोमस मैथ्यू	आई ए एफ पी

29	605138एफ	मा वा अ(आ फ अ)	अमान सिंह	इंस्ट फिटर
30	605038एल	मा वा अ(आ फ अ)	सुशील कुमार	इंस्ट फिटर
31	242496एल	मा वा अ(आ फ अ)	राम प्रकाश	चिकित्सा सहायक
32	242396टी	मा वा अ(आ फ अ)	बाबूजी चरण आईच	चिकित्सा सहायक
33	290501आर	मा वा अ(आ फ अ)	गणपत सिंह पंवार	मैट सहायक
34	600040ए	मा वा अ(आ फ अ)	सेम सिंह	मैट सहायक
35	285882एल	मा वा अ(आ फ अ)	प्रेम लाल पाण्डेय	एम टी फिटर
36	286125आर	मा वा अ(आ फ अ)	रामचन्द्रन पट्टानाथ	एम टी फिटर
37	285692ए	मा वा अ(आ फ अ)	शीशीर रंजन दास	एम टी फिटर
38	286660आर	मा वा अ(आ फ अ)	रिछपाल सिंह रंधवा	एम टी डी
39	285553जी	मा वा अ(आ फ अ)	राजेन्द्र सिंह	एम टी डी
40	287698ए	मा वा अ(आ फ अ)	गोपालाकृष्णन नायर पी	संगीतकार
41	287412ए	मा वा अ(आ फ अ)	सुदर्शन सिंह	संगीतकार
42	294097एफ	मा वा अ(आ फ अ)	श्री कृष्णा अग्रवाल	पी जे आइ
43	602546एफ	मा वा अ(आ फ अ)	मदन गोपाल	रेडियो फिटर
44	600155के	मा वा अ(आ फ अ)	विजय कुमार सिन्हा	रेडियो फिटर
45	601929एफ	मा वा अ(आ फ अ)	प्रताप सिंह	रेडियो टेक
46	290036एस	मा वा अ(आ फ अ)	श्याम सुन्दर दास	रेडियो टेक
47	292064के	वा अ(आ फ अ)	वी आरुमुगम	एस ई डब्लू
48	299044एस	वा अ(आ फ अ)	शिवमूरत प्रसाद यादव	एस ई डब्लू
49	291294एच	मा वा अ(आ फ अ)	सरेन्द्र मोहन विग	टेलेस्ट आर टी ओ
50	601139एस	मा वा अ(आ फ अ)	अमर सिंह भरवारिया	टेलेस्ट आर टी ओ
51	601142एस	मा वा अ(आ फ अ)	मदन मोहन पाठक	टेलेस्ट आर टी ओ
52	291677टी	मा वा अ(आ फ अ)	त्रिलोक चन्द	वैपन फिटर
53	291736एस	मा वा अ(आ फ अ)	सत देव पाठक	वैपन फिटर
54	283403टी	मा वा अ(आ फ अ)	भुवनगिरी गोपाल जेठ्ठी	वैपन फिटर
55	291740एन	वा अ(आ फ अ)	सोने लाल दोहरे	डब्ल्यू एस फिटर(बी)
56	283437एच	मा वा अ(आ फ अ)	श्रीधरन नम्बूरी पी के	डब्ल्यू एस फिटर(सी)

महायोग : 56 (छप्पन) नाम केवल

[सं. वा से मु/सी 40254/137/पीए (सीपीसी)]

वाई आर राणे, एयर मार्शल, कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

(Air Branch)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2006

No. 5(E).—The undermentioned Honorary Flying Officers are promoted as Honorary Flight Lieutenants with effect from 26 January 2006 on occasion of Republic Day under para 344 of Regulations for the Air Force :—

1.	297734K	WO (Hony Fg Offr)	Ram Prasad Ram, SC	Ach GD
2.	296108F	MWO(Hony Fg Offr)	Braj Bihari Singh	Ach GD

3.	295028K	MWO(Hony Fg Offr)	Narayan Chandra Saha	Ach GD
4.	286183K	MWO(Hony Fg Offr)	Ram Lakhan	AF Fit
5.	291428S	MWO(Hony Fg Offr)	Jasmail Singh	AF Fit
6.	289934H	MWO(Hony Fg Offr)	Narbdeshwar Pandey	AFSO
7.	299005R	MWO(Hony Fg Offr)	Raj Nath Singh	Cat Asst
8.	298842R	MWO(Hony Fg Offr)	Ram Kishore Chaturvedi	Cat Asst
9.	298584H	MWO(Hony Fg Offr)	Jogesh Chandra Kalita	Clk Accts
10.	297916T	MWO(Hony Fg Offr)	Narain Kumar	Clk Accts
11.	296723H	MWO(Hony Fg Offr)	Lalchand Yadav	Clk Accts
12.	295159B	MWO(Hony Fg Offr)	Mukkamala Nataraja Rao	Clk GD
13.	294645R	MWO(Hony Fg Offr)	Malkit Singh	Clk GD
14.	296428L	MWO(Hony Fg Offr)	Ambika Thakur	Clk GD
15.	612219A	MWO(Hony Fg Offr)	Mustaqeem Ahmad Khan	Edn Inst
16.	605551K	MWO(Hony Fg Offr)	Ramakrishnan Nair K V	Elect Fit
17.	606550F	MWO(Hony Fg Offr)	Chandra Prakash Yadav	Elect Fit
18.	605006R	MWO(Hony Fg Offr)	Karippapurath Gopinathan	Elect Fit
19.	295896A	MWO(Hony Fg Offr)	Pillai Radhakrishnan Gopalan	Eng Fit
20.	291386T	MWO(Hony Fg Offr)	Shyam Manohar Shukla	Eng Fit
21.	298724G	MWO(Hony Fg Offr)	Kashmira Singh	Eqpt Asst
22.	283461N	MWO(Hony Fg Offr)	Chandrasekharan Nair TV	Eqpt Asst
23.	297500R	MWO(Hony Fg Offr)	Shibatosh Majumder	Eqpt Asst
24.	294242R	MWO(Hony Fg Offr)	Alfred Lazer	GTI
25.	296221L	MWO(Hony Fg Offr)	Siya Ram Singh	GTI
26.	286058R	MWO(Hony Fg Offr)	Sawarn Singh	IAF(P)
27.	286491K	MWO(Hony Fg Offr)	Harbhajan Singh	IAF(P)
28.	286173R	MWO(Hony Fg Offr)	Kottackal Thomas Mathew	IAF(P)

29.	605138F	MWO(Hony Fg Offr)	Aman Singh	Inst Fit
30.	605038L	MWO(Hony Fg Offr)	Sushil Kumar	Inst Fit
31.	242496L	MWO(Hony Fg Offr)	Ram Prakash	Med Asst
32.	242396T	MWO(Hony Fg Offr)	Babaji Charan Aech	Med Asst
33.	290501R	MWO(Hony Fg Offr)	Ganpat Singh Panwar	Met Asst
34.	600040A	MWO(Hony Fg Offr)	Samey Singh	Met Asst
35.	285882L	MWO(Hony Fg Offr)	Premalal Pandey	MT Fit
36.	286125R	MWO(Hony Fg Offr)	Ramachandran Pattanath	MT Fit
37.	285692A	MWO(Hony Fg Offr)	Shishir Ranjan Dass	MT Fit
38.	286660R	MWO(Hony Fg Offr)	Richhpal Singh Randhawa	MTD
39.	285553G	MWO(Hony Fg Offr)	Rajinder Singh	MTD
40.	287698A	MWO(Hony Fg Offr)	Gopalakrishnan Nair P	Musn
41.	287412A	MWO(Hony Fg Offr)	Sudershon Singh	Musn
42.	294097F	MWO(Hony Fg Offr)	Shri Krishna Agrawal	PJI
43.	602546F	MWO(Hony Fg Offr)	Madan Gopal	Rdo Fit
44.	600155K	MWO(Hony Fg Offr)	Vijay Kumar Sinha	Rdo Fit
45.	601929F	MWO(Hony Fg Offr)	Partap Singh	Rdo Tech
46.	290036S	MWO(Hony Fg Offr)	Shyam Sunder Das	Rdo Tech
47.	292064K	WO(Hony Fg Offr)	V Arumugam	SEW
48.	299044S	WO(Hony Fg Offr)	Sheomurat Prasad Yadav	SEW
49.	291294H	MWO(Hony Fg Offr)	Surinder Mohan Vig	Telst RTO
50.	601139S	MWO(Hony Fg Offr)	Amar Singh Bharwaria	Telst RTO
51.	601142S	MWO(Hony Fg Offr)	Madan Mohan Pathak	Telst RTO
52.	291677T	MWO(Hony Fg Offr)	Terlok Chand	Wpn Fit
53.	291736S	MWO(Hony Fg Offr)	Sat Dev Pathik	Wpn Fit
54.	283403T	MWO(Hony Fg Offr)	Bhuvangiri Gopal Jetty	Wpn Fit
55.	291740N	WO(Hony Fg Offr)	Sone Lal Dohare	WS Fit(B)
56.	283437H	MWO(Hony Fg Offr)	Sreedharan Namboory PK	WS Fit(C)

Grand total : 56 (fifty six only).

[No. Air HQ/C 40254/137/PA (CPC)]

Y R RANE, Air Mshl, Air Officer-Incharge Personnel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2006

सं. 6(अ).—गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वायुसेना विनियमावली के पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित मास्टर वारंट अफसरों और वारंट अफसरों को 26 जनवरी 2006 से फ्लाईंग अफसर रैंक में ऑनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

1	297352आर	मा वा अ	हरे राम राम	ए सी एच जी डी
2	600122एस	मा वा अ	ददन सिंह	ए सी एच जी डी
3	297394जी	मा वा अ	जगन नाथ	ए सी एच जी डी
4	295468टी	मा वा अ	मनोरंजन बनिक	ए सी एच जी डी
5	296278ए	मा वा अ	शिव नारायण	ए सी एच जी डी
6	297024जी	मा वा अ	हरबंस सिंह	ए सी एच जी डी
7	297462बी	मा वा अ	नरेन्द्र मोहन जोशी	ए सी एच जी डी
8	285723एच	मा वा अ	राजेन्द्र नाथ शर्मा	ए सी एच जी डी
9	298065एल	मा वा अ	राम नारायण भिख्री	ए सी एच जी डी
10	297902टी	मा वा अ	धनी राम	ए सी एच जी डी
11	285834एल	मा वा अ	के राजाराम राजू	ए सी एच जी डी
12	297858एस	मा वा अ	गोविन्द सिंह क्षत्रिय	ए सी एच जी डी
13	295925आर	वा अ	लाभू सिंह	ए सी एच जी डी
14	296376टी	मा वा अ	सत्यपाल	ए एफ फिटर
15	291317एन	मा वा अ	शत्रुघ्न प्रसाद शुक्ल	ए एफ फिटर
16	291454आर	मा वा अ	कपिल देव प्रसाद सिंह	ए एफ फिटर
17	291479जी	मा वा अ	गोपालकृष्णन नायर वी गोविन्द पिल्लै	ए एफ फिटर
18	299110ए	मा वा अ	ए श्रीरामुलु	कैट सहायक
19	299583बी	मा वा अ	लक्ष्मी नारायण	कैट सहायक
20	298920जी	मा वा अ	दारालू दयानन्द	कैट सहायक
21	297745ए	मा वा अ	अशोक कुमार	क्लर्क अकाउंट
22	298161टी	मा वा अ	श्री गोपाल दास	क्लर्क अकाउंट
23	297028एल	मा वा अ	बद्रीनाथ	क्लर्क अकाउंट
24	294635ए	मा वा अ	बुद्धदेव साहू	क्लर्क अकाउंट
25	298436आर	मा वा अ	किशोर चन्द्र मिश्र	क्लर्क अकाउंट
26	294173बी	मा वा अ	पांडेय अलगू प्रसाद	क्लर्क अकाउंट

27	295561एस	मा वा अ	मलय शंकर भट्टाचार्य	क्लर्क अकाउंट
28	296411बी	मा वा अ	निमई दत्ता चौधरी	क्लर्क अकाउंट
29	297613एल	मा वा अ	थॉमस सी ए	क्लर्क अकाउंट
30	297681ए	मा वा अ	दुखीश्याम गोरोई	क्लर्क अकाउंट
31	298369आर	मा वा अ	सुखराम	क्लर्क अकाउंट
32	297945जी	मा वा अ	शूरवीर सिंह	क्लर्क अकाउंट
33	298249एन	मा वा अ	बालमराम राम ठाकुर	क्लर्क अकाउंट
34	294339एच	मा वा अ	राम बहादुर	क्लर्क अकाउंट
35	296591एल	वा अ	महिन्दर सिंह	क्लर्क अकाउंट
36	294952टी	वा अ	राम दयाल सिंह	क्लर्क अकाउंट
37	295668एफ	मा वा अ	जनक राज	क्लर्क अकाउंट
38	294459के	मा वा अ	दाडि हनुमन्ता राव	क्लर्क अकाउंट
39	294179ए	मा वा अ	परशु राम तिवारी	क्लर्क अकाउंट
40	297374एस	मा वा अ	अशोक कुमार	क्लर्क जी डी
41	297542जी	मा वा अ	नारा रमन गोपाल राव	क्लर्क जी डी
42	297541के	मा वा अ	बिमल कुमार डे	क्लर्क जी डी
43	298008एन	मा वा अ	बचन उपाध्याय	क्लर्क जी डी
44	295531एन	मा वा अ	पद्म बहादुर सुब्बा	क्लर्क जी डी
45	296754एच	मा वा अ	विनोद कुमार	क्लर्क जी डी
46	298471एल	मा वा अ	जगदम्बा मिश्र	क्लर्क जी डी
47	295252ए	मा वा अ	देव बहादुर सिंह	क्लर्क जी डी
48	297159एफ	मा वा अ	महेन्द्र नाथ भट्टाचार्य	क्लर्क जी डी
49	297190आर	मा वा अ	हीरा लाल परमार	क्लर्क जी डी
50	297109एल	मा वा अ	प्रेम प्रकाश	क्लर्क जी डी
51	297207एल	मा वा अ	जोर्ज पी एस	क्लर्क जी डी
52	297789एफ	मा वा अ	प्रीतम सिंह	क्लर्क जी डी
53	298508आर	मा वा अ	लक्ष्मण सिंह रावत	क्लर्क जी डी
54	294350के	वा अ	मणि राम शर्मा	क्लर्क जी डी
55	297305एल	वा अ	रामचन्द्रन पिल्लै के	क्लर्क जी डी
56	296361बी	मा वा अ	यमुना प्रसाद कुशवाहा	क्लर्क जी डी
57	298415के	मा वा अ	पेरुमाल्ला पाल्ली जोना	क्लर्क जी डी
58	298207बी	मा वा अ	गोपाल सिंह तंवर	क्लर्क जी डी
59	297378बी	मा वा अ	सदरुल हसन	क्लर्क जी डी
60	298302एन	वा अ	बानसोडे झानोबा नामदेव	क्लर्क जी डी
61	298664एल	मा वा अ	प्रेम चन्द मसूता	क्लर्क जी डी
62	297312एस	मा वा अ	प्रभु नाथ सिंह	क्लर्क जी डी
63	297671जी	मा वा अ	दुली चन्द	क्लर्क जी डी
64	298007एस	मा वा अ	अशुतोष चट्टोपाध्याय	क्लर्क जी डी
65	606787एच	मा वा अ	ननी गोपाल सिंह चौधरी	इलेक्ट्रिफायर

66	281991टी	मा वा अ	राम कंवार	इलेक्ट फिटर
67	601058एस	मा वा अ	राम मूर्ति	इलेक्ट फिटर
68	607784के	मा वा अ	कलन्तिल पुष्पकन	इलेक्ट फिटर
69	281825के	मा वा अ	कुन्दन सिंह राठौर	इलेक्ट फिटर
70	291544एन	मा वा अ	लडु केश्वर शाहू	इलेक्ट फिटर
71	605106एच	मा वा अ	बलदेव दत्त	इलेक्ट फिटर
72	606562एल	मा वा अ	नेडुमपतालिल फिलिप थोमस	इलेक्ट फिटर
73	606450एल	मा वा अ	राम नक्षत्र विश्वकर्मा	इलेक्ट फिटर
74	296506बी	मा वा अ	टी सुब्बैया	इलेक्ट फिटर
75	605212के	मा वा अ	इस्मायेल मोहम्मद मालियेक्कल	इलेक्ट फिटर
76	606368एफ	मा वा अ	मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह	इलेक्ट फिटर
77	605447ए	मा वा अ	हरि प्रकाश	इलेक्ट फिटर
78	605125ए	मा वा अ	उमेश सिंह खत्री	इलेक्ट फिटर
79	605994एच	मा वा अ	जय हिन्द तिवारी	इलेक्ट फिटर
80	606451 एच	मा वा अ	कैलाश बाबू	इलेक्ट फिटर
81	605311जी	मा वा अ	जेम्स आकाप्परम्विल मेल्थू	इलेक्ट फिटर
82	606452एफ	मा वा अ	वीरेंद्र सिंह यादव	इलेक्ट फिटर
83	281052बी	मा वा अ	रविन्द्र प्रसाद सिंह	इलेक्ट फिटर
84	605027ए	मा वा अ	बलकार सिंह जौड़ा पन्नु	इलेक्ट फिटर
85	607682एफ	वा अ	मदन लाल मुकर	इलेक्ट फिटर
86	607660बी	मा वा अ	रनवीर सिंह	इलेक्ट फिटर
87	605182टी	मा वा अ	राजेन्द्र कुमार बामा	इलेक्ट फिटर
88	291402के	मा वा अ	तेज कान्त मिश्र	इंजन फिटर
89	290162एच	मा वा अ	गणजीन सिंह	उपस्कर सहायक
90	295796एच	मा वा अ	रमेश चन्दर	उपस्कर सहायक
91	294802एन	मा वा अ	शर्मा प्रीतम राम	उपस्कर सहायक
92	295611एम	मा वा अ	माम चन्द शर्मा	उपस्कर सहायक
93	295066आर	मा वा अ	धनन्तर सिंह	उपस्कर सहायक
94	279789एच	मा वा अ	अवधेश कुमार सिंह	उपस्कर सहायक
95	294975एम	मा वा अ	श्री निखिल चन्द चक्रवर्ती	उपस्कर सहायक
96	296998एम	मा वा अ	दर्शन सिंह मन्धु	उपस्कर सहायक
97	298481जी	मा वा अ	वेटिकल बेहनान थोमस	उपस्कर सहायक
98	297212एफ	मा वा अ	भारीगथ मिन्हा	उपस्कर सहायक
99	297909एन	मा वा अ	हरवीर सिंह आनंद	उपस्कर सहायक
100	297574बी	मा वा अ	तलाकुलानु शिवरामाकुरुप कृष्णाकुरुप	उपस्कर सहायक
101	297774एच	मा वा अ	बलिन चन्द कुंवर	उपस्कर सहायक
102	296368एम	मा वा अ	शिव प्रसाद	उपस्कर सहायक
103	295936जी	मा वा अ	पेम चन्द	उपस्कर सहायक

104	298377एस	मा वा अ	मोहिन्दर सिंह	उपस्कर सहायक
105	298892एच	वा अ	शिव राम पंडियार	उपस्कर सहायक
106	297755आर	मा वा अ	राजदेव प्रसाद यादव	उपस्कर सहायक
107	299038एच	मा वा अ	महाराज राम	उपस्कर सहायक
108	295743जी	मा वा अ	विद्या सागर	उपस्कर सहायक
109	295546के	मा वा अ	नाथा राम परमार	उपस्कर सहायक
110	297859एन	मा वा अ	राम पाल सिंह	उपस्कर सहायक
111	295142एन	मा वा अ	बब्बन पाण्डेय	उपस्कर सहायक
112	298576जी	मा वा अ	सत्यवीर सिंह फोगाट	उपस्कर सहायक
113	298753एन	मा वा अ	राजेन्द्र प्रताप	उपस्कर सहायक
114	295867एन	मा वा अ	कृष्ण कुमार गौतम	उपस्कर सहायक
115	295533जी	मा वा अ	आनन्दी राम	जी टी आई
116	285805एफ	मा वा अ	चमन सिंह	आई ए एफ पी
117	286270टी	मा वा अ	बलदेव सिंह	आई ए एफ पी
118	286158एच	मा वा अ	जरनैल सिंह	आई ए एफ पी
119	285486जी	मा वा अ	हरि नारायण ठाकुर	आई ए एफ पी
120	285490बी	मा वा अ	जयनारायण तिवारी	आई ए एफ पी
121	286714ए	मा वा अ	पृथ्वी राज	आई ए एफ पी
122	285909बी	मा वा अ	सुखदेव सिंह	आई ए एफ पी
123	286972ए	मा वा अ	नागेन्द्र नाथ ओझा	आई ए एफ पी
124	286044आर	मा वा अ	ऋषि प्रकाश	आई ए एफ पी
125	286324एफ	मा वा अ	प्रभात सिंह जसवाल	आई ए एफ पी
126	286847जी	मा वा अ	मु पुरुषोत्तमन	आई ए एफ पी
127	606501एच	मा वा अ	पी एस शिवशंकर राज	इंस्ट फिटर
128	606704बी	मा वा अ	मदन प्रसाद सिंह	इंस्ट फिटर
129	605693एन	मा वा अ	रामेश्वर सिंह	इंस्ट फिटर
130	606408के	मा वा अ	चैतर राम भारद्वाज	इंस्ट फिटर
131	281382एफ	मा वा अ	नरेन्द्र देव सिंह	इंस्ट फिटर
132	606453ए	मा वा अ	जिवेश रंजन देव	इंस्ट फिटर
133	605063एन	मा वा अ	वीरेन्द्र कुमार शुक्ल	इंस्ट फिटर
134	605250आर	मा वा अ	शक्ति चन्द	इंस्ट फिटर
135	605923के	मा वा अ	जगदीश चन्द्र शर्मा	चिकित्सा सहायक
136	242314के	मा वा अ	हीराराम शर्मा	चिकित्सा सहायक
137	242391एस	मा वा अ	बृज मोहन लाल	चिकित्सा सहायक
138	605468जी	मा वा अ	बिद्युत कुमार नाग	चिकित्सा सहायक
139	242382टी	मा वा अ	गुरचरण सिंह	चिकित्सा सहायक
140	242513टी	मा वा अ	शाम सुन्दर	चिकित्सा सहायक
141	605936एन	मा वा अ	सरवन कुमार सैगहल	चिकित्सा सहायक
142	242464आर	मा वा अ	सुरेन्द्र सिंह चावला	चिकित्सा सहायक

143	299462एफ	वा अ	अरविन्दाशन विजयप्रकाशन	मैट सहायक
144	601016जी	मा वा अ	प्रभाकरन नायर के	मैट सहायक
145	286096ए	मा वा अ	सूर्य केतु सिंह	एम टी फिटर
146	286994बी	मा वा अ	एस सुब्रामिनियन	एम टी फिटर
147	287172के	मा वा अ	ब्रम्हदेव सिंह चौहान	एम टी फिटर
148	286672बी	मा वा अ	राम कंवर	एम टी फिटर
149	286349आर	मा वा अ	तरलोक सिंह	एम टी फिटर
150	286654जी	मा वा अ	जी चिन्नयन	एम टी फिटर
151	286221बी	मा वा अ	मदनलाल शर्मा	एम टी फिटर
152	286311ए	मा वा अ	रामचन्द्रन नायर एम के	एम टी फिटर
153	286803बी	वा अ	परम हंस पाण्डेय	एम टी फिटर
154	286756एल	मा वा अ	बलराम मालवीय	एम टी फिटर
155	286576आर	मा वा अ	टामस अन्टोनी	एम टी डी
156	285849एच	मा वा अ	शेर सिंह भाटि	एम टी डी
157	286891ए	मा वा अ	टी मुथूकन्नन	एम टी डी
158	285706एच	मा वा अ	रवि कुञ्जुकृष्णन	एम टी डी
159	286209एफ	वा अ	श्रीनीवासन दामोदरन	एम टी डी
160	286477टी	मा वा अ	विजय कुमार पाण्डेय	एम टी डी
161	286666एन	मा वा अ	त्रिवेणी प्रसाद सिंह	एम टी डी
162	286233के	मा वा अ	हरिदासन क्लीमी चेरी	एम टी डी
163	286923एफ	मा वा अ	वि सुब्रामिनियन मुथ्यु स्वामी	एम टी डी
164	286639टी	मा वा अ	हरबन्स सिंह	एम टी डी
165	285582एन	मा वा अ	जोरावर सिंह मिन्हास	एम टी डी
166	616538आर	वा अ	राम प्रताप उत्तम	संगीतकार
167	291450के	मा वा अ	भच्चू एस एस	फोटो फिटर
168	292001एन	वा अ	धीरेन चन्द्र कलिता	फोटो फिटर
169	286690टी	मा वा अ	गुरबख्श सिंह	पी जे आई
170	286137बी	मा वा अ	दलजीत सिंह दहिया	पी जे आई
171	285568बी	मा वा अ	गणपत राम	पी एम एफ एम
172	617221टी	मा वा अ	जगदीश चन्द्र जायसवाल	रडार फिटर
173	616992आर	मा वा अ	विजय नाथ यादव	रडार फिटर
174	290223टी	मा वा अ	रवीन्द्र नाथ अग्निहोत्री	रेडियो फिटर
175	600384बी	मा वा अ	नरेन्द्र लाल शर्मा	रेडियो फिटर
176	601031एन	मा वा अ	भागवत प्रसाद यादव	रेडियो फिटर
177	600331ए	मा वा अ	स्नेह लाल	रेडियो फिटर
178	290857एफ	मा वा अ	रशपाल सिंह	रेडियो फिटर
179	600605ए	मा वा अ	रमा शंकर शर्मा	रेडियो फिटर
180	600750एफ	मा वा अ	राम देव चौधरी	रेडियो फिटर

181	600968आर	मा वा अ	मनोहरन चेलोली	रेडियो फिटर
182	290542के	मा वा अ	शीतला प्रसाद	रेडियो फिटर
183	600432के	मा वा अ	उमा शंकर सिंह	रेडियो फिटर
184	601711एन	मा वा अ	पिल्लै चन्द्रन मारथान्डन	रेडियो फिटर
185	600729एच	मा वा अ	कामेश्वर नाथ पान्डेय	रेडियो फिटर
186	290996टी	मा वा अ	बलदेव कृष्ण	रेडियो फिटर
187	601430एच	मा वा अ	एस इलांगोवन	रेडियो फिटर
188	602245के	मा वा अ	चन्द्र कुमार दास	रेडियो फिटर
189	602497ए	मा वा अ	पबित्र कुमार शर्मा	रेडियो टेक
190	602569बी	मा वा अ	रमा पदा सरकार	रेडियो टेक
191	601056एफ	मा वा अ	जय दयाल लाम्बा	रेडियो टेक
192	601171एफ	मा वा अ	प्रमोद कुमार मिश्र	रेडियो टेक
193	602035के	मा वा अ	बलबीर सिंह	रेडियो टेक
194	601840एन	मा वा अ	चन्द्र पाल सिंह	रेडियो टेक
195	600129एल	मा वा अ	शिव चरण दास	रेडियो टेक
196	291615टी	मा वा अ	अमर जीत सिंह	एस ई डक्यू
197	292196टी	वा अ	ताटिपामुल यादव्या	एस ई डक्यू
198	291936बी	वा अ	चंद्रिका प्रसाद सिंह	एस ई डक्यू
199	291670एफ	मा वा अ	अर्जुन साहू	एस ई डक्यू
200	601086एच	मा वा अ	ओतार सिंह	टेलिस्ट आर टी ओ
201	600550टी	मा वा अ	ओम प्रकाश दहिया	टेलिस्ट आर टी ओ
202	601776बी	मा वा अ	देश राज शर्मा	टेलिस्ट आर टी ओ
203	601723ए	मा व अ	महाबीर सिंह	टेलिस्ट आर टी ओ
204	602145एस	मा वा अ	आर अय्यप्पन	टेलिस्ट आर टी ओ
205	601461एच	मा वा अ	देवी लाल श्रीमाली	टेलिस्ट आर टी ओ
206	600928एस	मा वा अ	मोहम्मद सलीम	टेलिस्ट आर टी ओ
207	602423एन	मा वा अ	मनोरंजन रॉय	टेलिस्ट आर टी ओ
208	601630एन	मा वा अ	जनार्दनन	टेलिस्ट आर टी ओ
209	600563बी	मा वा अ	विरेंद्र सिंह	टेलिस्ट आर टी ओ
210	600221एन	वा अ	गोरख नाथ पाण्डेय	टेलिस्ट आर टी ओ
211	602126एफ	मा वा अ	विश्व नाथ शर्मा	टेलिस्ट आर टी ओ
212	601759बी	मा वा अ	तेलगतोटी इसराएल	टेलिस्ट आर टी ओ
213	601798एफ	मा वा अ	प्रीतम सिंह	टेलिस्ट आर टी ओ
214	601805एस	मा वा अ	भरत लाल	टेलिस्ट आर टी ओ
215	291749ए	मा वा अ	लाभू सिंह राठीड़	विपन फिटर
216	283456ए	मा वा अ	अमिय भूषण पाल	विपन फिटर
217	283446जी	मा वा अ	बालन पिल्लै कुन्जन पिल्लै	वैपन फिटर
218	291737एन	मा वा अ	सुशील कुमार गुप्ता	वैपन फिटर

219	291627जी	मा वा अ	रमेश चन्द्र शर्मा	वैपन फिटर
220	291631बी	मा वा अ	गुडीमेली सितारामा चार्युलू	वैपन फिटर
221	291699ए	मा वा अ	टी जे पीटर	डक्यू एस फिटर(वी)
222	291997जी	वा अ	के कली कन्नन	डक्यू एस फिटर(वी)

महायोग 222 (दो सौ बाईस) नाम केवल

[सं. वा से मु/सी 40254/137/पीए (सीपीसी)]

वाई आर राणे, एयर मार्शल, कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2006

No. 6(E).— The undermentioned MWOs and WOs are granted Honorary Commission in the rank of Flying Officer with effect from 26 January 2006 on occasion of Republic Day under para 344 of Regulations for the Air Force :-

1.	297352R	MWO	Hare Ram Ram	Ach GD
2.	600122S	MWO	Dadan Singh	Ach GD
3.	297394G	MWO	Jagan Nath	Ach GD
4.	295468T	MWO	Mano Ranjan Banik	Ach GD
5.	296272A	MWO	Shiv Narayan	Ach GD
6.	297024G	MWO	Harbans Singh	Ach GD
7.	297462B	MWO	Narinder Mohan Joshi	Ach GD
8.	285723H	MWO	Rajendra Nath Sarma	Ach GD
9.	298065L	MWO	Ram Narayan Mistry	Ach GD
10.	297902T	MWO	Dhani Ram	Ach GD
11.	285834L	MWO	K Rajaram Raju	Ach GD
12.	297858S	MWO	Govind Singh Kshatriy	Ach GD
13.	295925R	WO	Labhoo Singh	Ach GD
14.	296376T	MWO	Satya Pal	AF Fit
15.	291317N	MWO	Shatrughan Prasad Shukla	AF Fit
16.	291454R	MWO	Kapil Deo Prasad Singh	AF Fit

17.	291479G	MWO	Gopalakrishnan Nair Vadakkumkara Govinda Pillai	AF Fit
18.	299110A	MWO	A Sriramulu	Cat Asst
19.	299583B	MWO	Laxmi Narain	Cat Asst
20.	298920G	MWO	Daraloo Dayanand	Cat Asst
21.	297745A	MWO	Ashok Kumar	Clk Accts
22.	298161T	MWO	Sri Gopal Das	Clk Accts
23.	297028L	MWO	Badri Nath	Clk Accts
24.	294635A	MWO	Buddha Dev Sahoo	Clk Accts
25.	298436R	MWO	Kishore Chandra Mishra	Clk Accts
26.	294173B	MWO	Pandey Alagoo Prasad	Clk Accts
27.	295561S	MWO	Malay Sankar Bhattacharya	Clk Accts
28.	296411B	MWO	Nimai Dutta Chowdhury	Clk Accts
29.	297613L	MWO	Thomas CA	Clk Accts
30.	297681A	MWO	Dukhisyam Ghorai	Clk Accts
31.	298369R	MWO	Sukhram	Clk Accts
32.	297945G	MWO	Shurbir Singh	Clk Accts
33.	298249N	MWO	Balam Ram Thakur	Clk Accts
34.	294339H	MWO	Ram Bahadur	Clk Accts
35.	296591L	WO	Mohinder Singh	Clk Accts
36.	294952T	WO	Ram Dayal Singh	Clk Accts
37.	295668F	MWO	Janak Raj	Clk Accts
38.	294459K	MWO	Dadi Hanumanta Rao	Clk Accts
39.	294179A	MWO	Parashu Ram Tiwari	Clk Accts

40.	297374S	MWO	Ashok Kumar	Clk GD
41.	297542	MWO	Nara Raman Gopal Rao	Clk GD
42.	297541K	MWO	Bimal Kumar De	Clk GD
43.	298008N	MWO	Bachan Upadhyay	Clk GD
44.	295531N	MWO	Padam Bahadur Subba	Clk GD
45.	296754H	MWO	Vinod Kumar	Clk GD
46.	298471L	MWO	Jagadamba Mishra	Clk GD
47.	295252A	MWO	Deo Bahadur Singh	Clk GD
48.	297159F	MWO	Mahendra Nath Bhattacharya	Clk GD
49.	297190R	MWO	Heera Lal Parmar	Clk GD
50.	297109L	MWO	Prem Parkash	Clk GD
51.	297207L	MWO	George PS	Clk GD
52.	297789F	MWO	Pritam Singh	Clk GD
53.	298503R	MWO	Laxman Singh Rawat	Clk GD
54.	294350K	WO	Mani Ram Sharma	Clk GD
55.	297305L	WO	Ramachandran Pillai K	Clk GD
56.	296361B	MWO	Yamuna Prasad Kushwaha	Clk GD
57.	298415K	MWO	Perumalla Palli Jona	Clk GD
58.	298207B	MWO	Gopal Singh Tanwar	Clk GD
59.	297378B	MWO	Sadrul Hasan	Clk GD
60.	298302N	WO	Bansode Dnyanoba Namdeo	Clk GD
61.	298664L	MWO	Prem Chand Masuta	Clk GD
62.	297312S	MWO	Prabhu Nath Singh	Clk GD

63.	297671G	MWO	Duli Chand	Clk GD
64.	298007-S	MWO	Ashutosh Chattopadhyay	Clk GD
65.	606787H	MWO	Nani Gopal Singha Chowdhury	Elect Fit
66.	281991T	MWO	Ram Kanwar	Elect Fit
67.	601058S	MWO	Ram Murti	Elect Fit
68.	607784K	MWO	Kalathil Pushpakan	Elect Fit
69.	281825K	MWO	Kundan Singh Rathore	Elect Fit
70.	291544N	MWO	Ladu Keswar Sahoo	Elect Fit
71.	605106H	MWO	Baldev Dutta	Elect Fit
72.	606562L	MWO	Nedumpathalile Philip Thomas	Elect Fit
73.	606450L	MWO	Ram Nachatra Vishwakarma	Elect Fit
74.	296506B	MWO	T Subbiah	Elect Fit
75.	605212K	MWO	Ismayel Mohammed Maliyakkal	Elect Fit
76.	606368F	MWO	Mithileshwar Prasad Singh	Elect Fit
77.	605447A	MWO	Hari Parkash	Elect Fit
78.	605125A	MWO	Umed Singh Khatri	Elect Fit
79.	605994H	MWO	Jai Hind Tiwari	Elect Fit
80.	606451H	MWO	Kailash Babu	Elect Fit
81.	605311G	MWO	James Ackamparambil Mathew	Elect Fit
82.	606452F	MWO	Virendra Singh Yadav	Elect Fit
83.	281052B	MWO	Rabindra Prasad Singh	Elect Fit
84.	605027A	MWO	Balkar Singh Jaura Pannu	Elect Fit
85.	607682F	WO	Madan Lal Mukar	Elect Fit

86.	607660B	MWO	Ranvir Singh	Elect Fit
87.	605182T	MWO	Rajendr Kumar Basa	Elect Fit
88.	291402K	MWO	Tej Kant Mishra	Eng Fit
89.	290162H	MWO	Ranjit Singh	Eqpt Asst
90.	295796H	MWO	Ramesh Chander	Eqpt Asst
91.	294802N	MWO	Shrawa Pritam Ram	Eqpt Asst
92.	295611S	MWO	Mam Chand Sharma	Eqpt Asst
93.	295066R	MWO	Dhanattar Singh	Eqpt Asst
94.	279789H	MWO	Awadhesh Kumar Singh	Eqpt Asst
95.	294975S	MWO	Sri Nikhil Chandra Chakraborty	Eqpt Asst
96.	296998S	MWO	Darshan Singh Sandhu	Eqpt Asst
97.	298481G	WO	Vertickal Behanan Thomas	Eqpt Asst
98.	297212F	MWO	Bhagirath Sinha	Eqpt Asst
99.	297909N	MWO	Harbir Singh Anand	Eqpt Asst
100.	297574B	MWO	Thalakulathu Sivaramakurup Krishnakurup	Eqpt Asst
101.	297774H	MWO	BalinChandra Konwar	Eqpt Asst
102.	296368S	MWO	Shiv Prasad	Eqpt Asst
103.	295936G	MWO	Prem Chand	Eqpt Asst
104.	298377S	MWO	Mohinder Singh	Eqpt Asst
105.	298892H	WO	Shiv Ram Pandiar	Eqpt Asst
106.	297755R	MWO	Rajdev Prasad Yadev	Eqpt Asst
107.	299038H	MWO	Maharaj Ram	Eqpt Asst
108.	295743G	MWO	Vidya Sagar	Eqpt Asst

109.	295546K	MWO	Natha Ram Parmar	Eqpt Asst
110.	297859N	MWO	Ram Pal Singh	Eqpt Asst
111.	295142N	MWO	Babban Pandey	Eqpt Asst
112.	298576G	MWO	Satyavir Singh Phogat	Eqpt Asst
113.	298753N	MWO	Rajendra Pratap	Eqpt Asst
114.	295867N	WO	Krishna Kumar Gautam	Eqpt Asst
115.	295533G	MWO	Anandi Ram	GTI
116.	285805F	MWO	Chaman Singh	IAF(P)
117.	286270T	MWO	Baldev Singh	IAF (P)
118.	286158H	MWO	Jarnail Singh	IAF(P)
119.	285486G	MWO	Hari Narayan Thakur	IAF (P)
120.	285490B	MWO	Jai Narayan Tiwari	IAF (P)
121.	286714A	MWO	Prithvi Raj	IAF (P)
122.	285909B	MWO	Sukhdev Singh	IAF (P)
123.	286972A	MWO	Nagendra Nath Ojha	IAF (P)
124.	286044R	MWO	Rishi Parkash	IAF (P)
125.	286324F	MWO	Parbhat Singh Jaswal	IAF (P)
126.	286847G	MWO	M Purushothaman	IAF (P)
127.	606501H	MWO	PS Sivasankara Raj	Inst Fit
128.	606704B	MWO	Madan Prasad Singh	Inst Fit
129.	605693N	MWO	Rameshwar Singh	Inst Fit
130.	606408K	MWO	Chaiter Ram Bhardwaj	Inst Fit
131.	281382F	MWO	Narendra Dev Singh	Inst Fit

132.	606453A	MWO	Jibesh Ranjan Deb	Inst Fit
133.	605063N	MWO	Virendra Kumar Shukla	Inst Fit
134.	605250R	MWO	Shakti Chand	Inst Fit
135.	605923K	MWO	Jagdish Chander Sharma	Med Asst
136.	242314K	MWO	Hira Ram Sharma	Med Asst
137.	242391S	MWO	Brij Mohan Lal	Med Asst
138.	605468G	MWO	Bidyudt Kumar Nag	Med Asst
139.	242382T	MWO	Gurcharan Singh	Med Asst
140.	242513T	MWO	Sham Sunder	Med Asst
141.	605936N	MWO	Sarwan Kumar Sehgal	Med Asst
142.	242464R	MWO	Surinder Singh Chawla	Med Asst
143.	299462F	WO	Aravindhasan Vijayaprakasan	Met Asst
144.	601016G	MWO	Prabhakaran Nair K	Met Asst
145.	286096A	MWO	Surya Kethu Singh	MT Fit
146.	286994B	MWO	S Subramanian	MT Fit
147.	287172K	MWO	Brahma Deo Singh Chauhan	MT Fit
148.	286672B	MWO	Ram Kanwar	MT Fit
149.	286349R	MWO	Tarlok Singh	MT Fit
150.	286654G	MWO	G Chinnaian	MT Fit
151.	286221B	MWO	Madanlal Sharma	MT Fit
152.	286311A	MWO	Ramachandran Nair MK	MT Fit
153.	286803B	WO	Param Hans Pandey	MT Fit
154.	286756L	MWO	Balram Malviya	MT Fit

155. 286576R	MWO	T Anthony	MTD
156. 285849H	MWO	Sher Singh Bhati	MTD
157. 286891A	MWO	T Muthukannan	MTD
158. 285706H	MWO	Revi Kunjukrishnan	MTD
159. 286209F	WO	Sreenivasan Damodharan	MTD
160. 286477T	MWO	Vijay Kumar Pandey	MTD
161. 286666N	MWO	Tribeni Prasad Singh	MTD
162. 286233K	MWO	Haridasan Climi Cherry	MTD
163. 286923F	MWO	V Subbraminian Muthu Swamy S	MTD
164. 286639T	MWO	Harbans Singh	MTD
165. 285582N	MWO	Zorawar Singh Minhas	MTD
166. 616538R	WO	Ram Pratap Uttam	Musn
167. 291450K	MWO	Bhachoo SS	Photo Fit
168. 292001N	WO	Dhiren Chandra Kalita	Photo Fit
169. 286690T	MWO	Gurbkhsh Singh	PJI
170. 286137B	MWO	Daljit Singh Dahiya	PJI
171. 285568B	MWO	Ganpat Ram	PMF(M)
172. 617221T	MWO	Jagdish Chandra Jaiswal	Rad Fit
173. 616992R	MWO	Vijai Nath Yadav	Rad Fit
174. 290223T	MWO	Rabinder Nath Agnihotri	Rdo Fit
175. 600384B	MWO	Narendra Lal Sharma	Rdo Fit
176. 601031N	MWO	Bhagwat Prasad Yadav	Rdo Fit
177. 600331A	MWO	Sanesh Lal	Rdo Fit

178.	290857F	MWO	Rashpal Singh	Rdo Fit
179.	600605A	MWO	Rama Shanker Sharma	Rdo Fit
180.	600750F	MWO	Ram Deo Choudhary	Rdo Fit
181.	600968R	MWO	Manoharan Cheloly	Rdo Fit
182.	290542K	MWO	Shitla Prasad	Rdo Fit
183.	600432K	MWO	Uma Shanker Singh	Rdo Fit
184.	601711N	MWO	Pillai Chandran Marthandan	Rdo Fit
185.	600729H	MWO	Kameshwar Nath Pandey	Rdo Fit
186.	290996T	MWO	Baldev Krishan	Rdo Fit
187.	601430H	MWO	S Elangovan	Rdo Fit
188.	602245K	MWO	Chandra Kumar Das	Rdo Fit
189.	602497A	MWO	Pabitra Kumar Sarmah	Rdo Tech
190.	602569B	MWO	Rama Pada Sarkar	Red Tech
191.	601056F	MWO	Jai Dayal Lamba	Rdo Tech
192.	601171F	MWO	Pramoda Kumar Mishra	Rdo Tech
193.	602035K	MWO	Balbir Singh	Rdo Tech
194.	601840N	MWO	Chandra Pal Singh	Rdo Tech
195.	600129L	MWO	Shiv Charan Dass	Rdo Tech
196.	291615T	MWO	Amar Jit Singh	SEW
197.	292196T	WO	Thatipamula Yadaiah	SEW
198.	291936B	WO	Chandrika Prasad Singh	SEW
199.	291670F	MWO	Arjuna Sahu	SEW
200.	601086H	MWO	Autar Singh	Telst RTO

201.	600550T	MWO	Om Parkash Dahiya	Telst RTO
202.	601776B	MWO	Desh Raj Sharma	Telst RTO
203.	601723A	MWO	Mahabir Singh	Telst RTO
204.	602145S	MWO	R Ayyappan	Telst RTO
205.	601461H	MWO	Devi Lal Shrimali	Telst RTO
206.	600928S	MWO	Mahammad Salim	Telst RTO
207.	602423N	MWO	Manoranjan Roy	Telst RTO
208.	601630N	MWO	Janardanan	Telst RTO
209.	600563B	MWO	Virendra Singh	Telst RTO
210.	600221N	WO	Gorakh Nath Pandey	Telst RTO
211.	602126F	MWO	Bishwa Nath Sharma	Telst RTO
212.	601759B	MWO	Telagathoti Israel	Telst RTO
213.	601798F	MWO	Pritam Singh	Telst RTO
214.	601805S	MWO	Bharat Lall	Telst RTO
215.	291749A	MWO	Labhoo Singh Rathore	Wpn Fit
216.	283456A	MWO	Amiya Bhusan Paul	Wpn Fit
217.	283446G	MWO	Balan Pillai Kunjan Pillai	Wpn Fit
218.	291737N	MWO	Sushil Kumar Gupta	Wpn Fit
219.	291627G	MWO	Ramesh Chander Sharma	Wpn Fit
220.	291631B	MWO	Gudimella Sitaram Acharyulu	Wpn Fit
221.	291699A	MWO	TJ Peter	WS Fit(B)
222.	291997G	WO	K Kali Kannan	WS Fit(B)

Grand total : 222 (two hundred twenty two) only.

[No. Air HQ/C 40254/137/PA (CPC)]
Y R RANE, Air Mshl, Air Officer Incharge Personnel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2006

सं. 7(अ).—गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वायुसेना विनियमावली के पैरा 345 के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति सूचे में निम्नलिखित सेवा निवृत्त मास्टर वारंट अफसरों को 26 जनवरी 2006 से फ्लाईंग अफसर ऑनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है :-

1	279926एस	भू पू मा वा अ	ओम प्रकाश	क्लर्क जी डी
2	600316एन	भू पू मा वा अ	नीलमाधव बासु	रेडियो फिटर
3	285570जी	भू पू मा वा अ	रणधीर सिंह	एम टी डी
4	295229एल	भू पू मा वा अ	भोगेन्द्र झा	क्लर्क अकाउंट

कुल : 4 (चार) नाम केवल

[सं. वा से मु/सी 40254/137/पीए (सापीसी)]

वाई आर राणे, एयर मार्शल, कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2006

No. 7(E).—The undermentioned retired MWOs are granted the Honorary rank of Flying Officer with effect from 26 January 2006 on occasion of Republic Day under para 345 of Regulations for the Air Force :-

1.	279926S	Ex-MWO	Om Parkash	Clk GD
2.	600316N	Ex-MWO	Nil Madhab Basu	Rdo Fit
3.	285570G	Ex-MWO	Randhir Singh	MTD
4.	295229L	Ex-MWO	Bhogendra Jha	Clk Accts

Total : 04 (four) names only.

[No. Air HQ/C 40254/137/PA (CPC)]

Y R RANE, Air Mshl, Air Officer Incharge Personnel